

विदित हो कि सर्वावासी तत्त्वज्ञाता शतावधानी कविवर श्रीरायचन्द्रजीने तत्त्वज्ञानपरिपूर्ण अतिशय उपयोगी और अलभ्य ऐसे श्रीउमास्वामि, श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, श्रीहरिभद्रसूरी आदि आचार्योंके रचे हुए महान् शास्त्रोंका सर्वसाधारणमें प्रचार करनेके लिये श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडलकी स्थापनाकी थी. जिसके द्वारा आज पर्यंत रायचन्द्रजैनशास्त्रमाला नामक छूटक अंक और पुस्तक प्रकट होकर तत्त्वज्ञानाभिलाषी भव्यजीवोंको आनंदित कर रहा है ।

इस शास्त्रमाला द्वारा मूल और हिन्दी भाषानुवाद सहित २१०० पृष्ठ ग्राहकोंके पास भेजे गये है । जिनमें अनुमान १०५० पृष्ठ श्वेताम्बर संप्रदायके और १०५० पृष्ठ ही दिगम्बर संप्रदायके शास्त्रालोकें है । यह योजना विश्व पाठकोंको दोनों संप्रदायोंके अभिप्राय विदित होनेके लिये ही की गई है । इस लिये आत्मकल्याणके इच्छक भव्यजीवोंसे प्रार्थना है कि इस पवित्र शास्त्रमालाके पुस्तकका ग्राहक बनकर अपनी चल लक्ष्मीको अचल करै और तत्त्वज्ञानपूर्ण जैनसिद्धान्तोंका पठनपाठनद्वारा प्रचार-कर हमारी इस परमार्थयोजनाके परिश्रमको सफल करै । प्रत्येक सरस्वतीभण्डार, सभा और पाठशालामें इसका संग्रह अवश्यमेव करना चाहिये ।

रायचन्द्रजैनशास्त्रमालाद्वारा प्रकाशित पुस्तकें.

- १ सप्तभंगितरंगिणी भा. टी. यह न्यायका अपूर्व ग्रंथ है । इसमें ग्रन्थकर्ता श्रीविमलदासजीने स्यादस्ति, स्यात्रास्ति, आदि भंगोका वर्णन बहुत ही अच्छा किया है । निछरावल रु० १।
- २ पुरुषार्थसिद्धयुपाय भा टी. यह श्रीअमृतचन्द्रस्वामी विरचित प्रसिद्ध शास्त्र है । इसमें आचार संवन्धी वडे २ गूढ रहस्य है । निछरावल रु० १। (हाल खलास है)
- ३ पञ्चास्तिकाय भा. टी. यह श्रीखंडूदस्वामी कृत मूल और श्रीअमृतचन्द्रसूरी कृत टीकासहित प्रसिद्ध शास्त्ररत्न है । इसमें जीव, अजीव, धर्म, अयर्म, और आकाश इन पाच द्रव्योंका उत्तम रीतिसे वर्णन है । निछरावल रु० १।

३ ज्ञानार्णव भा. टी इसमें श्रीशुभचन्द्र स्वामीने ध्यानका वर्णन बहुत ही उत्तमतासे किया है। इसका प्रत्येक लोक हितोपदेशी है। निछरावल ६० ४)

५ वृहद्रथसंग्रह भा. टी श्रीनिचिन्द्रस्वामीकृत मूल और श्रीब्रह्मदेवजी कृत संस्कृतटीका पर अच्छी वनाई हुई वचनिका सहित है। इसकी वचनिका अब तक नहीं थी अत अपूर्ण है। निछरावल ६० ३)

६ स्याद्वादमंजरी भा. टी. इसमें छहो मतोंका खंडन करके टीकाकर्ता विद्वद्रथ श्रीमल्लिषेणसूरीजीने स्याद्वादको पूर्ण रूपसे सिद्ध किया गया है। अच्छी वनाई हुई भाषाटीका सहित है। ५०० ग्राहक पहिले ही हो चुके हैं। ग्राहकोंमें पत्रद्वारा शीघ्रही नाम लिखा लीजिये। निछरावल ६० ४)

७ द्रव्यानुयोगतर्कणा-यह ग्रंथमें शास्त्रकार श्रीमद् भोजसागरजीने सुगमतासे मन्दबुद्धि जीवोंका द्रव्यज्ञान होनेके “अथ गुणपर्ययवद्भव्यम्” इस महाशास्त्र तत्त्वार्थसूत्रके अनुकूल द्रव्य, गुण और पदार्थोंका ही विशेष वर्णन किया है और प्रसंगवश ‘सादस्ति,’ स्थानास्ति आदि सप्तभंगोंका और दिगंबरार्च्यवर्ष्य श्रीदेवसेनस्वामी विरचित नयचक्रके आधारसे नय, उपनय, तथा मूलनयोंका भी विस्तारसे वर्णन किया है निछरावल ६० ३)

८ सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम्-जिसका अपर नाम तत्त्वार्थाधिगम मोक्षशास्त्र भी है जैनयोका यह परम मान्य और मुख्य ग्रन्थ है इसमें जैनधर्मके सम्पूर्ण सिद्धान्त आचार्यवर्य श्रीउमास्वातिजीने बड़े लाघवसे संग्रह किया है। ऐसा कोई भी जैनसिद्धान्त नहीं है जो इसके सूत्रोंमें संगठित न हो। सिद्धान्तसागरको एक अत्यन्त छोटेसे तत्त्वार्थरूपी घटमें भर देना यह कार्य इसके क्षमताशाली रचयिताका ही था। तत्त्वार्थके छोटे २ सूत्रोंके अर्थ गामीर्थको देखकर विद्वानोंको विस्मित होना पडता है, और उसके रचयिताकी सहस्रमुखसे प्रशंसा करनी पडती है। निछरावल ६० ३)

९ छटक अंकों श्रीज्ञानार्णव और श्रीद्रव्यानुयोगतर्कणाका छटक अंकोभी रक्खें हैं जिस महाशयकी पाम अपूर्ण ग्रंथ होने के मंगलवे दरेक छटक अंकका निछरावल ६० १)

श्रीमदूराजचंद्रजीके लिखे हुये (गुजराती भाषा हिन्दीटाइप) ग्रन्थ और वे महोदयका विचारोंका संग्रह इत्यादि

श्रीमद् राजचंद्र (खलास है)	७-०-०	०-४-०
मोक्षमाला	०-३-०

प्रत्येक ग्रन्थ वही. पी. पारसलसे भेजा जाता है कृपाकरके अपना पत्ता, गाव, जीला ठीक २ लीखनाजी.

रायचन्द्रजैनशास्त्रमालासम्बंधी सर्वप्रकारके पत्रव्यवहार करनेका पत्ता—

शा. रेवाशंकर जगजीवन जौहरी.

आनरेरी व्यवस्थापक—श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडल. जौहरी बाजार—बम्बई नं० २.

आवश्यक सूचना.

रायचन्द्रजैनशास्त्रमालाके अंशको देखकर बहुतसे मुनिमहाराजों, विद्वानों और श्रेष्ठपुंठोंने समय समयपर प्रशंसापत्र भेजे हैं। और सज्जनोंको ग्राहक बननेकी प्रेरणाएं की हैं। जिनको हम यहां स्थानभावसे मात्र एक प्रगट करते हैं.

पोरबंदरसे मुनिश्रीचारित्र विजयजी गुजरती भागमें लिखते हैं, जिसका नारांग यह है कि—“रायचन्द्रजैनशास्त्रमाला” के परम पूज्य ग्रन्थ हमको मिले पढनेसे परम प्रमदता हुई। यथार्थमें ऐसे ही ग्रन्थोंका मायान्तर (भाषा टीका) होना चाहिये। जैनतत्त्वज्ञान सम्बन्धी ऐसे ग्रन्थोंके सिवाय हालमें जो अन्यान्य ग्रन्थ छपते हैं, उनसे कुछ लाभ नहीं होगा, परन्तु आपका प्रयाग अवश्यही अभिनन्दनीय है। जैनसमूहमें ऐसे २ अथर्व ग्रन्थोंका जब ज्ञान होगा, तब ही हमलोग जेनी रहलाने के योग्य होंगे, और श्रद्धा निर्मल होगी, अतः यह प्रयत्न निरन्तर जारी रखनेके लिये हम प्रेरणा करते हैं और प्रत्येक जेनीको भी केहपूर्वक सूचना देते हैं कि, ऐसे ग्रन्थोंके ग्राहक होके अपनी लक्ष्मी नफल करो, और प्रत्येक भंडारोंमें ऐसे २ ग्रन्थोंका संग्रह करो.

मुनिमहाराजों और सज्जन विद्वज्जनोंसे प्रार्थना है कि जिन ग्रन्थोंका भाषानुवाद करके छपानेसे जैनसमाजको विशेषलाभ होनेकी समावना हो, उन ग्रन्थोंके नाम और पतेसे हमको सूचित करें तथा आजतक दम शान्तमात्राद्वारा जो ग्रन्थ प्रगट हुए हैं उनमें जो चुटियें हों उनसे भी सूचित करें जिससे कि उन चुटियोंको दूर करनेके लिये आगामी कालमें यथाशक्य प्रयत्न किया जावे। और अग्रिम वर्षमें जिन २ शास्त्रोंका प्रगट करना अत्यावश्यक है उनके विषयमें भी विचारपूर्वक संमति प्रदान करें।

साक्षात्कर्मकारी न्यायविषयका अन्युत्तम तथा कठिन ग्रंथ है; अतः इसको विचारपूर्वक छपाने आदि तिनने ही विशेष कारणोंसे अत्यंत विलम्ब होगया है; मो ग्राहकमहाशय ग्रंथकी उत्तमतापर ध्यान देकर विलम्बजनित अपराधको क्षमा करें ? २ वा अंक साक्षात्कर्मकारी शेषभाग (जो कि प्रायः प्रथम अंकसे दूना बडा हो गया है) एक ही चारों भेजकर रायचन्द्रजैनशास्त्रमालाका द्वितीयवर्षको पूर्ण किया है इसकारण ग्राहकगणों में जो विलम्ब हो गया है उसको भी निष्प्रयोजन न समझकर क्षमाप्रदान करें; यह प्रार्थना है।

रायचन्द्रजैनशास्त्रमालामन्वन्धी सर्वपकारके पत्रव्यवहार करनेका पता—

शा. रेवाशंकर जगजीवन जौहरी.

आनरेरी व्यवस्थापक—श्रीपरमश्रुतप्रभावकर्मंडल. गौहरी बाजार—यम्बई नं० २.

श्रीः

सूचना

श्रीहेमचंद्र सूरि इस कलिकालमें बड़े ही प्रभावशाली विद्वान् हुए यह बात प्राय सर्वसाधारण है। इस समय भी उनकी कीर्ति सारे भूमंडलपर फेली हुई है। उनका समय ईस्वी सन् १२०० के लगभगका निर्णीत हुआ है। उनके भक्तोंमेंसे कुमारपाल राजा एक प्रधान भक्त था। प्राय उसीके रक्षित भूमण्डलको वे सदा शोभित करते रहे।

श्रीहेमचन्द्र सूरिने कई लक्ष श्लोकप्रमाण ग्रन्थोंकी रचना की। उनमेंसे कुछ उपलब्ध प्रधान ग्रन्थोंके नाम निम्नलिखित है।—योगार्णव, कर्मग्रन्थ प्राकृत, अनेकार्थकोश, अनेकार्थशेष, अनेकार्थशेष, अलङ्कारचूडामणि, उणादिसूत्रवृत्ति, काव्यानुशासन, छन्दोनुशासन, छन्दोनुशासनवृत्ति, देशीनाममाला सवृत्ति, धातुपाठ सवृत्ति, धातुपारायण सवृत्ति, धातुमाला, नाममाला, नाममालाशेष, निघण्टुशेष, बलाबलसूत्रबृहद्वृत्ति, बालभाषाव्याकरणसूत्रवृत्ति, विभ्रमसूत्र, शब्दानुशासन सवृत्ति, शेषसंग्रह, शेषसंग्रहसरोद्धार इत्यादि मुख्य ग्रन्थ है।

जिसपर यह स्याद्वादमञ्जरीनामक वृत्ति बनाई गई है वह यह अन्ययोगव्यवच्छेदिका नामक बत्तीस श्लोकोंकी मूलस्तुति भी इन्ही श्रीहेमचंद्रकी बनाई हुई है। इसमें अंतिम तीर्थंकर श्रीमहावीर स्वामीकी स्तुतिके बहानेसे अन्य दर्शनोंका युक्तिपूर्वक निराकरण किया गया है। इस स्तुतिका प्रमाण बत्तीस श्लोकमात्र होनेपर भी यह अत्यंत मनोज्ञ तथा रोचक है।

इसकी टीकाका नाम स्याद्वादमञ्जरी है और इस टीकाके कर्ता श्रीमल्लिषेण सूरि है। श्रीमल्लिषेण सूरिने अपने समयका निर्णय ग्रन्थके अंतमें स्वयं ही लिखा है। उनका यथासंभव परिचयभी उसी अंतकी प्रशस्तिसे हो सकता है। स्याद्वादमञ्जरीमें अन्य दर्शनोंकर माने हुए एकान्तरूप विषयोंका उपपादनपूर्वक निराकरण तथा जैनमतके विषयोंका मंडन किया गया है। यह ग्रन्थ न्यायकी शैलीसे परिपूर्ण है। जैसा कुछ अनुमानादि प्रमाणोंद्वारा न्याय शैलीमें खंडन मंडन होता है उसीप्रकार इसमें भी युक्तियोंका विशेष आदर किया गया है। स्थान स्थानपर सांख्य आदि अन्य दर्शनोंका मंडन भी यथाशास्त्र खूब ही किया है

तथा पीछेसे निराकरण भी बहुत ही उत्तम रीतिसे किया है। इसमें किन किन विषयोंका प्ररूपण है यह बात आगे लिखी हुई विषयसूचीसे मालुम पड़ सकती है।

इस ग्रन्थका हिन्दीभाषामें अनुवाद तथा मंथोधन प्रारंभमे पृष्ठ १०८ तक तो जयपुरनिवासी पं० जवाहिरलालजी माहिल्य-शास्त्रीके द्वारा हुआ परंतु कई कारणवश जब पण्डितजी साहब यहां नहीं रह सके तब त्रात्रीका अनुवाद तथा मंथोधन मैने किया। यह अनुवाद जो मैने किया है सो मेरा पहिला ही कार्य है तथा हिन्दी भाषा मेरी मातृभाषा होनेपर भी साहित्य विषयमें जितना परिचय चाहिये उतना मुझे परिचय नहीं है इसलिये मूल होना बहुधा संभव है परंतु अथुरे कार्यको पूर्ण कर देना कर्तव्य समझकर मै इसमें प्रवृत्त हुआ इसलिये विद्वान् मनुष्य मेरी त्रुटियोंको अविवक्षित नयोंके समान उद्गामीनतासे देखते हुए इस ग्रन्थका लाभ उठानेमें सुल्यतासे ध्यान लगावें ऐसी मेरी प्रार्थना है।

इसके कर्ता यद्यपि श्रेताम्बर सम्प्रदायके आचार्य हैं परंतु इसमें ऐसा एक भी विषय नहीं है जो किसी एक ही जैन सम्प्रदायको मान्य हो। इसलिये आशा है कि इसका आदर दोनों सम्प्रदायोंमें प्रकसा ही होगा।

विद्वानोंका अनुरागी,

चंशीधर गुप्त.

विषयसूची

विषय.	पन्ना.	विषय.	पन्ना.
टीकाकारका मङ्गलाचरण	एक वस्तुमें भी कर्ता करण आदि होनेकी संभवता	४९
अवतरणिका	मोक्ष अवस्थामें ज्ञानादि विशेष गुणोंका नाश होना	५४
मूलग्रन्थका मङ्गलाचरण	माननेका खंडन....	५९
वैशेषिकमतके सामान्य विशेषोंका निराकरण	आत्माके सर्वव्यापी होनेका तथा सर्वथा नित्य होनेका खंडन	६९
सर्वथा नित्य या अनित्य मंतव्यका खण्डन तथा आकाशादि सभी पदार्थोंमें कथंचित् नित्यानित्यपना, एवं अंधकार पुद्गलद्रव्य है ऐसा मंडन....	गौतम (नैयायिक) के माने हुए छलजाति आदि पदार्थोंका खंडन	७७
ईश्वर जगत्का कर्ता है ऐसे मंतव्यका मण्डन	वैदिकी हिंसा हिंसा नहीं है ऐसा माननेवाले पूर्व मीमांसकोंका खंडन	९२
जगत्कर्तापनेका खण्डन	एक प्रकारके मीमांसक (भाट्ट) तथा योगमतवालोंका जो ज्ञानको परोक्ष मानना है उसका खंडन	९९
वेदवाक्योंकी प्रमाणता तथा नित्यताका खण्डन	अद्वैतरूप वेदान्त मतका खंडन	१०७
द्रव्य गुण आदिक सर्वथा भिन्न माननेमें तथा समवायकी सिद्धि होनेमें दूषणका निरूपण	शब्द तथा अर्थमें सामान्यविशेषपना किस प्रकारसे है	१११
सत्ता एक भिन्न पदार्थ है ऐसा मंडन....	ऐसा उपपादन ...	११८
ज्ञानगुण आत्मासे सर्वथा जुदा है ऐसा मंडन	सामान्य विशेषोंको सर्वथा भिन्न माननेवालोंका खंडन	१२१
ज्ञानादि विशेष गुणोंके नाश होजानेका नाम मोक्ष है ऐसा मंडन	सांख्यमतका सार निरूपण....
सत्ताको भिन्न माननेका खंडन	सांख्यमतका खंडन
ज्ञान गुणको आत्मासे सर्वथाभिन्न माननेका खंडन तथा	प्रमाणसे प्रमाणका फल सर्वथा भिन्न है तथा ज्ञान

ओं यथार्थवादिने श्रीवर्द्धमानाय नमः ।

रायचन्द्रजैनशास्त्रमालायां—

श्रीमल्लिषेणसूरिप्रणीता

स्याद्वादमञ्जरी

श्रीजवाहरलालशास्त्रिविनिर्मितहिन्दीभाषानुवादसहिता

(अनुवादकस्य मङ्गलाचरणम् ।)

यस्य श्रीमुखभूरुहात्समुदितां स्याद्वादगन्धान्वितां

सञ्ज्ञानाम्रफलप्रदां मुनिपिका आस्वाद्य वाङ्मञ्जरीम् ।

ऊचुर्यन्मधुरं जनास्तदखिलं श्रुत्वात्र मिथ्यादृशां

काकानां विरसं जहुः प्रलपनं तं सन्मतिं नौम्यहम् ॥ १ ॥

श्रीहेमचन्द्रयतिभिर्निजबुद्धिबीजादुत्पादिता स्तुतिलतातपवारिणी या ॥

संवर्द्ध्य युक्तिसलिलैर्मुनिमल्लिषेणः स्याद्वादमञ्जरियुतां किल तां चकार ॥ २ ॥

गीर्वाणगीर्नयनहीनजनान्विलोक्य तल्लभतो विरहितानतिस्त्रिन्नचित्तः ॥

तेभ्योऽहमार्थजनवापपवनेन तस्या गन्धं तनोमि निजबुध्बुत्तुसुहृत्प्रमत्र ॥ ३ ॥

(ग्रन्थकर्तुर्मङ्गलाचरणम्)

यस्य ज्ञानमनन्तवस्तुविषयं नः पश्यते दैर्घ्ये
निलं यस्य वचो न दुर्नयकृतैः सोऽत्राहंल्लुप्यते ।

रागद्वेषभ्रष्टासां च परिपक्विता क्षणायेन सा
स श्रीवीरविभुर्विभूतकृत्यां पुनिं विपत्तां मम ॥ १ ॥

निरसीमप्रतिभैकृत्वाविनयगो निःशेषज्ज्विरुतां
पुण्यायेन सरस्वतीसुरगुहू न्याहैरुत्स्ये दधत् ।

यः स्यादादमसापयतिजयपुष्टदान्तः सोऽस्तु मे

सद्बुध्यन्मुनिप्रयोगविद्ये श्रीहेमचन्द्रः प्रभुः ॥ २ ॥

ये हेमचन्द्रं सुनिर्मतदृक्प्रन्यायेभ्योमिपतः अगन्ते ।

सम्प्राप्य ते गौरवमुज्ज्वलानां पदं कृतानामुचितं भजन्ति ॥ ३ ॥

मातर्भारति सन्नियोद्वि हृदि मे येनयमासन्तुने-

निर्माणुं चिद्वृत्तिं प्रमिद्व्यति जयादारभमन्माना ।

यत्रा विम्बुतमोदयोः स्फुरति यन्सारगतः शान्धतो

मत्रः श्रीउदयप्रसेनिरचनारग्यो ममाद्रनिगम् ॥ ४ ॥

भावार्थ-अन्तमन्तुगियय 'अथेन' अर्थिगिण परार्थोक्ते तिल उन्नेयत्प विगत गल है, योऽर्थोऽन्नेहमिच ह्ये जनेहे, मित्तत्र
कनग गोहे नयवाञ्छे अर्थेन 'त्यगतात्कृत्विर्को द्रव्य त्वियेक्य श्रीप्रकृत्योः का (मद्व) नही तेना म्प्य विन्नेनि उक्त्त सन हेरुतेन

(१) पुदि नयापोभेससाभिर्भी मणिभा विपुः ।

है आदिमें जिसके ऐसी वैरियोंकी मंडलीको क्षणमात्रमें परास्त की. अर्थात् जीती. वे श्रीवर्द्धमानस्वामी मेरी बुद्धिको निर्मल करै ॥१॥
 समस्त मध्यलोकवर्ती जीवोंके पुण्यके समूहकी प्रेरणासे अपार प्रतिभा (नये नये चमत्कारोंको उत्पन्न करनेवाली बुद्धि) रूप प्राणोंके धारक सरस्वती और बृहस्पतिजीको अपने शरीरसे अभिन्नरूपमें धारण करते हुए जिन्होंने निज शरीररूप दृष्टान्तसे स्याद्वादमतको सिद्ध किया अर्थात् जैसे मेरा शरीर परस्पर भिन्न ऐसे सरस्वती और बृहस्पतिको एक रूपतासे धारण करता है, उसी प्रकार समस्त पदार्थ परस्पर भिन्न अनेक धर्मोंके धारक है; ऐसे अपने शरीरसे सूचित किया; वे श्रीहेमचन्द्रस्वामी मेरे सम्यग्ज्ञानरूपी समुद्रकी वृद्धिके अर्थ होवें ॥ २ ॥

जो मनुष्य श्रीहेमचन्द्र मुनीन्द्रको इनके (श्रीहेमचन्द्रजीके) द्वारा कहे हुए शास्त्रोंके अर्थकी सेवाके बहानेसे सेवन करते है, वे जगत्में निर्मल कलाओंके गौरवको (वडप्पनको) प्राप्त हो करके योग्य पदको प्राप्त होते है । भावार्थ—जो श्रीहेमचन्द्रजी सूरी-श्वरकी सेवा करते है, वे महाबुद्धिमान् होकर सुगतिको प्राप्त होते है ॥ ३ ॥

हे सरस्वती माताजी ! आप मेरे हृदयमें विराजमान हूजिये, जिससे सर्वज्ञकी स्तुतिपर विवृति (व्याख्या) रचनेके अर्थ जो प्रारंभ करनेकी संभावना है, वह शीघ्र ही सिद्ध होवै अर्थात् शीघ्र ही स्याद्वादमंजरीको रचनेका प्रारंभ कर दूं । अथवा नहीं नहीं मैं मूल गया क्योंकि, मेरे होठोंके मध्यमें रात्रिदिन “ श्रीउदयग्रन्थ ” इन अक्षरोंकी रचनासे मनोहर गुरुका नामरूपी अनादि अनिधन सारस्वतमन्त्र तो फुर ही रहा है । भावार्थ—गुरुके सरणके प्रभावसे आप स्वयं मेरे हृदयमें विराजमान हो जायंगे । अतः आपसे प्रार्थना करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ॥ ४ ॥

(अवतरणिका)

इह हि विषमदुःषमारजनितिरस्कारभास्करानुकारिणा वसुधातलावतीर्णसुधासारिणीदेश्यदेशनावितानपर-
 माहृतीकृतश्रीकुमारपालक्षमापालप्रवर्तिताभयदानाभिधानजीवातुसंजीवितनानाजीवप्रदत्ताशीर्वादमाहात्म्यकल्पाऽ-
 वधिस्थायिविशदयशःशरीरेण निरवद्यचातुर्विधैर्निर्माणैकब्रह्मणा श्रीहेमचन्द्रसूरिणा जगत्प्रसिद्धश्रीसिद्धसेनदिव्या-

करविरचितद्वात्रिंशद्वात्रिंशिकात्रुसारि श्रीवर्द्धमानजिनस्तुतिरूपमयोगव्यवच्छेदाऽन्ययोगव्यवच्छेदाऽभिधानं द्वात्रिंशिकाद्वितयं विद्वज्जनमनस्तत्त्वाऽवबोधनिबन्धनं विदधे । तत्र च प्रथमद्वात्रिंशिकायाः सुबोद्धेयत्वाद्ब्याख्यान-मुपेक्ष्य द्वितीयस्यास्तस्या निःशेषदुर्वादिपरिषदधिकेपदक्षायाः कतिपयपदार्थविवरणकरणेन स्वस्मृतिवीजप्रबोध-विधिविधीयते । तस्याश्चेदमादिकाव्यम् ॥—

अवतरणिका ।

इस लोकमें भयंकर पचमकालरूपी रात्रिको दूर करनेके लिये सूर्य समान तथा स्वर्गसे पृथ्वीतलमें उतर कर आई हुई जो अमृतकी नहर उस जैसा जो उपदेशोंका समूह उसके द्वारा परम जैनी किया हुआ जो श्रीकुमारपाल महाराज उसकरके प्रवर्त्ताया हुआ जो अमयदान नामक जीवनौपधि उससे जीवनको प्राप्त हुए जो बहुतेसे जीव उन करके दिये हुए जो आशीर्वाद उनके प्रभावसे कल्पकालपर्यन्त रहने वाला है निर्मल यशरूपी शरीर जिनका ऐसे, और दोषरहित जो व्याकरण, आगम, साहित्य और तर्क (न्याय) नामक चार विद्या है, उनको रचनेके लिये ब्रह्माके समान ऐसे, श्रीहेमचन्द्रजी सूरिने जगत्-प्रसिद्ध श्रीसिद्धसेनजी दिवाकरकी बनाई हुई ' द्वात्रिंशद्वात्रिंशिका ' का अनुसरण करके श्रीवर्द्धमान जिनेन्द्रकी स्तुतिरूप और ज्ञानी जनोके मनमें तत्त्वज्ञान उत्पन्न करनेको कारणभूत ऐसे अयोगव्यवच्छेद तथा अन्ययोगव्यवच्छेद नामके धारक द्वात्रिंशिकायुगलकी क्रिया । भावार्थ—'श्री जिनेन्द्र यथार्थवादी ही है' इस प्रकार जहांपर विशेषणके साथ एव (ही) पद लगाया जावे वह तो अयोगव्यवच्छेद है, और ' श्रीजिनेन्द्र ही यथार्थवादी है ' इस प्रकारसे जहां विशेष्यके साथ ' एव ' लगाया जावे वह अन्ययोगव्यवच्छेद है । उनमें पहली जो अयोगव्यवच्छेदद्वात्रिंशिका है वह सुखसे समझमें आनेवाली है, इसलिये उसके व्याख्यानको उपेक्षित करके अर्थात् न करके, समस्त एकान्तवादियोंकी समाका खंडन करनेमें समर्थ जो वह दूसरी अन्ययोगव्यवच्छेदद्वात्रिंशिका है, उसके कितने ही पदार्थोंका विस्तारसे वर्णन करके भै (मल्लिषेण) भैरा जो स्मृति (धारणा) रूप बीज है उसके उदयका विधान करता हूं । और उस अन्ययोगव्यवच्छेदद्वात्रिंशिकास्तोत्रका प्रथम काव्य यह है—

१ विशेषणसंज्ञैवकारोऽयोगव्यवच्छेदबोधक. यथा—शङ्ख पाण्डुर पृवेति । अयोगव्यवच्छेदस्य लक्षण चोद्देश्यतावच्छेदकसमानाधिकरणभावान्प्र-
तियोगित्वम् । २ विशेष्यसंज्ञैवकारोऽन्ययोगव्यवच्छेदबोधक. यथा—पार्थ एव धनुर्धर. । अन्ययोगव्यवच्छेदो नाम विशेष्यभिरुक्ताद्वाल्म्यादिव्यवच्छेद.

अनन्तविज्ञानमतीतदोषमबाध्यसिद्धान्तममर्त्यपूज्यम् । श्रीवर्द्धमानं जिनमाप्तमुख्यं स्वयम्भुवं स्तोतुमहं यतिष्ये ॥ १॥

काव्यार्थः—अनन्तज्ञानके धारक, दोषोंसे रहित, बाधारहित सिद्धान्तवाले, देवोंकरके पूज्य, यथार्थवक्ता-
ओंमें प्रधान और स्वयमेव ज्ञानको प्राप्त हुए ऐसे श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्रकी स्तुति करनेके लिये मैं
प्रयत्न करूंगा ॥ १ ॥

व्याख्या । श्रीवर्द्धमानं जिनमहं स्तोतुं यतिष्य इति क्रियासंबन्धः । किंविशिष्टभर्तृमन्तमप्रतिपाति वि-विशिष्टं सर्व-
द्रव्यपर्यायविषयत्वेनोत्कृष्टं ज्ञानं केवलार्थं विज्ञानं ततोऽनन्तं विज्ञानं यस्य सोऽनन्तविज्ञानस्तम् । तथा अतीता
निःसत्ताकीभूतत्वेनाऽतिक्रान्ता दोषा रागादयो यस्मात्स तथा तम् । तथा अबाध्यः परैर्बाधितुमशक्यः सिद्धान्तः
स्याद्वादश्रुतलक्षणो यस्य स तथा तम् । अमर्त्या देवास्तेषामपि पूज्यमाराध्यम् ॥

व्याख्यार्थः—‘मै (हेमचन्द्र सूरी) श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्रको स्तुतिगोचर करनेके लिये प्रयत्न करूंगा ’ इस प्रकार क्रियाका
सम्बन्ध अर्थात् अन्वय है । कैसे विशेषणोंके धारक श्रीवर्द्धमानजिनको स्तुतिगोचर करनेके लिये यत्न करूंगा ? अनन्त अन्तरहित अर्थात्
पतन(नाश) स्वभावसे रहित और विशिष्ट अर्थात् जीव अजीव आदि समस्त द्रव्य और उनके स्वभाव विभाव रूप भूत, भविष्यत् तथा
वर्तमान कालसंबन्धी जो अनन्त पर्याय है उनके विषयकरनेसे (जाननेसे) उत्कृष्ट ऐसा ज्ञान अर्थात् केवलनामक ज्ञान है
जिनके उनको तथा अतीत अर्थात् जिनकी फिर कभी उत्पत्ति न हो ऐसे रूपसे दूर होगये हैं राग, द्वेष आदि अठारह दोष जिनसे
उनको और अबाध्य अर्थात् अन्य एकान्तवादियोंसे नहीं बाधा जा सकता है स्याद्वादशास्त्ररूप सिद्धान्त जिनका उनको तथा अमर्त्य
जो देव उनके भी पूज्य अर्थात् आराधने योग्य है उनको । भावार्थ—मै (हेमचन्द्रसूरी) केवलज्ञानके धारक, दोषोंसे रहित,
बाधारहितशास्त्रवाले और देवोंसे पूज्य ऐसे श्रीमहावीरस्वामीको स्तुतिमें लानेके लिये उद्यम करूंगा ॥

अत्र च श्रीवर्द्धमानस्वामिनो विशेषणद्वारेण चत्वारो मूलातिशयाः प्रतिपादिताः । तत्राऽनन्तविज्ञानमित्यनेन

भगवतः केवलज्ञानलक्षणविशिष्टज्ञानाऽनन्त्यप्रतिपादनाज्ज्ञानाऽतिशयः । अतीतदोषमित्यनेनाऽष्टादशदोष-
संक्षयाऽभिधानादपायापगमाऽतिशयः । अबाध्यसिद्धान्तमित्यनेन कुतीर्थिकोपन्यस्तुहेतुसमूहाऽशक्यबाधस्या-
द्वादरूपसिद्धान्तप्रणयनभणनाद्बचनाऽतिशयः । अमर्त्यपूज्यमित्यनेनाऽकृत्रिमभक्तिभरनिर्भरसुराऽसुरनिकायना-
यकनिर्मितमहाप्रातिहार्यसपर्यापरिज्ञापनात्पूजाऽतिशयः ॥

इस श्लोकके पूर्वार्धमें आचार्यने विशेषणों द्वारा श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्रके चार मूल अतिशयोंका कथन किया है । उनमें 'अनन्त
विज्ञान' यह जो विशेषण है इससे भगवान्के केवलज्ञानरूप लक्षणके धारक ज्ञानकी अनन्तता कही गई है, इस कारण पहिला
ज्ञानातिशय कहा गया । और 'अतीतदोष' इस विशेषणसे अठारह दोषोंका नाश कहे जानेसे भगवान्के दूसरा अपायापगम
नामक अतिशय कहा गया ॥ १ ॥ तथा 'अबाध्यसिद्धान्त' इस विशेषण द्वारा अन्य कुमतावलम्बियोंकरके दिये हुए
जो दुरे हेतु उनके समूहसे वाधाको प्राप्त नहीं हो सकेवाले स्याद्वादस्वरूप आगमको भगवानने रचा है इस प्रकारके अर्थको
कहनेसे तीसरा वचनातिशय सूचित किया ॥ ३ ॥ एवं 'अमर्त्यपूज्य' इस विशेषणसे सभी भक्तिके भारसे निर्भर अर्थात्
अन्तरगसे उत्पन्न हुई जो भक्ति है उसके बोझसे दवे हुए (नीचे हुए) ऐसे जो देव तथा असुरोंके समूह उनके जो स्वामी
(इन्द्र) उन करके की हुई जो महाप्रातिहार्य पूजा उसको जननेसे चौथे पूजातिशयको कहा ॥ ४ ॥

अत्राह परः । अनन्तविज्ञानमित्येतावदेवास्तु नाऽतीतदोषमिति गतार्थत्वात् । दोषाऽत्यथं विनाऽनन्तविज्ञान-
त्वस्यानुपपत्तेः । अलोच्यते—कुनयमताऽनुसारिफलप्राप्त्यवच्छेदार्थमिदम् । तथा चाहुराज्ञीविकनयानु-
सारिणः—“ज्ञानिनो धर्मतीर्थस्य कर्तारः परमं पदम् । गत्वाऽऽगच्छन्ति भूयोऽपि भवं तीर्थनिकारतः । १ ।” इति ।
तन्नूनं न ते अतीतदोषाः । कथमन्यथा तेषां तीर्थनिकारदर्शनेऽपि भवावतारः ॥

१ अन्तरायदानलाभवीर्यभोगोपभोगाणा । हासो रस्वती भीतिर्दुगुप्सा शोक एव च ॥ १ ॥ कामो मिथ्यात्वमज्ञान निद्रा चाविरतिस्तथा ।
रागो द्वेषश्च नो दोषास्तेषामष्टादशाप्यमी ॥ २ ॥ इत्यष्टादश दोषाः । २ आजीविको बौद्धः ।

अब यहांपर वादी शंका करता है कि, श्रीवर्द्धमानस्वामीके 'अनन्तविज्ञान' इतना ही विशेषण रहना चाहिये और 'अतीतदोष' यह विशेषण न रहना चाहिये । क्योंकि, अठारह दोषोंको नाश हुए विना अनन्तविज्ञानत्वकी प्राप्ति ही नहीं होती; इसकारण 'अनन्तविज्ञान' इसके कहनेसे ही दोषरहितरूप अर्थका ग्रहण हो जाता है । इसका आचार्य 'समाधान' करते है कि, हमने जो 'अतीतदोष' यह विशेषण दिया है सो व्यर्थ नहीं है; किन्तु खोटे नयवाले मतके धारक जीवोंने जिस आप्त (यथार्थवक्ता) को मान रक्खा है, उसको जुदा करनेके लिये है । क्योंकि आजीविक (बौद्धविशेष) मतके धारक जीव इसी प्रकार कहते है कि " धर्मतीर्थके करनेवाले ज्ञानी जीव संसारमें आकर धर्मतीर्थका प्रचार करके मोक्षमें चले जाते है और जब संसारमें धर्मतीर्थका अनादर होता है, तब फिर मोक्षमेंसे संसारमें आ जाते है । १ । " इस प्रकार आजीविक मतवालोंके माने हुए आप्त निश्चयसे दोषरहित नहीं है । क्योंकि यदि वे दोषरहित होंवें, तो तीर्थका अनादर देख करके भी मोक्षमेंसे संसारमें कैसे आवै अर्थात् वे मोक्षमें जाकर फिर संसारमें आते है; इसलिये दोषसहित है ॥

आह । यद्येवमतीतदोषमित्येवाऽस्तु । अनन्तविज्ञानमित्यतिरिच्यते दोषाऽल्यथेऽवश्यंभावित्वादनन्तविज्ञानत्वस्य । न । कैश्चिदोषाऽभावेऽपि तदनभ्युपगमात् । तथा च तद्वचनम्— "सर्वं पश्यतु वा मा वा तत्त्वमिष्टं तु पश्यतु ॥ कीटसङ्ख्यापरिज्ञानं तस्यै नः क्रोपयुज्यते । १ । " तथा— "तस्मादनुष्ठानैर्गतं ज्ञानमस्य विचार्यताम् । प्रमाणं दूरदर्शी चेदेते गुध्रानुपासमेह । १ । " तन्मतव्यपोहार्यमनन्तविज्ञानमित्यदुष्टमेव । विज्ञानानन्त्यं विना एकस्याऽप्यर्थस्य यथावत्परिज्ञानाऽभावात् । तथाचार्य— " जे एगं जाणइ से सब्वं जाणइ । जे सब्वं जाणइ से एगं जाणइ । " तथा "एकी भावः सर्वथा येन दृष्टः सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टाः । सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टा एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः । १ ॥

फिर वादी शंका करता है कि,—यदि आपने आजीविकमतवालोंके आसोंको दूर करनेके लिये अतीतदोष यह विशेषण दिया है तो अतीतदोष यह विशेषण रहो परन्तु अब 'अनन्तविज्ञान' यह जो विशेषण है सो अधिक होता है अर्थात्

१ क-पुस्तके "सर्वं पश्यतु मा वा सा दृष्टमर्थं तु पश्यतु ।" इति पाठः । २ भवदभिमत्स्य जिनस्य । ३ अनुष्ठानं नाम कालान्तरभावीष्टोपायताज्ञानपूर्वकं करणं । ४ य एकं जानाति स सर्वं जानाति । य सर्वं जानाति स एकं जानाति । इतिच्छाया ।

व्यर्थ है। क्योंकि जब भगवान् दोषरहित हो गये, तो उनके 'अनंतविज्ञान' अवश्य (जुरूर) ही होगा, फिर जुदा विशेषण क्यों देते हो। समाधान—कितनोंहीने दोषोंका अभाव होने पर भी अनन्त विज्ञान नहीं माना है, इसलिये तुम्हारी शंका ठीक नहीं। सो ही वे लोग कहते हैं कि "हमारा ईश्वर सब पदार्थोंको देखै अथवा न देखै, केवल वाछित तत्त्वोंको ही जानै। क्योंकि यदि आपके जिनेश्वर कीड़ोंकी संख्या जानते है तो उनका यह कीड़ोंकी संख्या जानेरूप ज्ञान हमारे किस प्रयोजनमें आता है ? १। १।" तथा वे ही फिर कहते है कि "इसलिये हमारे ईश्वरके अनुष्ठानमें प्राप्त हुआ ज्ञान ही विचारना चाहिये। और यदि जिसका ज्ञान उपयोगमें न आवै, ऐसे दूरदर्शीको ही आप प्रमाण मानते हो, तो लो हम गीथ पक्षियोंकी सेवा करते है। क्योंकि वे भी दूरके पदार्थको देखने वाले है। तात्पर्य यह कि—अनुपयोगी पदार्थोंको जानने वाले आपके जिनेन्द्रसे हमको कोई भी प्रयोजन नहीं है ॥ २ ॥" इस पूर्वोक्त प्रकारसे जो कोई ईश्वरको असर्वज्ञ मानते है, उनके मतको दूर करनेके लिये जो हमने 'अनन्तविज्ञान' यह विशेषण दिया, सो दोषरहित ही है अर्थात् व्यर्थ नहीं है। क्योंकि अनन्तविज्ञानके विना एक भी पदार्थ यथार्थ रीतिसे नहीं जाना जाता है। और इस कथनमें प्रमाणभूत ऋषियोंका वचन भी है कि "जो एकको जानता है, वह सबको जानता है, जो सबको जानता है वह एकको जानता है" तथा "जिसने एक पदार्थको परिपूर्ण रीतिसे देखा, उसने सब पदार्थ पूर्ण रूपसे देखे। और जिसने सब पदार्थ सर्वथा देखे, उसने एक पदार्थ सर्वथा देखा अर्थात् जाना ॥ १ ॥"

ननु तर्हि अबाध्यसिद्धान्तमित्यपार्थक्यं यथोक्तगुणयुक्तस्याऽव्यभिचारिवचनत्वेन तदुक्तसिद्धान्तस्य बाधाऽयोगात् । न । अभिप्रायाऽपरिज्ञानात् । निर्दोषपुरुषप्रणीत एव अबाध्यः सिद्धान्तो नापरैऽपौरुषेयाद्या असम्भवादिदोषाघातत्वात् इति ज्ञापनार्थं, आत्ममात्रतारकमूकाऽन्तकृत्केवल्यादिरूपमुण्डैकवलिनी यथोक्तसिद्धान्तप्रणयनाऽसमर्थस्य व्यवच्छेदार्थं वा विशेषणमेतत् ॥

शंका—यदि ऐसा है तो 'अबाध्यसिद्धान्तवाले' यह जो भगवान्के विशेषण लगाया गया है सो निरर्थक है। क्योंकि, पूर्वोक्त जो अनन्तविज्ञानता तथा दोषरहितता रूप दो गुण है, उन करके सहित जो कोई है उनके वचन व्यभिचारी नहीं

१ निरर्थक । २ तात्वादिजन्मा ननु वर्णवर्गों वर्णात्मको वेद इति स्फुट च । पुंसश्च तात्वादि ततः कथं स्यादपौरुषेयोऽव्यमिति प्रतीतिः ।
३ बाह्यातिशयरहित ।

होते अर्थात् किसी भी अंशमें असत्य नहीं होते है। इस कारण उन करके कहा हुआ जो सिद्धान्त है, उसका खंडन ही नहीं हो सकता है समाधान—तुमने हमारा अभिप्राय नहीं जाना, इसलिये यह जो तुम शंका करते हो सो ठीक नहीं है। क्योंकि हमने जो यह विशेषण दिया है, सो निर्दोष पुरुष करके कहा हुआ सिद्धान्त ही बाधारहित सिद्धान्त है और असंभव आदि दोषोंसहित होनेसे अन्य जो अपौरुषेय आदि सिद्धान्त है, वे बाधारहित नहीं है। इस बातको विदित करनेके लिये लगाया है। भावार्थ—कितने ही ऐसा मानते हैं कि, वेद आदि अपौरुषेय है अर्थात् किसी पुरुषके बनाये हुए नहीं है। परन्तु उनका यह मानना ठीक नहीं है। क्योंकि वेद अक्षररूप है। और वे अक्षर तालु आदि स्थानोंसे उत्पन्न होते है। तथा वे तालु आदि स्थान मनुष्यके होते है। इसलिये पुरुषके रचे विना वेद आदि अक्षररूप नहीं हो सकते है, यही असंभव नामा दूषण है। इसको आदि ले और भी अनेक दोष शास्त्रोंको अपौरुषेय माननेमें होते है। इस कारण 'निर्दोष पुरुषसे कहा हुआ शास्त्र ही बाधारहित है, पुरुष करके नहीं बनाये हुए शास्त्र बाधारहित नहीं है'। इस विषयको सूचित करनेके लिये 'अवाध्यसिद्धान्त' विशेषण है। अथवा एक प्रकारके मूक अन्तर्दृष्टकेवली आदि रूप मुंड अर्थात् बाह्यके अतिशयोक्ते रहित केवली होते है, जो अनन्तविज्ञानके धारक भी है और दोषरहित भी है। परन्तु वे केवल अपनी आत्माका ही उद्धार करते है, दूसरेको उपदेश देनेमें मूक (गूगे) रहते है। इसलिये वे भी पूर्वोक्त सिद्धान्तको रचनेमें असमर्थ है। इस कारण उनको श्रीजिनेन्द्रसे भिन्न करनेके लिये 'अवाध्यसिद्धान्त' यह विशेषण दिया गया है ॥ ~

अन्यस्त्वाह । अमर्त्यपूज्यमिति न वाच्यम् । यावता यथोद्दिष्टगुणगारिष्ठस्य त्रिभुवनविभोरमर्त्यपूज्यत्वं न कथंचन व्यभिचरतीति । सत्यम् । लौकिकानां हि अमर्त्या एव पूज्यतया प्रसिद्धास्तेषामपि भगवानेव पूज्य इति विशेषणेनाऽनेन ज्ञापयन्नाचार्यः परमेश्वरस्य देवाधिदेवत्वमावेदयति ॥ एवं पूर्वाद्धं चत्वारोऽतिशया उक्ताः ।

अब दूसरा बादी शंका करता है कि—'अमर्त्यपूज्य' यह विशेषण भगवानके नहीं देना चाहिये। क्योंकि, संपूर्णरूपसे पहिले कहे हुए अनन्तविज्ञान आदि गुणोंसे गरिष्ठ (बहुत बड़े) जो तीन लोकके स्वामी श्रीजिनेन्द्र है, उनके देवोंसे पूज्यता किसी प्रकारसे भी व्यभिचारको प्राप्त नहीं होती है अर्थात् वे नियमसे देवोंके पूजे जाते है। समाधान—एक प्रकारसे तुम्हारा कहना सत्य

है। परंतु जो लौकिक जन है वे देवोंको ही मुख्यतासे पूज्य मानते है। उन देवोंके भी भगवान ही पूज्य है, ऐसे आशयको इस विशेषणसे जनाते हुए आचार्य भगवानके देवाधिदेवपना सूचित करते है। इस प्रकार पूर्वार्धमें चार अतिशयोंका कथन किया गया है। अनन्तविज्ञानत्वं च सामान्यकेवलिनामप्यवश्यंभावीत्यतस्तद्व्यवच्छेदाय श्रीवर्द्धमानमिति विशेष्यपदमपि विशेषणरूपतया व्याख्यायते। श्रिया चतुस्त्रिंशदतिशयसमृद्धयनुभवात्मकभावार्हैत्यरूपया वर्द्धमानं वर्द्धिष्णुम्। नन्वतिशयानां परिमिततयैव सिद्धान्ते प्रसिद्धत्वात्कथं वर्द्धमानतोपपत्तिः। इतिचेन्न। यथा-निशीथचूर्णौ भगवतां श्रीमदर्हतामथोत्तरसहस्रसङ्ख्यवाह्यलक्षणसङ्ख्याया उपलक्षणत्वेनाऽन्तरङ्गलक्षणानां सत्त्वादीनामानन्त्यमुक्तमेवम-तिशयानामधिकृतपरिगणनायोगेऽप्यपरिमितत्वमविरुद्धम्। ततो नाऽतिशयश्रिया वर्द्धमानत्वं दोषाशय इति।

अव अनंतविज्ञानत्व जो है वह तो सामान्यकेवलियोंके भी नियमसे होता है। इसकारण उन सामान्यकेवलियोंको श्रीवर्द्धमानत्वा मीसे जुदे करनेके लिये 'श्रीवर्द्धमान' यह जो विशेष्यपद है, उसका भी विशेषणरूपतासे व्याख्यान करते है अर्थात् 'श्रीवर्द्धमान' इस विशेष्यको विशेषण मानकर कहते है। चौतीस ३४ अतिशयोंकी वृद्धिके अनुभवलक्षण भावार्हंतपनेरूप जो लक्ष्मी है, उसकरके वर्द्धमान अर्थात् बढ़ते हुए है उनको। शंका-शास्त्रमें अतिशय परिमितरूपसे ही प्रसिद्ध है अर्थात् चौतीस सख्याके धारक ही है। इसलिये 'अतिशयोंसे बढ़ते हुए' यह कहना किसप्रकार बन सकता है। समाधान-यह तुम्हारी शंका ठीक नहीं है। क्योंकि, जैसे 'निशीथचूर्णी' नामक ग्रथमें श्रीअर्हन्त भगवान्के एकहजार आठ सख्या परिमाण जो वाह्य लक्षण है, उनकी संख्याको उपलक्षण-रूप मानकर सत्त्व आदि अन्तरग लक्षणोंको अनन्त कहे है, इसीप्रकार यद्यपि उपलक्षणसे शास्त्रमें चौतीस अतिशय ही प्रसिद्ध है, तथापि उनको यदि संख्यारहित माने जावै तो शास्त्रसे कोई भी विरोध नहीं है। इसकारण 'अतिशय लक्ष्मीसे बढ़ते हुए' ऐसा विशेषण जो हमने कहा है, सो दोषका आधार नहीं है अर्थात् इसमें कोई भी दोष नहीं है ॥

अतीदोषता चोपशान्तमोहगुणस्थानवर्तिनामपि संभवतीत्यतः क्षीणमोहाख्याप्रतिपातिगुणस्थानप्राप्तिप्रति-पत्यर्थं जिनमिति विशेषणम्। रागादिजेतृत्वाज्जिनः। समूलकापङ्कषितरागादिदोष इति। अबाध्यसिद्धान्तता

च श्रुतकेवल्यादिष्वपि दृश्यतेऽतस्तदपोहायाप्तमुख्यमिति विशेषणम् । आसिहिं रागद्वेषमोहानामैकान्तिक आत्यन्तिकश्च क्षयः । सा येषामस्ति ते खलवासाः । अर्शआदित्वान्मत्वर्थीयोऽच् प्रत्ययः । तेषु मध्ये मुखमिव सर्वाङ्गानां प्रधानत्वेन मुख्यम् । शाखादर्थे इति तुल्ये यः । अमर्त्यपूज्यता च तथाविधगुरूपदेशपरिचर्यापर्याप्तविद्याचरणसंपन्नानां सामान्यमुनीनामपि न दुर्घटा । अतस्तन्निराकरणाय स्वयम्भुवमिति विशेषणम् । स्वयमात्मनैव परोपदेशनिरपेक्षतयाऽवगततत्त्वो भवतीति स्वयम्भूः स्वयं संबुद्धः । तमेवंविधं चरमजिनेन्द्रं स्तोतुं स्तुतिविषयीकर्तुमहं यतिष्ये यत्नं करिष्यामि ।

और दोषरहितपना तो उपशान्तमोहनामक ग्यारहवें गुणस्थानमें रहनेवाले जो मुनि है, उनके भी हो सकता है । इसलिये पतनरहित क्षीणमोहनामक बारहवें गुणस्थानको श्रीजिनेन्द्र प्राप्त हो चुके, यह जननेके लिये 'जिन' यह विशेषण दिया है । क्योंकि, राग आदि दोषोंको जो जीतनेवाले है अर्थात् जिन्होंने जड़मूलसे राग आदि दोषोंको उखाड़ डाले है वे ही 'जिन' कहलाते हैं । तथा बाधारहित सिद्धान्तका धारकपना तो श्रुतकेवली आदिमें भी देखा जाता है । इसकारण उन श्रुतकेवली आदिको जुदे करनेके लिये 'आप्तमुख्य' यह विशेषण कहा गया है । राग, द्वेष और मोह इनका जो एकान्तिक (सर्वथा) तथा आत्यन्तिक अर्थात् फिर उरान्न न हो, ऐसे रूपसे नाश है, उसको आसि कहते हैं, वह आसि जिनकेहोवे वे आपस हैं । उन आपसोंमें जैसे शरीरके सब अंगोंमें मुख प्रधान है, उसीप्रकार जो मुख्य (प्रधान) हों, उनको 'आप्तमुख्य' कहते हैं । [मुख्य यहांपर मुख्यशब्दके आगे 'शाखादर्थः' इस सूत्रसे तुल्य (समान) अर्थमें य हुआ है ।] और देवोंसे पूज्यपना, उसप्रकारके अर्थात् भगवान् जैसे जो गुरु है, उनके उपदेश और सेवासे प्राप्त हुआ जो ज्ञान और चारित्र है, उस करके परिपूर्ण ऐसे सामान्य (साधारण) मुनियोंके भी दुर्लभ नहीं है । भावार्थ—ज्ञान और चारित्रसे युक्त साधारणमुनि भी देवोंसे पूजे जाते हैं । इस कारण उन सामान्य मुनियोंको दूर करनेके लिये 'स्वयंभू' यह विशेषण लगाया गया है । स्वयं अर्थात् परके उपदेशकी अपेक्षा (जरूरत) न रखकर अपने आप ही जो तत्त्वोंको जाननेवाले हों वे स्वयंभू अर्थात् अपने आप ज्ञानको प्राप्त हुए कहलाते हैं, । इस प्रकार पूर्वोक्त विशेषणोंसहित जो अंतिमतीर्थकर महावीरस्वामी है, उनको 'स्तोतुं' स्तुतिके गोचर करनेके लिये 'अहं' मैं (हेमचन्द्र) 'यतिष्ये' उद्यम करूंगा ॥

१ निःशेषीकृतेऽपि पुनरुद्भवमाशंक्य आत्यन्तिकः अभूयःसंभवदोषविनाशः । २ ख पुस्तके-अभ्रादित्वान्मत्वर्थीयोऽप्रत्ययः । इति पाठः ।

अत्र चाचार्यो भविष्यत्कालप्रयोगेण योगिनामप्यशक्यानुष्ठानं भगवद्गुणस्त्वनं मन्यमानः श्रद्धामेव स्तुतिकरणेऽसाधारणं कारणं ज्ञापयन् यत्नकरणमेव मदधीनं न पुनर्यथावस्थितभगवद्गुणस्त्वनसिद्धिरिति सूचितवान् । अहमिति च गतार्थत्वेऽपि परोपदेशान्यानुवृत्त्यादिनिरपेक्षतया निजश्रद्धयैव स्तुतिप्रारम्भ इति ज्ञापनार्थम् ।

‘यतिष्ये’ अर्थात् यत्न करूंगा । यहांपर जो आचार्यने भविष्यत्कालका प्रयोग किया है, इससे भगवान्के गुणोंकी स्तुति योगियोंसे अर्थात् दिव्यज्ञानके धारक मुनियोंसे भी नहीं हो सकती है । इसप्रकार मानते हुए और स्तुतिके करनेमें भक्ति ही एक असाधारण कारण है, ऐसा दूसरोंको जनाते हुए आचार्यने ‘ भगवान्के गुणोंकी स्तुति करनेमें प्रयत्न करना ही मेरे आधीन है और भगवान्में जैसे गुण विद्यमान है, वैसे गुणोंके स्तवनकी सिद्धि मेरे आधीन नहीं है । ऐसा आशय सूचित किया है । और ‘ यतिष्ये ’ यहांपर जो उत्तम पुरुषका एक वचन दिया गया है, इससे यद्यपि ‘ अहं ’ यह कर्त्ताको बोधन करनेवाला शब्द स्वयं ही आसक्तता था, तथापि परेके उपदेशकी और अन्य (दूसरे) की अनुवृत्ति आदिकी अपेक्षा न करके मैं मेरी भक्तिके वशसे ही स्तुतिका प्रारम्भ करता हूं, यह समझानेके लिये ‘ अहं ’ यह पद दिया गया है ॥

अथवा—श्रीवर्द्धमानादिविशेषणचतुष्टयमनन्तविज्ञानादिपदचतुष्टयेन सह हेतुहेतुमद्भावेन व्याख्यायते । यत एव श्रीवर्द्धमानमतएवाऽनन्तविज्ञानम् । श्रिया कृत्स्नकर्मक्षयाविर्भूताऽनन्तचतुष्कसंपद्रूपया वर्द्धमानम् । यद्यपि श्रीवर्द्धमानस्य परमेश्वरस्यानन्तचतुष्कसंपत्तेरुत्पत्त्यनन्तरं सर्वकालं तुल्यत्वाच्चापचयौ न सस्तथापि निरपचयत्वेन शाश्वतिकावस्थानयोगाद्धर्द्धमानत्वमुपचर्यते । यद्यपि च श्रीवर्द्धमानविशेषणानन्तचतुष्कान्तर्भावित्वेनानन्तविज्ञानत्वमपि सिद्धम् । तथाप्यनन्तविज्ञानस्यैव परोपकारसाधकतमत्वाद्भगवत्प्रवृत्तेश्च परोपकारैकनिबन्धनत्वादनन्तविज्ञानत्वं शेषानन्तत्रयात्पृथग् निर्द्धार्याचार्येणोक्तम् ।

अथवा ‘ श्रीवर्द्धमानं ’ इत्यादि जो श्लोकके उत्तरार्धमें चार विशेषण है, उनका ‘अनन्तविज्ञानं’ इत्यादि पूर्वार्धके चार पदोंके साथ हेतुहेतुमद्भावेसे अर्थात् ‘ श्रीवर्द्धमान ’ यह तो हेतु (कारण) है और ‘ अनन्तविज्ञान ’ यह हेतुमत् (कार्य) है । इस रूपसे व्याख्यान करते हैं । भगवान् श्रीवर्द्धमान है अर्थात् संपूर्ण कर्मोंके नाशसे प्रकट हुई जो अनन्तचतुष्टयसंपदारूप लक्ष्मी है,

उससे बढ़ते हुए है। इसी कारण वे अनन्तविज्ञानके धारक है। यद्यपि श्रीमहावीरजिनेन्द्रके जवसे अनन्तचतुष्टय संपदा उत्पन्न हुई है, तभीसे वह अनन्तचतुष्टयसंपदा सदा एकसी रहती है, इसलिये उसमें घटना और बढ़ना नहीं है। तथापि वह संपदा घटती नहीं है अर्थात् सदा समान रहती है। इस कारण उसमें बद्धमानताका अर्थात् बढनेपनेका उपचार (लक्षणा) किया जाता है। और यद्यपि 'श्रीवर्द्धमान' इस विशेषणके देनेसे अनन्तविज्ञानपना भी भगवान्में सिद्ध हो गया। क्योंकि, यह अनन्तविज्ञान अनन्तचतुष्टयमें अन्तर्गत (गिना जाता) है। तो भी अनन्तविज्ञान ही अन्य जीवोंका उपकार करनेमें समर्थ (असाधारण) कारण है और भगवान्की जो प्रवृत्ति अर्थात् उपदेश आदिका देना है, उसमें परोपकार ही एक कारण है। इसलिये वाक्रीके तीन जो अनन्तदर्शन आदि है, उनसे अनन्तविज्ञानको जुदा निश्चय करके आचार्यने यहांपर कहा है ॥

ननु यथा जगन्नाथस्थानन्तविज्ञानं परार्थं तथाऽनन्तदर्शनस्यापि केवलदर्शनापरपर्यायस्य पारार्थ्यमव्याहृतमेव । केवलज्ञानकेवलदर्शनाभ्यामेव हि स्वामी क्रमप्रवृत्तिभ्यामुपलब्धं सामान्यविशेषात्मकं पदार्थसार्थं परेभ्यः प्ररूपयति । तत्किमर्थं तन्नोपात्तम् । इति चेदुच्यते । विज्ञानशब्देन तस्यापि संग्रहाददोषः, ज्ञानमात्राया उभयत्राऽपि समानत्वात् । य एव हि अभ्यन्तरीकृतसमतार्थमा विप्रमताधर्मविशिष्टा ज्ञानेन गम्यन्तेऽर्थास्त एव ह्यभ्यन्तरीकृतविषमताधर्माः समतार्थमविशिष्टा दर्शनेन गम्यन्ते । जीवस्वाभाव्यात् । सामान्यप्रधानमुपसर्जनीकृतविशेषमर्थग्रहणं दर्शनमुच्यते । तथा प्रधानविशेषमुपसर्जनीकृतसामान्यं च ज्ञानमिति ।

शंका—जैसे भगवान्के अनन्तविज्ञान परके उपकारके लिये है, उसी प्रकार केवलदर्शन है दूसरा नाम जिसका, ऐसा जो अनन्तदर्शन है, वह भी बिना किसी वाधके परोपकारके निमित्त ही है। क्योंकि भगवान् क्रमानुसार प्रवृत्त हुए जो केवलदर्शन और केवलज्ञान है, उनसे जाना हुआ जो पदार्थोंका समूह है, उसीका अन्य जीवोंको उपदेश देते है। इसलिये यदि केवलज्ञानको भिन्न ग्रहण किया है, तो अनन्तदर्शनको भी भिन्न क्यों नहीं ग्रहण किया? अब इसका समाधान कहते है कि, 'अन्तविज्ञान' यहांपर जो विज्ञान शब्द है, उससे ज्ञानका तो ग्रहण है ही है। परंतु उस दर्शनका भी ग्रहण किया गया है। इसलिये जो तुम दोष देते हो सो ठीक नहीं है।

क्योंकि, ज्ञानकी मात्रा जो है वह केवलज्ञान और केवलदर्शन इन दोनोंमें समान है । कारण कि—सामान्य धर्मोंको गौण करके विशेष धर्मोंसहित जो पदार्थ ज्ञानसे जाने जाते हैं, विशेष धर्मोंकी गौणतापूर्वक सामान्य धर्मोंसहित हुए वे ही पदार्थ दर्शनसे जाने जाते हैं क्योंकि, ये जीवके स्वभाव हैं । भावार्थ—विशेषको किया है गौण जिसमें और सामान्य है प्रधान जिसमें, ऐसा जो पदार्थका ग्रहण है, सो दर्शन कहलाता है । तथा जिसमें सामान्य गौण और विशेष मुख्य है, ऐसा जो पदार्थका ग्रहण करना है, उसको ज्ञान कहते हैं ॥

तथा यत एव जिनमत एवातीतदोषम् । रागादिजेतृत्वाद्धि जिनः । नचाजिनस्यातीतदोषता । तथा यत एवाप्तमुख्यमत एवावाध्यसिद्धान्तम् । आप्तो हि प्रत्ययित उच्यते । तत आप्तेषु मुख्यं श्रेष्ठम् । आप्तमुख्यत्वं च प्रभोरविसंवादिवचनतया विश्वविश्वासभूमित्वात् । अत एवावाध्यसिद्धान्तम् । न हि यथावज्ज्ञानावलोकितवस्तुवादी सिद्धान्तः कुनैर्वाधितुं शक्यते । यत एव स्वयम्भुवमत एवामर्त्यपूज्यम् । पूज्यते हि देवदेवो जगन्नयविलक्षणलक्षणेन स्वयंसम्बुद्धत्वगुणेन सौधर्मैन्द्रादिभिरमर्त्यैरिति ।

तथा वे भगवान् जिन है, इसीकारण दोषरहित है । जो रागादिको जीतनेवाले है, उनको जिन कहते हैं । जो जिन नहीं है, वे दोषरहित भी नहीं है । और वे श्रीमहावीरस्वामी आप्तोंमें मुख्य हैं, इसीकारण वाधारहित सिद्धान्तवाले हैं । क्योंकि जो प्रतीतिवाला होता है, वह आप्त कहलाता है । आप्तोंमें जो मुख्य अर्थात् श्रेष्ठ हो, वह आप्तमुख्य कहा जाता है और विसंवादरहित वचनके धारक होनेसे भगवान् समस्त जीवोंके विश्वासके स्थान है इसी कारण आप्तमुख्य है । तथा आप्तमुख्य है, इसी कारण भगवान् वाधारहित सिद्धान्तके धारक है । क्योंकि, ज्ञानद्वारा जिस प्रकारसे स्थित पदार्थोंको देखे है, उसी प्रकारसे कहनेवाला जो सिद्धान्त है, वह अन्य कुमतावलम्बियोंसे बाधित नहीं हो सकता है । एव भगवान् स्वयंभू है, इसीलिये देवोंसे पूज्य है । क्योंकि भगवान् तीन जगत्से भिन्न लक्षणका धारक जो स्वयंसंबुद्धत्व (स्वयं ज्ञानको प्राप्त होनेरूप) गुण है, उससे ही सौधर्मैन्द्र आदि देवोंद्वारा पूजे जाते हैं ॥

अत्र च श्रीवर्द्धमानमिति विशेषणतया यद्व्याख्यातं तदयोगव्यवच्छेदाभिधानप्रथमद्वित्रिंशिकाप्रथमकाव्यत-

तीयपादवर्त्तमानम् । 'श्रीवर्द्धमानाभिधमात्मरूपम्' इति विशेष्यमनुवर्त्तमानं बुद्धौ संप्रथार्यं विज्ञेयम् । तत्र हि आत्मरूपमितिविशेष्यपदम् । प्रकृष्ट आत्मा आत्मरूपस्तं परमात्मानमिति यावत् । आवृत्त्या वा विशेषणमपि विशेष्यतया व्याख्येयमिति प्रथमवृत्तार्थः ॥ १ ॥

इस श्लोकमें जो 'श्रीवर्द्धमानं' इस पदका विशेषणरूपसे व्याख्यान किया गया है, वह अयोगव्यवच्छेद नामकी धारक जो प्रथम द्वात्रिंशतिका (पहली वत्तीसी) है, उसके प्रथमकाव्यके तीसरे चरणमें विद्यमान 'श्रीवर्द्धमानाभिधमात्मरूपम्' इस विशेष्यको अपनी बुद्धिमें चला आता हुआ समझकर जानना चाहिये । वहांपर 'आत्मरूपं' यह विशेष्यपद है । प्रकृष्ट अर्थात् उत्तम आत्मा जो हो, वह आत्मरूप अर्थात् परमात्मा है, उसको । अथवा पुनः आवृत्ति करके अर्थात् 'श्रीवर्द्धमानं' इस पदको पहले विशेषणमें लेकरके, फिर विशेष्यरूपसे ग्रहण करके व्याख्यान करना चाहिये । इसप्रकार प्रथम काव्यका अर्थ है ॥ १ ॥

अस्यां च स्तुतावन्ययोगव्यवच्छेदोऽधिकृतस्तस्य च तीर्थान्तरीयपरिकल्पिततत्त्वाभासनिरासेन तेषामाप्तत्वव्यवच्छेदः स्वरूपम् । तच्च भगवतो यथाऽवस्थितवस्तुतत्त्ववादित्वख्यापनैव प्रामाण्यमश्नुते । अतःस्तुतिकारस्त्रिजगद्गुरोर्निःशेषगुणस्तुतिश्रद्धालुरपि सद्भूतवस्तुवादित्वाख्यं गुणविशेषमेव वर्णयितुमात्मनोऽभिप्रायमाविष्कुर्वन्नाह ।

इस स्तुतिमें अन्ययोगव्यवच्छेद अर्थात् दूसरोंके संबंधको भिन्न करना लिया गया है और उसका 'अन्यमतियों करके कल्पना किये हुए जो तत्त्वाभास है, उनका खंडन करके, उन अन्यमतियोंको आप्तसे भिन्न करना' यह स्वरूप है । और वह भगवान्के वस्तुका स्वरूप जैसा स्थित है, वैसा कहनेवाले गुणका धारकपना प्रसिद्ध करनेसे ही प्रमाणताको प्राप्त होता है । इसकारण स्तुतिके कर्त्ता आचार्य यद्यपि तीन जगत्के गुरु श्रीभगवान्के समस्त गुणोंकी स्तुति करनेमें भक्ति रखते हैं, तौ भी यथास्थितपदार्थोंको कहनेरूप जो एक गुण है, उसीका वर्णन करनेके लिये अपने अभिप्रायको प्रकट करते हुए अग्रिम काव्यका कथन करते हैं ॥

अयं जनो नाथ तव स्तवाय गुणान्तरेभ्यः स्पृहयालुरेव ।
विगाहतां किन्तु यथार्थवादमेकं परीक्षाविधिदुर्विदग्धः ॥ २ ॥

काव्यभावार्थः— हे नाथ ! परीक्षा करनेमें दुर्विदग्ध अर्थात् अपनेको पंडितके समान माननेवाला यह मैं (प्रत्यक्षीभूत हेमचंद्र नामक आचार्य) आपके अन्य गुणोंकी स्तुति करनेके अर्थ इच्छावान् ही हूं । परन्तु एक यथार्थवादानामक गुणको ही स्तुतिसे व्यास करता हूं ॥ २ ॥

व्याख्या । हे नाथ अयं मल्लक्षणो जनस्तव गुणान्तरेभ्यो यथार्थवादव्यतिरिक्तेभ्योऽनन्यसाधारणशारीर-
लक्षणादिभ्यः स्पृहयालुरेव श्रद्धालुरेव । किमर्थं स्तवाय स्तुतिकरणाय । इयं तादर्थ्यं चतुर्थी पूर्वत्र तु स्पृहेव्याप्यं
वेति लक्षणा । तव गुणान्तराण्यपि स्तोतुं स्पृहावानयं जन इति भावः । ननु यदि गुणान्तरस्तुतावपि स्पृह-
यालुता तत्किमर्थं तत्रोपेक्षेत्याशङ्क्योत्तरार्द्धमाह । किंत्वित्यभ्युपगमपूर्वकविशेषद्योतने निपातः । एकमेकमेव
यथार्थवादं यथावस्थितवस्तुतत्त्वप्रख्यापनाख्यं त्वदीयं गुणमयं जनो विगाहतां स्तुतिक्रिया समन्ताद् व्याप्तोतु
तस्मिन्नेकस्मिन्नपि हि गुणे वर्णिते तन्नान्तरीयदैवतेभ्यो वैशिष्ट्यख्यापनद्वारेण वस्तुतः सर्वगुणस्तवनसिद्धेः ॥

व्याख्यार्थः— ‘नाथ’ भो स्वामिन् ? ‘अयं’ यह ‘जनः’ हेमचन्द्र नामक मनुष्य ‘तव’ आपके ‘गुणान्तरेभ्यः’
यथार्थवादसे भिन्न और अन्य देवोंमें नहीं रहेवाले शरीरलक्षण आदि जो गुण है, उनको ‘स्तवाय’ स्तुतिगोचर करनेके अर्थ
अर्थात् स्तुतिमें लानेके लिये ‘स्पृहयालु एव’ अभिलाषा (इच्छा) का धारक ही है [‘स्तवाय’ यहां तादर्थ्यमें चतुर्थी विभक्ति है
और ‘गुणान्तरेभ्यः’ यहांपर “स्पृहेव्याप्यं वा” इस सूत्रसे स्पृह धातुके कर्ममें विकल्पसे चतुर्थी विभक्ति है] भावार्थ—यह मैं आपके
अन्य गुणोंकी स्तुति करनेके अर्थ भी इच्छा रखता ही हूं । ‘जो अन्यगुणोंकी स्तुति करनेमें भी इच्छा है तो उन गुणोंकी स्तुति करनेमें
अनादर क्यों है ?’ इसप्रकार आशका करके आचार्य उत्तरार्द्धको कहते हैं । ‘किन्तु’ किन्तु (वल्कि) [किन्तु यह स्वीकार किये

१ खपुस्तके— तत्किन्तान्यपि स्तोष्यति स उत नेत्याशङ्क्योत्तरार्द्धमाह । इति पाठः ।

हुएमें विशेषता जनानेके अर्थमें निपात है] 'एकम्' एक ही 'यथार्थवादम्' 'वस्तुके यथास्थित स्वरूपको कहनेवाला' इस नामका धारक जो आपका गुण है उसीको यह मनुष्य 'विगाहतां' स्तुतिरूप क्रियासे सर्वतः व्याप्त करो । क्योंकि, उस यथार्थवादित्वनामक एक ही गुणका वर्णन किये जानेपर अन्यमतके देवोसे विशिष्टताका कथन हो जायगा । जिसके कि द्वारा वास्तवमें सपूर्ण गुणोंके स्तोत्रकी सिद्धि हो जावैगी ॥

अथ प्रस्तुतगुणस्तुतिः सम्यक्परीक्षाक्षमाणां दिव्यदर्शमेवौचितीमञ्चति नाऽर्वागहशां भवाद्दशामित्याशङ्कां विशेषणद्वारेण निराकरोति । यतोऽयं जनः परीक्षाविधिदुर्विदग्धः अधिकृतगुणविशेषपरीक्षणविधौ दुर्विदग्धः पण्डितं मन्य इति यावत् । अयमाशयो यद्यपि जगद्गुरोर्यथार्थवादित्वगुणपरीक्षणं माहशां मतेरगोचरस्तथापि भक्तिश्रद्धातिशयात् तस्यामहमात्मानं विदग्धमिव मन्य इति । विशुद्धश्रद्धाभक्तिव्यक्तिमात्रस्वरूपत्वात्स्तुतेः । इति वृत्तार्थः ॥ २ ॥

अब 'यथार्थवादित्व नामक जो गुण है, उसकी स्तुति करना उत्तमरीतिसे परीक्षा करनेमें समर्थ जो दिव्यज्ञानके धारक मुनीश्वर है, उनके ही योग्य है और तुम जैसे छद्मस्थोंके, उस गुणकी स्तुति करनेकी योग्यता नहीं है ।' इसप्रकार जो किसीकी आशंका है, उसको विशेषणद्वारा दूर करते हुए आचार्य कहते हैं । क्योंकि, यह मैं (हेमचन्द्र) 'परीक्षाविधिदुर्विदग्धः' इस यथार्थवादित्वनामक गुणकी परीक्षा करनेमें दुर्विदग्ध हूँ अर्थात् अपनेको पंडित मानता हूँ । भावार्थ—ग्रह है कि, यद्यपि तीनजगत्के गुरु श्रीजिनेन्द्रके यथार्थवादित्व गुणकी परीक्षा करना मेरे जैसोंकी बुद्धिका विषय नहीं है, तथापि भक्ति और श्रद्धाके प्रभावसे उस परीक्षा करनेमें मैं मुझको चतुरकी समान मानता हूँ । क्योंकि, निर्मल श्रद्धा और भक्तिकी जो प्रकटता है, वही स्तुतिका स्वरूप है । इसप्रकार दूसरे काव्यका अर्थ है ॥ २ ॥

अथ ये कुतीर्थ्याः कुशास्त्रवासनावासित्वान्ततया त्रिभुवनस्वामिनं स्वामित्वेन न प्रतिपन्नास्तानपि तत्त्वविचारणां प्रति शिक्षयन्नाह ।

अब जो कुमतावलम्बी कुशाखोंकी गंधसे वासको प्राप्त हुए चित्तसे तीन लोकके स्वामी श्रीजिनेन्द्रको स्वामी नहीं मानते है, उनको भी तत्त्वोंका विचार करनेके लिये शिक्षा देते हुए आचार्य इस अग्रिम काव्यका कथन करते है ॥—

**गुणेष्वसूयां दधतः परेऽमी मा शिश्रियन्नाम भवन्तमीशम् ।
तथापि सम्मील्य विलोचनानि विचारयन्तां नयवर्त्म सत्यम् ॥ ३ ॥**

काव्यभावार्थः—हे नाथ ! यद्यपि गुणोंमें ईर्ष्याको धारण करनेवाले ये कुमतावलम्बी आपको स्वामी न मानें, तथापि नेत्रोंको मीच करके सच्चे न्यायमार्गका विचार करें ॥ ३ ॥

अमी इति । 'अदसस्तु विप्रकृष्टे' इति वचनात्तत्त्वात्त्वविमर्शबाह्यतया दूरीकरणार्हत्त्वाद्भिप्रकृष्टाः परे कुती-
र्थिका भवन्तं त्वामनन्यसामान्यसकलगुणनिलयमपि मा ईशं शिश्रियन् मा स्वामित्वेन प्रतिपद्यन्ताम् । यतो
गुणेष्वसूयां दधतो गुणेषु बद्धमत्सराः । गुणेषु दोषाविष्करणं ह्यसूया । यो हि यत्र मत्सरीभवति स तदाश्रयं
नानुरुध्यते । यथा माधुर्यमत्सरी करभः पुण्ड्रेक्षुकाण्डम् । गुणाश्रयश्च भवान् । एवं परतीर्थिकानां भगवदाज्ञाप्र-
तिपत्तिं प्रतिषिध्य स्तुतिकारो माध्यस्थ्यमिवास्थाय तान् प्रति हितशिक्षामुत्तरार्द्धेनोपदिशति । तथापि त्वदाज्ञाप्र-
तिपत्तेरभावेऽपि लोचनानि नेत्राणि सम्मील्य मिलितपुटीकृत्य सत्यं युक्तियुक्तं नयवर्त्म न्यायमार्गं विचारयन्तां
विमर्शविषयीकुर्वन्तु ।

व्याख्यार्थः—'अमी' ('अदस्' शब्दका दूरवर्ती पदार्थको प्रकट करनेके लिये प्रयोग होता है ' इस वचनसे) तत्त्व और
अतत्त्वेक विचारसे रहित होनेके कारण दूर रखने योग्य ' परे ' कुमतावलम्बी ' भवन्तं ' अन्य देवोंमें नहीं रहनेवाले ऐसे संपूर्ण
गुणोंके स्थान आपको ' नाम ' भी ' ईशं ' स्वामी ' मा ' मत ' शिश्रियन् ' स्वीकार करो । क्योंकि, वे ' गुणेषु ' गुणोंमें
' असूयां ' ईर्ष्याको ' दधतः ' धारण करनेवाले हैं, अर्थात् गुणोंमें ईर्ष्या रखते है । भावार्थ—गुणोंमें दोषोंको प्रकट करना ही

असूया (ईर्ष्या) है । जो जिस गुणमें ईर्ष्याको धारण करता है, वह उस गुणके धारकको भी नहीं स्वीकार करता है । जैसे ऊंट मधुर (मीठे) रसमें ईर्ष्याको रखता है, इस कारण वह मधुर रसके धारक पौंडे सांठोंके समूहको भी नहीं ग्रहण करता है । इसी प्रकार गुणोंमें ईर्ष्याके धारक वे कुवादी गुणोंको धारण करनेवाले आपको भी नहीं मानते हैं । इसप्रकार ' परमतावलम्बी भगवान्की आज्ञा नहीं मानते हैं ' यह कहकर, स्तुतिकर्ता आचार्य एकवार उनमें मध्यस्थता (उदासीनपने) को ही मानों धारण करके, फिर भी उनको काव्यके उत्तरार्द्धसे हितका उपदेश देते हैं । ' तथापि ' आपकी आज्ञाको स्वीकार न करने पर भी ' विलोचनानि ' नेत्रोंको ' सम्मील्य ' बंद (मीच) करके ' सत्यं ' युक्तियों सहित ' नयवर्त्म ' न्यायके मार्गको ' विचारयन्ताम् ' विचारो ।

अत्र च विचारयन्तामित्यात्मनेपदेन फलवत्कर्तृविषयेणैवं ज्ञापयत्याचार्यो यदवितथनयथविचारणया तेषामेव फलं वयं केवलमुपदेशारः । किं तत्फलमिति चेत्येक्षावचेति ब्रूमः । सम्मील्य विलोचनानीति च वदतः प्रायस्तत्त्वविचारणमेकाग्रताहेतुनयननिमीलनपूर्वकं लोके प्रसिद्धमित्यभिप्रायः । अथवा अयमुपदेशस्तेभ्योऽरोचमान एवाचार्येण वितीर्यते । ततोऽस्वदमानोऽप्यथं कटुकौषधपानन्थायेनायतिसुखत्वाद्भवद्भिर्नेत्रे निमील्य पेय एवेत्याकृतम् ।

' विचारयन्ताम् ' यहांपर कर्ताके विषे फलको धारण करनेवाले आत्मनेपदका प्रयोग करनेसे आचार्य ' सच्चे न्यायमार्गका विचार करनेसे उनको ही फल होगा, हमको नहीं । क्योंकि हम तो केवल उपदेश देनेवाले हैं ' ऐसा अभिप्राय विदित करते हैं । सच्चे न्यायमार्गका विचार करनेसे उनको क्या फल होगा ? यह पूछो तो हम उत्तर देते हैं कि, ' वे प्रेक्षवान् (विचार करके काम करनेवाले) कहलाये जावेंगे ' यही उनको फल होगा । ' सम्मील्य विलोचनानि ' ऐसा कहते हुए आचार्य यह अभिप्राय सूचित करते हैं कि, चित्तकी एकाग्रताका कारणभूत जो नेत्रोंको बंद करना है, उस पूर्वक तत्त्वोंका विचार किया जाता है ' ऐसा प्रायः लोकमें प्रसिद्ध है । इसलिये वे अन्यमती भी नेत्र बंद करके, सावधान होकर सच्चे न्यायमार्गका विचार करें । अथवा आचार्य यह उपदेश, उनको नहीं रुचता हुआ ही देते हैं । इसकारण नहीं रुचता हुआ भी यह उपदेश आगामी कालमें सुखरूप होनेके कारण कटुकौषधपानन्यायसे उनको नेत्र बंद करके पी जाना ही चाहिये यह आशय है । भावार्थ—जैसे वैद्य रोगीको रोग दूर करनेके लिये कड़वी औषध देते हैं ।

और रोगी उस कड़वी औषधको अपने आराम होनेके लिये नेत्र बंद करके पी जाता है। वैसे ही यद्यपि वर्तमानमें यह उपदेश उनको अच्छा नहीं लगेगा। तथापि भविष्यमें सुख देनेवाला है, इसलिये इस उपदेशपर उनको नेत्रबंद करके विचार करना ही चाहिये। ननु च यदि पारमेश्वरे वचसि तेषामविवेकातिरोचकित्वा तत्किमर्थं तान्प्रत्युपदेशकलेश इति। नैवं। परोपकारसारप्रवृत्तीनां महात्मनां प्रतिपाद्यगतां रुचिमरुचिं वानपेक्ष्य हितोपदेशप्रवृत्तिदर्शनात्। तेषां हि पारार्थस्यैव स्वार्थत्वेनाभिमत्तत्वात्। न च हितोपदेशादपरः पारमार्थिकः परार्थः। तथा चार्थम्।—“रूसड वा परो मा वा विसं वा परियत्तड ॥ भासियब्वा हिया भासा सपवखगुणकारिया। १।” उवाच च वाचकमुख्यः—“न भवति धर्मः श्रोतुः सर्वस्यैकान्ततो हितश्रवणात् ॥ ब्रुवतोऽनुग्रहबुद्ध्या वक्तुस्त्वेकान्ततो भवति। १। इति वृत्तार्थः।

शंका—यदि अज्ञानकी अधिकतासे उनको अर्हन्त परमेश्वरके वचनमें अरुचि है, तो आप उनके प्रति उपदेश देनेका परिश्रम किसलिये करते है? समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि, अन्यका उपकार करना ही है सारभूत वर्त्तीय जिनके, ऐसे जो महात्मा है, वे शिष्यकी रुचि अथवा अरुचिकी अपेक्षा न करके ही हितरूप उपदेशके देनेमें प्रवृत्ति करते है, ऐसा देखा जाता है। क्योंकि, वे परार्थ (परोपकार) ही को स्वार्थरूप मानते है। और परमार्थसे (वास्तवमें) हितोपदेशके सिवाय दूसरा कोई परोपकार नहीं है। इस विषयमें ऋषियोंका वाक्य भी है कि, “ जिसको उपदेश दिया जावे वह रोष करे अथवा न करे, वा चाहे वह उस उपदेशको विषरूप समझे। परन्तु ऐसे ही वचन बोलने चाहिये जो कि निजपक्षको गुण करें अर्थात् जिसमें अपना हित हो, वैसा ही उपदेश देना चाहिये, १। ” और वाचकमुख्य (श्रीउमास्वातिजी) भी कहते है कि—“ हितरूप उपदेशके श्रवण करनेसे संपूर्ण श्रोताओंको धर्म होवै ही, ऐसा एकान्त अर्थात् निश्चय नहीं है, परन्तु अनुग्रह बुद्धिसे जो हितोपदेशका कहनेवाला है उसको तो नियमसे धर्म होता ही है। १। ” इस प्रकार तृतीय काव्यका अर्थ है ॥ ३ ॥

अथ यथावन्नयवर्त्मविचारमेव प्रपञ्चयितुं पराभिप्रेततत्त्वानां प्रामाण्यं निराकुर्वन्नादितस्तावत्काव्यषट्केनौलूक्यमताभिमत्ततत्त्वानि दूषयितुकामस्तदन्तःपातिनौ प्रथमतः सामान्यविशेषौ दूषयन्नाह ॥

१ शिष्यविषयां। २ वानवेक्ष्य इत्यपिपाठः। ३ रुषतु वा परो मा वा, विप वा पर्यटतु। भाषितव्या हिता भाषा, स्वपक्षगुणकारिका। १। इतिच्छाया. ४ उमास्वातिरिति।

अब यथार्थ नयमार्गके विचारका ही विस्तार करनेके लिये परमतियोंके माने हुए तत्त्वोंकी प्रमाणताको दूर करते हुए और प्रथम ही ६ काव्योंद्वारा वैशेषिकमतके तत्त्वोंको दूषित करनेकी इच्छा रखते हुए आचार्य सबसे प्रथम उन वैशेषिकतत्त्वोंके मध्यमें गिरनेवाले जो सामान्य और विशेष नामक दो पदार्थ हैं उनको दूषित करनेके लिये इस अग्रिम काव्यका कथन करते हैं ॥—

स्वतोऽनुवृत्तिव्यतिवृत्तिभाजो भावा न भावान्तरनेयरूपाः ।

परात्मतत्त्वादतथात्मतत्त्वाद्भयं वदन्तोऽकुशलाः स्वलन्ति ॥ ४ ॥

काव्यभावार्थः—पदार्थ अपने आप ही अनुवृत्ति तथा व्यतिवृत्तिको धारण करते हैं । उनका स्वरूप अन्य किसी पदार्थसे प्रतीत होने योग्य नहीं है । इसकारण जो अकुशलवादी असत्यस्वरूप और पदार्थसे भिन्न ऐसे सामान्य तथा विशेषसे अनुवृत्ति (सामान्य) और व्यतिवृत्ति (विशेष) प्रत्ययका कथन करते हैं वे पतनको प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

व्याख्या । अभवन् भवन्ति भविष्यन्ति चेति भावाः पदार्था आत्मपुद्गलादयस्ते स्वत इति । सर्वं हि वाक्यं सावधारणसामनन्तीति स्वत एवात्मीयस्वरूपादेवानुवृत्तिव्यतिवृत्तिभाजः । एकाकारा प्रतीतिरेकशब्दवाच्यता चानुवृत्तिः, व्यतिवृत्तिर्व्यावृत्तिर्विजातीयेभ्यः सर्वथा व्यवच्छेदस्ते उभे अपि संवलिते भजन्ते आश्रयन्तीति अनुवृत्तिव्यतिवृत्तिभाजः सामान्यविशेषोभयात्मका इत्यर्थः ।

व्याख्यार्थः—‘ भावाः ’ जो हो चुके, हो रहे हैं और होंगे, वे भाव अर्थात् आत्मा, पुद्गल आदि पदार्थ हैं । वे ‘ स्वतःएव ’ [यहां आचार्य सब वाक्योंको एवकारसहित कहते हैं, इसकारण एवका अध्याहार किया गया है] अपने आप ही ‘ अनुवृत्तिव्यतिवृत्तिभाजः ’ एक आकारवाली प्रतीति और एक शब्दसे कहने योग्यता जो है, उसको अनुवृत्ति (सामान्य)

कहते हैं, और विजातीय पदार्थोंसे जो सर्वथा जुदापना है, उसको व्यतिवृत्ति (विशेष) कहते हैं। मिले हुए इन दोनोंको भी जो धारण करें, वे अनुवृत्तिव्यत्तिवृत्तिभाज है। अर्थात् सामान्य तथा विशेष इन दोनों स्वरूप है।

अस्यैवार्थस्य व्यतिरेकमाह। न भावान्तरनेयरूपा इति। नेति निषेधे। भावान्तराभ्यां पराभिमताभ्यां द्रव्यगुणकर्मसमवायंभ्यः पदार्थान्तराभ्यां भावव्यतिरिक्तसामान्यविशेषाभ्यां नेयं प्रतीतिविषयं प्रापणीयं रूपं यथासंख्यमनुवृत्तिव्यत्तिलक्षणं स्वरूपं येषां ते तथोक्ताः। स्वभाव एव ह्ययं सर्वभावानां यदनुवृत्तिव्यावृत्तिप्रत्ययौ स्वत एव जनयन्ति। तथा हि घट एव तावत्पृथुबुधोदराद्याकारवान् प्रतीतिविषयीभवन् सन्नन्यानपि तदाकृतिभृतः पदार्थान् घटरूपतया घटैकशब्दवाच्यतया च प्रत्याययन् सामान्याख्यां लभते। स एव चेतरेभ्यः सजातीयविजातीयेभ्यो द्रव्यक्षेत्रकालभावैरात्मानं व्यावर्तयन् विशेषव्यपदेशमश्रुते। इति न सामान्यविशेषयोः पृथक्पदार्थान्तरत्वकल्पनं न्याय्यम्। पदार्थधर्मत्वेनैव तयोः प्रतीयमानत्वात्। न च धर्म्मा धर्मिणः सकाशादत्यन्तं व्यतिरिक्ताः। एकान्तभेदे विशेषणविशेष्यभावाऽनुपपत्तेः। करभरासभयोरिव धर्मधर्मिभ्यव्यपदेशाऽभावप्रसङ्गाच्च। धर्म्माणामपि च पृथक्पदार्थान्तरत्वकल्पने एकस्मिन्नेव वस्तुनि पदार्थाननत्यप्रसङ्गः। अनन्तधर्मकत्वाद्दस्तुनः।

अब इसी अर्थके व्यतिरेकका कथन करते हैं। 'न भावान्तरनेयरूपाः' [यहां 'न' निषेध अर्थमें है] पदार्थ वैशेषिकोंके माने हुए जो द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय नामक पदार्थ हैं, उनसे भिन्न जो सामान्य तथा विशेष है, उन करके नेय अर्थात् प्रतीतिके गोचर करने योग्य है स्वरूप जिनका, ऐसे नहीं है। क्योंकि सब पदार्थोंका यह स्वभाव ही है कि, वे अनुवृत्ति और व्यतिवृत्ति प्रत्ययको स्वयं ही उत्पन्न करते हैं। सो ही दिखलते हैं कि, जैसे पृथु (मोटे) और बुध (गोल) ऐसे उदर (पेट) आदिके आकारको धारण करनेवाला घडा जब प्रथम ही प्रतीत होता है, तब अपने जैसे आकारको धारण करनेवाले जो अन्य (दूसरे) पदार्थ हैं, उनको भी घट रूपतासे और 'घट' इस एकशब्दवाच्यतासे विदित करता हुआ 'सामान्य' इस नामको धारण करता है। और वही घडा अपनी जातिवाले जो दूसरे घट हैं, उनसे तथा अपनी जातिसे भिन्न जो पट आदि हैं, उनसे द्रव्य, क्षेत्र, काल

और भावद्वारा अपनेको जुदा करता हुआ ' विशेष ' इस नामको धारण करता है। इस कारण तुमने जो सामान्य और विशेषको पदार्थसे भिन्न पदार्थ माने है, सो न्याय (उचित) नहीं है। क्योंकि वे दोनों अन्य पदार्थके धर्मरूप ही प्रतीत होते है। और धर्मसे धर्म अत्यन्त भिन्न नहीं है। क्योंकि, यदि धर्म और धर्मके सर्वथा भेद मान लिया जावे तो ' यह विशेषण है और यह विशेष्य है' इस प्रकारका जो विशेषणविशेष्यभाव संबन्ध है, उसकी सिद्धि न होगी। और जैसे ऊंट और गर्दभ (गधे) में अत्यन्त भिन्नताके कारण धर्मधर्मभाव सम्बन्ध नहीं हो सकता है, उसी प्रकार पदार्थमें भी अत्यन्त भिन्नताके कारण धर्मधर्मभाव न होगा; अर्थात् यह पदार्थ इन धर्मोंका धर्म है, और यह धर्म (पदार्थ) इन धर्मोंको धारण करनेवाला है, इस प्रकारका जो व्यवहार है, उसके अभावका प्रसंग होगा। तथा यदि धर्मोंको भी भिन्न पदार्थ मानोगे तो, एक ही वस्तुमें अनन्त पदार्थ माननेका प्रसंग होगा। क्योंकि, वस्तु अनन्त धर्मोंका धारक है।

तदेवं सामान्यविशेष्योः स्वतत्त्वं यथावदनुभवबुध्यमाना अकुशला अतत्त्वाभिनिविष्टदृष्टयस्तीर्थान्तरीयाः स्खलन्ति न्यायमार्गाद्भ्रश्यन्ति निरुत्तरीभवन्तीत्यर्थः। स्खलनेन चात्र प्रामाणिकजनोपहसनीयता ध्वन्यते। किं कुर्वाणाः इयं अनुवृत्तिव्यावृत्तिलक्षणं प्रत्ययद्वयं वदन्तः। कस्मादेतत्प्रत्ययद्वयं वदन्त इत्याह—परात्मतत्त्वात्परौ पदार्थेभ्यो व्यतिरिक्तत्वादन्यौ परस्परनिरपेक्षौ च यौ सामान्यविशेषौ तयोर्यदात्मतत्त्वं स्वरूपमनुवृत्तिव्यावृत्तिलक्षणं तस्मात्तदाश्रित्येत्यर्थः। ' गम्ययपः कर्माधारे ' इत्यनेन पञ्चमी। कथंभूतात्परात्मतत्त्वादित्याह। अतथात्मतत्त्वात्। माभूत्पराभिमतस्य परात्मतत्त्वस्य सत्यरूपेति विशेषणमिदम्। यथा येनैकान्तभेदलक्षणेन प्रकारेण परैः प्रकल्पितं न तथा तेन प्रकारेणात्मतत्त्वं स्वरूपं यस्य तत्तथा तस्मात्। यतः पदार्थेष्वविविधत्वभावेन सामान्यविशेषौ वर्त्तते। तैश्च तौ तेभ्यः परत्वेन कल्पितौ परत्वं चान्यत्वं तच्चैकान्तभेदाऽविनाभावि।

सो इसप्रकार सामान्य और विशेषके स्वरूपको यथावत् (जैसा है वैसा) नहीं समझते हुए ' अकुशलाः ' अतत्त्वको तत्त्व माननेमें दुराग्रहरूप है दृष्टि (बुद्धि) जिनकी ऐसे, अन्यमती ' स्खलन्ति ' न्यायके मार्गसे गिरते है अर्थात् उत्तररहित होते

है । [यहापर ' स्वलन ' इसके कहनेसे ' प्रामाणिक जनोंसे हंसे जाते है ' यह अर्थ ध्वनित होता है] । क्या करते हुए स्वलित होते है ' द्रयं ' अनुवृत्ति और व्यावृत्तिरूप लक्षणके धारक जो दो प्रत्यय है, उनको ' वदन्तः ' कहते हुए स्वलित होते है । किससे इन दो प्रत्ययोंको कहते हुए स्वलित होते है ? इस आशंकामें कहते है कि ' परात्मतत्त्वात् ' पदार्थोंसे भिन्न होनेके कारण अन्य और आपसमें एक दूसरेकी अपेक्षा (जरूरत) को नहीं धारण करनेवाले ऐसे जो सामान्य और विशेष है, उनका जो आत्मतत्त्व अर्थात् अनुवृत्ति तथा व्यावृत्तिरूप स्वरूप है, उससे अर्थात् उसका आश्रय करके [यहापर ' गम्ययपःकर्माधारे ' इस सूत्रसे पंचमी विभक्ति हुई है] कैसे परात्मतत्त्वसे ? इस आशंकापर कहते है ' अतथात्मतत्त्वात् ' [अन्य मत्तियोंद्वारा माना हुआ जो परात्मतत्त्व है वह सत्य न हो इसलिये यह विशेषण दिया गया है] जिस एकान्तभेदरूप लक्षणके धारक प्रकारसे वैशेषिकोंने माना है, उस प्रकार नहीं है स्वरूप जिसका ऐसे परात्मतत्त्वसे । क्योंकि, सामान्य तथा विशेष ये दोनों पदार्थोंमें व्याप्त होकर स्थित है और वैशेषिकोंने इन दोनोंको पदार्थोंसे पर (जुदे) माने है । परका अर्थ अन्य है और वह अन्यपना सर्वथा भेद माने बिना नहीं हो सकता है ।

किञ्च पदार्थेभ्यः सामान्यविशेषयोरैकान्तभिन्नत्वे स्वीक्रियमाणे एकवस्तुविषयं अनुवृत्तिव्यावृत्तिरूपं प्रत्यय-
द्वयं नोपपद्येत । एकान्ताभेदे चान्यतरस्यासत्त्वप्रसङ्गः, सामान्यविशेषव्यवहाराऽभावश्च स्यात् सामान्यविशेषो-
भयात्मकत्वेनैव वस्तुनः प्रमाणेन प्रतीतेः । परस्परनिरपेक्षपक्षस्तु पुरस्ताद्भिर्लोठयिष्यते । अत एव तेषां वादिनां
स्वलनक्रियोपहसनीयत्वमभिव्यज्यते । यो ह्यन्यथा स्थितं वस्तुस्वरूपमन्यथैव प्रतिपद्यमानः परेभ्यश्च तथैव
प्रज्ञापयन् स्वयं नष्टः परान्नाशयति न खलु तस्मादन्य उपहासपात्रम् । इति वृत्तार्थः ॥ ४ ॥

और यह भी विशेष है कि, यदि पदार्थोंसे सामान्य और विशेषके सर्वथा भेद मानलिया जावे, तो एक वस्तुमें विषयके धारक अनुवृत्ति और व्यावृत्तिरूप दो प्रत्यय सिद्ध न होंगे । तथा यदि सर्वथा अभेद मानें तो दोनोंमेंसे किसी एकके अभावका प्रसंग आवै, और सामान्यविशेषरूप जो व्यवहार है, उसका भी अभाव होवै । क्योंकि, प्रमाणद्वारा सामान्य तथा विशेष इन दोनों रूपतासे ही वस्तुकी प्रतीति होती है अर्थात् सामान्य-विशेष स्वरूप ही पदार्थ प्रमाणसे जाना जाता है । [सामान्य और विशेष ये दोनों परस्पर अपेक्षा

रहित है, यह पक्ष जो कह आये है, इसका खंडन आगे करेंगे] इसी लिये उन वादियोंके रखलन क्रियासे हास्यकी योग्यता प्रकट की जाती है । क्योंकि, जो अन्य प्रकारसे स्थित वस्तुके स्वरूपको आप अन्य प्रकारसे मानता है और अन्य पुरुषोंको भी उसी प्रकार समझता है, वह आप नाशको प्राप्त होकर दूसरोंका भी नाश करता है । इसलिये निश्चयकर उसके सिवाय कोई दूसरा हास्यका पात्र नहीं है । इसप्रकार काव्यका अर्थ है ॥ ४ ॥

अथ तदभिमतवकान्तनित्यानित्यपक्षौ दूषयन्नाह ।

अब वैशेषिकमतवालोंके अभीष्ट जो एकान्त नित्य और एकान्त अनित्य पक्ष हैं, उन दोनों एकान्तपक्षोंमें दोष देते हुए आचार्ये अग्निम काव्यका कथन करते हैं ॥—

आदीपमाव्योम समस्वभावं स्याद्वाद्मुद्रानतिभेदि वस्तु ।
तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदिति त्वदाज्ञाद्विषतां प्रलापाः ॥ ५ ॥

काव्यभावार्थः—दीपकसे लेकर आकाश पर्यन्त अर्थात् समस्त ही पदार्थ समान स्वभावके धारक हैं । क्योंकि, सब ही पदार्थ स्याद्वाद्की मर्यादाका उल्लंघन नहीं करते हैं । तथापि उनमें दीपक आदि कितने ही पदार्थ सर्वथा अनित्य हैं और आकाश आदि कितने ही पदार्थ सर्वथा नित्य हैं । इस प्रकार आपकी आज्ञासे द्वेष रखनेवालोंके अर्थात् वैशेषिक मतवालोंके प्रलाप हैं ॥ ५ ॥

व्याख्या । आदीपं दीपादारभ्य आव्योम व्योम मर्यादीकृत्य सर्वं वस्तु पदार्थस्वरूपं समस्वभावं समस्तुल्यः स्वभावः स्वरूपं यस्य तत्तथा । किञ्च-वस्तुनः स्वरूपं द्रव्यपर्यायात्मकत्वमिति ब्रूमः । तथा च वाचकमुल्यः—“उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्” इति । समस्वभावत्वं कुत इति विशेषणद्वारेण हेतुमाह । स्याद्वाद्मुद्राऽनतिभेदि स्यादित्यव्ययमनेकान्तद्योतकम् । ततः स्याद्वाद्दोऽनेकान्तवादो नित्यानित्याद्यनेकधर्मशबलैकवस्त्वभ्युपगम इति यावत् । तस्य मुद्रा मर्यादा तां नाऽतिभिनत्ति नातिक्रामतीति स्याद्वाद्मुद्रानतिभेदि । यथा हि न्यायैकनिष्ठे

राजनि राज्यश्रियं शासति सति सर्वाः प्रजास्तन्मुद्रां नातिवर्त्तितुमीशते । तदतिक्रमे तासां सर्वार्थहानिभावात् । एवं विजयिनि निष्कण्टके स्याद्वादमहानरेन्द्रे तदीयमुद्रां सर्वेऽपि पदार्था नातिक्रामन्ति । तदुल्लङ्घने तेषां स्वरूप्यवस्थाहानिप्रसक्तेः ॥

व्याख्यार्थः—‘आदीपं’ दीपकसे लेकर ‘आव्योम’ आकाशपर्यन्त ‘वस्तु’ सब पदार्थोंका स्वरूप ‘समस्वभावं’ समान (एकसे) स्वभाववाला है । किंच हम ‘वस्तुका स्वरूप द्रव्य और पर्यायरूप है’ ऐसा कहते हैं । और वाचकमुख्य (श्रीउमास्वाति) ने भी “जो उत्पाद (उत्पत्ति) व्यय (नाश) तथा श्रौव्य (नित्यता) से युक्त है, वह सत् (वस्तु) है” इसी प्रकार वस्तुका लक्षण कहा है । सब वस्तु समान स्वभावका धारक कैसे है ? इस आशंकामें विशेषण द्वारा हेतुका कथन करते हैं । ‘स्याद्वाद-मुद्रानतिभेदि’ ‘स्यात्’ यह अनेकान्तको सूचित करनेवाला अव्यय है । इस कारण स्याद्वादका अर्थ अनेकान्तवाद अर्थात् नित्य, अनित्य आदि अनेक धर्मोंके धारक एक वस्तुका स्वीकार करना है । उस स्याद्वादकी मुद्रा अर्थात् मर्यादाका उल्लंघन करनेवाला नहीं है । भावार्थ—जैसे न्यायमें ही तत्पर ऐसा कोई राजा राज्यलक्ष्मीका शासन करता हो, तो समस्त प्रजा उसकी मुद्रा (मोहर) का उल्लंघन नहीं कर सकती है । क्योंकि, उसके उल्लंघन करनेसे उस प्रजाके सर्वस्व (सब धन) का नाश हो जावे । इसीप्रकार कंटक (शत्रु) रहित, और विजयी ऐसे स्याद्वादरूपी महाराजके विद्यमान रहते हुए, सब ही पदार्थ उस स्याद्वादकी मुद्राका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं । क्योंकि, उसका उल्लंघन करनेपर उनके अपने स्वरूपकी जो व्यवस्था (स्थिति) है, उसके नाशका प्रसंग होता है ॥

सर्ववस्तूनां समस्वभावत्वकथनं च पराभीष्टस्यैकं वस्तु व्योमादि नित्यमेव, अन्यच्च प्रदीपाद्यनित्यमेव, इति वा-
दस्य प्रतिक्षेपबीजम् । सर्वे हि भावा द्रव्यार्थिकनयापेक्षया नित्याः, पर्यार्थिकनयादेशात्पुनरनित्याः । तत्रैकान्ता-
ऽनित्यतया परैरङ्गीकृतस्य प्रदीपस्य तावन्नित्याऽनित्यत्वव्यवस्थापने दिङ्मात्रमुच्यते ।

आचार्यने जो ‘सब पदार्थ समान स्वभावके धारक हैं’ ऐसा कहा है, सो ‘आकाश आदि एक पदार्थ नित्य ही है और दूसरे प्रदीप आदि पदार्थ अनित्य ही हैं’ इसप्रकार जो वैशेषिकोंका माना हुआ एकान्तवाद है, उसके खडन करनेमें बीज (कारण)

है अर्थात् आचार्य इसीके आधारपर एकान्तवादका खंडन करेंगे । क्योंकि, सब ही पदार्थ द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे नित्य है और पर्यार्थिक नयकी अपेक्षासे अनित्य है । उनमें प्रथम ही परवादियोंने जिस दीपकको एकान्त अनित्य माना है, उसी दीपकमें नित्य तथा अनित्यरूप दोनों धर्म सिद्ध करनेके लिये कुछ कहते है ॥

तथा हि- प्रदीपपर्यायापन्नास्तेजसाः परमाणवः स्वरसतसैलक्षयाद्घाताभिघाताद्वा ज्योतिःपर्यायं परित्यज्य तमोरूपं पर्यायान्तरमासादयन्तोऽपि नैकान्तेनानित्याः । पुद्गलद्रव्यरूपतयाऽवस्थितत्वात्तेषाम् । नह्येतावतैवाऽनित्यत्वं यावता पूर्वपर्यायस्य विनाशः, उत्तरपर्यायस्य चोत्पादः । न खलु मृद्द्रव्यं स्थासककोशकुशूलशिवकघटाद्यवस्थान्तराण्यपद्यमानमप्येकान्ततो विनष्टम् । तेषु मृद्द्रव्यानुगमस्याऽवालगोपालं प्रतीतत्वात् । न च तमसः पौद्गलिकत्वमसिद्धम् । चाक्षुषत्वान्यथानुपपत्तेः । प्रदीपालोकवत् ॥

सो ही दिखलते है कि, दीपककी पर्यायको प्राप्त हुए जो तेजके परमाणु है, वे यद्यपि स्वभावसे, तैलके न रहनेसे अथवा पवनकी टक्कर लगनेसे, अपने प्रकाशरूप पर्यायको छोड़कर तम (अंधकार) रूप जो दूसरा पर्याय है, उसको प्राप्त होते है, तथापि एकान्तसे अनित्य नहीं हैं । क्योंकि, वे तेजके परमाणु पुद्गलद्रव्यरूपतासे, उस तमरूप पर्यायमें भी विद्यमान है । और पूर्व पर्यायका नाश तथा उत्तर पर्यायका जो उत्पन्न होना है, इतने ही से दीपकमें अनित्यता नहीं हो सकती है । क्योंकि, मृत्तिका (मिट्टी) द्रव्य यद्यपि स्थासक (चाकपर धरा हुआ मिट्टीका पिंड), कोश (उस मिट्टीके पिंडका बड़ा हुआ आकार), कुशूल (उस बड़े हुए आकार पर हात फेरनेसे उत्पन्न हुआ एक प्रकारका आकार), शिवक (कपाल), घट (घड़ा) इत्यादि रूप भिन्न २ अवस्थाओंको प्राप्त होता है, तथापि सर्वथा नष्ट नहीं होता है । क्योंकि, उन स्थासक आदि पर्यायोंमें बालकसे लेकर गोपाल (ग्वालिये) तक सबोंके मृत्तिकाद्रव्यकी प्रतीति होती है अर्थात् सभी स्थासक आदिमें मृत्तिकाद्रव्यको स्वीकार करते है । और तमके पौद्गलिकत्व (पुद्गलका पर्यायपना) असिद्ध नहीं है । क्योंकि, जैसे प्रदीपका प्रकाश पौद्गलिक होनेसे चाक्षुष (नेत्रोंका विषय) है, उसी प्रकार तम भी पौद्गलिक होनेसे ही चाक्षुष है । और यदि तुम तमको पौद्गलिक न मानो तो वह चाक्षुष भी नहीं हो सकता है । इसलिये सिद्ध हुआ कि तम पौद्गलिक है ।

अथ यच्चाक्षुषं तत्सर्वं स्वप्रतिभासे आलोकमपेक्षते, न चैवं तमस्तत्कथं चाक्षुषम् । नैवम् । उलूकादीनामालो-
कमन्तरेणापि तत्प्रतिभासात् । यैस्त्वस्मदादिभिरन्यच्चाक्षुषं घटादिकमालोकं विना नोपलभ्यते, तैरपि तिमिर-
मालोकयिष्यते । विचित्रत्वाद्भावानाम् । कथमन्यथा पीतश्वेतादयोऽपि स्वर्णमुक्ताफलाद्या आलोकापेक्षदर्शनाः,
प्रदीपचन्द्रादयस्तु प्रकाशान्तरनिरपेक्षाः । इति सिद्धं तमश्चाक्षुषम् ।

शंका—जो चाक्षुष पदार्थ है, वह अपने देखे जानेमें प्रकाश (उजाले) की अपेक्षा (जरूरत) रखता है । और तम ऐसा
नहीं है अर्थात् विना प्रकाशके ही देखनेमें आता है । इसलिये आप तमको चाक्षुष कैसे कहते है ? समाधान—यह तुम्हारी
शंका ठीक नहीं है । क्योंकि, जो चाक्षुष पदार्थ तुमको प्रकाशके विना नहीं दीख पड़ता है, वही चाक्षुष पदार्थ उलूक (घूबू)
आदिको प्रकाशके विना भी दीखनेमें आता है । और जिन हम तुम वगैरहको जो दूसरा चाक्षुष घटादिक पदार्थ प्रकाशके विना
नहीं दीखता है, उन्हीं हम तुम वगैरहको चाक्षुष तम प्रकाशके विना भी देखनेमें आवेगा । क्योंकि, पदार्थ विचित्र है अर्थात् सब
पदार्थ एकसे नहीं है । यदि पदार्थोंमें विचित्रता न हो, तो पीत (पीला) सुवर्ण और श्वेत (सफेद) मोती वगैरह तो अपने देखे
जानेमें प्रकाशकी अपेक्षा क्यों रखते है ? और पीत ऐसा भी दीपक तथा श्वेत ऐसा भी चंद्रमा आदि पदार्थ अपने देखे जानेमें अन्य
प्रकाशकी अपेक्षा क्यों नहीं रखते है ? भावार्थ—पदार्थ विचित्र है, इस कारण जैसे सोना मोती आदि कितने ही पदार्थ प्रकाशके
विना नहीं दीख पड़ते है, और दीपक आदि प्रकाशके विना दीख पड़ते है, उसी प्रकार हम तुम घट आदि पदार्थोंको प्रकाशसे
देखते है और तमको विना प्रकाशके ही देखते है । इस प्रकार ' तम चाक्षुष है ' यह जो हमारा कथन है सो सिद्ध हो गया ।

रूपवत्त्वाच्च स्पर्शवत्त्वमपि प्रतीयते । शीतस्पर्शप्रत्ययजनकत्वात् । यानि त्वनिविडावयवत्वमप्रतिघातित्वमनु,
भूतस्पर्शविशेषत्वमप्रतीयमानखण्डावयविद्रव्यप्रविभागत्वमित्यादीनि तमसः पौद्गलिकत्वनिषेधाय परैः साध-
नान्युपन्यस्तानि तानि प्रदीपप्रभादृष्टान्तेनैव प्रतिषेध्यानि । तुल्ययोगक्षेमत्वात् ।

और तम रूप [नीलवर्ण] को धारण करता है, इसलिये स्पर्शका धारक भी प्रतीत होता है । क्योंकि, शीत स्पर्शकी
प्रतीतिको उत्पन्न करता है अर्थात् ज्यों ज्यों अधिक अंधकारमें जाते है त्यों त्यों ठंडापन मालूम पड़ता है । इसलिये तम जैसे-

रूपवाला है, वैसे ही स्पर्शवाला भी है। और जो तमको पौद्गलिक न माननेके लिये वादियोंने “अनिविडावयवत्व (कठोर अवयवपना न होना) १ अप्रतिघातित्व (किसीसे रुकनेवाला न होना) २ अनुद्भूतस्पर्शविशेषत्व (इंद्रियोसे ग्रहण करने योग्य किसी स्पर्शवाला न होना) ३ अप्रतीयमानखंडावयविद्रव्यप्रविभागित्व (खंडित अवयवीरूप द्रव्यके विभागीकी प्रतीतिका न होना) ४ इत्यादि साधन दिये है ” इनका प्रदीपकी प्रमाके दृष्टान्तसे खंडन कर देना चाहिये। क्योंकि, तुल्ययोगक्षेम है। भावार्थ—जैनी तो तमको पुद्गलका पर्याय मानते है और वैशेषिक कहते हैं कि, तम पौद्गलिक नहीं है। क्योंकि, “प्रथम तो जो पौद्गलिक होता है, उसके अवयव लोह वगैरहके समान कठोर होते है। और तमके अवयव कठोर नहीं है। दूसरे पौद्गलिक पदार्थ किसीके आड़े आजानेसे रुक जाता है। और तम किसीसे रुकता नहीं है। तीसरे पौद्गलिक पदार्थका स्पष्ट रीतिसे स्पर्श होता है। और तमका स्पर्श नहीं होता है। चोथे पौद्गलिक पदार्थके अवयवीके खंड भी होते है। जैसे, कि, वक्त्र आदिके खंड होते है। परन्तु तमके खंड (टुकड़े) नहीं होते है। ” इनका खंडन जैनी इस प्रकार करते है कि, तुमने जो दीपककी प्रमाको पौद्गलिक मानी है, उसमें भी जो गुण तममें नहीं है वे नहीं है। इसलिये जैसे तुमने प्रदीपकी प्रमाको पौद्गलिक मानी है, उसी प्रकार तुमको तम भी पौद्गलिक मानना चाहिये।

न च वाच्यं तैजसाः परमाणवः कथं तमस्त्वेन परिणमन्त इति । पुद्गलानां तत्तत्सामग्रीसहकृतानां विसदृश-
कार्योत्पादकत्वस्यापि दर्शनात् । दृष्टो ह्यार्द्रेन्धनसंयोगवशाद्भास्वरूपस्यापि बह्वेभास्वरूपधूमरूपकार्योत्पादः ।
इति सिद्धो नित्याऽनित्यः प्रदीपः । यदापि निर्वाणादर्वाग् देदीप्यमानो दीपस्तदापि नवनवपर्यायोत्पादविना-
शभास्त्वात् प्रदीपत्वान्वयाच्च नित्याऽनित्य एव ।

और ‘ तेजके परमाणु तम रूप कैसे परिणम गये ? अर्थात् अंधकार रूप कैसे हो गये ? ’ ऐसी शंका न करनी चाहिये। क्योंकि, उन उन सामग्रियों सहित जो पुद्गल है, उनके असमान कार्यकी उत्पत्ति भी देखते है। अर्थात् सहकारी कारणोंके मिलनेपर पुद्गलोंसे विसदृश कार्य भी उत्पन्न होते है। यह नियम नहीं है कि, तेजके परमाणुओंसे तेजरूप ही दूसरा कार्य हो। क्योंकि, गीले इंधनके संयोगके वशसे भास्वर (प्रकाशमान) स्वरूपका धारक जो अग्नि है, उससे अभास्वर (कांति रहित)

ऐसे घूमरूप कार्यकी उत्पत्ति देखते हैं । भावार्थ—जैसे गीले इंधनके संयोगसे अग्नि धूमको उत्पन्न करता है । उसी प्रकार सामग्रीविशेषसे तेजके परमाणु भी तमको उत्पन्न करते हैं । इस प्रकार दीपकमें नित्य तथा अनित्य ये दोनों धर्म सिद्ध हुए । और बुझनेके पहले जब कि जलता हुआ दीपक है, उसमें भी नये नये पर्यायोंकी उत्पत्ति तथा नाश होनेसे अनित्यत्व है । और उन सभी पर्यायोंमें दीपकका संबंध है, इसलिये नित्यत्व है । इस प्रकार दीपकमें नित्य और अनित्यरूप दोनों ही धर्म रहते हैं ॥

एवं व्योमाप्युत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्वान्नित्याऽनित्यमेव । तथा हि—अवगाहकानां जीवपुद्गलानामवगाहदानो-
पर्यह एव तल्लक्षणम् । “ अवकाशदमाकाशम् ” इति वचनात् । यदा चावगाहका जीवपुद्गलाः प्रयोगतो विस्त्र-
सांतो वा एकस्मान्नभःप्रदेशात्प्रदेशान्तरमुपसर्पन्ति तदा तस्य व्योम्नस्रैरवगाहकैः सममेकस्मिन्प्रदेशे विभागः
उत्तरस्मिंश्च प्रदेशे संयोगः । संयोगविभागौ च परस्परं विरुद्धौ धर्मौ, तद्भेदे चावश्यं धर्मिणो भेदः । तथा
चाहुः “ अयमेव हि भेदो भेदहेतुर्वा यद्विरुद्धधर्माध्यासः कारणभेदश्चेति ” । ततश्च तदाकाशं पूर्वसंयोगवि-
नाशलक्षणपरिणामापत्या विनष्टम् । उत्तरसंयोगोत्पादाख्यपरिणामानुभवाच्चोत्पन्नम् । उभयत्राकाशद्रव्यस्यानुग-
तत्वाच्चोत्पादव्यययोरेकाधिकरणत्वम् ।

इसी प्रकार उत्पाद, व्यय तथा श्रौब्य (स्थिरता) स्वरूप होनेसे आकाश भी नित्य और अनित्य, इन दोनों धर्मोंका ही धारक है । तथाहि—‘अवकाशको देनेवाला आकाश है’ इस वचनसे ‘ आकाशके भीतर रहनेवाले जो जीव तथा पुद्गल है, उनको स्थान देकर, उनका उपकार करना ’ यही आकाशका लक्षण है । और जब उसमें रहनेवाले जीव तथा पुद्गल किसी दूसरेकी प्रेरणासे अथवा अपने स्वभावसे एक आकाशके प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें गमन करते हैं, तब उस आकाशका उन रहनेवाले जीव और पुद्गलोंके साथ एक प्रदेशमें तो विभाग (वियोग) होता है । और दूसरे प्रदेशमें संयोग होता है । भावार्थ—लोकाकाश असख्यात प्रदेशी है, इसलिये जब इसके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें जीव पुद्गल जाते हैं, तब आकाशके

१ उपकारः । २ पुरुषशक्तिः । ३ स्वभावतः । ४ प्राप्तिपूर्विकाऽप्राप्तिविभागः । ५ प्राप्तिपूर्विकाऽप्राप्ति संयोगः । ६ उभयथा भेदो वस्तूनां लक्षणभेदात्कारणभेदाच्चेति । अयमेव हि घटपटयोर्भेदो यज्जलाहरणादिशीतत्राणादिविरुद्धधर्माध्यासः ॥ अयमेव हि भेदहेतुर्वा यन्मु-
त्पिण्डादितन्वादि कारणभेदः ।

एक प्रदेशमें विभाग और दूसरेमें संयोग होता है। और संयोग तथा विभाग ये दोनों परस्पर विरोध रखनेवाले धर्म हैं। अर्थात् जहाँ संयोग रहता है, वहाँ विभाग, नहीं रह सकता है और जहाँ विभाग रहता है, वहाँ संयोग नहीं रह सकता है। इसलिये जब कि, संयोग और विभागमें भेद हुआ अर्थात् संयोग जुदा और विभाग जुदा रहा तो धर्म (इन दोनों संयोग और विभाग रूप धर्मोंको धारण करनेवाला) जो आकाश है, उसके भी अवश्य ही भेद हुआ। सो ही कहाँ है कि, जो “ विरुद्ध धर्मोंका रहना है, सो तो भेद है और जो भिन्न २ कारणोंका होना है, वही भेदका कारण है। भावार्थ—पदार्थोंका लक्षणके भेदसे अथवा कारणके भेदसे भेद होता है। जैसे घट और पटमें यही भेद है कि, घट तो जल लाने आदिरूप धर्मोंको धारण करता है और पट (वस्त्र) शीतसे वचाने आदिरूप धर्मोंको धारण करता है। और यही इन दोनोंमें भेद कारण है कि, घट तो मृत्तिकके पिंड आदिरूप कारणोंसे उत्पन्न होता है और पट तंतु आदि कारणोंसे उत्पन्न होता है। और जब धर्मोंके भेदसे धर्ममें भेद हुआ, तो, वह आकाश पूर्वपदार्थका जो संयोग था उस संयोगके विनाशरूप परिणामको धारण करनेसे नष्ट हुआ और दूसरे प्रदेशमें जो पुद्गलका संयोग हुआ इस कारण उस संयोगके उत्पाद (उत्पत्ति) नामक परिणामको अनुभव-न (धारण) करनेसे वह आकाश उत्पन्न हुआ। और आकाश द्रव्य उन दोनों विनाश और उत्पादरूप अवस्थाओंमें द्रव्यरूपसे अनुगत (चला आ रहा) है अर्थात् विद्यमान है, उसका नाश नहीं हुआ है, इसलिये उत्पाद और व्यय इन दोनोंका एक आकाश ही अधिकरण अर्थात् रहनेका स्थान है ॥

तथा च “यदप्रच्युताऽनुत्पन्नस्थिरैकरूपं नित्यम्” इति नित्यलक्षणमाचक्षते तदपास्तम्। एवंविधस्य कस्यचिद्-स्तुनोऽभावात्। “तद्भावाऽव्ययं नित्यम्।” इति तु सत्यं नित्यलक्षणम्। उत्पादविनाशयोः सद्भावेऽपि तद्भावाद-न्वयिरूपाद्यन्न व्येति तन्नित्यमिति तदर्थस्य घटमानत्वात्। यदि हि अप्रच्युतादिलक्षणं नित्यमिष्यते तदोत्पाद-व्यययोर्निराधारत्वप्रसङ्गः। न च तयोर्थेगे नित्यत्वहानिः। “द्रव्यं पर्यायवियुतं पर्याया द्रव्यवर्जिताः। क्व कदा केन किरूपा दृष्टा मानेन केन वा। १।” इति वचनात्। न चाकाशं न द्रव्यम्।

और इस पूर्वोक्त कथनसे “ जो कभी अपने स्वरूपसे गिरे नहीं, अर्थात् नष्ट न हो, उत्पन्न न हो और स्थिर एकरूप रहे, वह नित्य है ” ऐसा जो वादियोंने नित्यका लक्षण कहा है, उसका खंडन होगया । क्योंकि, जिसका नाश और उत्पाद न हो और सदा स्थिर एक रूप रहे, ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है । और जैनतत्त्वार्थसूत्रकारने “ तद्भावाव्ययं नित्यम् ” (पदार्थके स्वभावका जो नाश न होना है, सो नित्य है) यह जो नित्यका लक्षण कहा है, वह तो सत्य है । क्योंकि, ‘ उत्पाद और विनाशके होनेपर भी संबंधित स्वरूप जो पदार्थका भाव (स्वरूप) है उससे जो नष्ट न हो अर्थात् रहित न हो, वह नित्य है ’ यह जो नित्यका अर्थ है, वह पदार्थोंमें घटता हुआ है अर्थात् सिद्ध है । और यदि वादियोंका माना हुआ जो अप्रच्युत आदि पूर्वोक्त लक्षणका धारक नित्य है, उसको स्वीकार किया जाय तो उत्पाद और व्ययके निराधारताका प्रसंग हो जावे अर्थात् उत्पाद और व्ययका कोई भी पदार्थ आधार न रहे । और हम जो उत्पाद तथा व्ययका पदार्थमें संयोग मानते हैं, उससे पदार्थकी नित्यतामें कोई हानि नहीं होती है । क्योंकि, “ पर्यायके विना द्रव्य और द्रव्यके विना पर्याय किसीने किसी समय किसी स्थलमें किसी रूपवाले किसी प्रमाणसे भी नहीं देखे है ? अर्थात् कोई भी कहीं भी किसी भी प्रमाणसे पर्याय रहित द्रव्य और द्रव्यरहित पर्याय नहीं देख सकता है । ? । ऐसा जैनशास्त्रोंका वचन है । और आकाश द्रव्य नहीं है ऐसा नहीं है, अपि तु हे ही है ।

लौकिकानामपि घटाकाशं पटाकाशमिति व्यवहारप्रसिद्धेराकाशस्य नित्याऽनित्यत्वम् । घटाकाशमपि हि यदा घटापगमे पटेनाक्रान्तं तदा पटाकाशमिति व्यवहारः । न चायमौपचारिकत्वादप्रमाणमेव । उपचारस्यापि किञ्चित्साधर्म्यद्वारेण मुख्यार्थस्पर्शित्वात् । नभसो हि यत्किल सर्वव्यापकत्वं मुख्यं परिमाणं तत्तदाकाशादिपटादिसन्बन्धिनियतपरिणामवशात्कल्पितभेदं सत्प्रतिनियतदेशव्यापितया व्यवह्रियमाणं घटाकाशपन्तरापत्तिसत्तथावस्थाभेदेऽवस्थावतोऽपि भेदस्तासां ततोऽविष्वग्भावात् । इति सिद्धं नित्यानित्यत्वं व्योम्नः ।

तथा जैनी ही आकाशको नित्य-अनित्य मानते है, ऐसा नहीं है । क्योंकि, लौकिक अर्थात् सर्वसाधारण जन है, उनके भी “ यह, घटका आकाश है, यह पटका आकाश है ” ऐसा व्यवहार प्रसिद्ध है । इस लिये वे भी आकाशको नित्यानित्य ही मानते है । क्योंकि घटका आकाश जब घटके दूर होजानेपर पटसे युक्त होता है, तब पटाकाश ऐसा व्यवहार होता है । और यह व्यवहार उपचारसे

उत्पन्न हुआ है इस कारणसे अप्रमाण है, यह भी तुम नहीं कह सकते हो। क्योंकि, जो उपचार होता है, वह भी किसी न किसी साधर्म्यद्वारा मुख्य अर्थको स्पर्श करनेवाला होता है अर्थात् मुख्य अर्थके अनुकूल ही प्रवर्तता है। क्योंकि, आकाशका जो सर्वव्यापक (सबमें फैल कर रहने) रूप मुख्य परिमाण है, वह उसमें रहनेवाले जो घट पट आदि है, उन घटपटादिकसे संबंध रखनेवाला जो नियत परिमाण है, उसके वशसे भेदकी कल्पनाको प्राप्त होकर, उन प्रतिनियत घट आदि देशोंमें व्यापीपनेसे व्यवहारमें लाया जाता है, तब घटाकाश, पटाकाश आदि व्यवहारोंका कारण होता है। और व्यापकरूपसे स्थित जो आकाश है, उसके भी उन २ घटपट आदिका संबंध होनेपर एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाकी प्राप्ति होती है। और जब अवस्थाका भेद हुआ तो उन अवस्थाओंका धारक जो आकाश है उसका भी भेद हुआ। क्योंकि, वे अवस्थाएँ आकाशसे व्याप्त (अभिन्न) होकर रहती है। इसप्रकार आकाशमें नित्य तथा अनित्य ये दोनों धर्म सिद्ध हुए ॥

स्वायंभुवां अपि हि नित्याऽनित्यमेव वस्तु प्रपन्नाः । तथा चाहुस्ते-त्रिविधः खल्वयं धर्मिणः परिणामो धर्मलक्षणावस्थारूपः । सुवर्णं धर्मि । तस्य धर्मपरिणामो वर्द्धमानरुचकादिः । धर्मस्य तु लक्षणपरिणामोऽनागतत्वादिः । यदा खल्वयं हेमकारो वर्द्धमानकं भङ्त्वा रुचकमारचयति तदा वर्द्धमानको वर्तमानता-लक्षणं हित्वा अतीततालक्षणमापद्यते । रुचकस्तु अनागततालक्षणं हित्वा वर्तमानतामापद्यते । वर्तमानतापन्न एव रुचको नवपुराणभावमापद्यमानोऽवस्थापरिणामवान् भवति । सोऽयं त्रिविधः परिणामो धर्मिणः । धर्म-लक्षणावस्थाश्च धर्मिणो भिन्नाश्चाभिन्नाश्च । तथा च ते धर्म्यभेदात्तन्नित्यत्वेन नित्याः । भेदाच्चोत्पत्तिविनाश-विषयत्वम् । इत्युभयमुपपन्नमिति ।

सांख्यमतवालोंने भी पदार्थको नित्य तथा अनित्य ही माना है। सो ही वे सांख्य कहते हैं, कि-“धर्मिका जो परिणाम है, वह धर्म ? लक्षण २ और अवस्था ३ इन भेदोंसे तीन प्रकारका है। जैसे कि, सुवर्ण धर्मी है। उस सुवर्णका जो वर्द्धमान (प्याला) तथा रुचक (कंठा) आदि पर्याय है, वह धर्मिका धर्मपरिणाम ? है। और धर्मिका जो भविष्यत् काल आदिमें होना है, वह

धर्मीका लक्षणपरिणाम २ है। अर्थात् जब यह सुवर्णकार (सोनी) वर्द्धमानको तोडकर रुचक बनाता है, तब वर्द्धमान वर्त्तमानता (विद्यमानपने रूप) लक्षणको त्याग कर अतीतता (हो चुकनेरूप) लक्षणको प्राप्त होता है। और रुचक अनागतता (होनेवाले रूप) लक्षणको छोड़कर, वर्त्तमानता लक्षणको ग्रहण करता है। और वर्त्तमानताको प्राप्त जो रुचक है, वही नयेपनेको तथा पुराणेपनेको धारण करता हुआ धर्मीके अवस्थापरिणामवाला होता है। वह जो यह तीन प्रकारका परिणाम है, सो धर्मीका है। और धर्म, लक्षण, तथा अवस्था ये तीनों धर्मीसे भिन्न भी है तथा वे धर्म लक्षण और अवस्थारूप परिणाम धर्मीसे अभिन्न है, इस कारण धर्मीकी-नित्यतासे नित्य है। और धर्मीसे भिन्न होनेके कारण उत्पत्ति तथा विनाशके विषय है। अर्थात् अनित्य है। भावार्थ—साख्यमतवाले पदार्थके पर्यायोंको धर्म मानते है। पर्यायोंमें जो कालका परिवर्तन है, उसको लक्षण कहते है। और वर्त्तमानपर्यायमें जो नया पुराणापन होता है, उसको अवस्था कहते है। ये तीनों किसी अपेक्षासे पदार्थसे अभिन्न होनेके कारण नित्य है। और किसी अपेक्षासे पदार्थसे भिन्न है, इसलिये अनित्य है। इस प्रकार पदार्थमें नित्य तथा अनित्य ये दोनों धर्म सिद्ध होतें है।

अथोत्तरार्द्धं विव्रियते । एवं चोत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्वे सर्वभावानां सिद्धेऽपि तद्वस्तु एकमाकाशात्मादिकं नित्यमेव, अन्यच्च प्रदीपघटादिकमनित्यमेव । इत्येवकारोऽत्रापि सम्बन्धते । इत्थं हि दुर्नयवादापत्तिः । अनन्त-धर्मात्मके वस्तुनि स्वाभिप्रेतनित्यत्वादिधर्मसमर्थनप्रवर्णाः शेषधर्मतिरस्कारेण प्रवर्तमाना दुर्नया इति तद्व-णात् । इत्यनेनोद्धेने त्वदाज्ञाद्विषतां भवत्प्रणीतशासनविरोधिनां प्रलापाः प्रलपितान्यसम्बद्धवाक्यानीति यावत् ।

अत्र काव्यके उत्तरार्धकी व्याख्या करते है। इस पूर्वोक्त प्रकारसे सब पदार्थोंके उत्पाद विनाश और ध्रौव्य स्वरूपता सिद्ध होने पर भी 'तत्' वह 'एक' आकाश, आत्मा आदि एक प्रकारके पदार्थ 'नित्य' नित्य 'एव' ही है। और 'अन्यत्' दीपक, घट आदि दूसरे पदार्थ 'अनित्य' अनित्य 'एव' ही है। [यहां नित्यके साथ जो 'एव' पद लगाया गया है, वह अनित्यके साथ

१ निरशेषाशुष्या प्रमाणविपयीभूय समालेदुष्या वस्तूना नियताशकल्पनपरा. सप्त श्रुताः सद्भिन् । औदासीन्यपरायणास्तदपरे चांशे भवेयुर्नया-श्रेयकाशकलङ्कपङ्ककलुषास्ते स्यु सदा दुर्नया । १ । इति नयदुर्नययोर्लक्षणम् । २ वद्वकक्षा. ३ प्रकारेण ।

भी लगाया जाता है] और इस प्रकार माननेमें दुर्नयवादकी प्राप्ति होती है। क्योंकि, “अनन्तधर्मस्वरूप जो वस्तु है, उसमें विद्यमान अन्य सब धर्मोंको दूर करके प्रवर्त होते हुए और अपने अभीष्ट जो नित्यत्व आदि रूप एक धर्म है, उसको सिद्ध करनेमें तत्पर ऐसे जो नय है, वे दुर्नय है।” यह उन दुर्नयोंका लक्षण है। ‘इति’ इस प्रकारसे “त्वदाज्ञाद्विपता” आपके कहे हुए मतसे विरोध रखनेवाले वादियोंके ‘प्रलापाः’ संबन्धरहित वाक्य (वक्तवाद) हैं ॥

अत्र च प्रथममादीपमिति परप्रसिद्ध्याऽनित्यपक्षोल्लेखेऽपि यदुत्तरत्र यथासंख्यपरिहारेण पूर्वतरं नित्यमेवैकमित्युक्तम् । तदेवं ज्ञापयति यदनित्यं तदपि नित्यमेव कथंचित्, यच्च नित्यं तदध्यनित्यमेव कथंचित् । प्रकान्तवादिभिरप्येकस्यामेव पृथिव्यां नित्याऽनित्यत्वाभ्युपगमात् । तथा च प्रशस्तकारः—“सा तु द्विविधा नित्याऽनित्या च । परमाणुलक्षणा नित्या । कार्यलक्षणात्वानित्या इति ।

यहां पर आचार्यने श्लोकके पूर्वार्धमें “आदीपं” इत्यादिसे वादियोंकी प्रसिद्धिसे (वादियोंके मतके अनुसार) पहले अनित्यपक्षका कथन किया है। तो भी उत्तरार्धमें क्रमका उल्लेखन करके पहिले वह एक पदार्थ नित्य ही है, इस प्रकार जो नित्य पक्षको कहा है अर्थात् जैसे पूर्वार्धमें पहले अनित्य और पीछे नित्यका कथन किया है, इसी प्रकार उत्तरार्धमें भी पहले अनित्य और पीछे नित्य कहना चाहिये था; परतु आचार्यने ऐसा न करके उत्तरार्धमें पहले नित्य और पीछे अनित्य कहा है। सो यह जनाता है, कि, जो अनित्य है, वह भी कथंचित् नित्य ही है। और जो नित्य है, वह भी किसी अपेक्षासे अनित्य ही है। क्योंकि वैशेषिकोंने भी एक ही पृथिवीमें नित्यत्व तथा अनित्यत्व रूप दोनों धर्म स्वीकार किये हैं। सो ही वैशेषिक दर्शनपर प्रशस्तभाष्यके बतानेवाले कहते हैं, कि वह पृथिवी दो प्रकारकी है। एक नित्य और दूसरी अनित्य। इनमें परमाणुरूप जो पृथ्वी है, वह तो नित्य है, और कार्यरूप जो पृथ्वी है, वह अनित्य है।”

न चात्र परमाणुद्रव्यकार्यलक्षणविषयद्वयभेदान्नैकाधिकरणं नित्याऽनित्यत्वमिति वाच्यम् । पृथिवीत्वस्योभयत्राप्यव्यभिचारात् । एवमबादिष्वपीति । आकाशेऽपि संयोगविभागाङ्गीकारात्तैरनित्यत्वं युक्त्या प्रतिपन्नमेव ।

तथा च स एवाह—“शब्दकारणत्ववचनात्संयोगविभागौ” इति । नित्याऽनित्यपक्षयोः संवलितत्वमेतच्च लेशतो भावितमेवेति ।

यहा “भाष्यकारने जो परमाणुद्रव्य और कार्य रूपसे विषयका भेद कहा है अर्थात् नित्यका विषय परमाणुद्रव्यरूप पृथ्वी और अनित्यका विषय कार्यरूप पृथ्वी मानी है । इसकारण नित्य और अनित्य इन दोनों धर्मोंका अधिकरण (पृथ्वीरूप धर्म) एक नहीं है” ऐसा न कहना चाहिये । क्योंकि, पृथिवीत्वका अव्यभिचार है । अर्थात् पृथिवीत्व जो है, वह परमाणुरूप तथा कार्यरूप दोनों पृथिवियोंमें ही वर्तमान है । जल आदिकमें भी उन्हेने इसीप्रकार नित्य तथा अनित्य रूप दोनों धर्म माने है । और संयोग तथा विभागको स्वीकार करनेके कारण उन्हेने आकाशमें भी युक्तिये अनित्यता मानी ही है । सो ही आकाशमें संयोग और विभागको स्वीकार करनेके लिये प्रगास्तभाष्यकार कहते है कि,—“आकाश शब्दका कारण है, इस वचनसे आकाशमें संयोग और विभाग है ।” और इस कथनसे आकाश नित्य तथा अनित्य इन दोनों पक्षोंमें ही मिला हुआ है अर्थात् नित्य अनित्य रूप है । यह आशय किंचित्मात्र भाष्यकारने प्रकट किया ही है ॥

प्रलापप्रायत्वं च परवचनानामिदं समर्थनीयम् । वस्तुनस्तावदर्थक्रियाकारित्वं लक्षणम् । तच्चैकान्तनित्याऽनित्यपक्षयोर्न घटते । अग्रच्युताऽनुत्पन्नस्थिरैकरूपो हि नित्यः । स च क्रमेणार्थक्रियां कुर्वीत, अक्रमेण वा । अन्योन्यव्यवच्छेदरूपणां प्रकारान्तरासम्भवात् । तत्र न तावत्क्रमेण । स हि कालान्तरभाविनीः क्रियाः प्रथमक्रियाकाल एव प्रसह्य कुर्यात् । समर्थस्य कालक्षेपयोगात् । कालक्षेपिणो वाऽसामर्थ्यप्राप्तेः । समर्थोऽपि तत्तत्सहकारिसमवधाने तं तमर्थं करोतीति चेत्—न तर्हि तस्य सामर्थ्यम् । अपरसहकारिसापेक्षवृत्तित्वात् । सापेक्षमसमर्थमिति न्यायात् ।

उन वादियोंके वचन प्रलापके समान है, ऐसा जो आचार्योंने कहा है, उसका समर्थन इस प्रकार करना चाहिये । “अर्थक्रियाको जो करै वह वस्तु (पदार्थ) है” यह पदार्थका लक्षण है । और वह लक्षण एकान्त नित्य तथा एकान्त अनित्य इन दोनों

पक्षोंमें ही नहीं घटता है। क्योंकि, “जिसका कभी नाश न हो, जो कभी उत्पन्न न हो और सदा एक रूप रहै वह नित्य है” यह वादियोंके माने हुए नित्यका लक्षण है। यहां हम (जैनी) प्रश्न करते हैं कि, वह नित्यपदार्थ क्रमसे (सिलसिलेवार अथवा नंबरवार) अर्थक्रियाको करै ? अथवा अक्रमसे (बे सिलसिलेसे) अर्थक्रियाको करै ? । क्योंकि, परस्पर भिन्नस्वरूपको धारण करनेवाली जो क्रियायें हैं, वे इन कहे हुए क्रम और अक्रम रूप दो प्रकारोंके सिवाय किसी तीसरे प्रकारसे नहीं हो सकती है। अब यदि इन दो प्रश्नोंके उत्तरमें वादी यह कहे कि “वह नित्यपदार्थ क्रमसे अर्थक्रियाको करता है” तो यह ठीक नहीं है। क्योंकि, वह नित्यपदार्थ समर्थ है, इसलिये दूसरे क्षणोंमें होनेवाली जो क्रियायें हैं, उनको प्रथम क्रियाके समय (प्रथम क्षण)में ही बलात्कार (जबरदस्ती) से कर सकता है। कारण कि, जो समर्थ है, वह कार्यके करनेमें विलंब नहीं करता है। अथवा जो कार्यके करनेमें विलंब करता है, वह असमर्थ है। अब इसपर वादी यह कहे कि जो समर्थ होता है, वह भी उन २ सहकारी (मददगार) कारणोंके सयोग होने (मिलने) पर ही उस २ अर्थ (प्रयोजन)को करता है तो वह नित्य पदार्थ समर्थ नहीं है, यही सिद्ध हुआ। क्योंकि, वह नित्य पदार्थ दूसरे सहायकोंकी अपेक्षासहित रहता है, और जो ‘दूसरेकी अपेक्षा रखता है, वह असमर्थ होता है’ यह न्याय है ॥

न तेन सहकारिणोऽपेक्ष्यन्ते। अपि तु कार्यमेव सहकारिष्वसत्स्वभवत् तानपेक्षत इति चेत्—तत् किं स भावोऽसमर्थः समर्थो वा। समर्थश्चेत्किं सहकारिमुखप्रेक्षणदीनानि तान्युपेक्षते। न पुनर्ज्ञदिति घटयति। ननु समर्थमपि बीजमिलाजलानिलादिसहकारिसहितमेवाङ्कुरं करोति नान्यथा। तत् किं तस्य सहकारिभिः किञ्चिदुपक्रियेत न वा। यदि नोपक्रियेत तदा सहकारिसन्निधानात्प्रागिव किं न तदाप्यर्थक्रियायामुदास्ते। उपक्रियेत चेत्स-तर्हि तैरुपकारोऽभिन्नो भिन्नो वा क्रियत इति वाच्यम्। अभेदे स एव क्रियते। इति लाभमिच्छतो मूलक्षति-रायाता। कृतकत्वेन तस्यानित्यत्वापत्तेः।

अब यदि वादी यह कहे, कि वह नित्य पदार्थ स्वय (खुद) सहकारी कारणोंकी अपेक्षा नहीं करता है किन्तु सहकारीकारणोंके अभावमें नहीं होता हुआ कार्य ही, उन सहकारियोंकी अपेक्षा करता है। तो हम (जैनी) फिर पूछते हैं कि, वह नित्यपदार्थ समर्थ है ? वा असमर्थ है ? । यदि वह समर्थ है तो सहकारीकारणोंके मुख देखनेसे दीन हुए अर्थात् सहकारीकारणोंके विना

नहीं होते हुए उन कार्योंकी उपेक्षा क्यों करता है। शीघ्र (शुटपट) ही उन कार्योंको क्यों नहीं बना डालता है। यदि वादी यह कहे कि, वृक्षका बीज समर्थ है, तो भी जब उसके साथ पृथिवी, जल और वायु आदि सहकारी कारणोंका सयोग होता है, तभी वह बीज अङ्गुरको उत्पन्न करता है और पृथिवी आदि सहकारियोंका अभाव हो तो, वह समर्थ भी बीज अङ्गुरको उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसी प्रकार नित्य पदार्थ समर्थ है, तो भी सहकारियोंके विना कार्यको नहीं करता है। तो हम (जैनी) पूछते हैं कि, सहकारी उस नित्यपदार्थका कुछ उपकार करते हैं या नहीं। यदि वादी यह कहे कि, “सहकारीकारण जो है वे

सहकारियोंका सयोग होने पर भी अर्थक्रियामें उदास क्यों नहीं रहता है अर्थात् सहकारी जब पदार्थका उपकार नहीं करते हैं, वैसे ही जैसे सहकारियोंके विना वह पदार्थ कार्यको नहीं कर सकता था वैसे ही उन सहकारियोंके सद्भावमें भी कार्यको नहीं करते हैं तो वादी कहे कि जो सहकारी है, वे पदार्थका उपकार करते हैं, वा भिन्न करते हैं, या भिन्न करते हैं। यदि सहकारी पदार्थसे अभिन्न ही उपकार करते हैं, तो सिद्ध हुआ कि वह नित्यपदार्थ ही अर्थक्रियाको करता है। और जब ऐसा हुआ तो जो वादी लाभको चाहते थे उनके मूलका भी नाश हुआ। क्योंकि, कृतकपदार्थ उस पदार्थके अनित्यताकी प्राप्ति होगई। भावार्थ—यदि वादी सहकारियोंके उपकार किसीको द्रव्य देवै और फिर वह द्रव्य लेनेवाला पीछा द्रव्य न दे तो व्याज चाहनेवालेके व्याजकी तो हानि हो ही हो परन्तु मूल-धन भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार पहले जो ‘नित्यपदार्थ’ क्रमसे अर्थक्रिया करता है वा अक्रमसे’ यह प्रश्न किया था; इसका तो उत्तर वादी दे-ही न सके और सिवायमें अपने उस नित्यपदार्थको अनित्य बना बैठे। क्योंकि, जो पदार्थ अपने सभावकी सिद्धिमें दूसरेके व्यापारकी इच्छा करता है, वह कृतक कहलाता है और जो कृतक होता है वह अनित्य होता है। यहा पर वादीके कथनानुसार जब पदार्थने सहकारियोंकी अपेक्षा रखी तो वह पदार्थ कृतक हुआ और कृतक होनेसे वह पदार्थ नित्य न रहा, किन्तु अनित्य हो गया।

भेदे तु स कथं तस्योपकारः किं न सत्यविन्ध्याद्देरपि । तत्संबन्धात्तस्यायमिति चेत्-उपकार्योपकारयोः क-

सम्बन्धः । न तावत्संयोगो द्रव्ययोरेव तस्य भावात् । अत्र तु उपकार्यं द्रव्यं, उपकारश्च क्रियेति न संयोगः । नापि समवायस्तस्यैकत्वाद् व्यापकत्वाच्च प्रत्यासत्तिविप्रकर्षाभावेन सर्वत्र तुल्यत्वान्न नियतैः सम्बन्धिभिः सम्बन्धो युक्तः । नियतसंबन्धिसंबन्धे चाङ्गीक्रियमाणे तत्कृत उपकारोऽस्य समवायस्याभ्युपगन्तव्यः । तथा च सत्युपकारस्य भेदाऽभेदकल्पना तदवस्थैव । उपकारस्य समवायादभेदे समवाय एव कृतः स्यात् । भेदे पुनरपि समवायस्य न नियतसम्बन्धिसंबन्धत्वम् । तत्रैकान्तनित्यो भावः क्रमेणार्थक्रियां कुरुते ।

अब यदि वादी यह कहें कि—सहकारियोंका जो उपकार है वह पदार्थसे भिन्न है, तो वह उपकार जब पदार्थसे जुदा हुआ तब यह कैसे मालूम हुआ कि, यह उपकार पदार्थका ही है सब और विंध्य नामक जो दो पर्वत है, उनको आदि ले अन्य पदार्थोंका भी क्यों नहीं है । भावार्थ—उपकारसे जैसे नित्य पदार्थ भिन्न है, वैसे ही सखाचल, विद्याचल भी भिन्न है । तब यह उपकार नित्यपदार्थका ही है यह कैसे जान पड़ा ? इसके उत्तरमें यदि वादी यह कहै कि नित्यपदार्थके साथ उस उपकारका संबन्ध है, इसलिये जान लिया जाता है कि, यह उपकार इस नित्यपदार्थका है” तो हम (जैनी) पूछते है कि, उपकार्य (जिसके ऊपर उपकार किया जाय) और उपकार इन दोनोंके परस्पर कौनसा संबन्ध है ? । यदि कहो कि, ‘उपकार्य (पदार्थ)के और उपकारके संयोग नामक संबन्ध है’ तो यह तो हो नहीं सकता । क्योंकि, जो संयोग संबन्ध होता है, वह परस्पर द्रव्योंके ही होता है अर्थात् द्रव्यके साथ जो द्रव्यका संबन्ध होता है, वही संयोग संबन्ध कहलाता है और यहांपर जो उपकार्य है, वह तो द्रव्य है तथा उपकार है वह क्रिया है । इसकारण इनमें संयोग संबन्ध नहीं है । फिर यदि वादी यह कहै कि ‘उपकार्य और उपकारके समवाय संबन्ध है’ तो यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि, वह समवाय एक और व्यापक (सर्वमें रहेनेवाला) है । इसकारण उस समवाय संबन्धके न तो कोई पदार्थ समीप है ? और न दूर है । सब पदार्थोंमें वह समवाय समान है । इस लिये नियत संबन्धियोंके साथ उस समवायसंबन्धका मानना ठीक नहीं है । और यदि वादी नियतसंबन्धियोंके साथ समवायका संबन्ध स्वीकार ही करें तो उनको उन सहकारियोंसे किया हुआ जो उपकार है, वह इस समवायका मानना चाहिये । और ऐसा जब हुआ तो जो पहले उपकारके विषयमें भेद तथा अभेद रूप दो कल्पनायें की गई थी वे वैसीकी वैसी ही रही । और जब समवायसे उपकारका अभेद माना गया तब तो सहकारियोंने उपकार नहीं किया किंतु समवाय ही किया । और जो भेद माना तो फिर भी

‘समवायका नियतसंबन्धियोंके साथ संबन्ध नहीं है’ इस कथनसे संबन्धका अभाव आया । अर्थात् उपकार और समवायके भेद माननेमें इन दोनोंके संयोगसंबन्ध तो हो नहीं सकता । क्योंकि वह द्रव्योंके ही होता है और समवाय संबन्ध माननें तो वह व्यापक है इसलिये नियतसंबन्धियोंके साथ उसका संबन्ध नहीं हो सकता है । इस कारण जो एकान्त नित्य पदार्थ है, वह क्रमसे अर्थ-क्रियाको नहीं करता है । यह सिद्ध हुआ ।

नाप्यक्रमेण । नह्येको भावः सकलकालकलाकलापभाविनीयुगपत् सर्वाः क्रियाः करोतीति प्रातीतिकम् । कुरुतां वा तथापि द्वितीयक्षणे किं कुर्यात् । करणे वा क्रमपक्षभावी दोषः । अकरणे त्वर्थक्रियाकारित्वाऽभावादवस्तुत्वप्रसङ्गः । इत्येकान्तनित्यात्क्रमाक्रमाभ्यां व्याप्तार्थक्रियाव्यापकानुपलब्धिवलाद्भ्यापकनिवृत्तौ निवर्त्तमाना स्वव्याप्यमर्थक्रियाकारित्वं निवर्त्तयति । अर्थक्रियाकारित्वं च निवर्त्तमानं स्वव्याप्यं सत्त्वं निवर्त्तयति । इति नैकान्तनित्यपक्षो युक्तिक्रमः ।

अब यदि कहो कि नित्य पदार्थ अक्रमसे अर्थक्रियाको करता है तो यह भी सिद्ध नहीं होता । क्योंकि ‘एक पदार्थ समस्त कालकी कलाओंमें होनेवाली अर्थ क्रियाओंको एक ही समयमें कर लेता है’ यह कथन प्रतीतिमें नहीं आता है । अथवा पदार्थ एक समयमें अर्थक्रियाओंको करे भी तो हम पूछते है कि, वह पदार्थ दूसरे क्षणमें क्या करेगा । यदि यह कहो कि—पदार्थ दूसरे क्षणमें भी अर्थक्रियाओंको ही करता है । तब तो जो दोष क्रमसे अर्थक्रिया करनेरूप पक्षमें होता है वही यहां भी होगा । अर्थात् प्रथम क्षणमें सब अर्थ क्रियाओंको करके अपनी व्यर्थता न होनेके लिये जो वह दूसरे क्षणमें फिर भी उन्ही अर्थक्रियाओंको करता है इस कारण उस पदार्थके असमर्थताकी प्राप्ति होगी । यदि कहोकि ‘ वह दूसरे क्षणमें कुछ भी नहीं करता है ’ तो दूसरे क्षणमें अर्थक्रियाकारित्वका अभाव होनेसे उस नित्य पदार्थके अवस्तुताका प्रसंग होगा । इस प्रकार एकान्तनित्यपदार्थसे क्रम और अक्रम करके व्यास जो अर्थक्रिया है, वह व्यापकके न मिलनेसे व्यापकके दूर होनेपर नष्ट होती हुई अपना व्याप्य जो अर्थक्रियाकारित्व है, उसको नष्ट करती है और नाशको प्राप्त होता हुआ जो अर्थक्रियाकारित्व है वह अपनेमें व्याप्य (रहनेवाला) जो सत्त्व है, उसको नष्ट करता है । भावार्थ—नित्य पदार्थसे जो अर्थक्रिया होती है, वह या तो क्रम करके हो और या अक्रम करके हो । और नित्यपदार्थसे ‘क्रम तथा अक्रम करके अर्थक्रिया होती है, इस विषयका पूर्वोक्त प्रकारसे खंडन हो चुका है । इसलिये

क्रम और अक्रमसे व्याप्त (होनेवाली) जो अर्थक्रिया है, वह क्रम तथा अक्रमरूप व्यापकके न मिलनेसे नष्ट होती है । और अर्थ-क्रियासे होनेवाला अर्थक्रियाकारित्व है, इसलिये नष्ट होती हुई अर्थक्रिया अपने व्याप्य अर्थक्रियाकारित्वका नाश करती है । और नष्ट होता हुआ जो अर्थक्रियाकारित्व है, वह अपनेमें व्याप्य (रहनेवाला) जो सत्त्व (वस्तुत्व) है, उसको नष्ट करता है । इसलिये वादियोंका जो पदार्थको एकान्तनित्य माननेरूप पक्ष है, वह युक्तियोंको नहीं सहता ।

एकान्ताऽनित्यपक्षोऽपि न कक्षीकरणाहः । अनित्यो हि प्रतिक्षणविनाशी । स च न क्रमेणार्थक्रियासमर्थः । देशकृतस्य कालकृतस्य च क्रमस्यैवाऽभावात् । क्रमो हि पौर्वापर्यम् । तच्च क्षणिकस्यासम्भवि । अवस्थितस्यैव हि नानादेशकालव्याप्तिदेशक्रमः कालक्रमश्चाभिधीयते । न चैकान्तविज्ञानिनि सास्ति । यदाहुः—“यो यत्रैव स तत्रैव यो यदैव तदैव सः । न देशकालयोर्व्याप्तिर्भावानामिह विद्यते । १ ।”

अब वैशेषिकोंका माना हुआ जो एकान्त अनित्य पक्ष है अर्थात् कितने ही पदार्थोंको सर्वथा अनित्य मानना है, वह भी स्वीकार करने योग्य नहीं है । क्योंकि, जो क्षणक्षणमें नष्ट होनेवाला है, उसको अनित्य कहते हैं । और वह अनित्यपदार्थ क्रमसे अर्थक्रियाके करनेमें समर्थ नहीं है । क्योंकि, देश (स्थान) का किया हुआ और कालका किया हुआ जो क्रम है, उसीका उस अनित्य पदार्थमें अभाव है । भावार्थ—यह इसके पहिले है, यह इसके पीछे है, इस प्रकारके व्यवहाररूप जो पौर्वापर्य है, वही क्रम है और यह क्रम क्षणिक (क्षण क्षणमें नष्ट होनेवाले) पदार्थके नहीं हो सकता है । क्योंकि, स्थिर (नित्य) पदार्थका जो अनेक देशोंमें रहना है, वह तो देशक्रम कहलाता है, और अनेक-कालोंमें रहना है, वह कालक्रम कहलाता है । और सर्वथा अनित्यपदार्थके वह अनेक देश तथा कालमें व्याप्ति नहीं है । क्योंकि, बौद्धोंने कहा है कि, “जो पदार्थ जिस स्थानमें है, वह उसी स्थानमें है । और जो पदार्थ जिस क्षणमें रहता है, वह उसीमें रहता है, अन्य क्षणमें नहीं । इस कारण हमारे क्षणिक मतमें पदार्थोंकी देश और कालमें व्याप्ति नहीं है । १ ।”

न च सन्तानापेक्षया पूर्वोत्तरक्षणानां क्रमः सम्भवति । सन्तानस्याऽवस्तुत्वात् । वस्तुत्वेऽपि तस्य यदि क्षणिकत्वं न तर्हि क्षणेभ्यः कश्चिद्विशेषः । अथाऽक्षणिकत्वं तर्हि समाप्तः क्षणभङ्गवादः ।

अब कदाचित् वादी कहे कि-संतानकी अपेक्षासे पूर्व और उत्तर क्षणमें क्रम हो सकता है अर्थात् प्रथम क्षणमें रहनेवाले पदार्थका संतान दूसरे क्षणमें रहता है, इसलिये पूर्वक्षणके क्रम ही संतानको पदार्थ मान भी लिया जावे, तो यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि, अथवा अक्षणिक (नित्य) है ? यदि क्षणिक कहो तब तो संतानमें पदार्थसे कोई विशेष (भेद) न हुआ अर्थात् जैसे पदार्थ क्षणिक है, उसी प्रकार संतान भी क्षणिक हुआ तो जैसे क्षणिक होनेसे पदार्थमें क्रम नहीं होता है, वैसे ही संतानमें भी क्रम नहीं होगा । और यदि कहो कि, संतान अक्षणिक है, तो तुम्हारा क्षणभङ्गवाद समाप्त हुआ अर्थात् संतान पदार्थको तुमने भी नित्य मान ही लिया ।

नायकमेणार्थक्रिया क्षणिके सम्भवति । सद्योको बीजपूरादिर्क्षणो युगपदनेकान् रसादिक्षणान् जनयन् एकेन स्वभावेन जनयेत्, नानास्वभावैर्वा । यद्येकेन तदा तेषां रसादिक्षणानामेकत्वं स्यात् । एकस्वभावजन्यत्वात् । अथ नानास्वभावैर्जनयति, किञ्चिद्रूपादिकमुपादानभावेन, किञ्चिद्रसादिकं सहकारित्वेन, इति चेत्-तर्हि ते स्वभावास्त- स्यात्सम्भूता अनात्मभूता वा । अनात्मभूताश्चेत्स्वभावत्वहानिः । यद्यत्तिरिक्तत्वात्तेषां, तस्य चैकत्वात् । अनेकस्वभा- और क्षणिकपदार्थमें अक्रमसे भी अर्थक्रिया नहीं हो सकती है । क्योंकि, वह एक बीजपूर (विजोरा) रूप पदार्थ एक ही समयमें अनेक रस आदि पदार्थोंको जो उत्पन्न करता है, सो एक स्वभावसे उत्पन्न होनेके कारण उन रस आदि पदार्थोंके एकता ही जावेगी कहे कि, एक स्वभावसे रस पदार्थको उत्पन्न करता है, उसी स्वभावसे यदि रूप, गन्ध, स्पर्श आदि पदार्थोंको भी उत्पन्न अर्थात् बीजपूर जिस स्वभावसे रस पदार्थको उत्पन्न करता है, तब तो एक स्वभावसे उत्पन्न करेगा ? यदि रूप, रस, गन्ध आदि सब पदार्थ एक ही जावेंगे । क्योंकि वे सब एक स्वभावसे उत्पन्न हुए हैं [बौद्धमतमें 'क्षण' शब्दसे पदार्थका ग्रहण है और यह इसका धर्म (गुण) है, यह इसका धर्म (गुण) है, ऐसा नहीं माना गया है । इसलिये जैसे बीजपूर पदार्थ है, वैसे ही रूप रस आदि भी पदार्थ है ।] अब यदि कहो कि, वह बीजपूर पदार्थ रस आदिको अनेक स्वभावोंसे उत्पन्न

१ बौद्धमते क्षणशब्देन पदार्थसंज्ञा क्षणिकत्वाक्षणः ॥

करता है अर्थात् किसी रूप आदिको उपादानभावसे उत्पन्न करता है और किसी रस आदि पदार्थको सहकारीभावसे उत्पन्न करता है। भावार्थ—बीजपूर रूप आदिकी उत्पत्तिमें तो स्वयं (खुद) उपादानरूपसे रहता है, और रस आदिकी उत्पत्तिमें स्वयं सहकारी कारण होकर रहता है, तो हम पूछते है कि, वे उपादान तथा सहकारी आदि भाव उस बीजपूरपदार्थके आत्मभूत (निजस्वरूप) है? अथवा अनात्मभूत (परस्वरूप) है? यदि कहो, कि—अनात्मभूत है, तब तो वे उपादानादिभाव उस बीजपूरपदार्थके स्वभाव ही नहीं है। और यदि कहो, कि—उपादानादिभाव बीजपूरपदार्थके आत्मभूत हैं, तो अनेक स्वभावरूप होनेसे उस बीजपूरपदार्थके अनेकता हो जावेगी अर्थात् जितने स्वभाव होंगे उतने ही उन स्वभावोंके धारक बीजपूरपदार्थ भी होंगे। अथवा उन स्वभावोंके एकताका प्रसङ्ग होगा। क्योंकि, वे उपादानादिभाव बीजपूरपदार्थसे अभिन्न है। और बीजपूर एक है।

अथ य एव एकत्रोपादानभावः स एवान्यत्र सहकारिभाव इति न स्वभावभेद इष्यते। तर्हि नित्यस्यैकरूपस्यापि क्रमेण नानाकार्यकारिणः स्वभावभेदः कार्यसांकर्यं च कथमिष्यते क्षणिकवादिना। अथ नित्यमेकरूपत्वादक्रमं, अक्रमाच्च क्रमिणां नानाकार्याणां कथमुत्पत्तिरिति चेत्—अहो स्वपक्षपाती देवानां प्रियो यः खलु स्वयमेकस्मान्निरंशाद्रूपादिक्षणात्कारणाद्युगपदनेककारणसाध्यान्यनेककार्याण्यङ्गीकुर्वाणोऽपि परपक्षे नित्येऽपि वस्तुनि क्रमेण नानाकार्यकरणेऽपि विरोधमुद्भावयति। तस्मात्क्षणिकस्यापि भावस्याऽक्रमेणार्थक्रिया दुर्घटा।

अब यदि कहो कि, जो स्वभाव एक स्थानमें उपादानभाव होकर रहता है, वही दूसरे स्थानमें सहकारीभाव हो जाता है, इसलिये हम पदार्थमें स्वभावका भेद नहीं मानते है। तो हमारा (जैनियोंका) माना हुआ जो एक रूप और क्रमसे अर्थक्रिया करनेवाला नित्यपदार्थ है, उसके तुम क्षणिकवादियों (बौद्धों) ने स्वभावका भेद और कार्यसंकरत्व कैसे माना है। भावार्थ—नित्यपदार्थके माननेमें बौद्ध जो यह दोष देते है कि, “यदि नित्य पदार्थ क्रमसे एक स्वभावसे अर्थक्रिया करै, तब तो एक ही समयमें अपने सब कार्य कर लेगा, इस कारण कार्यसंकरता (सब कार्योंके अभिन्नता) हो जावेगी। और यदि अनेक स्वभावोंसे अर्थक्रिया करै तो स्वभावका भेद होजावेंके कारण उस नित्यपदार्थके क्षणिकताकी प्राप्ति होगी” सो उनका यह दोष देना ठीक नहीं है। क्योंकि, उन्होंने भी तो एक क्षणिक पदार्थसे उपादान तथा सहकारीभावोंद्वारा अनेक कार्योंकी उत्पत्ति मानकर स्वभाव भेद नहीं माना है। अब

यदि बौद्ध कहे, कि तुम्हारा माना हुआ नित्य पदार्थ एकरूप होनेसे अक्रम (क्रमरहित) है । और अक्रम पदार्थसे क्रमिक (क्रमसे होनेवाले) अनेक कार्योंकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? तो हमको खेद होता है कि, देवानांप्रिय (मूर्ख) बौद्ध अपना पक्षपाती है । क्योंकि, जो स्वयं एक और अंशरहित (क्षणमात्रवर्ती) रूप आदि पदार्थरूप कारणसे अनेक कारणोंद्वारा सिद्ध होने योग्य अनेक कार्योंकी उत्पत्ति मान करके भी नित्य पदार्थसे क्रमसे नानाकार्योंके करना माननेरूप भी पर (हमारे) पक्षमें विरोधको उत्पन्न करता है । भावार्थ—बौद्ध जब निरंश पदार्थ ही से एक क्षणमें क्रमिक अनेक कार्योंका होना मानता है, तब हम जो चिरकाल-स्थायी नित्यपदार्थसे क्रमद्वारा अनेक कार्योंका होना मानते है, उसमें दोष क्यों देता है । इसकारण सिद्ध हुआ कि क्षणिक पदार्थके भी अक्रमसे अर्थक्रिया नहीं हो सकती है ।

इत्यनित्यैकान्तादपि क्रमाऽक्रमयोर्व्यापकयोर्निवृत्त्यैव व्याप्यार्थक्रियापि व्यावर्तते । तद्व्यावृत्तौ च सत्त्वमपि व्यापकानुपलब्धिबलेनैव निवर्तते । इत्येकान्ताऽनित्यवादोऽपि न रमणीयः ।

इसप्रकार एकान्त अनित्य पदार्थसे भी क्रम अक्रमरूप व्यापककी रहिततासे ही व्याप्य जो अर्थक्रिया है, वह भी दूर होती है । और अर्थक्रियाके दूर होनेपर व्यापककी अप्राप्तिके बलसे ही सत्त्व भी दूर होता है । भावार्थ—अर्थक्रिया जो है-सो क्रम और अक्रमसे व्याप्त है, और एकान्त अनित्यपदार्थसे क्रम तथा अक्रमद्वारा अर्थक्रिया नहीं होती है । इसलिये अपने व्यापक जो क्रम अक्रम हैं, उनके अभावमें क्रम, अक्रमसे व्याप्य जो अर्थक्रिया है, वह दूर होती है । और नष्ट होता हुआ अर्थक्रियारूप व्यापक अपनेसे व्याप्य अर्थक्रियाकारित्वका नाश करता है । एव अपना व्यापक जो अर्थक्रियाकारित्व है, उसका अभाव होनेसे सत्त्व (वस्तुत्व) भी नष्ट होता है । इस कारण एकान्त अनित्यवाद अर्थात् सर्वथा-पदार्थोंको अनित्य मानना भी ठीक नहीं है ।

स्याद्वादे तु पूर्वोत्तराकारपरिहारस्वीकारस्थितिलक्षणपरिणामेन भावानामर्थक्रियोपपत्तिरुद्धा । न चैकत्र वस्तुनि परस्परबिरुद्धधर्माध्यासाऽयोगादसन् स्याद्वाद इति वाच्यम् । नित्यानित्यपक्षविलक्षणस्य पक्षान्तरस्या-ङ्गीक्रियमाणत्वात्, तथैव च सर्वैरनुभवात् । तथा च पठन्ति ।- “भागे सिंहो नरो भागे योऽर्थो भागद्वयात्मकः । तमभागं विश्रोगेन नरसिंहं प्रचक्षते । १ ।” इति । वैशेषिकैरपि चित्ररूपस्यैकस्यावयविनोऽभ्युपगमात् । एक-

स्वैव पदादेश्चलाचलरकारकावृतानावृतत्वादिविरुद्धधर्माणामुपलब्धेः, सौगतरप्येकत्र चित्रपटीज्ञाने नीलानील-
योविरोधानङ्गीकारात् ।

और स्याद्वादमें अर्थात् एक ही पदार्थमें कश्चित् नित्यता और अनित्यत्वारूप दोनों धर्मोंको माननेवाले हमारे पक्षमें तो पूर्व आकारका त्याग करना १, उत्तर आकारका स्वीकार करना २, और सर्व-अवस्थाओंमें द्रव्यस्वभावसे स्थित रहना ३, इन स्वरूप जो उत्पाद, व्यय तथा श्रौष्य रूप परिणाम है, उसके माननेसे पदार्थके अर्थक्रियाकी सिद्धि विरोध रहित है । शंका—एक पदार्थमें परस्पर विरोध रखनेवाले नित्य और अनित्यरूप दोनों धर्मोंका रहना असंभव है, इसकारण तुम्हारा स्याद्वाद मिथ्या है । समाधान— ऐसा न कहना चाहिये । क्योंकि, स्याद्वादमें नित्यपक्ष तथा अनित्यपक्षसे भिन्न जो नित्यानित्यरूप तीसरा पक्ष है, वह स्वीकार किया गया है । और पदार्थोंमें इसी प्रकारसे अर्थात् नित्यानित्यरूपतासे ही सबको अनुभव भी होता है । सो ही द्विखलते है ।—“जो एक भागमें सिंह है तथा दूसरे भागमें मनुष्य है, उस भागरहित पदार्थको विभाग करके नरसिंह कहते है । १’ भावार्थ—नृसिंहावृत्तार शरीरके एक भागमें तो सिंहके समान है, और दूसरे भागमें पुरुषके समान है, इसकारण यद्यपि वह एक ही शरीरमें परस्पर विरुद्ध दो आकृतियोंको धारण करनेसे भाग रहित है, तथापि लौकिकजन विभाग करके उसको नरसिंह कहते है । इसी प्रकार हमारा स्याद्वाद भी है । वैशेषिकोंने भी एक चित्ररूप अवयवी माना है अर्थात् रक्त, पीत, नील आदि अनेक वर्णरूप धर्मोंको धारण करनेवाले एक चित्ररूप पदार्थको जुदा माना है । और एक ही वस्त्र आदि पदार्थके चल (हिलते हुए) अचल (नहीं हिलते हुए) रक्त (लाल) अरक्त (लालरंगसे भिन्न) आवृत (ढके हुए) अनावृत (नहीं ढके हुए) आदि परस्पर विरुद्ध धर्मोंकी प्राप्ति होनेसे बौद्धोंने भी एक चित्र (अनेक) वर्णके धारक वस्त्रके ज्ञानमें नील वर्ण और नीलसे भिन्न-श्वेत, पीत आदि वर्णोंके परस्पर विरोध नहीं माना है ॥ भावार्थ—एक ही वस्त्र किसी भागमें तो हिलता रहता है और किसीमें नहीं हिलता है । एक भागमें लालवर्णको धारण करता है और दूसरे भागमें पीतवर्णको धारण करता है । एवं एक भागमें किसी दूसरेसे ढका हुआ रहता है और दूसरेमें खुला हुआ । ऐसा देखे जानेसे बौद्धोंने एक वस्त्रके ज्ञानमें नील और पीतवर्णका विरोध नहीं माना है ।

अत्र च यद्यप्यधिकृतवादिनः प्रदीपादिकं कालान्तरावस्थायित्वात्क्षणिकं न मन्यन्ते । तन्मते पूर्वापरान्ता-
वच्छिन्नायाः सत्ताया एवानित्यतालक्षणात् । तथापि बुद्धिसुखादिकं तेऽपि क्षणिकतथैव प्रतिपन्नाः । इति तद-

धिकारेऽपि क्षणिकवादचचो नानुपपन्ना । यदापि च कालान्तरावस्थायि वस्तु, तदापि नित्यानित्यमेव । क्षणोऽपि न खलु सोऽस्ति यत्र वस्तु उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकं नास्ति । इति काव्यार्थः ॥ ५ ॥

यद्यपि अधिकृत वादियोंने अर्थात् जिनका हमने यहां खण्डन किया है, उन वैशेषिकोंने एक क्षणके सिवाय अन्य क्षणोंमें भी विद्यमान रहनेसे प्रदीप आदि पदार्थोंको क्षणिक नहीं माने है अर्थात् वैशेषिकोंके मतमें प्रदीप आदि बहुत क्षणोंमें रहते हैं । क्योंकि, उनके मतमें पूर्व और उत्तरके अन्तसे मिली हुई जो सचा है अर्थात् जिसका पहिले भी अभाव हो और पीछे भी अभाव हो ऐसी जो पदार्थकी विद्यमानता है, वह ही अनित्यताका लक्षण है । भावार्थ—चौद्ध जैसे सब पदार्थोंको क्षणस्थायी होनेसे अनित्य कहते हैं, उसप्रकार वैशेषिक क्षणस्थायी पदार्थको अनित्य नहीं कहते, किंतु जिसका आदि और अन्त हो उस पदार्थको अनित्य मानते हैं । तथापि उन वैशेषिकोंने भी बुद्धि, सुख, दुःख आदि पदार्थोंको क्षणिकरूप ही स्वीकार किये हैं । इसकारण इस वैशेषिकोंके खण्डनमें भी जो हमने क्षणिकवादकी चर्चा कर डाली है, वह अनुचित नहीं है । और जब पदार्थ अन्य क्षणोंमें वर्त्त रहा है, उस समय भी वह पदार्थ नित्य तथा अनित्य, इन दोनों धर्मों रूप ही है । और वह कोई क्षण भी नहीं है कि, जिस क्षणमें पदार्थ उत्पाद व्यय और ध्रौव्य स्वरूप न हो अर्थात् सब ही क्षणोंमें पदार्थ उत्पाद व्यय तथा ध्रौव्यरूप लक्षणका धारक है । इसप्रकार काव्यका भावार्थ है ॥ ५ ॥

अथ तदभिमतमीश्वरस्य जगत्कर्तृत्वाम्युपगमं मिथ्याभिनिवेशरूपं निरूपयन्नाह ।

अब वैशेषिकोंने जो ईश्वरको जगतका कर्त्ता माना है, वह मिथ्या आग्रह रूप है । यह दिखलाने हुए आचार्य अग्रिम काव्यका कथन करते हैं ।

कर्त्तास्ति कश्चिज्जगतः स चैकः स सर्वगः स स्वशः स नित्यः ।

इमाः कुहेवाकविडम्बनाः स्युस्तेषां न येषामनुशासकस्त्वम् ॥ ६ ॥

काव्यभावार्थः—हे नाथ ! जिनके आप उपदेशदाता नहीं हैं, उनके “जगतका कोई कर्त्ता है, वह एक है, वह सर्वव्यापी है, वह स्वाधीन है, और वह नित्य है” ये दुराग्ररूपी विडम्बनायें होती हैं ।

ब्याख्या । जगतः प्रत्यक्षादिप्रमाणोपलक्ष्यमाणचरारूपस्य विश्वत्रयस्य कश्चिदनिर्वचनीयस्वरूपः पुरुष-
विशेषः कर्त्ता स्रष्टा अस्ति विद्यते । ते हि इत्थं प्रमाणयन्ति—उर्व्वीपर्वततर्वादिकं सर्वं बुद्धिमत्कर्त्तृकं कार्यत्वात् ।
यद्यत्कार्यतत्तत्सर्वं बुद्धिमत्कर्त्तृकं यथा घटस्तथा चेदं तस्मात्तथा । व्यतिरेके व्योमादि । यश्च बुद्धिमांस्तत्कर्त्ता
स भगवानीश्वर एवेति ।

व्याख्यार्थः—“जगतः” प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंद्वारा जाननेमें आते हुए जो ये चर (जंगम) और अचर (स्थायर) रूप तीन
जगतके पदार्थ हैं, इनका “कश्चित्” वचनोंके अगोचर स्वरूपका धारक कोई पुरुषविशेष “कर्त्ता” बनानेवाला “अस्ति” है ।
वे वैशेषिक इस ऊपर कहे हुए अपने मतको इस निम्नलिखित प्रकारसे प्रमाण कराते हैं अर्थात् सिद्ध करते हैं कि, ये पृथिवी, पर्वत
और वृक्ष आदि समस्त पदार्थ बुद्धिमानके रचे हुए हैं । क्योंकि, ये सब कार्य है । जो जो कार्य है, वह वह सब बुद्धिमानका
रचा हुआ है । जैसे कि, घट कार्य है और वह बुद्धिमान् कुंभकारसे बनाया हुआ है । उसी प्रकार अर्थात् घटके समान ही ये
पृथिवी पर्वत आदिक भी कार्य है, इसलिये किसी बुद्धिमानके द्वारा बनाये हुए है । व्यतिरेक दृष्टान्तमें व्योम आदि हैं अर्थात्
आकाश आदि कार्य नहीं है, इसलिये किसी बुद्धिमानके बनाये हुए भी नहीं है । और जो कोई बुद्धिमान् इन पृथिवी आदि
कार्योंका कर्त्ता है, वह भगवान् ईश्वर ही है ।

न चायमसिद्धो हेतुर्यतो भूभूधरादेः स्वस्वकारणकलापजन्यतया अवयवितया वा कार्यत्वं सर्ववादिनां प्रतीत-
मेव । नाप्यनैकान्तिको विरुद्धो वा । विपक्षादत्यन्तव्यावृत्तत्वात् । नापि कालालयथापदिष्टः । प्रत्यक्षानुमानागमाबा-
धितधर्मधर्म्यनन्तरप्रतिपादितत्वात् । नापि प्रकरणसमः । तत्प्रतिपन्थिधर्मोपपादनसमर्थप्रत्यनुमानाभावात् ।
और हमने पृथिवी आदिको ईश्वरके बनाये हुए सिद्ध करनेके लिये जो यह कार्यस्वरूप हेतु दिया है, वह असिद्ध नहीं है ।
क्योंकि, अपने २ कारणोंके समूहसे उत्पन्न होनेसे अथवा अवयवीपनेसे पृथिवी, पर्वत आदिके कार्यत्व सभी वादियोंने
माना है । और विपक्षसे अत्यंत भिन्न है, इस कारण यह कार्यत्वहेतु अनैकान्तिक (व्यभिचारी)-अथवा विरुद्ध भी नहीं है ।
तथा यह कार्यत्वहेतु कालालयथापदिष्ट (बाधित) भी नहीं है । क्योंकि, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम इन तीनों प्रमाणोंसे अबा-
धित अर्थात् सिद्ध ऐसे जो धर्म और धर्म हैं, उनके पश्चात् कहा गया है अर्थात् पहले प्रमाणसिद्ध धर्म तथा धर्मीका कथन करके

पीछे इस हेतुको कहा है। एवं यह कार्यत्वहेतु प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्ष) भी नहीं है। क्योंकि, इसके प्रतिकूल धर्मको अर्थात् जिस कर्तृत्वधर्मको यह कार्यत्वहेतु सिद्ध करता है, उस कर्तृत्वधर्मसे प्रतिकूल जो अकर्तृत्व धर्म है, उसको सिद्ध करनेमें समर्थ कोई प्रत्यनुमान नहीं है।

न च वाच्यमीश्वरः पृथ्वीपृथ्वीधरादेर्विधाता न भवति । अशरीरत्वात् । निर्वृत्तात्मवत् । इति प्रत्यनुमानं तद्वाधकमिति । यतोऽन्नेश्वररूपो धर्मी प्रतीतोऽप्रतीतो वा प्ररूपितः । न तावदप्रतीतो हेतोराश्रयासिद्धिप्रसङ्गात् । प्रतीतश्चेद्येन प्रमाणेन स प्रतीतस्तेनैव किं स्वयमुत्पादितस्वतनुर्न प्रतीयते । इत्यतः कथमशरीरत्वम् । तस्मान्निरवद्य एवायं हेतुरिति ।

शंका—“ ईश्वर जो है, सो पृथ्वी, पर्वत आदिका कर्त्ता नहीं हो सकता है। क्योंकि, शरीररहित है। मुक्त आत्माके समान अर्थात् जैसे मुक्त आत्मा शरीररहित होनेसे पृथिवी आदिका कर्त्ता नहीं होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी अशरीर है, इसकारण पृथिवी आदिका कर्त्ता नहीं हो सकता है।” यह प्रत्यनुमान जगत्स्वरूप धर्ममें ईश्वरकर्तृत्व धर्मका वाधक है। समाधान—यह न कहना चाहिये। क्योंकि, “ ईश्वर पृथिवी आदिका कर्त्ता नहीं हो सकता है ” इत्यादि इस अनुमानके प्रयोगमें तुमने जो ईश्वररूप धर्मका कथन किया है, सो प्रतीत है वा अप्रतीत है? यदि कहो कि, अप्रतीत (नहीं जाने हुए) ईश्वर धर्मका कथन किया है, तब तो हेतुके आश्रयासिद्धि-दोषका असंग औवगा अर्थात् जब धर्म ही अप्रतीत है, तब अशरीरत्व हेतु किसमें रहेगा। और यदि कहो कि,—हमने प्रतीत (जाने हुए) ईश्वरधर्मका निरूपण किया है, तो जिस प्रमाणसे तुमने उस ईश्वरको जाना है, उसी प्रमाणसे तुम उस ईश्वरको संय (अपने आप ही) उत्पन्न किये हुए शरीरका धारक भी क्यों नहीं जान लेते हो अर्थात् जिस प्रमाणसे तुमने ईश्वर जाना है, उसी प्रमाणसे तुम यह भी मान लो कि, ईश्वरने स्वयं अपना शरीर बनाकर फिर जगतको बनाया है। और जब ईश्वरको शरीरका धारक मानलिया, तब अशरीरपना कहां रहा? इस कारण हमने जो कार्यत्वहेतु दिया है, वृह निर्दोष ही है। भावार्थ—असिद्ध, १ विरुद्ध, २ अनैकान्तिक, ३ कालात्ययापदिष्ट ४ और सत्प्रतिपक्ष ५ ये जो पांच हेतुके दोष हैं, इनमेंसे हमारे कहे हुए कार्यत्वहेतुमें कोई भी दोष नहीं है, इस कारण ईश्वर जगतका कर्त्ता है। यह सिद्ध हो गया।

स चैक इति । चः पुनरर्थे । स पुनः पुरुषविशेष एकोऽद्वितीयः । बहूनां हि विश्वविधातृत्वस्वीकारे परस्परविमतिसंभावनाया अनिवार्यत्वादकैकस्य वस्तुनोऽन्यान्यरूपतया निर्माणे सर्वसमञ्जसमापद्येत । इति ।

“च” [यहा ‘च’ पुन. के अर्थमें है] फिर “सः” वह पुरुषविशेष जो है सो “एकः” एक है अर्थात् उसके सिवाय और कोई दूसरा जगतका कर्त्ता नहीं है । यदि बहुतोंको जगतके कर्त्ता मानें तो उनके परस्पर संमति (सलाह) में भेद (फरक) होनेकी संभावना नहीं रूक सकती है, इस कारण एक एक वस्तुकी अन्य प्रकाशसे रचना होने पर सब अनुचित हो जावे । भावार्थ—यदि बहुतसे पुरुष विशेषोंको जगतके कर्त्ता मानें तो उनके परस्पर मतिभेद हो जावेगा और उस मतिभेदके होने पर कोई तो एक वस्तुको अन्य प्रकाशसे वनावेगा और कोई उसी एक वस्तुको दूसरे प्रकारसे वनावेगा और ऐसा होने पर सब अनुचित हो जायगा अर्थात् घुटाला होनेसे किसी भी वस्तुकी सरूपव्यवस्था न होगी ॥

तथा स सर्वग इति । सर्वत्र गच्छतीति सर्वगः सर्वव्यापी । तस्य हि प्रतिनियतदेशवर्तित्वेऽनियतदेशवृत्तीनां विश्वत्रयान्तर्वर्तिपदार्थसार्थानां यथावन्निर्माणानुपपत्तिः । कुम्भकारादिषु तथा दर्शनात् । अथवा सर्वं गच्छति जानातीति सर्वगः सर्वज्ञः । सर्वे गत्यर्थाः ज्ञानार्था इति वचनात् । सर्वज्ञत्वाऽभावे हि यथोचितोपादानकारणाद्यनभिज्ञत्वादनु रूपकार्योत्पत्तिर्न स्यात् ।

तथा फिर “ सः ” वह पुरुषविशेष “ सर्वगः ” सब जगह गमन करनेवाला अर्थात् सर्वव्यापी (सब पदार्थमें रहनेवाला) है । क्योंकि, यदि उसको प्रतिनियतदेशवर्ती अर्थात् किसी एक नियमित (मुकर्रर) स्थानमें रहनेवाला मानें तो उसके अनियमितस्थानोंमें रहनेवाले ऐसे जो तीनों लोकोंमें स्थित पदार्थोंके समूह है, उनको यथावत् रीतिसे (भले प्रकारसे) बनानेकी सिद्धि न होगी अर्थात् वह भिन्न २ स्थानोंमें स्थित पदार्थोंको यथार्थरीतिसे न बना सकेगा । क्योंकि, कुम्भकार आदिमें ऐसा देखा जाता है अर्थात् जहां कुम्भकार स्थित है, वहां ही वह घट बनाता है । अथवा वह “गतिरूप अर्थके धारक सब धातु ज्ञानरूप अर्थके धारक भी है, ” इस वचनसे सर्वग अर्थात् सर्वज्ञ (सबको जाननेवाला) है । क्योंकि, यदि वह पुरुषविशेष सर्वज्ञ न हो तो यथायोग्य उपादान कारणोंको न जाननेसे उसके द्वारा योग्य कार्योकी उत्पत्ति न होगी अर्थात् असर्वज्ञतासे ईश्वरके ‘किन २ उपादान कारणोंसे

कौन २ से कार्य होते हैं ' इस विषयक ज्ञान न होगा और उस ज्ञानके न होनेसे जगतमें जो ये योग्यकार्य देखनेमें आते हैं, इनको वह ईश्वर उत्पन्न न कर सकेगा ।

तथा स स्ववशः स्वतन्त्रः । सकलप्राणिनां स्वेच्छया सुखदुःखयोरनुभावनसमर्थत्वात् । तथा चोक्तम्—“ईश्वर-
स्प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा श्वश्रमेव वा । अन्यो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । १ ।” इति । पार-

तन्त्रे तु तस्य परमुखप्रेक्षितया मुख्यकर्तृत्वव्याघातादनीश्वरत्वापत्तिः ।

तथा फिर “ सः ” वह “ स्ववशः ” स्वतंत्र अर्थात् स्वाधीन है । क्योंकि, वह ईश्वर अपनी इच्छानुसार सब प्राणियोंको सुख और दुःखका अनुभव करनेमें समर्थ है अर्थात् अपनी इच्छासे सबको सुख तथा दुःख देता है । सो ही कहा भी है कि,—
“ यह जीव ईश्वरका भेजा हुआ ही स्वर्गको अथवा नरकको गमन करता है । क्योंकि, ईश्वरके सिवाय जो अन्य जीव है, वे अपने सुख और दुःखको उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं है । १ । ” यदि उस ईश्वरको परतंत्र (पराधीन) मानें तो वह ईश्वर जगतके बनानेमें दूसरोंका सुख देखेगा अर्थात् दूसरोंकी आज्ञा लेकर कार्य करेगा इस कारण उसके मुख्यकर्त्तृत्वका नाश होनेसे अनीश्वरता ही जावेगी अर्थात् मुख्यकर्त्ता न रहनेसे ईश्वर ईश्वर न रहेगा ।

तथा स नित्य इति । अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकरूपः । तस्य ह्यनित्यत्वे परोत्पाद्यतया कृतकत्वप्राप्तिः । अपेक्षित-
परव्यापारो हि भावः स्वभावनिष्पत्तौ कृतक इत्युच्यते । यथापरस्तकर्त्ता कल्प्यते स नित्योऽनित्यो वा स्यात् ।
नित्यश्चेदधिकृतेश्वरेण किमपराद्धम् । अनित्यश्चेत्तस्याप्युत्पादकान्तरेण भाव्यम् । तस्यापि नित्यानित्यत्वकल्प-
नायामनवस्थानौस्थिमिति ।

तथा “ सः ” वह पुरुषविशेष “ नित्यः ” नित्य है अर्थात् अप्रच्युत (अविनाशी) अनुत्पन्न (उत्पत्तिसे रहित) और स्थिरैकरूप (निश्चल एक सभावका धारक) है । क्योंकि, यदि ईश्वरको अनित्य मानेंगे तो परसे उत्पन्न होनेके कारण वह ईश्वर कृतक होजावेगा । कारण कि, जो पदार्थ अपने स्वरूपकी सिद्धिमें अन्य पदार्थके व्यापारकी अपेक्षा रखता है अर्थात् निजको सिद्धकर-
नेके लिये दूसरेकी सहायता चाहता है, वह कृतक कहलाता है । और जो तुम किसी दूसरेको ईश्वरका कर्त्ता मानो, तो हम प्रश्न करते हैं कि, वह ईश्वरका कर्त्ता नित्य है ? वा अनित्य है ? यदि कहे कि, नित्य है, तब तो हमारे माने हुए इस ईश्वरने क्या

अपराध किया है अर्थात् तुम ईश्वरके कर्ताको नित्य न मानकर ईश्वरको ही नित्य क्यों नहीं मानलेते हो । यदि कहो कि, ईश्वरका कर्ता अनित्य है, तो ऐसी दशमें उस ईश्वरके कर्ताको बनानेवाला भी कोई दूसरा होना चाहिये और उसका भी कोई अन्य । इस प्रकार नित्य तथा अनित्य रूप विकल्पोंकी कल्पना करनेमें अनवस्था नामक दोष कभी दूर न होगा ।

तदेवमेकत्वादिविशेषणविशिष्टो भगवानीश्वरस्त्रिजगत्कर्तेति पराभ्युपगममुपदर्शयित्तरार्द्धेन तस्य दुष्टत्वमाचष्टे । इमा एता अनन्तरोकाः कुहेवाकविडम्बनाः कुत्सिता हेवाका आग्रहविशेषाः कुहेवाकाः कदाग्रहा इत्यर्थस्त एव विडम्बनाः विचारचतुरीबाह्यत्वेन तिरस्काररूपत्वाद्धिगोपकप्रकाराः स्युर्भवेत्युत्तेषां प्रामाणिकापसदानां येषां हे स्वामिन् त्वं नानुशासको न शिक्षादाता ।

सो इस प्रकार एकत्वादि विशेषणोंका धारक जो भगवान ईश्वर है, वही तीन जगतका कर्ता है । इस पूर्वोक्त प्रकारसे आचार्य श्लोकके पूर्वार्द्धद्वारा वैशेषिकोंके मतको दिखाकर अब उत्तरार्द्धसे उस वैशेषिकमतकी दुष्टताका कथन करते हैं । “ इमाः ” ये ऊपर कही हुई “ कुहेवाकविडम्बनाः ” खोटे आग्रहरूप विडम्बनायें अर्थात् विचारकी चतुरतासे रहित होनेके कारण तिरस्काररूप होनेसे अपने दोषोंको छिपानेके प्रकार उन अधम न्यायवेत्ताओंके (वैशेषिकोंके) “ स्युः ” होंवें । “ येषां ” जिनके हे स्वामिन् ! “ त्वं ” आप “ अनुशासकः ” शिक्षा देनेवाले “ न ” नहीं हो । भावार्थ—हे भगवन् ! आपकी आज्ञासे प्रतिकूल वैशेषिकोंने जो बिना समझे ईश्वरको जगत्का कर्ता मान लिया है, उस दोषको छिपानेके लिये ही उन्होंने ये एकत्व आदि विशेषण दिये हैं ।

तदभिनिवेशानां विडम्बनारूपत्वज्ञापनार्थमेव पराभिप्रेतपुरुषविशेषणेषु प्रत्येकं तच्छब्दप्रयोगमसूयागर्भमाविर्भावयाञ्चकार स्तुतिकारः । तथा चैवमेव निन्दनीयं प्रति वक्तारो वदन्ति । स मूर्खः, स पापीयान्, स दरिद्र इत्यादि । त्वमित्येकवचनसंयुक्त्युष्मच्छब्दप्रयोगेण परमेशितुः परमकारुणिकतयाऽनपेक्षितस्वपरपक्षविभागमितरशास्तृणामसाधारणमद्वितीयं हितोपदेशकत्वं ध्वन्यते ।

स्तुतिके कर्ता आचार्यने वैशेषिकोंके अभिप्रायोंको विडम्बनारूप विदित करनेके लिये ही उनके अभीष्ट जो ईश्वरके विशेषण है, उनमें प्रत्येक विशेषणके साथ ईर्ष्यके धारक ‘ तत् ’ इस शब्दका प्रयोग किया है । और निन्दाकरनेयोग्य पुरुषके प्रति

कहनेवाले वह मूर्ख है, वह महापापी है, वह दरिद्री है, इत्यादि इसी प्रकार प्रत्येक विशेषणके साथ तत्तशब्दको व्यवहारमें लते है। और 'त्वं' इस एकवचनके धारक युष्मत्शब्दका प्रयोग करनेसे आचार्य परमेश्वर श्रीजिनेन्द्रके परमदयालुताके कारण निज और पर पक्षकी भेदभावनाकी अपेक्षाके विना अन्य उपदेशकोंमें न होनेवाला ऐसा जो अद्वितीय हितोपदेशकपना है, उसको ध्वनित करते है। भावार्थ—सुखमें युष्मत् शब्दका एकवचन देकर आचार्यने यह दर्शाया है कि, जैसे अन्य उपदेशक पक्षपाती होकर अपने मतवालोंको तो उपदेश देते है, और अन्य मतवालोंको नहीं देते है। उसप्रकार श्रीजिनेन्द्र पक्षपाती नहीं है, किंतु परम्परारुद्धिसे सभीको समान हितोपदेश देनेसे अद्वितीय उपदेशक है।

अतोऽत्रायमाशयः । यद्यपि भगवानविशेषेण सकलजगज्जन्तुजातहितावहां सर्वेभ्य एव देशनावाचमाचष्टे । तथापि सैव केषांचिच्चित्तनिकाचितपापकर्मकलुपितात्मनां रुचिरूपतया न परिणमते । अपुनर्वन्धकादिव्यतिरिक्त्वेनायोग्यत्वात् । तथा च कादम्बर्यां बाणोऽपि बभाण—“अगतमले हि मनसि स्फटिकमणाविवरजनिकरगभस्तयो विशन्ति सुखमुपदेशगणाः । गुरुवचनममलमपि सलिलमिव महदुपजनयति श्रवणस्थितं शूलमभव्यस्य ” इति । अतो वस्तुवृत्त्या न तेषां भगवाननुशासक इति ।

इस कारण यहां पर यह भाव है कि, यद्यपि भगवान् अविशेषसे अर्थात् समानरूपसे सभीके लिये सपूर्ण जगतके जीवोंका भला करनेवाले उपदेशवचनको कहते है। तथापि वही उपदेशरूपवचन पूर्वकालमें उपार्जन कियेहुए निकाचित-पापकर्मसे मलीन है आत्मा जिनका ऐसे कितने ही जीवोंके रुचिरूपतासे नहीं परिणमता है अर्थात् कितने ही पापीजीवोंको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि, वे पापीजीव अपुनर्वन्धक [जो तीव्रभावोसे पापको नहीं करता है, वह अपुनर्वन्धक कहलाता है और इसकी मुक्ति पुद्गल परावर्तनमें ही हो जाती है] आदि जीवोंसे भिन्न होनेके कारण अयोग्य है अर्थात् उपदेशके पात्र नहीं है। सो ही कादम्बर्यमें बाणकवीने भी कहा है कि, जैसे निर्मल स्फटिकमणि (विल्लोर) में चंद्रमाकी किरणें सुखसे प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार मलरहित (सच्छ) मनमें उपदेशोके समूह सुखसे प्रवेश करते है। और जैसे कर्ण (कानों) में स्थित हुआ निर्मलजल शूलरोगको उत्पन्न करता है, उसीप्रकार कर्णोंमें स्थित हुआ निर्मल गुरूका वचन भी अभव्यजीवके शूल नामक रोगको उत्पन्न कर-

१ पाप न तीव्रभावात्करोतीत्यादिलक्षणेऽपुनर्वन्धकः । अस्य च पुद्गलपरावर्तनमध्य एव मुक्तिः ॥

ता है अर्थात् यदि अभव्य उपदेशवचन सुनें तो, वह उसको अच्छा नहीं लगता है। इसकारण वास्तवमें भगवान् उनके उपदेशक नहीं है अर्थात् 'तेषां न येषामनुशासकस्त्वम्' (जिनके आप उपदेश दाता नहीं है, उनके ही थे दुराग्रह होते हैं) ऐसा जो आचार्यने कहा है वह सत्य है। क्योंकि, वैशेषिकमतवाले अभव्य होनेसे उपदेशके पात्र नहीं है।

न चैतावता जगद्गुरोरसामर्थ्यसम्भावना। न हि कालदष्टमनुजीवयन् समुज्जीवितेतरदष्टको विषभिषगुपाल-
म्भनीयोऽतिप्रसङ्गात्। स हि तेषामेव दोषः। न खलु निखिलभुवनाभोगमवभासयन्तोऽपि भानवीया भानवः
कौशिकलोकस्यालोकहेतुतामभजमाना उपालम्भसम्भावनास्पदम्। तथा च श्रीसिद्धसेनः—“सद्धर्मबीजवपना-
नघकौशलस्य यल्लोकवान्धव तवापि खिलान्धभूवन्। तन्नाश्रुतं खगकुलेष्विह तामसेषु सूर्याशवो मधुकरीचरणा-
वदाताः। १।”

और इस कथनसे तीन लोकके गुरु-श्रीभगवानके असामर्थ्यकी संभावना नहीं है अर्थात् कोई यह शंका करे कि, अभव्यको उपदेश न दे सकनेसे भगवान् असमर्थ हैं, सो नहीं है। क्योंकि, अन्यके डसे हुएको जीवदान देनेवाला विषवैद्य यदि कालसर्पके डसेको नहीं जिला सके तो वह विषवैद्य उपालम्भके योग्य नहीं है। भावार्थ—सब सर्पआदिके डसे हुए जीवोंको उनका जहर दूरकरके जिला देनेवाला विषवैद्य (जहरका इलाज करनेवाला) यदि काल जातिके सर्पसे डसे हुएको न जिला सके तो वह वैद्य उपेका पात्र नहीं है। क्योंकि, अन्य सैकड़ों विषोंको दूर करता है। इसकारण वह दोष उस विषवैद्यका नहीं, किन्तु उस सर्पका ही है कि, जिस पर मन्त्र आदिका प्रभाव ही नहीं गिर सकता है। इसी प्रकार अन्य सब जीवोंको उपदेश देते हुए भगवान् यदि अभव्योंको उपदेश न देसकें तो इससे भगवान् असमर्थ नहीं हो सकते हैं। यह दोष उन अभव्योंका ही है, कि, वे उपदेशके पात्र नहीं हैं। क्योंकि, संपूर्ण भुवनमंडलको प्रकाशित करनेवाली सूर्यकी किरणें यदि उल्लूकों (बूधुओं) के प्रकाशकी कारण नहीं होवें तो उपालम्भके पात्र नहीं है। भावार्थ—सूर्यकी किरणें सब जगह प्रकाश करके सब जीवोंको सब पदार्थ दिखलती है, परंतु यदि बूधूको उनके प्रकाशमें न दीखे तो उसमें सूर्यकी किरणोंका कोई दोष नहीं है। किन्तु उन बूधुओंका ही दोष है। सो ही श्रीसिद्धसेनदिवाकरने कहा है कि “हे लोकवान्धव! उत्तम धर्मरूप बीजके बोनेमें अत्यन्त निपुणताके

धारक आपके भी जो खिल अर्थात् हल आदिसे नहीं गोदे हुए क्षेत्र हुए सो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । क्योंकि, जगतमें अन्ध-कारमें फिरनेवाले बूधूआदि दिनान्ध पक्षियोंके समूहको सूर्यकी किरणें अमरीके चरणोंके समान पीतवर्णकी धारक दीख पडती है ।” भावार्थ—जैसे चतुर किसानद्वारा बोया हुआ बीज अयोप्यक्षेत्रमें फलदायी नहीं होता है, उसी प्रकार जब भगवान्ने सम्यग्धर्मका उपदेश दिया तब कितने ही अभव्योंको उस उपदेशने लाभ नहीं पहुंचाया । सो इस विषयमें कोई आश्चर्य नहीं । क्योंकि, जो सूर्यकी किरणें अधकारको दूरकरके संपूर्ण सुवनमंडलमें प्रकाश कर देती है, वे ही सूर्यकी किरणें नेत्र बंद कियेहुए बूधू आदि पक्षि-यों अमरी (भोरी) की दागोंके समान कुछ कुछ पीली नजर आती है । ? ।”

अथ कथमिव तत्कुहेवाकानां विडम्बनारूपत्वमिति ब्रूमः । यत्तावदुक्तं परैः क्षित्यादयो बुद्धिमत्कर्तृकाः कार्यत्वाद्घटवदिति । तदयुक्तम् । व्याघ्रेग्रहणात् । साधनं हि सर्वत्र व्याप्तौ प्रमाणेन सिद्धायां साध्यं गमयेदिति सर्ववादिसंवादः । स चायं जगन्ति सृजन् सशरीरोऽशरीरो वा स्यात् । सशरीरोऽपि किमस्मदादिवद्दृश्यशरीर-विशिष्ट उत पिशाचादिवद्दृश्यशरीरविशिष्टः । प्रथमपक्षे प्रत्यक्षवाधः । तमन्तरेणापि च जायमाने तृणतरुपुर-न्दरधनुरभ्रादौ कार्यत्वस्य दर्शनात्प्रमेयत्वादिवत्साधारणानैकान्तिको हेतुः ।

अब उन वैशेषिकोंके खोटे आग्रह विडम्बनारूप कैसे हैं सो कहते हैं । प्रथम ही जो वैशेषिकोंने यह अनुमानका प्रयोग कहा है कि, ‘पृथ्वी आदिक बुद्धिमानके बनाये हुए हैं, कार्यहोनेसे, घटके समान’ सो ठीक नहीं है । क्योंकि, इस अनुमानमें व्याप्तिका ग्रहण नहीं है । कारण कि, ‘जब सब स्थलोंमें प्रमाणद्वारा व्याप्ति सिद्ध हो जाती है, तभी साधन साध्यको जनाता है’ यह सब मत-वालौका कहना है । इसलिये हम पूछते हैं, कि तीन लोकको रचता हुआ वह यह तुम्हारा माना हुआ ईश्वर शरीरसहित है वा शरीररहित है । अर्थात् ईश्वरने जगतको शरीर धारणकरके बनाया है ? वा विना शरीर धारणकिये बनाया है ? यदि कहो कि, सशरीर है, तो क्या हम जैसेके समान दृश्य (दीखनेमें आनेवाला) शरीरका धारक है ? अथवा पिशाच आदिके समान अदृश्य शरीरका धारक है ? अर्थात् ईश्वरका शरीर हमारे शरीरकी तरह सबके दीखनेमें आता है, वा पिशाच आदिके शरीरके समान किसीके दीखनेमें नहीं आता है । यदि कहो कि, ईश्वर दृश्यशरीरका धारक है, तो प्रथम तो प्रत्यक्षसे वाधा होती है । अर्थात् ईश्वर देखनेमें नहीं आता है । और दूसरे उस ईश्वरके शरीरके व्यापारके विना भी उसत्र होते हुए घास, वृक्ष, इन्द्रधनुष तथा मेघ

आदिमें कार्यपना देखनेसे प्रमेयत्वहेतुके समान कार्यत्वहेतु भी साधारणनैकान्तिकनामक जो हेतुदोष है, उससे दुष्ट होता है । भावार्थ—जैसे, ' पर्वत अशिका धारक है, प्रमेय (जाननेयोग्य) होनेसे ' इस प्रयोगमें प्रमेयत्वहेतु साधारणनैकान्तिक है अर्थात् अशिरूपसाध्यका धारक जो पर्वत है, उसमें भी रहता है और उस पर्वतसे भिन्न जो जलाशय आदि है उनमें भी रहता है । इसी प्रकार ईश्वरने जिन पदार्थोंको अपने शरीरद्वारा रचे उनमें तो कार्यत्वहेतु रहा ही । और जिन घास वृक्ष आदिको ईश्वरने अपने शरीरसे नहीं रचे है, उनमें भी रह गया, इस कारण कार्यत्वहेतु साधारणनैकान्तिकदोषका धारक होगया ।

द्वितीयविकल्पे पुनरदृश्यशरीरत्वे तस्य माहात्म्यविशेषः कारणमाहोस्विदस्माद्यदृष्टवैगुण्यम् । प्रथमप्रकारः कोशपानप्रत्यायनीयः । तत्सिद्धौ प्रमाणाऽभावात्, इतरतराश्रयदोषापत्तेश्च । सिद्धे हि माहात्म्यविशेषे तस्यादृश्यशरीरत्वं प्रत्येतव्यम् । तत्सिद्धौ च माहात्म्यविशेषसिद्धिरिति ।

और दूसरा विकल्प जो ईश्वरके पिशाच आदिके समान अदृश्य (देखनेमें न आनेवाले) शरीरका धारकपना है, उसमें उस ईश्वरका माहात्म्यविशेष (एकप्रकारका प्रभाव) कारण है ? अथवा हमारा तुम्हारा मन्दभाग्य कारण है अर्थात् ईश्वरका शरीर ईश्वरके माहात्म्यसे हमको नहीं दीखता है ? वा हमारे मन्दभाग्यसे ? यदि कहो कि, ईश्वरके माहात्म्यसे ईश्वरका शरीर नहीं दीखता है, तो यह कहना एकप्रकारकी शपथ (सौगन) खाकर विश्वास करने योग्य है अर्थात् मिथ्या है । क्योंकि, ईश्वरके अदृश्य शरीरको सिद्धकरनेमें कोई भी प्रमाण नहीं है । और जब ईश्वरके माहात्म्यविशेष सिद्ध होजावे, तब तो ईश्वरके अदृश्यशरीरका धारकपना विश्वासकरने योग्य होवे तथा पहिले जब ईश्वरके माहात्म्यविशेष सिद्ध होजावे, तब तो ईश्वरके अदृश्यशरीरका इसकारण अन्योऽन्याश्रय दोषकी प्राप्ति होती है । भावार्थ—जहां दो पदार्थोंमें परस्पर एककी सिद्धिके विना दूसरेकी सिद्धी न हो वहां अन्योऽन्याश्रय दोष होता है, इसलिये यहां भी माहात्म्यविशेषके विना अदृश्यशरीरता और अदृश्यशरीरताके विना माहात्म्यविशेषकी सिद्धी न होनेसे अन्योऽन्याश्रयदोष आया ।

द्वितीयकस्तु प्रकारो न संचरत्येव विचारगोचरे । संशयानिवृत्तेः । किं तस्याऽसत्त्वाददृश्यशरीरत्वं वान्ध्येयादिवत्, किंवास्माद्यदृष्टवैगुण्यात्पिशाचादिवदिति निश्चयाऽभावात् । अशरीरश्चेत्तदा दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्वै-

पम्यम् । घटादयो हि कार्यरूपाः सशरीरकर्तृका दृष्टाः । अशरीरस्य च सतस्तस्य कार्यप्रवृत्तौ कुतः सामर्थ्यमाकाशादिवत् । तस्मात्सशरीराशरीरलक्षणे पक्षद्वयेऽपि कार्यत्वहेतोर्व्याप्त्यसिद्धिः ।

अब यदि कहो कि, हमारे मन्दभाग्यसे ईश्वरका शरीर हमको नहीं दीखता है, तो यह कहना हमारे विचारमें ही नहीं आता है । क्योंकि, क्या ? जैसे बन्ध्याके पुत्रका अभाव है, उसप्रकार ईश्वरके शरीरका ही अभाव है, जिनमे, कि. उसका शरीर देखनेमें नहीं आता ? अथवा क्या ? हमारे मंदभाग्यसे जैसे हमको पिशाच आदिका शरीर नहीं देस पड़ता है, उसीप्रकार ईश्वरका शरीर भी हमारे देखनेमें नहीं आता है, यह सदेह दूर नहीं हो सकता है । भावार्थ—यदि कहो कि मन्दभाग्यसे ईश्वरका शरीर नहीं दीखता है, तो यह हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि, ईश्वरके शरीर है, वा नहीं है, यह सशय दूर नहीं होता । यदि कहो कि, ईश्वर शरीररहित होकर जगतको बनाता है, तो ऐसा कहनेमें दृष्टान्त और दार्शनिकके असमानता होनी है । क्योंकि, कार्यरूप जो घटादिक है, वे शरीरके धारक कुम्भकार आदिसे बनाये हुए देखे जाते हैं । भावार्थ—घट आदि कार्य सशरीरके बनाये हुए देखे जाते हैं और तुमने जगतरूप कार्यको अशरीरीका बनाया हुआ मान लिया, इसलिये घटरूप जो दृष्टान्त है, वह जगतरूप दार्शनिकके घटित नहीं होता है । और शरीररहित उस ईश्वरके कार्यकरनेमें सामर्थ्य भी कहासे आमकता है । क्योंकि, शरीररहित आकाश आदिमें कार्यकरनेका सामर्थ्य नहीं देखा जाता है । इस कारण सशरीर और अशरीररूप दोनों पक्षोंमें ही कार्यत्वरूप हेतुकी व्याप्ति सिद्ध नहीं होती है । भावार्थ—तुमने जो जगतको ईश्वरकर्तृक सिद्ध करनेके लिये कार्यालहेतु दिया है, उस कार्यत्वहेतुकी व्याप्ति शरीररहित अथवा शरीररहित इन दोनों ईश्वरोंमें ही नहीं रहती है । इसकारण तुम्हारा अनुमान मिथ्या है ।

किञ्च त्वन्मतेन कालात्ययापदिष्टोऽप्ययं हेतुः । धर्म्येकदेशस्य तरुविद्युद्भ्रादेरिदानीमप्युत्पद्यमानस्य विधातुरनुपलभ्यमानत्वेन प्रत्यक्षबाधितधर्म्यनन्तरं हेतुभणनात् । तदेवं न कश्चिज्जगतः कर्त्ता । एकत्वादीनि तु जगत्कर्तृत्वव्यवस्थापनायानीयमानानि तद्विशेषणानि पण्डं प्रति कामिन्या रूपसंपन्निरूपणप्रायाण्येव । तथापि तेषां विचारासहत्वख्यापनार्थं किञ्चिदुच्यते ।

और तुम्हारे मतेके अनुसार यह हेतु कालात्ययापदिष्ट भी है । क्योंकि, इससमयमें भी उत्पन्न होते हुए जो जगतरूप धर्मके एकदेशरूप दृश, विजली और मेघ आदि है, उनका कोई कर्त्ता देखनेमें नहीं आता है, इस कारण प्रत्यक्षप्रमाणसे बाधित जो धर्मा

है, उसके पश्चात् तुमने कार्यत्वहेतुका कथन किया है। इसलिये पूर्वोक्तप्रकारसे तुम्हारे अनुमानका खंडन होजानेसे सिद्ध हुआ कि, जगतका कर्ता कोई भी नहीं है। और ईश्वरको जगतका कर्ता सिद्ध करनेके लिये दिये हुए जो एकत्व आदि ईश्वरके विशेषण है, वे तो नपुंसकके प्रति स्त्रियोंके रूप लावण्य आदिका कथन करनेके समान है। भावार्थ—जैसे नपुंसकके प्रति स्त्रियोंके रूपका वर्णन करना व्यर्थ है, उसी प्रकार जगत्कर्तृत्वसे रहित उस ईश्वरके प्रति एकत्व आदि विशेषणोंका देना भी वृथा है। तथापि 'वे एकत्व आदि विशेषण विचारको नहीं सहते हैं; यही प्रकट करनेके लिये यहां पर कुछ कहते हैं।

तत्रैकत्वचर्चस्तावत् । बहूनामैककार्यकरणे वैमत्यसम्भावनेति नायमेकान्तः । अनेककीटिकाशतनिष्पाद्यत्वेऽपि शक्रमूर्द्धः, अनेकशिल्पिकल्पितत्वेऽपि प्रासादादीनां, नैकसरघानिर्वर्तितत्वेऽपि मधुच्छत्रादीनां चैकरूपताया अविगानेनोपलम्भात् । अथैतेष्वप्येक एवेश्वरः कर्त्तृति ब्रूषे । एवं चेद्भवतो भवानीपतिं प्रति निष्प्रतिमा वासना । तर्हि कुविन्दकुम्भकारादितिरस्कारेण पटघटादीनामपि कर्त्ता स एव किं न कल्प्यते । अथ तेषां प्रत्यक्षसिद्धं कर्त्तृत्वं कथमपन्होतुं शक्यम् । तर्हि कीटिकादिभिः किं तव विराद्धं यत्तेषामसदृशतादृशप्रयाससाध्यं कर्त्तृत्वमेकहेलयैवापलप्यते । तस्माद्वैमत्यभयान्महेशितुरेकत्वकल्पना भोजनादिव्यभयात्कृपणस्यात्यन्तवल्लभपुत्रकलत्रादिपरित्यजेनेन शून्यारण्यानीसेवनमिव ।

उन विशेषणोंमें प्रथम ही ईश्वरके एकत्वविशेषणके विषयमें चर्चा करते हैं। वादियोंने जो कहा है कि, 'बहुतसे ईश्वर मिल कर जो एक कार्य करै, तो उनके परस्पर संमतिमें भेद हो जावे' सो यह एकान्त नहीं है अर्थात् मतिभेद होवे ही ऐसा निश्चय नहीं है। क्योंकि, हम सैंकड़ों कीड़ियों (चींटियों) द्वारा रचे हुये भी विलको, बहुतसे शिल्पियों (कारीगरों वा राजों) द्वारा बनाये हुए भी महल आदि मकानोंको, और बहुतसी मक्षिकाओं (मक्खियों) से निर्माण किये हुए सहतेके छाते आदिको प्रशंसापूर्वक एकरूपके धारक देखते है। यदि इन विल आदिका भी एक ईश्वरको ही कर्त्ता कहो और ऐसी ही तुम्हारी ईश्वरके प्रति अतुल्य भक्ति हो, तो कुर्विद (जुलाहा) और कुंभकार आदिका तिरस्कार करके पट तथा घट आदिका कर्त्ता भी उस ईश्वरको क्यों नहीं मान लेते हो। भावार्थ—जैसे तुमने कीटिका आदि द्वारा रचे हुए विल आदिकोंका कर्त्ता ईश्वर माना है, उसी प्रकार जुलहेसे बने हुए वस्त्रका और कुंभकार द्वारा रचे हुए घटका कर्त्ता भी उसी ईश्वरको मान लो। यदि कहो कि,

उन कुविंद, कुंभकार आदिका कर्तृत्व प्रत्यक्षसिद्ध है अर्थात् हम प्रत्यक्षमें कुविंद आदिको पट आदि बनाते हुए देखते हैं, इसकारण उन कुविंदादिका पटादिकर्तृत्व कैसे छिपा सकते हैं, तो उन कीटिका आदिने तुम्हारा क्या अपराध किया है? जो तुम उनके उस असाधारण परिश्रमसे सिद्ध होनेयोग्य कर्तृत्वको एक ही क्षणमें निरादरताके साथ दूर करते हो। इस कारण परस्पर समतिमें भेद होनेके भयसे जो तुम्हारा ईश्वरको एक मानना है, वह भोजन आदि सबधी व्ययके भयसे कृपणपुरुषका अत्यंत प्यारे स्त्रीपुत्रोंको छोड़कर शून्य महावनको सेवन करनेके समान है। भावार्थ—जैसे कृपण पुरुष खर्चके डरसे स्त्री आदिको छोड़कर निर्जन वनमें चला जावे, उसी प्रकार तुम्हारा मतिभेदके भयसे ईश्वरको एक मानना है।

तथा सर्वगतत्वमपि तस्य नोपपन्नम् । तद्धि शरीरात्मना ज्ञानात्मना वा स्यात् । प्रथमपक्षे तदीयेनैव देहेन जगत्रयस्य व्याप्तत्वादितरनिर्मेयपदार्थानामाश्रयानवकाशः । द्वितीयपक्षे तु सिद्धसाध्यता । अस्माभिरपि निरतिग-यज्ञानात्मना परमपुरुषस्य जगत्रयक्रोडीकरणाभ्युपगमात् । यदि परमेवं भवत्प्रमाणीकृतेन वेदेन विरोधः । तत्र हि शरीरात्मना सर्वगतत्वमुक्तम् “विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतःपाणिरुतविश्वतःपाद्” इत्यादि श्रुतेः ।

और जो तुमने ईश्वरके सर्वगतपना माना है, वह भी उस ईश्वरके सिद्ध नहीं है। क्योंकि, वह ईश्वर शरीररूपसे सर्वगत है? वा ज्ञानरूपसे? यदि शरीररूपसे ईश्वरको सर्वगत कहोगे तो उस ईश्वरके शरीरसे ही तीन जगत व्याप्त हो जावेगा। इस कारण जगतमें अन्य जो निर्मेय (ईश्वरके बनाने योग्य) पदार्थ हैं, उनको रहनेके लिये कोई स्थान न मिलेगा। यदि कहो कि, ईश्वर ज्ञानरूपसे सर्वगत है, तब तो साध्यकी सिद्धि है अर्थात् जिसको हम सिद्ध करना चाहते थे, वह सिद्ध हो गया। क्योंकि हम भी परमात्माको निरतिगयज्ञान (केवलज्ञान) रूपसे तीन जगतको गोदमें (ज्ञानके विषयमें) करनेवाला मानते हैं। भावार्थ—जैसे तुम ईश्वरको ज्ञानरूपसे सर्वगत मानते हो, उसी प्रकार हम भी श्रीजिनेन्द्रको ज्ञानरूपसे सर्वगत मानते हैं। इसकारण इस माननेमें तुम्हारे हमारे तो परस्पर कोई विरोध नहीं है। परन्तु ऐसा मानने पर तुमने जिस वेदको प्रमाण कर रक्खा है, उससे तुमको विरोध होता है। क्योंकि, तुम्हारे प्रमाणीभूत वेदमें “ईश्वर-सर्वस्वलोमें नेत्रका धारक, सर्वत्र मुखका धारक, समस्त स्थानोंमें हस्तका धारक तथा सब जगह चरणका धारक है” इत्यादि श्रुतिसे ईश्वरको शरीररूपसे सर्वगत कहा है। यच्चोक्तं तस्य प्रतिनियतदेशवर्तित्वे त्रिभुवनगतपदार्थानामनियतदेशवृत्तीनां यथावन्निर्माणानुपपत्तिरिति ।

तत्रेदं पृच्छयते । स जगत्रयं निर्म्मिमाणस्तक्षादिवत्साक्षाद्देहव्यापारेण निर्म्मिमीते । यदि वा सङ्कल्पमात्रेण । आद्ये पक्षे एकस्यैव भूभूरादेर्विधाने अक्षोदीयसः कालक्षेपस्य सम्भवाद्द्वितीयसाऽप्यनेहसा न परिसमाप्तिः । द्वितीयपक्षे तु सङ्कल्पमात्रेणैव कार्यकल्पनायां नियतदेशस्थायित्वेऽपि न किञ्चिद्दूषणमुत्पद्यामः । नियतदेशस्थायिनां सामान्यदेवानामपि संकल्पमात्रेणैव तत्तत्कार्यसम्पादनप्रतिपत्तेः ।

और जो तुमने यह कहा है, कि—यदि ईश्वरको सर्वगत (सब स्थानोंमें रहनेवाला) न मानकर किसी एक नियत देश (स्थान) में रहनेवाला मानें तो अनियत अर्थात् भिन्न २ अनेकदेशोंमें रहनेवाले जो तीनलोकमें व्याप्त पदार्थ है, उनको वह ईश्वर यथावत् न बना सकेगा अर्थात् ईश्वर एक स्थानमें रहकर अनेक स्थानोंमें रहनेवाले घट आदि पदार्थोंको जैसेके तैसे न बना सकेगा । यहां पर हम यह पूछते है कि, तीन जगतको रचता हुआ वह ईश्वर खाती (बढई) के समान साक्षात् शरीरके व्यापारसे तीन लोकको बनाता है ? अथवा संकल्प (इच्छा) मात्रसे ही तीनलोकको रचता है । यदि कहो कि, ईश्वर साक्षात् शरीरके व्यापारसे तीन जगतको रचता है, तब तो एक ही पृथ्वी, पर्वत आदिके बनानेमें बहुतसा समय लगना संभव है, इसकारण अत्यन्त अधिक कालमें भी तीन जगतकी समाप्ति (पूर्णता) न होगी । और संकल्पमात्रसे कार्य करनेरूप दूसरे पक्षको मानने पर यदि ईश्वर एकदेशमें रहकर भी तीन जगतकी रचना करै; तो उसमें हम कोई भी दूषण नहीं देखते है । क्योंकि हमने नियतदेशमें रहनेवाले सामान्यदेवोंके भी संकल्पमात्रसे ही उन २ कार्योका करना स्वीकार किया है ।

किञ्च तस्य सर्वगतत्वेऽङ्गीक्रियमाणेऽशुचिषु निरन्तरसन्तमसेषु नरकादिस्थलेष्वपि तस्य वृत्तिः प्रसज्यते । तथा चाऽनिष्टापत्तिः । अथ शुष्मत्पक्षेऽपि यदा ज्ञानाऽऽत्मना सर्वजगत्रयं व्याप्नोतीत्युच्यते तदाऽशुचिरसास्वादादीनामप्युपलम्भसम्भावनात्, नरकादिदुःखस्वरूपसंवेदनाऽऽत्मकतया दुःखाऽनुभवप्रसङ्गाच्चाऽनिष्टापत्तिस्तुल्यैवेति चेत् । तदेतदुपपत्तिभिः प्रतिकर्तुमशक्तस्य धूलिभिरिवावकरणम् । यतो ज्ञानमप्राप्यकारि स्वस्थलस्थमेव विषयं परिच्छिनत्ति । न पुनस्तत्र गत्या । तत्कुतो भवदुपालम्भः समीचीनः । नहि भवतोऽप्यशुचिज्ञानमात्रेण तद्रसास्वादाऽनुभूतिः । तन्नावे हि स्रक्चन्दनाऽङ्गनारसवत्यादिचिन्तनमालेणैव तृप्तिसिद्धौ तत्प्राप्तिप्रयत्नैर्बलैर्बल्यप्रसक्किरिति ।

और विशेष यह है कि, ईश्वरके सर्वगतपना अङ्गीकार करनेपर निरन्तर महा अंधकारसे व्याप्त जो नरक आदि स्थान है, उनमें भी उस ईश्वरके रहनेका प्रसंग होगा और ऐसा होनेसे तुम्हारे अनिष्टापत्ति होगी। अब कदांचित् तुम यह कहो कि—जब परमात्मा ज्ञानरूपसे तीनलोकको व्याप्त करता है, ऐसा आप कहते हैं, तब सर्वज्ञके अपवित्र रसके आस्वाद आदिके ज्ञानकी संभावना होनेसे और नरक आदिमें जो दुःख है, उनके स्वरूपको जाननेके कारण दुःखोंके अनुभवका प्रसंग होनेसे आपके पक्षमें भी अनिष्टापत्ति समान ही है। भावार्थ—ईश्वरको शरीरसे सर्वव्यापी माननेरूप हमारे पक्षमें जैसे अनिष्टापत्ति होती है, उसीप्रकार ईश्वरको ज्ञानरूपसे सर्वव्यापी स्वीकार करनेरूप आपके पक्षमें भी अनिष्टापत्ति होती है। सो यह तुम्हारा कथन जैसे उपार्योंसे शत्रुको निवारण करनेमें असमर्थ पुरुष धूल फैकता है, उसके समान है। क्योंकि, ज्ञान अप्राप्यकारी है अर्थात् जहाँ पर ज्ञेय (जानने योग्य) पदार्थ स्थित है, वहाँ पर ज्ञान नहीं जाता है, इस कारण ज्ञान जो है सो अपने स्थलमें (आत्मामें) स्थित हुआ ही ज्ञेयको जानता है। और ज्ञेयके स्थानमें जाकर ज्ञेयको नहीं जानता है। इसलिये तुमने जो हमारे पक्षमें अनिष्टापत्ति दी है, वह किस प्रकारसे उत्तम हो सकती है अर्थात् तुमने जो दोष दिया है, वह मिथ्या है। क्योंकि तुमको भी तो अशुचि पदार्थके ज्ञानमात्रसे उसके रसके आस्वादनका अनुभव नहीं होता है। और यदि कहो कि हमको अशुचिपदार्थके जाननेसे उसके रसका ज्ञान भी हो जाता है, तो इस प्रकार माननेपर पुष्पमाला, चंदन, ली और जलेबी आदि पदार्थोंके ज्ञानमात्रसे ही तुमको तृप्ति हो जावेगी, इसकारण उन माला आदि पदार्थोंकी प्राप्तिके अर्थ जो प्रयत्न करते हो, उन प्रयत्नोंकी निष्फलताका प्रसंग होगा। भावार्थ—जैसे तुम अशुचि पदार्थके ज्ञानसे उसके रसका ज्ञान होना मानते हो, उसीप्रकार तुमको माला आदिके ज्ञानसे ही माला आदिकी इच्छाकी पूर्ति भी माननी पड़ेगी, और ऐसा मानने पर माला आदिकी प्राप्तिके लिये जो तुम प्रयत्न करते हो, वे निष्फल हो जावेंगे।

यत्तु ज्ञानात्मना सर्वगतत्वे सिद्धसाधनं प्रागुक्तम् । तच्छक्तिमालमपेक्ष्य मन्तव्यम् । तथा च चकारो भवन्ति ।
‘अस्य मतिः सर्वशास्त्रेषु प्रसरति’ इति । न च ज्ञानं प्राप्यकारि । तस्यात्मधर्मत्वेन बहिर्निर्गमाऽभावात् । बहिर्निर्गमे चात्मनोऽचैतन्यापत्त्या अजीवत्वप्रसङ्गः । न हि धर्मो धर्मिणमतिरिच्य क्वचन केवलो विलोकितः । यच्च परे दृष्टान्तयन्ति । यथा सूर्यस्य किरणा गुणरूपा अपि सूर्यान्निष्क्रम्य भुवनं भासयन्त्येवं ज्ञानमप्यात्मनः

सकाशाद्बहिर्निर्गत्य प्रमेयं परिच्छिनत्तीति । तत्वेदमुत्तरम् । किरणानां गुणत्वमसिद्धम् । तेषां तैजसपुद्गलमय-
त्वेन द्रव्यत्वात् । यश्च तेषां प्रकाशात्मा गुणः स तेभ्यो न जातु पृथग् भवतीति ।

और जो हमने पहिले ईश्वरको ज्ञानरूपसे सर्वव्यापी माननेमें सिद्धका साधन कहा है, वह भी शक्तिमात्रकी अपेक्षा करके स्वीकार करना चाहिये अर्थात् ईश्वरका ज्ञान सब पदार्थोंके जाननेकी शक्तिको धारण करता है, ऐसा समझना चाहिये । क्योंकि “ इस पुरुषकी बुद्धि सब शास्त्रोंमें फैलती हुई है ” ऐसा कहनेवाले कहा करते हैं । भावार्थ—जैसे किसी मनुष्यकी बुद्धिकी शक्तिको देखकर लोग कहते हैं कि, इसकी बुद्धि सब शास्त्रोंमें फैलती है, उसीप्रकार ईश्वरके ज्ञानकी शक्तिको देख कर ही हमने भी कहा है कि, ईश्वरका ज्ञान सब जगह व्याप्त है । और ज्ञान प्राप्यकारी (ज्ञेयके समीप जाकर ज्ञेयको जाननेवाला) नहीं है । क्योंकि, ज्ञान आत्माका धर्म होनेसे आत्माके बाहर नहीं जा सकता है । और यदि ज्ञान आत्माके बाहर जावे तो आत्माके अचेतन पनेकी प्राप्ति होनेसे अजीवत्वका प्रसंग आवे अर्थात् ज्ञानके चले जानेपर जीव अजीव हो जावे । क्योंकि, धर्मको छोड़कर केवल धर्म कहीं भी नहीं देखा जाता है अर्थात् धर्मके विना धर्म कहीं भी नहीं रहता है । और जो वैशेषिक दृष्टान्त देते हैं कि, जैसे सूर्यकी किरणें गुणरूप हैं, तो भी सूर्यसे निकलकर जगतको प्रकाशित करती हैं, उसी प्रकार ज्ञान भी आत्मासे बाहर निकलकर ज्ञेयको जानता है । यहां पर यह उत्तर है कि, किरणोंके गुणपना असिद्ध है । क्योंकि, किरणें तेजके पुद्गलरूप होनेसे द्रव्य है । और जो उन किरणोंका प्रकाशस्वरूप गुण है, वह उन पुद्गलद्रव्यरूप सूर्यकी किरणोंसे कदाचित् भी जुदा नहीं होता है ।

तथा च धर्मसद्ब्रह्मिण्यां श्रीहरिभद्राचार्यपादाः । “ किरणा-गुणा न, दद्वं तेसिं पयासो-गुणो, न वा दद्वं ।
जं गाणं आयगुणो कहमदद्वो स अन्नत्थ । १ । गन्तूण न परिच्छिंदइ गाणं णेयं तयम्मि देसम्मि । आयत्थं मिय
नवरं अचिंतसत्तीउ विण्णेयं । २ । लोहोवलसस सत्ती आयत्था चव भिन्नदेसम्मि । लोहं आगरिसंती दीसइ इह

१ किरणा-गुणा न, द्रव्य तेषां प्रकाशो-गुणो, न वा द्रव्यम् । यज्ज्ञानमात्मगुणः कथमद्रव्यः सः अन्यत्र । १ । गत्वा न परिच्छिनत्ति ज्ञान
ज्ञेयं तस्मिन्देसे । आत्मस्थमेव नवरं अचिन्त्यशक्त्या तु विज्ञेयम् । २ । लोहोपलस्य शक्तिः आत्मस्थैव भिन्नदेशमपि । लोहमाकर्षती दृश्यत
इह कार्यप्रत्यक्षा । ३ । एवमिह ज्ञानशक्तिः आत्मस्थैव हन्त लोकान्तम् । यदि परिच्छिनत्ति सर्वं को नु विरोधो भवेत्तत्र । ४ । इतिच्छाया ॥

कज्जपचक्खा । ३ । एवमिह नाणसत्ती आयत्था चेव हंदि लोगतं । जइ परिछिंदइ सबं को णु विरोहो भवे तत्थ । ४ । ” इत्यादि ।

सो ही धर्मसंग्रहणी नामक शास्त्रमें श्रीहरिमद्रजी सूरीश्वर कहते हैं कि— “ किरणें गुण नहीं है; किन्तु द्रव्य है, और उन किरणोंका जो प्रकाश है, वह तेज नामक द्रव्य नहीं है, किन्तु तैजसपद्रुलमय जो सूर्यकी किरणें हैं, उनका गुण है । इस कारण आत्मारूपद्रव्यका गुणरूप जो ज्ञान है, वह आत्माके विना अन्य स्थानमें कैसे रह सकता है अर्थात् नहीं रह सकता है । १ । ज्ञान जो है सो जिस देशमें श्रेय पदार्थ स्थित है, वहां जाकर उस श्रेयको नहीं जानता है, किन्तु अपनेमें स्थित हुए ही श्रेयको जानता है । इसमें विशेष यही है कि अचिन्त्यशक्ति है अर्थात् यह एक आत्माके ज्ञानमें अचिन्त्यशक्ति है, ऐसा जानना चाहिये । २ । दृष्टान्त यह है कि, जैसे—बुम्बक पाषाणकी जो आकर्षण शक्ति है, वह बुम्बकमें रहकर ही भिन्न देशमें वर्तमान जो लोह है, उसको खैचती है और जगतमें प्रत्यक्ष कार्य करती हुई देखी जाती है । ३ । इसी प्रकार जो ज्ञान शक्ति है, वह आत्मामें स्थित हुई ही यदि लोकेके अंत तक विद्यमान समस्त पदार्थोंको जानती है, तो उसमें वादियोंके कौनसा विरोध होता है । भावार्थ—जैसे बुम्बककी आकर्षणशक्ति बुम्बकमें स्थित हुई ही लोहको खैच लेती है, इसी प्रकार आत्माकी ज्ञानशक्ति आत्मामें स्थित हुई ही समस्तश्रेयको जानती है, इस कारण इस विषयमें वादियोंको विरोध न करना चाहिये । ४ । इत्यादि ॥

अथ सर्वगः सर्वज्ञ इति व्याख्यानम् । तत्राऽपि प्रतिविधीयते । ननु तस्य सार्वज्ञ्यं केन प्रमाणेन गृहीतम् प्रत्यक्षेण परोक्षेण वा । न तावत्प्रत्यक्षेण । तस्येन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नतायाऽतीन्द्रियग्रहणाऽसामर्थ्यात् । नापि परोक्षेण । तद्धि अनुमानं शब्दं वा स्यात् । न तावदनुमानम् । तस्य लिङ्गग्रहणलिङ्गिसम्बन्धस्मरणपूर्वकत्वात् । न च तस्य सर्वज्ञत्वेऽनुमेये किंचिदव्यभिचारि लिङ्गं पश्यामः । तस्याऽत्यन्तविप्रकृष्टत्वेन तत्प्रतिबद्धलिङ्गिसम्बन्धग्रहणाऽभावात् ।

अब जो तुमने ‘सर्वग’ इस शब्दका सर्वज्ञ अर्थ किया है, अर्थात् ईश्वरको सर्वज्ञ माना है, इसका भी खंडन करते हैं । हम पूछते हैं कि, तुमने उस ईश्वरके सर्वज्ञपनेको किस प्रमाणसे ग्रहण किया (जाना) है । प्रत्यक्ष प्रमाणसे अथवा परोक्ष प्रमाणसे ? यदि कहो कि, प्रत्यक्षप्रमाणसे हमने ईश्वरको सर्वज्ञ जाना है, सो नहीं । क्योंकि, वह प्रत्यक्षप्रमाण इन्द्रिय और पदार्थ इन दोनोंके

संबंधसे उत्पन्न होनेके कारणसे इंद्रियोंके अगोचर जो ईश्वरका सर्वज्ञत्व है, उसके ग्रहण करनेमें असमर्थ है। यदि कहो कि, हमने परोक्षप्रमाणसे ईश्वरके सर्वज्ञत्वको जाना है, तो सो भी नहीं कह सकते हो। क्योंकि, वह परोक्ष-अनुमान तथा शब्द (आगम) भेदसे दो प्रकारका है, इसलिये अनुमानसे जाना वा आगमसे ईश्वरके सर्वज्ञत्वको जान नहीं सकते हो। क्योंकि, वह अनुमान जब पहले लिंग (हेतु) का ग्रहण और लिङ्ग तथा लिङ्गी इन दोनोंके संबंधका स्मरण हो जाता है, उसके पीछे उत्पन्न होता है। भावार्थ—‘पर्वत अश्विवाला है, घूमवान् होनेसे’ इस स्थलमें जैसे पहिले घूमरूप लिंगका ग्रहण होता है, और फिर घूमरूप लिंगका अश्विरूप लिङ्गके साथ संबंधका स्मरण होता है, तब अनुमान होता है। इसी प्रकार ‘ईश्वर सर्वज्ञ है’ इस अनुमानमें किसी लिंगका ग्रहण और उस लिंगका सर्वज्ञत्वरूप लिंगीके साथ संबंधका स्मरण होना चाहिये। सो नहीं है। इसलिये अनुमान नहीं हो सकता है। और हम उस ईश्वरका सर्वज्ञत्वरूप जो अनुमेय है, उसमें कोई भी अव्यभिचारी लिङ्ग नहीं देखते है। क्योंकि वह ईश्वर अत्यन्त दूर है, इस कारण उस ईश्वरके साथ संबंधित जो लिंग है, उसका सर्वज्ञत्वरूप लिंगीके साथ संबंधके ग्रहणका अभाव है।

अथ तस्य सर्वज्ञत्वं विना जगद्वैचित्र्यमनुपपद्यमानं सर्वज्ञत्वमर्थादापादयतीति चेत् । न । अविनाभावाऽभावात् । न हि जगद्वैचित्र्यं तत्सार्वज्ञ्यं विनाऽन्यथा नोपपन्ना । द्विविधं हि जगत् स्थावरजङ्गमभेदात् । तत्र जङ्गमानां वैचित्र्यं स्वोपात्तशुभाऽशुभकर्मपरिपाकवशेनैव । स्थावराणां तु सचेतनानामियमेव गतिः । अचेतना-नां तु तदुपभोगयोग्यतासाधनत्वेनाऽनादिकालसिद्धमेव वैचित्र्यमिति ।

यदि कहो कि यह जो जगतकी विचित्रता है सो उस ईश्वरकी सर्वज्ञताके विना उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात् सर्वज्ञ ही ईश्वर इस जगतकी विचित्रताको बना सकता है, इसकारण अर्थात्पत्तिसे ईश्वरके सर्वज्ञत्वकी सिद्धि होती है, सो भी नहीं। क्योंकि व्याप्तिका अभाव है। कारण कि—ईश्वरके सर्वज्ञत्वके विना जगतकी विचित्रता नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है अर्थात् जो सर्वज्ञ हो, वही जगतकी विचित्रताको उत्पन्न कर सकेगा, ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि, स्थावर और जंगमरूप भेदोंसे जगत दो प्रकारका है, उसमें जंगम (त्रस) जीवोंके तो अपने उपार्जन किये हुए जो शुभ तथा अशुभ कर्म है, उनके उदयके वशसे ही विचित्रता होती

है। और जो सचेतन स्थावर वृक्ष आदि हैं, उनके भी पूर्वोपार्जित शुभ-अशुभकर्मोंके उदयसे ही विचित्रता है। तथा जो अचेतन स्थावर हैं, वे जो जंगम और सचेतन स्थावर हैं, उनके कर्मोंके फल भोगनेकी जो योग्यता है उसके साधन है अर्थात् इनके द्वारा जीवोंको स्वीपार्जित शुभ अशुभ कर्मोंका फल भोगना पड़ता है, इस कारण उन अचेतन स्थावरोंके अनादिकालसे ही सिद्ध वैचित्र्य है।

नाप्यागमस्तत्साधकः । स हि तत्कृतोऽन्यकृतो वा स्यात् । तत्कृत एव चेत्तस्य सर्वज्ञतां साधयति । तदा तस्य महत्त्वक्षतिः । स्वयमेव स्वगुणोत्कीर्तनस्य महतामनधिकृतत्वात् । अन्यच्च तस्य शास्त्रकर्तृत्वमेव न युज्यते । शास्त्रं हि वर्णात्मकम् । ते च तात्वादिव्यापारजन्याः । स च शरीर एव सम्भवी । शरीराऽभ्युपगमे च तस्य पूर्वोक्ता एव दोषाः । अन्यकृतश्चेत्सोऽन्यः सर्वज्ञोऽसर्वज्ञो वा । सर्वज्ञत्वे तस्य द्वैतापत्त्या प्रागुक्ततदेकत्वाभ्युपगमबाधः । तत्साधकप्रमाणचर्चायामनवस्थापातश्च । असर्वज्ञश्चेत् कस्तस्य वचसि विश्वासः ।

अब यदि कहो कि, आगम प्रमाण जो है सो उस ईश्वरके सर्वज्ञत्वको सिद्ध करनेवाला है। सो भी नहीं। क्योंकि, वह आगम ईश्वरका किया हुआ है? वा अन्य किसीका? यदि कहो कि, ईश्वरका किया हुआ है तो यदि ईश्वरका किया हुआ आगम ही ईश्वरके सर्वज्ञत्वको सिद्ध करेगा तब तो ईश्वरके महत्त्व (वड़प्पन) का नाश होगा। क्योंकि, महत्पुरुष स्वयमेव (आप ही) अपनी प्रशंसा करना स्वीकार नहीं करते है। और विशेष यह है कि, वह तुम्हारा ईश्वर शास्त्रका करनेवाला ही नहीं हो सकता है। क्योंकि शास्त्र अक्षरों रूप है, वे अक्षर तालु (तालवे) आदिके व्यापार (प्रयत्न) से उत्पन्न होते है, और वह तालु आदिका व्यापार शरीरमें ही हो सकता है। यदि ईश्वरके शरीर मानो तो जो दोष ईश्वरको शरीर माननेमें पहले कहे है, वे ही यहां भी होंगे। यदि कहो कि, आगम किसी अन्यका किया हुआ है, तो हम पूछते है कि, वह अन्य पुरुष सर्वज्ञ है? अथवा असर्वज्ञ है? यदि कहो कि, वह अन्यपुरुष सर्वज्ञ है, तब तो ईश्वरके द्वैतापत्ति होगी अर्थात् सर्वज्ञ होनेसे ईश्वर दो हो जावेंगे, एक तो आगमका कर्त्ता और दूसरा जगतका कर्त्ता। और ऐसा होनेपर पहले जो तुमने ईश्वरको एक स्वीकार किया है, उसका बाध होगा। तथा उस ईश्वरके सर्वज्ञत्वको सिद्ध करनेवाले प्रमाणकी चर्चा करनेपर अनवस्था दोष भी होवेगा। अर्थात् जैसे प्रथम ईश्वरको सर्वज्ञ सिद्ध करनेके लिये तुमको दूसरा ईश्वर मानना पड़ा है, इसी प्रकार दूसरे ईश्वरको सर्वज्ञ सिद्ध करनेके लिये तीसरा और तीसरेको सिद्ध

करनेके लिये चौथा ईश्वर मानना पड़ेगा और ऐसा माननेपर अनवस्था दोष होगा। यदि कहो कि, वह आगमका कर्त्ता अन्यपुरुष असर्वज्ञ है तो उस असर्वज्ञ पुरुषके वचनमें विश्वास ही क्या है अर्थात् असर्वज्ञके वचनमें हम विश्वास नहीं करते है।

अपरं च भवदभीष्ट आगमः प्रत्युत तत्प्रणेतुरसर्वज्ञत्वमेव साधयति । पूर्वाऽपरविरुद्धार्थवचनोपेतत्वात् । तथाहि— “ न हिंस्यात्सर्वभूतानि ” इति प्रथममुक्त्वा पश्चात्तत्रैव पठितम् “ षट्शतानि नियुज्यन्ते पशूनां मध्यमेऽहनि । अश्वमेधस्य वचनाङ्गूनानि पशुभिस्त्रिभिः । ” तथा “ अग्नीषोमीयं पशुमालभेत ” “ सप्तदशप्राजापत्यान् पशूनालभेत ” इत्यादिवचनानि कथमिव न पूर्वापरविरोधमनुरुध्यन्ते । तथा “ नानृतं ब्रूयात् ” इत्यादिनाऽनृतभाषणं प्रथमं निषिध्य पश्चाद् “ ब्राह्मणार्थेऽनृतं ब्रूयादित्यादि ” तथा “ न नर्मयुकं वचनं हिर्नस्ति न स्त्रीषु राज्ञः विवाहकाले । प्राणाल्यये सर्वधनापहारे पञ्चाऽनृतान्याहुरपातकानि । १ । ”

और वह तुम्हारा माना हुआ आगम उस अपने रचनेवाले ईश्वरको सर्वज्ञ नहीं सिद्ध करता है, किन्तु उल्टा ईश्वरको असर्वज्ञ ही सिद्ध करता है। क्योंकि तुम्हारा आगम पूर्व (आगे) तथा अपर (पीछे)में विरुद्ध अर्थके धारक वचनों सहित है। भावार्थ— जिस आगमसे तुम ईश्वरको सर्वज्ञ सिद्ध करते हो, वह आगम पूर्वापरविरुद्धवचनोंका धारक है, अर्थात् पहले जो कहता है, उसके विरुद्ध आगे कह देता है, इसकारण अपने कर्त्ता ईश्वरको सर्वज्ञके बदले असर्वज्ञ ही सिद्ध करता है। सो ही दिखलते हैं—“सर्व प्रकारके जीवोंकी हिसा न करनी चाहिये” ऐसा पहिले कह कर फिर उसी तुम्हारे शास्त्रमें कहा है कि, “अश्वमेधके वचनसे मध्यम (विचले) दिवसमें तीन कम छः सौ अर्थात् पाचसौ सत्यानवं ५९७ पशुओंका वध किया जाता है। १। ” इसीप्रकार “अग्नीषोमीय अर्थात् अग्नि और चंद्र है देवता जिसका ऐसे पशुको मारना चाहिये।” तथा “प्रजापति है देवता जिनका ऐसे सतरह १७ पशुओंका वध करना चाहिये।” इनको आदि लेकर जो वचन है, वे पूर्वापरविरोधको कैसे नहीं धारण करते है ? अर्थात् पूर्वापरविरोधके धारक है ही। इसी प्रकार “ झूठ नहीं बोलना चाहिये ” इत्यादि वचनोंसे पहिले असत्यवचन कहनेका निषेध करके फिर “ ब्राह्मणके अर्थ झूठ बोलना चाहिये। ” इत्यादि वचन कहे है। तथा “ नर्ममें अर्थात् हास्य (मजाब अथवा ठठोल) में यदि झूठ वचन कहा जावे तो, वह धर्मनाशक नहीं है, स्त्रियोंके साथ संभोग समयमें यदि असत्य-

वचन कह दिया जावे तो, वह धर्मनाशक नहीं है २, विवाहके अवसरमें वरकन्याके दोषोंको न कहकर उनके झूठे ही गुणोंको कह दिये जानेंमें जो असत्यवचन बोला जाता है, वह भी धर्मनाशक नहीं है ३, अपने वा परके प्राण जाते समय प्राणोंकी रक्षार्थ यदि असत्यवचन कहा जावे, तो वह धर्मनाशक नहीं है ४, और जब राजा सर्व धनको छूटता होवे, उस समय अपने धनको किसी दूसरेका बतलाकर धनकी रक्षा करनेमें जो असत्य वचन कहा जावे तो, वह भी धर्मनाशक नहीं है ५, इस प्रकार पाच प्रकारके झूठ पापरूप नहीं है । १ । ”

तथा “ परद्रव्याणि लोष्टवत् ” इत्यादिना अदत्तादानमनेकधा निरस्य पश्चादुक्तं “ यद्यपि ब्राह्मणो हठेन परकीयमादत्ते छलेन वा, तथापि तस्य नाऽदत्तादानम् । यतः सर्वमिदं ब्राह्मणेभ्यो दत्तम् । ब्राह्मणानां तु दौर्बल्याद्दृषलाः परिभुञ्जते । तस्मादपहरन् ब्राह्मणः स्वमादत्ते स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वंस्ते स्वं ददातीति । तथा— “ अपुत्रस्य गतिर्नास्ति ” इति लपित्वा “ अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणां । दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसन्ततिम् । १ । ” इत्यादि । कियन्तो वा दधिमाषभोजनात्कृपणा विवेच्यन्ते । तदेवमागमोऽपि न तस्य सर्वज्ञतां वक्ति । किञ्च सर्वज्ञः सन्नसौ चराचरं चेद्धिरचयति तदा जगदुपसृवकरणस्वैरिणः पश्चादपि कर्तव्यनिग्रहान् सुरवैरिण, एतदधिक्षेपकारिणश्चास्मदादीन् किमर्थं सृजति । इति तन्नाऽयं सर्वज्ञः ।

तथा “ परके द्रव्योंको लोष्टके समान देखने चाहियें अर्थात् दूसरोंके धनको लोहके समान अल्पमूल्यवाला समझकर न लेना चाहिये ” इस वचनसे नहीं दिये हुए द्रव्यके ग्रहणका अर्थात् चोरी करनेका निषेध करके फिर कहा है कि, यदि ब्राह्मण हठसे अथवा अपने बलसे परके धनको लेवे, तो भी उस ब्राह्मणके अदत्तादान अर्थात् चोरी करनेका दोष नहीं है । क्योंकि “ ब्रह्मणे सर्व जगतकी संपदा ब्राह्मणोंको दी है, उन ब्राह्मणोंमें जो दुर्बलता हो गई इस कारणसे दृषल (शूद्र) उन संपदाओंका भोग करते हैं, अतः दूसरे पुरुषसे कोई भी पदार्थ छीनता हुआ ब्राह्मण अपना ही लेता है, अपना ही भक्षण करता है, अपना ही पहरता है और अपना ही देता है । ” इसी प्रकार “ पुत्ररहितकी गति नहीं है ” ऐसा कहकर फिर उसी शास्त्रमें लिखा है कि, “ कितने ही हजार बालब्रह्मचारी ब्राह्मण कुलकी सततिको न करके अर्थात् कुलकी रक्षार्थ संतान (पुत्र) उत्पन्न न करके

स्वर्गको गये । १ । ” इत्यादि । अथवा दही और उड़द इन दोनोंसे मिले हुए भोजनमेंसे कितने कीड़े जुदे २ किये जावें भावार्थ—जैसे दधिमाषभोजनमें से कीड़ोंको दूर करना कठिन है, उसी प्रकार तुम्हारे आगमके दोषोंका कहना कठिन है । सो इस प्रकार परस्परविरुद्ध वचनोंका धारक आगम भी उस ईश्वरको सर्वज्ञ नहीं कहता है । और सर्वज्ञ माननेमें भी विशेष यह है कि, यदि ईश्वर सर्वज्ञ होकर इस स्यावरजंगमरूप जगतको रचता है, तो अपनी इच्छानुसार जगतमें उपद्रव करनेवाले और पीछे दमन करने योग्य ऐसे सुरवैरियों (दानवों) को तथा इस ईश्वरके जगत्कर्तृत्वका खंडन करनेवाले हम जैसेको, क्यों रचता है । भावार्थ—यदि ईश्वर सर्वज्ञ है, तो जो दानव जगतमें उपद्रव मचाते हैं, उनको क्यों रचता है और रचता है तो फिर उनका निग्रह क्यों करता है । तथा—आपको न माननेवाले हम जैसेको क्यों रचे अर्थात् ईश्वरने अपने विद्वेषी जैनियोंको क्यों बनाये । इस कारण वह ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है ।

तथा स्ववशत्वं स्वातन्त्र्यं तदपि तस्य न क्षोदक्षमम् । स हि यदि नाम स्वाधीनः सन् विश्वं विधत्ते परमकारुणिकश्च त्वया वर्ण्यते । तत्कथं सुखितदुःखिताद्यवस्थाभेदवृन्दस्थपुटितं घटयति भुवनम्, एकान्तशर्मसंपत्कान्तमेव तु किं न निर्मिमीते । अथ जन्मान्तरोपाज्जिततत्तदीयशुभाऽशुभकर्मप्रेरितः संस्तथा करोतीति दत्तस्तर्हि स्ववशत्वाय जलाञ्जलिः । कर्मजन्ये च त्रिभुवनवैचित्र्ये शिपिविष्टेहेतुकाविष्टपसृष्टिकल्पनायाः कष्टैकफलत्वादसन्मतमेवाऽङ्गीकृतं प्रेक्षावता । तथाचायातोऽयं “घट्टकुड्यां प्रभातम्” इति न्यायः । किञ्च प्राणिनां धर्म्मधर्म्मावपेक्षमाणश्चेदयं सृजति प्राप्तं तर्हि यदयमपेक्षते तन्न करोतीति । न हि कुलालो दण्डादि करोति । एवं कर्मापेक्षश्चेदीश्वरो जगत्कारणं स्यात्तर्हि कर्मणीश्वरत्वमीश्वरोऽनीश्वरः स्यादिति ।

तथा “ ईश्वर स्ववश अर्थात् स्वतंत्र है ” ऐसा जो तुमने कहा है, वह भी विचारको नहीं सह सकता है, अर्थात् मिथ्या है । क्योंकि यदि वह ईश्वर स्वाधीन होकर जगतको रचता है और अत्यंत करुणाभावको धारण करता है, ऐसा तुम कहते हो तो सुख तथा दुःख आदि रूप जो अवस्थाओंके भेद हैं, उनके समूहसे भरे हुए जगतको क्यों बनाता है ? और एकान्त (सर्वथा) सुख तथा संपदाओंसे मनोहर जगतको क्यों नहीं रचता है ? भावार्थ—जो करुणावान् तथा स्वाधीन होता है, वह जीवोंको सुख देनेवाले ही कार्योंको करता है और तुम्हारा ईश्वर जीवोंको सुख, तथा दुःख आदि देनेरूप जगतको रचता है, इस कारणसे विदित

होता है कि, तुम्हारा ईश्वर स्वतंत्र और करुणावान नहीं है। यदि कहो कि, ईश्वर जीवोंके अन्य (पहले) जन्मोंमें उपार्जन किये हुए उन २ शुभ तथा अशुभ कर्मोंसे प्रेरित होकर ऐसा करता है अर्थात् पूर्वजन्ममें जिस जीवने जैसा शुभ-अशुभ कर्म वाधा है, उस कर्मके अनुसार ही उस जीवको फल देनेके लिये ईश्वरने सुख-दुःख आदिरूप जगतको रचा है, ऐसा कहो तो तुमने ईश्वरके स्वाधीनपनेके अर्थ जलांजली दी, अर्थात् ऐसा माननेसे तुम्हारा ईश्वर स्वाधीन न रहा, किन्तु कर्मोंके आधीन हो गया। और जब तीन लोककी विचित्रता कर्मोंसे उत्पन्न हुई, तब ईश्वर है कारण जिसमें ऐसी जो जगतकी रचनाकी कल्पना करना है, उसका एक कष्ट ही फल होनेसे विचारको धारण करनेवाले तुमने हमारे ही मतको स्वीकार किया। और हमारे मतको स्वीकार करने पर यह “घट्टकुटीप्रभात (जगत में प्रातःकाल)” नामक न्यायकी प्राप्ति हुई। भावार्थ—जैसे कोई मनुष्य महसूली सामानका महसूल न देनेके विचारसे जिस रास्तेमें महसूल देनेका मुकाम है, उसको छोडकर किसी दूसरे रास्तेसे शहरके भीतर जानेके लिये सपूर्ण रात्रिमें इधर परिभ्रमण करे, और फिर फिराकर प्रातःकाल उस महसूल देनेके स्थानमें ही जा पहुंचे—उसका जैसे सब रात्रिका परिश्रम करना वृथा हो जाता है, इसी प्रकार ईश्वरको जगतके कर्त्ता माननेके लिये तुमने बहुत कुछ उपाय किये, परन्तु अन्तमें जब कर्मोंसे ही जगतकी विचित्रता सिद्ध हो गई तब ईश्वरको जगतका कर्त्ता माननेमें केवल कष्ट ही कष्ट समझकर तुमने भी हम जैनियोंका जो “ ईश्वर जगतका कर्त्ता नहीं है ” यह मत है, इसीको मान लिया। और भी विशेष यह है कि, यदि ईश्वर जीवोंके पुण्य तथा पापकी अपेक्षा करके इस जगतको रचता है, तो यह सिद्ध हुआ कि, ईश्वर जिसकी अपेक्षा करता है उसको नहीं करता है। क्योंकि कुंभकार दंड आदिको नहीं करता है। भावार्थ—जैसे कुंभकार घट आदि बनानेके अर्थ दंड आदिकी अपेक्षा रखता है, अतः उनको बना नहीं सकता, इसी प्रकार ईश्वर जगतके बनानेमें जीवोंके धर्म-अधर्मकी अपेक्षा (जखूरत) रखता है। इस कारण उनके बनानेमें असमर्थ है। इस प्रकार यदि कर्मोंकी अपेक्षा रखनेवाला ईश्वर जगतका कारण होवे अर्थात् जगतरूपकार्यका कर्त्ता होवे, तो कर्ममें ईश्वरपना सिद्ध होगा और ईश्वर जो है सो अनीश्वर (असमर्थ) हो जावेगा।

तथा नित्यत्वमपि तस्य स्वगृह एव प्रणिगद्यमानं हृद्यम्। स खलु नित्यत्वेनैकरूपः सन् त्रिभुवनसर्गस्वभावोऽत-
त्स्वभावो वा। प्रथमविधायां जगन्निर्माणत्वात्कदाचिदपि नोपरमेत। तदुपरमे तत्स्वभावत्वहानिः। एवं च सर्गक्रि-

याया अपर्यवसानादेकस्यापि कार्यस्य न सृष्टिः । घटो हि स्वारम्भक्षणादारभ्य परिसमाप्तेरुपान्त्यक्षणं यावन्निश्चयनयाभिप्रायेण न घटव्यपदेशमासादयति । जलाहरणाद्यर्थक्रियायामसाधकतमत्वात् ।

अब जो तुम ईश्वरको नित्य कहते हो, सो भी तुम्हारे घरमें ही कहा हुआ अच्छा लगता है; अर्थात् अपने मतवालोंमें तुम चाहे ईश्वरको नित्य कहलो, परन्तु हमारे सामने ईश्वरको नित्य नहीं कह सकते हो । क्योंकि वह ईश्वर नित्य होनेसे एकरूपका धारक है, इसकारण हम पूछते हैं कि, वह ईश्वर तीन जगतको रचनेवाले स्वभावको धारण करता है ? अथवा तीन जगतकी रचना करनेवाला जो स्वभाव है, उसको नहीं धारण करता है ? यदि कहो कि तीन जगतको रचनेवाले स्वभावका धारक है, तब तो वह जगतके बनानेसे कभी भी विश्राम न लेवे, और यदि विश्राम लेलेवे तो उसके स्वभावका नाश हो जावे । भावार्थ—जब वह जगतकी रचना करनेरूप स्वभावका ही धारक है । तो सदाकाल जगतरूप कार्यको करता ही रहेगा और ऐसा मानने पर ईश्वर जो जगतको रचनेरूप क्रिया करता है, उसकी समाप्ति न होनेसे एक भी कार्यकी रचना न होगी । क्योंकि निश्चयनयके अभिप्रायसे घट जो है सो अपनी रचना प्रारंभ होनेके प्रथम क्षणको लेकर अपनी रचनाकी समाप्तिके अंतिम क्षणपर्यन्त घट इस व्यवहारको नहीं प्राप्त होता है । क्योंकि जबतक वह बन न चुके, तबतक जलको ग्रहण करना इत्यादिरूप जो अर्थक्रिया है, उसमें असाधकतम है अर्थात् वह घट बन चुकने विना जल भरने आदिमें असमर्थ है ।

अतस्त्वभावपक्षे तु न जातु जगन्ति सृजेत्स्वभावायोगाद्गनवत् । अपि च तस्यैकान्तनित्यस्वरूपत्वे सृष्टिवत्संहारोऽपि न घटते । नानारूपकार्यकरणेऽनित्यत्वापत्तेः । स हि येनैव स्वभावेन जगन्ति सृजेत्तेनैव तानि संहरेत् स्वभावान्तरेण वा । तेनैव चेत्सृष्टिसंहारयोर्यौगपद्यप्रसङ्गः । स्वभावाभेदात् । एकस्वभावात्कारणादनेकस्वभावकार्योत्पत्तिविरोधात् । स्वभावाऽन्तरेण चेन्नित्यत्वहानिः । स्वभावभेद एव हि लक्षणमनित्यतायाः । यथा पार्थिवररीरस्याहारपरमाणुसहकृतस्य प्रत्यहमपूर्वोत्पादेन स्वभावभेदादनित्यत्वम् । इष्टश्च भवतां सृष्टिसंहारयोः शम्भौ स्वभावभेदः । रजोगुणात्मकतया सृष्टौ, तमोगुणात्मकतया संहरणे, सात्विकतया च स्थितौ, तस्य व्यापारस्वीकारात् । एवं चावस्थाभेदस्तद्भेदे चावस्थावतोऽपि भेदान्नित्यत्वक्षतिः ।

यदि कहो कि; ईश्वर तीन जगतकी रचना करने रूप स्वभावका धारक नहीं है, तो वह ईश्वर कदाचित् भी जगतका निर्माण नहीं

करे । क्योंकि जैसे आकाश जगत रचनेरूप स्वभावका धारक नहीं है, इसकारण जगतको नहीं रचता है, वैसे ही ईश्वर भी जगतके रचनेके स्वभाववाला न होनेसे जगतको नहीं रच सकता है । और भी विशेष यह है कि, यदि ईश्वर सर्वथा नित्यस्वभावका ही धारक होवे तो जैसे उसके नित्य होनेसे जगतकी रचना सिद्ध नहीं होती है, वैसे ही ईश्वरकी नित्यतासे जगतका संहार (नाश अथवा प्रलय) भी नहीं सिद्ध होता है । क्योंकि वह ईश्वर जिस स्वभावसे तीनों लोकोंको रचता है, उसी स्वभावसे उन तीनों लोकोंका नाश करता है ? वा किसी दूसरे स्वभावसे तीन जगतका संहार करता है ? यदि कहो कि, ईश्वर जिस स्वभावसे जगतको रचता है, उसी स्वभावसे जगतको नष्ट भी करता है, तब तो जगतकी रचना और जगतका नाश ये दोनों एक ही समयमें होंगे ऐसा प्रसंग होगा । कारण कि स्वभावका अभेद है. अर्थात् ईश्वर जगतके रचने और नष्ट करनेमें एकही स्वभावका धारक है । क्योंकि एक स्वभावरूप जो कारण है, उससे अनेक स्वभावरूप कार्यकी उत्पत्तिमें विरोध है । अर्थात् एक स्वभावरूप कारणसे अनेक स्वभाववाले कार्य नहीं हो सकते है । यदि कहो कि, ईश्वर जिस स्वभावसे जगतको रचता है, उसी स्वभावसे जगतका नाश नहीं करता है, किन्तु दूसरे स्वभावसे जगतका संहार करता है, तो ईश्वरके जो नित्यता है, उसका नाश हो जावेगा । क्योंकि जो स्वभावका भेद है, वही अनित्यका लक्षण है । जैसे कि—आहारके परमाणुओंसे सहायको प्राप्त हुआ जो पार्थिव शरीर है, उसमें प्रतिदिन अपूर्व अपूर्व उत्पत्ति होनेके कारण स्वभावका भेद है, इसकारण वह अनित्य है । भावार्थ—जैसे हमारे तुम्हारे शरीरमें प्रतिदिन नवीन नवीन आकृति आदि होनेसे स्वभावका भेद है और स्वभावभेदके होनेसे ही हमारा तुम्हारा शरीर अनित्य है, उसी प्रकार ईश्वरके स्वभावका भेद माननेपर ईश्वर भी अनित्य हो जावेगा । और जगतकी रचना तथा संहारमें शशु (ईश्वर)के स्वभावका भेद होना तुमको इष्ट ही है । क्योंकि तुमने ‘ ईश्वर रजोगुणरूप होकर जगतकी रचनामें, तमोगुणस्वरूपका धारक होकर जग-तके नष्ट करनेमें और सात्विकपनेसे जगतकी स्थिति (रक्षा) में व्यापार करता है, ऐसा स्वीकार किया है । और इस प्रकार भिन्न २ गुणरूप होकर कार्य करनेमें ईश्वरकी अवस्थायें भी जुदी जुदी हुई और उन जुदी २ अवस्थाओंके होनेसे अवस्थाओंका धारक जो ईश्वर है, उसका भी भेद हुआ अर्थात् रजोगुणरूप अवस्थाका धारक जो ईश्वर है, उस ईश्वरसे तमोगुणरूप अवस्थावाला ईश्वर भिन्न हुआ । और ऐसा हुआ तो ईश्वरकी नित्यताका नाश हुआ अर्थात् ईश्वर नित्य न रहा ।

अथास्तु नित्यः सस्तथापि कथं सततमेव सृष्टौ न चेष्टते । इच्छावशाच्चेन्ननु ता अपीच्छाः स्वसत्तामात्रनिबन्ध-

नात्मलाभाः सदैव किं न प्रवर्तयन्तीति स एवोपालम्भः । तथा शम्भोरष्टगुणाऽधिकरणत्वे कार्यभेदाऽनुमेयानां तदिच्छानामपि विषमरूपत्वान्नित्यत्वहानिः केन वार्यते ।

फिर भी यदि तुम अभी कहो कि, ईश्वर नित्य ही है, तो अस्तु नित्य ही रहो; परंतु तौ भी वह ईश्वर सदाकाल जगतके बनानेमें चेष्टा क्यों नहीं करता है अर्थात् निरंतर जगतको क्यों नहीं बनाता है ? यदि कहो कि, ईश्वर इच्छाके वशसे निरंतर जगतको नहीं रचता है अर्थात् जब ईश्वरको जगतके रचनेकी इच्छा नहीं रहती है, तब जगतका बनाना छोड़ देता है, तो हम पूछते हैं कि, अपनी विद्यमानतारूप कारणसे निज स्वरूपको धारण करनेवाली वे इच्छायें सदा क्यों नहीं प्रवर्त्ताती है । भावार्थ—इच्छायें जबतक ईश्वरमें विद्यमान रहेंगी तबतक ही इच्छा कह लीयेगी इस कारण वे इच्छायें जगतके रचनेमें ईश्वरको सदा ही क्यों नहीं लगाती है ? इस प्रकार जो पहले उपालंभ था, वही यहां भी हुआ अर्थात् जैसे पहले ईश्वर सदा जगतको क्यों नहीं रचता है, यह दोष दिया है, वैसा ही यहां 'इच्छायें सदा ईश्वरको जगतके रचनेमें क्यों नहीं लगाती है' यह दोष है । और जब तुम ईश्वरको, बुद्धि ? इच्छा ? प्रयत्न ? संख्या ? परिमाण ? पृथक्त्व ? संयोग ? और विभाग ? इन आठ गुणोंका अधिकरण मानते हो अर्थात् ईश्वरमें बुद्धि आदि ८ गुण सदा समानरूपसे रहते हैं ऐसा कहते हो, तब कार्यभेदसे अनुमान करनेयोग्य ऐसी जो ईश्वरकी इच्छाये है, उनकी विषमरूपतासे उत्पन्न हुई नित्यताकी हानिको कौन दूर करेगा । भावार्थ—ईश्वरमें इच्छायें सदा समान रहनी चाहियें । परंतु जगतमें जो नाना प्रकारके कार्य देखते हैं, इससे अनुमान होता है कि, ईश्वरकी इच्छायें भी नाना प्रकारकी है अर्थात् विषम है और जब ईश्वरकी इच्छायें विषम हुईं तो ईश्वर अनित्य होयगा ।

किञ्च प्रेक्षावतां प्रवृत्तिः स्वार्थकारुण्याभ्यां व्याप्ता । ततश्चायं जगत्सर्गे व्याप्रियते स्वार्थात्कारुण्याद्वा । न तावत्स्वार्थात्तस्य कृतकृत्यत्वात् । न च कारुण्यात्परदुःखग्रहाणेच्छा हि कारुण्यम् । ततः प्राक्सर्गाज्जीवानामिन्द्रियशरीरविषयानुत्पत्तौ दुःखाभावेन कस्य ग्रहाणेच्छा कारुण्यम् । सर्गोत्तरकाले तु दुःखिनोऽवलोक्य कारुण्याऽभ्युपगमे दुरुत्तरमितरेतराश्रयम् । कारुण्येन सृष्टिः सृष्ट्या च कारुण्यम् । इति नास्य जगत्कर्तृत्वं कथमपि सिद्ध्यति । और भी विशेष यह है कि, जो प्रेक्षावान् (विचारशील) पुरुष है, उनकी प्रवृत्ति स्वार्थ और कारुण्यसे व्याप्त

होती है अर्थात् विचारवान् या तो अपने प्रयोजनसे किसी कार्यको करते हैं, और या करुणाबुद्धिको धारणकर परोपकारके लिये किसी कार्यको करते हैं। इस कारण यह ईश्वर जगतके रचनेमें स्वार्थसे व्यापार करता है ? अथवा करुणाभावासे व्यापार करता है, अर्थात् लगाता है। यदि कहो कि, ईश्वरकी जगतकी रचनामें स्वार्थसे प्रवृत्ति होती है, सो तो नहीं। क्योंकि वह ईश्वर कृतकृत्य है अर्थात् उसको कोई भी कार्य करना न रहा, इस कारण कृतार्थ है। यदि कहो कि ईश्वर जगतकी रचनामें कारुण्यसे प्रवृत्ति करता है। सो भी नहीं। क्योंकि दूसरेके दुःखोंको दूर करनेकी जो इच्छा है, वह कारुण्य कहलाता है, इसकारण ईश्वरने जब जगत नहीं रचा था, उस समय जीवोंके इन्द्रिय, शरीर और विषयोंकी उत्पत्ति न होनेसे दुःखका अभाव था अर्थात् इन्द्रिय, शरीर तथा विषयोंसे दुःख उत्पन्न होता है और वे इन्द्रियआदि जीवोंके थे नहीं, फिर किसको दूर करनेकी इच्छा हुई जिससे कि, ईश्वरने कारुण्यसे जगतको रचा। और जगतको रचनेके पीछे दुःखी जीवोंको देखकर ईश्वरने कारुण्य धारण किया, ऐसा मानो तो इतरेतराश्रय (अन्योन्याश्रय) नामक दोष नहीं दूर हो सकता है। क्योंकि कारुण्यसे जगतकी रचना हुई और जगतकी रचनासे कारुण्य हुआ। इस कारण ईश्वरके जगतका कर्षापना किसी भी प्रकारसे सिद्ध नहीं हो सकता है।

तदेवमेवंविधदोषकल्पिते पुरुषविशेषे यस्तेषां सेवाहेवाकः स खलु केवलं बलवन्मोहविडम्बनापरिपाक इति ।
अत्र च यद्यपि मध्यवर्तिनो नकारस्य घण्टालालान्यायेन योजनादर्थान्तरमपि स्फुरति । यथा 'इमाः कुहेवाकविडम्बनास्तेषां न स्युर्येषां त्वमनुशासक' इति । तथापि सोऽर्थः सहृदयैर्न हृदये धारणीयः । अन्ययोगव्यवच्छेदस्याधि कृतत्वात् । इति काव्यार्थः ॥ ६ ॥

सो इस प्रकार अनेक दोषोंसे दूषित पुरुषविशेष (ईश्वर) में जो वैशेषिकोंका सेवामें आग्रह है, वह बलवान जो मोह है, उसकी विडम्बनाका परिपाक (उदय अथवा फल) है। और "इमाः कुहेवाकविडम्बनाः स्युस्तेषां न येषामनुशासकस्त्वम् ।" यहां पर मध्यवर्त्ती जो नकार है, उसका घटालालान्यायसे अन्य करनेपर दूसरा अर्थ भी निकलता है अर्थात् जैसे-घंटामें जो टोकरी रहती है, वह घटाके दोनों तरफको लगती है, इसीप्रकार मध्यवर्त्ती नकारका भी दो प्रकारसे अन्य होता है। जैसे-कि, यह कदाग्रहरूप विडम्बनायें उनके न हों, जिनके कि, आप हितोपदेशक है। तथापि यह अर्थ सहृदयों (मर्मवेत्ताओं) को हृदयमें न धारण करना चाहिये। क्योंकि यहां स्तुतिकारने अन्ययोगव्यवच्छेदका अवलम्बन किया है। इस प्रकार काव्यका अर्थ है। ६।

अथ चैतन्यादयो रूपादयश्च धर्मा आत्मादर्घटादेश्च धर्मिणोऽत्यन्तं व्यतिरिक्ता अपि समवायसम्बन्धेन संबन्धाः सन्तो धर्मधर्मिव्यपदेशमशुभवते । तन्मतं दूषयन्नाह ।

अब “यद्यपि जीवादिक धर्मोंसे ज्ञानादिक धर्म और घटादिक धर्मोंसे रूपआदि धर्म अत्यन्त भिन्न है अर्थात् गुणोंसे गुण सर्वथा भिन्न है, तथापि परस्पर भिन्नरूप ये दोनों धर्म और धर्मी समवायसंबंधसे परस्पर संबंधको प्राप्त होकर धर्मधर्मिव्यवहारको अर्थात् यह पदार्थ धर्मी (धर्मोंको धारण करनेवाला) है और ये इसमें रहनेवाले धर्म (गुण) हैं, इस व्यवहारको प्राप्त होते हैं” इस वैशेषिकोंके मतको दूषित करते हुए ग्रन्थकार इस अग्रिम काव्यका कथन करते हैं ।

न धर्मधर्मिस्त्वमतीवभेदे तृत्यास्ति चेन्न त्रितयं चकास्ति ।

इहेदमित्यस्ति मतिश्च तृत्तौ न गौणभेदोऽपि च लोकबाधः ॥ ७ ॥

काव्यभावार्थः—धर्म और धर्मोंको सर्वथा भिन्न माननेमें धर्मधर्मिव्यवहार नहीं होता है । यदि वादी कहें कि, समवायसंबंधसे परस्पर भिन्नरूप धर्म और धर्मोंका एक दूसरेके साथ संबंध हो जाता है, अतः धर्मधर्मिव्यवहार होता है । सो नहीं । क्योंकि जैसे—धर्म और धर्मी इन दोनोंका ज्ञान होता है; उसी प्रकार समवायका ज्ञान नहीं होता है । फिर यदि वादी कहें कि, ‘यहां यह है’ इस प्रकारके इह प्रत्ययसे समवायका ज्ञान होता है, तो ‘यहां यह है’ इस प्रकारकी बुद्धि समवायमें भी है । इस कारण उस समवायमें संबंधका कारण दूसरा समवाय और उसमें भी दूसरा समवाय माननेसे अनवस्था होगी । यदि वादी कहें कि, समवायमें समवायत्व गौणरूपसे है । सो भी ठीक नहीं है । और इहप्रत्ययसे समवायको सिद्ध करनेमें लोकसे भी विरोध होता है ॥ ७ ॥

व्याख्या । धर्मधर्मिणोरतीवभेदेऽतीवत्यत्रेशब्दो वाक्यालङ्कारे । तं च प्रायोऽतिशयवदकिंवृत्तेश्च प्रयुञ्जते शाब्दिकाः । यथा “ आवर्जिता किञ्चिदिव स्तनाभ्याम् ” “ उद्धृतः क इव सुखावहः परेयाम् ” इत्यादि । ततश्चैकान्तभिन्नत्वेऽङ्गीक्रियमाणे धर्मधर्मित्वं न स्यात् । अस्य धर्मिण इमे धर्मा एषां च धर्माणामयमाश्रयभूतो धर्मभ्येत्येवं सर्वप्रसिद्धो धर्मधर्मिव्यपदेशो न प्राप्तोति । तयोरत्यन्तभिन्नत्वेऽपि तत्कल्पनायां पदार्थान्तरधर्माणामपि विवक्षितधर्मधर्मित्वापत्तेः ।

व्याख्यार्थः—“अतीवभेदे” धर्म (गुण) और धर्मी (गुणी) इन दोनोंको अत्यन्त भिन्न माननेपर [‘अतीव’ यहांपर जो अति के साथ ‘इव’ का योग (अति×इव=अतीव) है, वह वाक्यके अलंकारमें है और शाब्दिक (व्याकरणके जाननेवाले) पुरुष इस ‘इव’ शब्दका प्रायः अतिशब्दके साथ, किञ्चित्ति (‘किम्’ शब्दके साथ समासको प्राप्त हुए शब्द) के साथ तथा किञ्चिद्वदेके साथ योग किया करते हैं । जैसे कि “आवर्जिता, किञ्चिदिव स्तनाभ्याम् ।” “उद्धृतः क इव सुखावहः परेयाम् ।” यहांपर किञ्चित्ति और किञ्चिद्वदेके साथ ‘इव’ का योग किया गया है ।] “धर्मधर्मित्वं” धर्मधर्मिपिना अर्थात् इस धर्मिक ये धर्म है, और इन धर्मिका यह आधारभूत (रहनेके स्वरूप), धर्मी है, इसप्रकारका जो सर्वप्रसिद्ध धर्मधर्मिव्यवहार है, वह नहीं होता है । क्योंकि यदि धर्म और धर्मीके परस्पर अत्यन्त भेद होनेपर भी जो धर्मधर्मिभावकी कल्पना करोगे तो अन्यपदार्थोंके जो धर्म है, उनके भी विवक्षित धर्मधर्मिभाव हो जावेगा । भावार्थ—वैशेषिकमतमें द्रव्य (धर्म) और गुण (धर्म) इन दोनोंको सर्वथा भिन्न माने गये हैं । क्योंकि ‘जो द्रव्य उत्पन्न होता है, वह प्रथमक्षणमें गुणोंसे रहित ही रहता है, ऐसा उनका मत है । इसकारण शास्त्रकार कहते हैं कि, यदि परस्पर भेदके धारक धर्म और धर्मीके धर्मधर्मिभाव मानोगे, तो एक पदार्थका धर्म किसी दूसरे पदार्थका धर्म हो जावेगा अर्थात् जब अधिके उष्णत्वधर्मका अधिके साध और अधिके शीतत्वधर्मका जलके साथ सर्वथा भेद होगा तब जलका शीतत्व धर्म अधिके साध और अधिके उष्णत्वधर्म जो है, वह जलका धर्म हो जावेगा । क्योंकि धर्म धर्मिके सर्वथा भेद होनेसे यह धर्म इसी धर्मिका है, ऐसा कोई नियामक [नियम करनेवाला] नहीं है ।

एवमुक्ते सति परः प्रत्यवतिष्ठते । वृत्त्यास्तीति । अयुतसिद्धानामाधारभूतानामिहप्रत्ययहेतुः सम्बन्धः समवायः । स च समयनात्समवाय इति, द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषेषु पञ्चसु पदार्थेषु वर्तमानाद् वृत्तिरिति चा-

ख्यायते । तथा वृत्त्या समवायसम्बन्धेन तयोर्धर्मधर्मिणोरितरेतरविनिर्मुण्डितत्वेऽपि धर्मधर्मिभ्यव्यपदेश इष्यते । इति नानन्तरोक्तो दोष इति ।

इस प्रकार शालकारके कहने पर वादी उत्तर देते है कि, “ वृत्त्या ” वृत्ति (समवाय) से “ अस्ति ” है । भावार्थ—अयुतसिद्ध [एक दूसरेके विना कदापि नहीं रहेनेवाले] ऐसे जो आधार्थ [रहेने योग्य] और आधार (रहेनेके स्थानभूत] पदार्थ है, उनमें ‘यहां यह है’ इस ज्ञानका कारणभूत जो संबंध है, उसको समवाय कहते है । वह समवाय एक दूसरेको परस्पर संबंधित करनेसे अर्थात् अवयवको और अवयवको, जातिको और व्यक्तिको, गुणको और गुणीको, क्रियाको और क्रियावानको नित्यद्रव्यको तथा विशेषको मिलनेसे समवाय कहलाता है, और द्रव्य १ गुण २ कर्म ३ सामान्य ४ और विशेष ५ इन पांचोंमें रहनेसे वृत्ति कहलाता है । उस समवायसंबंधसे उन दोनों धर्मधर्मियोंके परस्पर भेद होनेपर भी हम धर्मधर्मिव्यवहार मानते है ।

अत्राचार्यः समाधत्ते । चेदिति । यद्येवं तव मतिः सा प्रत्यक्षप्रतिक्षिप्ता । यतो न त्रितयं चकास्ति । अयं धर्मी, इमे चास्य धर्म्माः, अयं चैतत्सम्बन्धनिबन्धनं समवाय इत्येतत्रितयं वस्तुत्रयं न चकास्ति ज्ञानविषयतया न प्रतिभासते । यथा किल शिलाशकलयुगलस्य मिथोऽनुसन्धायकं रालादिद्रव्यं तस्मात्पृथक् तृतीयतया प्रतिभासते । नैवमत्र समवायस्याऽपि प्रतिभानम् । किन्तु द्वयोरेव धर्मधर्मिणोः । इति शपथप्रत्यायनीयोऽयं समवाय इति भावार्थः ।

अब आचार्य इस उपर्युक्त वादीकी शंकाका समाधान करते है कि, “ चेत् ” यदि ऐसी तुम्हारी बुद्धि है, तो वह प्रत्यक्षसे खंडित है अर्थात् तुम जो समवायसंबंधसे धर्मधर्मिभावको सिद्ध करते हो, उसका प्रत्यक्षप्रमाणसे खंडन होता है । क्योंकि “ त्रितयं ” तीन “ न ” नहीं “ चकास्ति ” प्रतिभासते है । अर्थात् यह धर्मी है, ये इस धर्मी के धर्म है और यह इन दोनों धर्मधर्मियोंके संबंधका कारणभूत समवाय है, इसप्रकार ये तीन पदार्थ ज्ञानकी विषयतासे प्रतिभासित नहीं होते है । अर्थात् जाननेमें नहीं आते है । भावार्थ—जैसे शिला [एक प्रकारके पत्थर]के दो टुकड़ोंको जोड़नेवाला राल आदिक द्रव्य तीसरे रूपसे भासता है अर्थात् जैसे शिलके दो टुकड़ोंका जुदा जुदा ज्ञान होता है, उसी प्रकार उनका संबंध करानेवाला राल आदि द्रव्य भी भिन्न जाना जाता है । इसी प्रकार यहां समवायका भी प्रतिभास होना चाहिये; परंतु नहीं होता है; किन्तु धर्म तथा धर्मी इन दोका ही प्रतिभास होता है । इस कारण धर्म और धर्मीका संबंध करानेवाले समवाय नामक भिन्न पदार्थको जो तुम सिद्ध

करते हो, सो सौगन खाकर विश्वास कराने योग्य है अर्थात् प्रत्यक्षसे समवाय सिद्ध नहीं होता है, तो भी तुम हठसे उसको सिद्ध करते हो, इस कारण हम समवायको नहीं मानते हैं ।

किञ्चायं तेन वादिना एको नित्यः सर्वव्यापकोऽमूर्त्तश्च परिकल्प्यते । ततो यथा घटाश्रिताः पाकजरूपादयो धर्म्माः समवायसम्बन्धेन समवेतास्तथा किं न पटेऽपि । तस्यैकत्वनित्यव्यापकत्वैः सर्वत्र तुल्यत्वात् । यथाकाश एको नित्यो व्यापकः अमूर्त्तश्च सन् सर्वैः सम्बन्धिभिर्युगपदविशेषेण संबध्यते तथा किं नायमपीति । विनश्यदेकवस्तुसमवायाऽभावे च समस्तवस्तुसमवायाऽभावः प्रसज्यते । तत्तदवच्छेदकभेदान्नायं दोष इति चेदेवमनित्यत्वापत्तिः । प्रतिवस्तुस्वभावभेदादिति ।

और भी विशेष यह है कि, उन वैशेषिकोंने यह समवाय एक, नित्य, सर्वव्यापक तथा अमूर्त्त माना है, इस कारण जैसे घटमें रहनेवाले पाकज [घटको अग्निमें पकानेसे उत्पन्न होनेवाले) रूप आदिक धर्म समवायसवधसे घटमें मिले है, उसीप्रकार पटमें भी क्यों नहीं मिले । क्योंकि वह समवाय एक, नित्य और व्यापक होनेसे सब पदार्थोंमें समान स्वरूपका धारक है । भावार्थ— जैसे—आकाश जो है, वह एक, नित्य, व्यापक और अमूर्त्त है, इसकारण सब संबंधियोंके साथ एक ही समयमें समानरूपतासे सबध रखता है, उसीप्रकार यह समवाय भी जैसे पाकजरूपका घटके साथ संबंध करता है, वैसे पटके साथ भी संबंध क्यों नहीं करता है । और नष्ट होते हुए किसी एक वस्तुमें समवायका नाश होनेपर समस्त पदार्थोंमें समवायके अभाव होनेका भी प्रसंग होता है. अर्थात् सर्वव्यापक और एक होनेसे समवाय सर्वत्र समान है, इस कारण जब एक पदार्थमें समवायका नाश होवेगा, तब सब पदार्थोंमें समवायका नाश होगा । और यह तुमको इष्ट नहीं है । यदि उस उस अवच्छेदक (भेद करने वाले) के भेदसे यह दोष नहीं है अर्थात् जो घटत्वावच्छेदक समवाय है, वह घटमें रहता है, और जो पटत्वावच्छेदक समवाय है, वह पटमें रहता है, इसकारण जब घटत्वावच्छेदक समवायका नाश होता है तब पटत्वावच्छेदक समवाय नाश नहीं होता है । ऐसा कहो तो प्रत्येक वस्तुके साथ स्वभावका भेद होनेसे समवायके अनित्यता प्राप्त हो जावेगी अर्थात् घटके साथ अन्यस्वभावसे और पटके साथ अन्यस्वभावसे रहनेके कारण समवाय नित्य न रहेगा ।

अथ कथं समवायस्य न ज्ञाने प्रतिभानम् । यतस्तस्येहेतिप्रत्ययः सावधानं साधनम् । इहप्रत्ययश्चाऽनुभवसिद्ध

एव । इह तन्तुषु पट, इहात्मनि ज्ञानमिह घटे रूपादय इति प्रतीतेरुपलम्भात् । अस्य च प्रत्ययस्य केवलधर्मधर्मनालम्बनत्वाद् अस्ति समवायाख्यं पदार्थान्तरं तद्धेतुः । इति पराशङ्कामभिसन्धाय पुनराह । इहेदमित्यस्ति मतिश्च वृत्ताविति । इहेदमिति इहेदमिति आश्रयाश्रयिभावहेतुक इह प्रत्ययो वृत्तावप्यस्ति समवायसंबन्धेऽपि विद्यते । चशब्दोऽपिशब्दार्थस्तस्य च व्यवहितसम्बन्धस्तथैव च व्याख्यातम् ।

अब “ समवायका ज्ञानमें प्रतिभासन कैसे नहीं होता है अर्थात् होता ही है । क्योंकि उस समवायका इहप्रत्यय सावधान (प्रबल) साधन है, अर्थात् समवायके विना इहप्रत्यय नहीं हो सकता है, इसकारण अर्थापत्तिसे समवाय सिद्ध होता है । और इन तंतुओंमें पट है, इस आत्मामें ज्ञान है तथा इस घटमें रूप आदिक हैं, इस प्रतीतिके प्राप्त होनेसे इहप्रत्यय तो अनुभवसे ही सिद्ध है । और यह इहप्रत्यय केवल धर्मके आधार भी नहीं है और केवल धर्मके आधार भी नहीं है, इसकारण समवायनामक जो धर्म और धर्मसे भिन्न एक तीसरा पदार्थ है, वही इहप्रत्ययका हेतु है अर्थात् ‘ यहां यह है ’ ऐसी प्रतीति न तो केवल धर्ममें ही होती है और न केवल धर्ममें ही होती है । अतः समवाय ही इस प्रतीतिका कारण है । ” इस प्रकार वादीकी शंकाको चित्तमें धारण करके ग्रन्थकार फिर कहते हैं कि, “ इह ” यहां “ इदम् ” यह “ अस्ति ” है । “ इति ” इसप्रकारकी “ मतिः ” बुद्धि जो है सो “ वृत्तौ ” समवायसंबन्धमें “ च ” भी “ अस्ति ” है अर्थात् आधार तथा आधेय ये दोनों हैं कारण जिसके ऐसा इहप्रत्यय समवायसंबन्धमें भी होता है । [‘ मतिश्च ’ यहां ‘ च ’ यह शब्द अपि शब्दके अर्थमें है, और उसका व्यवहितसंबन्ध है, इसकारण यहां पर उसीरीतिसे इसकी व्याख्या की गई है ।]

इदमत्र हृदयम् । यथा—त्वन्मते पृथिवीत्वासिंबन्धात्पृथिवी तत्र पृथिवीत्वं पृथिव्या एव स्वरूपमस्तित्वाख्यं नाऽपरं वस्त्वन्तरम् । तेन स्वरूपेणैव समं घोऽसावभिसम्बन्धः पृथिव्याः स एव समवाय इत्युच्यते । “ प्राप्तानामेव प्राप्तिः समवायः ” इति वचनात् । एवं समवायत्वाभिसम्बन्धात्समवाय इत्यपि किं न कल्प्यते । यतस्तस्याऽपि यत्समवायत्वं स्वस्वरूपं तेन सार्द्धं संबन्धोऽस्त्येव । अन्यथा निःस्वभावत्वात् शशविषाणवदवस्तुत्वमेव भवेत् । ततश्च इह समवाये समवायत्वमित्युल्लेखेन इहप्रत्ययः समवायेऽपि युक्त्या घटत एव । ततो यथा पृथिव्यां पृथिवीत्वं

समवायेन समवेतं समवायत्वेऽपि समवायत्वमेवं समवायान्तरेण संबन्धनीयं तदप्यपरेणेत्येवं दुस्तराऽनवस्थामहानदी। यहां पर तात्पर्य यह है कि, जैसे तुम्हारे मतमें पृथिवीत्वके संबंधसे पृथिवी है। और उस पृथ्वीमें जो पृथ्वीपना है, वह पृथिवीका ही अस्तित्व नामक धर्म है, अन्य कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। और उस पृथिवीत्वरूप अपने स्वरूपके साथ ही जो कोई पृथिवीका संबंध है, उसीको 'प्राप्त हुआ'की जो प्राप्ति है, वह समवाय है' इस वचनसे 'समवाय' ऐसा कहते हैं। इसीप्रकार 'समवायत्वके संबंधसे समवाय है' यह भी तुम क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि उस समवायका भी समवायत्वरूप निजस्वरूपके साथ संबंध है ही। क्योंकि यदि समवायका समवायत्वके साथ संबंध न होगा तो स्वभावरहित होनेसे शशशृंग (सुस्सेके सींग) के समान समवाय भी अवस्तु ही हो जावेगा अर्थात् जैसे स्वभावरहित होनेके कारण शशशृंग कोई पदार्थ नहीं है, इसी प्रकार स्वभावरहितपनेसे समवाय भी पदार्थ न रहेगा, इस कारण समवायका समवायत्वके साथ संबंध तुमको मानना ही होगा। और जब समवायका समवायत्वके साथ संबंध मानोगे तब इस समवायमें समवायत्व है, इस प्रकार कहनेसे समवायमें भी इहप्रत्यय युक्तसे सिद्ध हो ही जावेगा। अतः जैसे पृथिवीमें पृथिवीत्व समवायसंबंधसे समवेत (मिलाहुआ) है, उसी प्रकार समवायमें भी समवायत्वको दूसरे समवायसे संबंधित करना चाहिये। और उस दूसरे समवायमें जो समवायत्व है, उसको तीसरे समवायसे संबंधित करना चाहिये। और इस प्रकार जब समवायमें समवायत्वको संबंधित करनेके लिये नया २ समवाय मानोगे तब अनवस्था-दोष नामक जो महानदी है, वह दुस्तर (दु खसे पार पानेवाली) हो जावेगी अर्थात् नये २ समवायोंका कभी अंत ही न आवेगा।

एवं समवायस्यापि समवायत्वाभिसम्बन्धे युक्त्या उपपादिते साहसिक्यमालम्ब्य पुनः पूर्वपक्षवादी वदति। ननु पृथिव्यादीनां पृथिवीत्वादिसम्बन्धनिवन्धनं समवायो मुख्यस्तत्र त्वत्तादिप्रत्ययाभिव्यङ्ग्यस्य सङ्गृहीतस-कलांवान्तरजातिलक्षणव्यक्तिभेदस्य सामान्यस्योद्भवात्। इह तु समवायस्यैकत्वेन व्यक्तिभेदाऽभावेजातेरुद्भू-तत्वाद्गौणोऽयं युष्मत्परिकल्पित इहेतिप्रत्ययसाध्यः समवायत्वाभिसम्बन्धस्तत्साध्यश्च समवाय इति।

इस प्रकार युक्तिसे समवायका भी समवायत्वके साथ संबंध है, यह सिद्ध कर चुकने पर फिर भी पूर्वपक्षवादी (वैशेषिक) साहसको धारण करके कहते हैं कि पृथिवी आदिके साथ पृथिवीत्व आदिका संबंध करानेका कारणभूत जो समवाय है, वह मुख्य है। क्योंकि उन पृथिवी आदिमें—'त्व, तल' इत्यादि तद्धितके प्रत्ययोसे जानने योग्य और पृथिवी आदिमें रहनेवाली जो समस्त

जातियें, लक्षण और व्यक्तिविशेष है उनको संग्रह करनेवाले ऐसे सामान्यकी उत्पत्ति है। और यहां तो समवाय एक है, इसकारण उस समवायमें व्यक्तियोंके भेदका अभाव होने पर जातिकी उत्पत्ति नहीं होती है। अतः आपका इहप्रत्ययसे सिद्ध होने योग्य समवायत्वका समवायके साथ संबंध और उस समवायत्वसे साध्य समवाय ये दोनों गौण हैं।

तदेतन्न विपश्चित्तश्चमत्कारकारणम् । यतोऽत्रापि जातिरुद्भवन्ती केन निरुद्ध्येत । व्यक्तेरभेदेनेतिचेत् । न । तत्तदवच्छेदकवशात्तन्नेदोपपत्तौ व्यक्तिभेदकल्पनाया दुर्निवारत्वात् । अन्यो हि घटसमवायोऽन्यश्च पटसमवाय इति व्यक्त एव समवायस्यापि व्यक्तिभेद इति । तत्सिद्धौ सिद्ध एव जाल्युद्भवः । तस्मादन्यत्रापि मुख्य एव समवायः । इहप्रत्ययस्थोभयत्रायव्यभिचारात् ।

सो यह तुम्हारा कहना विद्वानोंके चित्तमें चमत्कार उत्पन्न करनेवाला नहीं है अर्थात् इस तुम्हारे कथनसे विद्वानोंको संतोष नहीं होता है। क्योंकि इस समवायमें उत्पन्न हुई जातिको कोन रोकता है? अर्थात् समवायमें जातिको रोकनेवाला कोई भी नहीं है। यदि कहो कि, व्यक्तिका भेद नहीं है अर्थात् समवाय एक ही है, इसकारण समवायमें जाति नहीं है। सो नहीं। क्योंकि उस उस अवच्छेदकके वशसे उस उस भेदकी उत्पत्ति होनेसे घट समवाय अन्य है, और पट समवाय अन्य है। इस प्रकारसे समवायके भी व्यक्तिका भेद प्रकट हो ही गया अर्थात् घटत्वावच्छेदक समवाय उत्पन्न हुआ है वह भिन्न है और पटत्वावच्छेदकके वशसे उत्पन्न हुआ जो पटत्वावच्छेदकसमवाय है, वह भिन्न है। इसकारण घटसमवाय पटसमवाय इत्यादि भिन्न २ व्यक्तियोंके होनेसे समवायमें व्यक्तिभेद प्रकट ही है। और इसप्रकार जब समवायमें व्यक्तिका भेद सिद्ध हो गया तब व्यक्तिका भेद होनेसे जातिकी भी उत्पत्ति हो ही गई। इस कारण जैसे पृथ्वीमें समवाय मुख्य है, उसी प्रकार समवायमें भी समवाय मुख्य ही है। क्योंकि इहप्रत्यय जो है, वह पृथिवी और समवाय इन दोनोंमें ही है।

तदेतत्सकलं सपूर्वपक्षं समाधानं मनसि निधाय सिद्धान्तवादी प्राह । न गौण इति । ओऽयं भेदः स नास्ति गौणलक्षणाऽभावात् । १। तल्लक्षणं चेत्थमाचक्षते । “अव्यभिचारी मुख्योऽविकलोऽसाधारणोऽन्तरङ्गश्च । विपरीतो गौणोऽर्थः सति मुख्ये धीः कथं गौणे ।” तस्माद्धर्मधर्मिणोः सम्बन्धने मुख्यः समवाय समवाये च समवायत्वाभिसम्बन्धे गौण इत्ययं भेदो नानात्वं नास्तीति भावार्थः ।

इस प्रकार इन समस्त पूर्वपक्षोंको (वादियोंकी शंकाओंको) और उन वादियोंकी शंकाओंके जो ऊपरमें समाधान कर चुके हैं, उनको चित्तमें धारण करके सिद्धान्तवादी आचार्यमहाराज कहते हैं कि, वैशेषिकोंने जो समवायमें समवाय है, उसको गौण कहकर धर्मधर्मीके समवायसे समवायके समवायमें भेद कहा है सो नहीं है। क्योंकि गौणका जो लक्षण है, वह समवायमें नहीं सिद्ध होता है। और गौणका लक्षण इस प्रकार कहते हैं “अव्यभिचारी, अविकल, असाधारण, और अंतरंग ऐसा जो अर्थ है, वह तो मुख्य है, और उससे विपरीत अर्थात् व्यभिचारी, विकल, साधारण तथा बहिरंग अर्थ गौण है. इसकारण मुख्य अर्थके विद्यमान होने पर गौण अर्थमें बुद्धि कैसे होवे ॥ १ ॥”

किञ्च योऽयमिह तन्तुषु पट इत्यादिप्रत्ययात्समवायसाधनमनोरथः स खल्वनुहस्ते नपुंसकादपत्यप्रसवमनोरथम् । इह तन्तुषु पट इत्यादेर्व्यवहारस्याऽलौकिकत्वात्पांशुलपादानामपि इह पटे तन्त्व इत्येवं प्रतीतिदर्शनात् । इह भूतले घटाभाव इत्यत्रापि समवायप्रसङ्गात् । अत एवाह । अपि च लोकवाध इति । अपिचेति दूषणाभ्युच्चये । लोकः प्रामाणिकलोकः सामान्यलोकश्च तेन वाधो विरोधो लोकवाधस्तदप्रतीतव्यवहारसाधनात् । वाधशब्दस्य “ईहाद्याः प्रत्ययभेदतः” इति पुंस्त्रीलिङ्गता) । तस्माद्धर्मधर्मिणोरविष्वग्भावलक्षण एव सम्बन्धः प्रतिपत्तव्यो नान्यः समवायात् । इति काव्यार्थः ॥ ७ ॥

और भी विशेष दोष यह है कि, तुम्हारा जो यह “ इन तंतुओंमें पट है” इत्यादिरूप इहप्रत्ययसे समवायको सिद्ध करनेका मनोरथ है, वह नपुंसकसे पुत्र उत्पन्न करनेके मनोरथके समान है। भावार्थ—जैसे नपुंसकसे कभी पुत्र उत्पन्न नहीं होता है, इसी प्रकार इस इहप्रत्ययसे भी समवाय सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि इन तंतुओंमें पट है, इत्यादि व्यवहार लोकसे विरुद्ध है। कारण कि जो पांशुलपाद (धूलिके धारक चरणोंवाले) अर्थात् गांवके लोग है, उनके भी इस पटमें तंतु है, ऐसी ही प्रतीति देखी जाती है। और इन तंतुओंमें पट है ऐसी प्रतीति नहीं देखते हैं। भावार्थ—ग्रामवासी मूर्ख लोग भी पटमें तंतु है, ऐसा मानते हैं। विद्वानोंका तो कहना ही क्या? और तुम इन तंतुओंमें पट है, ऐसा लोकविरुद्ध मत स्वीकार करके उससे समवायको सिद्ध करते

हो । इसकारण मूर्खोंसे भी गये वीति हो । और 'यहां यह है' इस इहप्रत्ययसे ही समवायको सिद्ध करोगे तो इस मूलमें घटका अभाव है, यहां भी समवाय मानना पड़ेगा । और यह तुमको इष्ट नहीं है । "अपि च" और भी दोष यह है कि [यहां अपिच यह शब्द दूषणोंके समूहको दिखलाने वाले अर्थका धारक है ।] "लोकवाधः" लोकसे अर्थात् प्रामाणिक (न्यायके जाननेवाले) जन है, उनसे और जो सामान्यपुरुष है, उनसे भी विरोध होगा । क्योंकि तुम उनकी प्रतीतिमें नहीं आनेवाला ऐसा जो व्यवहार है, उसको सिद्ध करते हो । [यहां पर वाधशब्द पुल्लिङ्ग है । क्योंकि 'ईहाधाः प्रत्ययभेदतः' इस सूत्रसे वाध शब्द पुलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग, इन दोनोंमें ही होता है ।] इस कारण धर्म और धर्मके अविष्वग्भावलक्षणका धारक अर्थात् तादात्म्यरूप ही संबंध मानना चाहिये । और समवायसे संबंध न मानना चाहिये । भावार्थ—धर्म और धर्मके परस्पर समवायसे संबंध होता है, ऐसा माननेमें पूर्वोक्त प्रकारोंसे अनेक दोष आते हैं, इस कारण धर्म और धर्मोंके तादात्म्यसंबंध है अर्थात् धर्म और धर्मों अभिन्न है । यह ही स्वीकार करना चाहिये । इसप्रकार काव्यका अर्थ है ॥ ७ ॥

अथ सत्ताभिधानं पदार्थान्तरमात्मनश्च व्यतिरिक्तं ज्ञानाख्यं गुणमात्मविशेषगुणोच्छेदस्वरूपां च मुक्तिमज्ञानादङ्गीकृतवतः परानुपहसन्नाह ।

अब सत्तानामक एक भिन्न पदार्थको, आत्मासे भिन्न ज्ञाननामक गुणको तथा आत्माके विशेषगुणोंका नाश होनेरूप मोक्षको अज्ञानसे माननेवाले वैशेषिकोंका हास्य करते हुए शास्त्रकार इस अग्रिम काव्यका कथन करते हैं ।

सतामपि स्यात् क्वचिदेव सत्ता चैतन्यमौपाधिकमात्मनोऽन्यत् ।
न संविदानन्दमयी च मुक्तिः सुसूत्रमासूत्रितमत्वदीयैः ॥ ८ ॥

काव्यभावार्थः—हे नाथ ! जो सत् पदार्थ हैं; उनमें भी किसी किसीमें सत्ता है. अर्थात् सब सत्पदार्थोंमें सत्ता नहीं है ? ज्ञान उपाधि जनित है, इसकारण आत्मासे भिन्न है ? और मोक्ष जो

है, वह ज्ञान तथा सुखरूप नहीं है ३ इस प्रकार इन तीनों मतोंका समर्थन करते हुए आपकी आज्ञासे बाह्य ऐसे वैशेषिकोंने बहुत अच्छे शास्त्र रचे हैं ॥ ८ ॥

व्याख्या। वैशेषिकाणां द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाख्याः षट्पदार्थास्तत्त्वतयाऽभिप्रेताः। तत्र पृथिव्यापस्ते-
जोवायुराकाशः कालो दिगाल्मा मन इति नव द्रव्याणि। गुणाश्चतुर्विंशतिस्तद्यथा—रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणा-
नि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वाऽपरत्वे बुद्धिः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नश्चेति सूत्रोक्ताः सप्तदश। चशब्दसमुच्चि-
ताश्च सप्त-द्रवत्वं गुरुत्वं संस्कारः स्नेहो धर्माधर्मौ शब्दश्च। इत्येवं चतुर्विंशतिर्गुणाः। संस्कारस्य वेगभावनास्थि-
तिस्थापकभेदात्रैविध्येऽपि संस्कारत्वजाल्यपेक्षया एकत्वाच्छौर्यौदार्यादीनां चात्रैवान्तर्भावान्नाधिक्यम्। कर्माणि
पञ्च। तद्यथा—उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति। गमनग्रहणाङ्गमणरेचनस्पन्देनाद्यविरोधः।

व्याख्यार्थः—वैशेषिकोंके मतमें द्रव्य १ गुण २ कर्म ३ सामान्य ४ विशेष ५ और समवाय ६ नामक छ. पदार्थ तत्त्वरूपसे माने गये है। इन छः पदार्थोंमें—पृथिवी १ जल २ तेज ३ वायु ४ आकाश ५ काल ६ दिशा ७ आत्मा ८ और मन ९ ये नौ द्रव्य हे। १। गुण चौबीस है; वे इस प्रकारसे हैं—रूप १ रस २ गंध ३ स्पर्श ४ संख्या ५ परिमाण ६ पृथक्त्व ७ संयोग ८ विभाग ९ परत्व १० अपरत्व ११ बुद्धि १२ सुख १३ दुःख १४ इच्छा १५ द्वेष १६ और प्रयत्न १७ ऐसे सतरह तो सूत्रमें कहे हुए तथा द्रवत्व १ गुरुत्व २ संस्कार ३ स्नेह ४ धर्म ५ अर्थमें ६ और शब्द ७ ये सात च शब्दसे ग्रहण किये हुए, एवं कुल मिलाकर चौबीस २४ गुण है। इन गुणोंमें यद्यपि संस्कारनामक गुण-वेग, भावना तथा स्थितिस्थापकरूप भेदोंसे तीन प्रकारका है, तथापि संस्कारत्वजातिकी अपेक्षासे एकरूप है; इस कारणसे और शौर्य, औदार्य आदिका यहां ही अन्तर्भाव होनेसे अर्थात् जैसे शौर्यका प्रयत्नमें अन्तर्भाव है; इसीप्रकार कोई किस गुणमें और कोई किस गुणमें अन्तर्गत हो जाते हैं, इस-
कारणसे गुण चौबीस ही है, अधिक नहीं है। १। निम्नलिखित प्रकारसे कर्म पांच है—उत्क्षेपण (कंचा फेंकना) १ अवक्षेपण

१. उत्क्षेपणत्वजातिमदूर्ध्वदेशसंयोगकारण कर्मोत्क्षेपणम्। १। अवक्षेपणत्वजातिमदधोदेशसंयोगकारण कर्मावक्षेपणम्। २। आकुञ्चनत्वजा-
तिमद्रक्त्वापादक कर्माकुञ्चनम्। ३। प्रसारणत्वजातिमद्वुत्वापादक कर्म प्रसारणम्। ४। गमनत्वजातिमद्विनियतदेशसंयोगकारणं कर्म गमनम्।
। ५। इति कर्मपञ्चकव्याख्या। २ ख-ग पुरुषकथो. खन्दनेति पाठः।

(नीचा फैकना) २ आकुंचन (सिकुचाना) ३ प्रसारण (फैलाना) ४ और गमन ५ ऐसे पांच कर्म है । इनमें गमनका ग्रहण करनेसे भ्रमण, रचन, स्पंदन आदिसे विरोध नहीं है ।

अत्यन्तव्यावृत्तानां पिण्डानां यतः कारणादन्योऽन्यस्वरूपानुगमः प्रतीयते तदनुवृत्तिप्रत्ययहेतुः सामान्यम् । तच्च द्विविधं परमपरं च । तत्र परं सत्ताभावो महासामान्यमिति चोच्यते । द्रव्यत्वाद्यवान्तरसामान्याऽपेक्षया महाविषयत्वात् । अपरसामान्यं च द्रव्यत्वादि । एतच्च सामान्यविशेष इत्यपि व्यपदिश्यते । तथाहि—द्रव्यत्वं नवसु द्रव्येषु वर्तमानत्वात्सामान्यम् । गुणकर्मभ्यो व्यावृत्तत्वाद्द्विशेषः । ततः कर्मधारये सामान्यविशेष इति । एवं द्रव्यत्वापेक्षया पृथिवीत्वादिकमपरं तदपेक्षया घटत्वादिकम् । एवं चतुर्विंशतौ गुणेषु वृत्तेर्गुणत्वं सामान्यम् । द्रव्यकर्मभ्यो व्यावृत्तेश्च विशेषः । एवं गुणत्वापेक्षया रूपत्वादिकं तदपेक्षया नीलत्वादिकम् । एवं पञ्चसु कर्मसु वर्तनात्कर्मत्वं सामान्यम् । द्रव्यगुणेभ्यो व्यावृत्तत्वाद्द्विशेषः । एवं कर्मत्वापेक्षया उत्क्षेपणत्वादिकं ज्ञेयम् ।

अत्यन्त व्यावृत्त (भिन्न) ऐसे पदार्थोंका जिस कारणसे परस्पर स्वरूपका अनुगम जाना जाता है, वह अनुवृत्तिप्रत्ययका कारण सामान्य है । अर्थात् परस्पर भिन्न पदार्थोंमें समान अंशको ग्रहण करके उनके एकताको करनेवाला है, वह सामान्य है । वह दो प्रकारका है । एक तो परसामान्य और दूसरा अपरसामान्य । इनमें जो परसामान्य है, वह सत्ताभाव तथा महासामान्य भी कहलाता है । क्योंकि यह परसामान्य द्रव्यत्वादिके अन्तर्गत जो सामान्य है, उसकी अपेक्षासे अधिक विषयको धारण करता है । अर्थात् द्रव्यत्व द्रव्यमें ही रहता है और यह परसामान्य द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीनोंमें रहता है; अतः महाविषयका धारक है । द्रव्यत्व आदि जो है, वह अपरसामान्य है । इस अपरसामान्यको सामान्यविशेष इस प्रकार भी कहते हैं अर्थात् सामान्यविशेष यह भी इस अपरसामान्यका ही नाम है । सो ही दिखलते हैं. अर्थात् इस अपरसामान्यको सामान्यविशेष क्यों कहते हैं, इस विषयको निम्नलिखित प्रकारसे स्पष्ट करते हैं—द्रव्यत्व जो है, वह पृथिवी आदि नवों ही द्रव्योंमें रहता है, इस कारणसे तो सामान्य है । और यह द्रव्यत्व—गुण तथा कर्मोंसे व्यावृत्त (रहित) है, अतःकृत्वा विशेष है । और जब द्रव्यत्व एक अपेक्षासे सामान्य हुआ तथा दूसरी अपेक्षासे विशेष हुवा तब कर्मधारयसमासमें सामान्य जो हो, और विशेष जो हो, वह

सामान्यविशेष है, इस प्रकार समास होनेसे सामान्यविशेष हो गया। जिस प्रकारसे महासामान्यकी अपेक्षासे द्रव्यत्व अपरसामान्य है, इसी प्रकारसे द्रव्यत्वकी अपेक्षासे पृथिवीत्व जो है, वह अपरसामान्य है और पृथिवीत्वकी अपेक्षासे घटत्व अपरसामान्य है। इसीरीतिसे गुणत्व जो है सो चौबीसों गुणोंमें रहनेसे सामान्य है और यही गुणत्व द्रव्योंसे तथा कर्मोंसे रहित होनेके कारण विशेष भी है। इसी प्रकार गुणत्वकी अपेक्षासे रूपत्वादिक अपरसामान्य है और रूपत्वादिकी अपेक्षासे नीलत्वादि अपर सामान्य है। एवमेव कर्मत्व जो है, वह उत्क्षेपणादि पांचों कर्मोंमें रहता है। इसकारण सामान्य है और यही कर्मत्व द्रव्यों तथा गुणोंसे रहित होनेसे विशेष है। तथा जैसे द्रव्यत्वकी अपेक्षासे पृथिवीत्व अपरसामान्य है, उसीप्रकार यहां भी कर्मत्वकी अपेक्षासे उत्क्षेपणत्व आदिको अपरसामान्य समझ लेना चाहिये।

तत्र सत्ता द्रव्यगुणकर्मभ्योऽर्थान्तरं कथा युक्त्येति चेत्-उच्यते। न द्रव्यं सत्ता द्रव्यादन्येत्यर्थः। एकद्रव्यत्वत्वादकैकस्मिन् द्रव्ये वर्तमानत्वादित्यर्थः। द्रव्यत्ववत्। यथा द्रव्यत्वं नवसु द्रव्येषु प्रत्येकं वर्तमानं द्रव्यं न भवति। किन्तु सामान्यविशेषलक्षणं द्रव्यत्वमेव। एवं सत्तापि। विशेषिकाणां हि अद्रव्यं वा द्रव्यम्। अनेकद्रव्यं वा द्रव्यम्। तत्राऽद्रव्यमाकाशः कालो दिगात्सामनःपरमाणवः। अनेकद्रव्यं तु द्रव्यगुणादिरुक्त्वाः। एकद्रव्यं तु द्रव्यमेव न भवति। एकद्रव्यवती च सत्ता। इति द्रव्यलक्षणविलक्षणत्वान्न द्रव्यम्। एवं न गुणः सत्ता। गुणेषु भावाद् गुणत्ववत्। यदि हि सत्ता गुणः स्यान्न तर्हि गुणेषु वर्त्तत। निर्गुणत्वाद् गुणानाम्। वर्त्तते च गुणेषु सत्ता। सन् गुण इति प्रतीतेः। तथा न सत्ता कर्म। कर्मसु भावात्कर्मत्ववत्। यदि च सत्ता कर्म स्यान्न तर्हि कर्मसु वर्त्तत। निष्कर्मत्वात्कर्मणां। वर्त्तते च कर्मसु भावः। सत् कर्मेति प्रतीतेः। तस्मात्पदार्थान्तरं सत्ता।

यदि प्रश्न करो कि, सत्ता (सामान्य) जो है, वह द्रव्य, गुण तथा कर्मसे भिन्न पदार्थ किस युक्तिसे है ? तो उत्तर यह है कि, सत्ता द्रव्य नहीं है अर्थात् द्रव्यसे भिन्न है। क्योंकि एकद्रव्यवाली है अर्थात् एक एक द्रव्यके प्रति रहती है। द्रव्यत्वके समान अर्थात् जैसे द्रव्यत्व नौ ९ द्रव्योंमेंसे प्रत्येक द्रव्यमें रहता है, इस कारण द्रव्य नहीं है; किन्तु सामान्यविशेषरूप लक्षणका

१. द्रव्यं द्विधा-अद्रव्यं अनेकद्रव्यं च। न विद्यते द्रव्यं जनकतया च यस्य तदद्रव्यं द्रव्यम्। २. अनेक द्रव्यं जन्यतया जनकतया च यस्य तदनेकद्रव्यं द्रव्यम्।

धारक द्रव्यत्व ही है, इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्यमें रहनेसे सत्ता भी द्रव्य नहीं है। भावार्थ—वैशेषिकोंके मतमें या तो अद्रव्य अर्थात् जो द्रव्यसे उत्पन्न न हुआ हो अथवा द्रव्यका उत्पादक न हो, वह द्रव्य है और या अनेकद्रव्य अर्थात् जो अनेकद्रव्योंसे उत्पन्न होवे वा अनेक द्रव्योंका जनक होवे; वह द्रव्य है। उनमें आकाश, काल, दिशा, आत्मा मन और परमाणु ये अद्रव्य द्रव्य है, और द्वयगुण (दो अणुके धारक) आदि जो संघ हैं, वे अनेकद्रव्य द्रव्य हैं। और एकद्रव्यका धारक तो द्रव्य ही नहीं है। और सत्ता एकद्रव्यवाली है, इसकारण द्रव्यका जो लक्षण है, उससे भिन्न लक्षणको धारण करनेसे सत्ता द्रव्य नहीं है। इसीप्रकार सत्ता गुण भी नहीं है अर्थात् गुणसे भी भिन्न है, क्योंकि गुणोंमें (प्रत्येक गुणमें) रहती है, गुणत्वके समान। भावार्थ—जैसे चौबीसों गुणोंमेंसे प्रत्येकगुणमें रहनेसे गुणत्व गुण नहीं होता है, इसी प्रकार प्रत्येक गुणमें रहनेसे सत्ता भी गुण नहीं है। और यदि सत्ता गुण होवे, तो प्रत्येक गुणमें न रहे, कारण कि, गुण निर्गुण (गुण रहित) है। और गुण सत् अर्थात् है; ऐसी प्रतीति होनेसे गुणोंमें सत्ता है, यह सिद्ध होता है। एवमेव सत्ता जो है, वह कर्म भी नहीं है। क्योंकि जैसे कर्मत्व प्रत्येक कर्ममें रहता है, इसीप्रकार यह भी प्रत्येक कर्ममें रहती है। और यदि सत्ता कर्म होवे तो कर्मोंमें न रहे। क्योंकि कर्म जो है, वे निष्कर्म (कर्मरहित) है। और कर्म सत् है। ऐसी प्रतीतिके होनेसे निश्चय होता है कि, कर्मोंमें सत्ता रहती है। इस कारण सत्ता पदार्थान्तर (द्रव्य गुण और कर्म इन तीनोंसे भिन्न एक चौथा पदार्थ) है। ४।

तथा विशेषा नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या अत्यन्तव्यावृत्तिहेतवस्ते द्रव्यादिवैलक्षण्यात्पदार्थान्तरम् । तथा च प्रश-
स्तकरः—“ अन्तेषु भवा अन्त्याः । स्वाश्रयविशेषकत्वाद्विशेषाः । विनाशारम्भरहितेषु नित्यद्रव्येष्वऽण्वाकाशका-
लदिगात्मनस्सु प्रतिद्रव्यमेकैकशो वर्तमाना अत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतवः । यथाऽस्मदादीनां गवादिष्वध्वादिभ्य-
स्तुल्याकृतिगुणक्रियावयवोपचयाऽवयवविशेषसंयोगनिमित्ता प्रत्ययव्यावृत्तिर्दृष्टा गौः शुक्लः शीघ्रगतिः पीनः
ककुब्जान् महाघण्ट इति । तथास्मद्विशिष्टानां योगिनां नित्येषु तुल्याकृतिगुणक्रियेषु परमाणुषु मुक्तात्मनःसु
चान्यनिमित्ताऽसम्भवाद्येभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारं विलक्षणोऽयं विलक्षणोऽयमितिप्रत्ययव्यावृत्तिर्देशकालविप्र-

कृष्टे च परमाणौ स एवायमिति प्रत्यभिज्ञानं च भवति तेऽन्या विशेषा इति । अमी च विशेषरूपा एव । न तु द्रव्यत्वादिवत्सामान्यविशेषोभयरूपा व्यावृत्तेरेव हेतुत्वात् ।

तथा नित्यद्रव्योंमें रहनेवाले और अत्यन्त व्यावृत्ति (भेद करने) के कारण ऐसे जो हैं, वे विशेष हैं । भावार्थ—अन्त (आखिर) में रहनेवाले (जिनकी अपेक्षासे फिर कोई भी भेद न हो) ऐसे अर्थात् केवल नित्यरूप एक द्रव्यमें रहनेवाले जो है, वे विशेष कहलाते हैं । और ये विशेष द्रव्य, आदि पदार्थोंसे भिन्न ऐसे लक्षणको धारण करते हैं, इस कारणसे भिन्न पदार्थ है । सोही वैशेषिक दर्शनपर प्रशस्तभाष्यके कर्त्ता कहते हैं कि, ये विशेष अंतमें होते हैं, इस कारण अन्त्य है । और अपने आश्रयके विशेषक (भेदक) होनेसे विशेष है अर्थात् उत्पत्ति तथा विनाशसे रहित ऐसे जो परमाणु, आकाश, काल, दिशा आत्मा और मन नामक द्रव्य है, इनमें द्रव्यके प्रति एक एक विद्यमान रहते हुए सर्वथा व्यावृत्तिरूप बुद्धिके कारण जो है, वे विशेष है । भावार्थ—जैसे हम तुम वौरहके वृषभ (बैल) आदिमें अथ (घोड़े) आदिकोंसे तुल्य आकार, तुल्य गुण, तुल्य क्रिया, अवयवोंकी बृद्धि, अवयवविशेष (किसी एक अवयवका अधिक होना) और संयोग, इन सबके निमित्तसे होनेवाली यह वृषभ—शुक्ल है, शीघ्र गमन करनेवाला है, मोटा है, ककुद्मान (थूकेको धारण करनेवाला) है तथा बड़े टोकरेका धारक है, इस प्रकारकी प्रतीतिकी भिन्नता देखी जाती है । उसी प्रकार हमसे अधिक ज्ञान आदिके धारक जो योगी है, उनके—नित्य तथा तुल्य आकार, तुल्य गुण और तुल्य क्रियाको धारणकरनेवाले ऐसे परमाणुओंमें, सुक्त आत्माओंमें और मनमें भेद करनेका कोई दूसरा निमित्त न होनेसे जिन निमित्तोंसे आधार आधारके प्रति यह इससे विलक्षण (भिन्न) है, यह इससे विलक्षण है, इस-प्रकार प्रतीतिकी भिन्नता होती है अर्थात् भिन्न २ प्रतीति होती है और देशसे विप्रकृष्ट (दूरदेशमें रहनेवाले) तथा कालसे विप्रकृष्ट (अत्यंत—मूल, भविष्यत् कालमें रहनेवाले) परमाणुमें यह वही परमाणु है, इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान होता है, वे अन्त्य अर्थात् विशेष है । और ये विशेषरूप ही है । द्रव्यत्व आदिके समान सामान्य तथा विशेष इन दोनों रूप नहीं है । क्योंकि ये विशेष केवल व्यावृत्तिके ही कारण है । सारांश—वैशेषिक मतवाले यह कहते हैं कि, यद्यपि वृषभ और अश्वमें आकृति, गुण तथा क्रिया समान है, तथापि वृषभ अश्वकी अपेक्षा मोटाई, शूबा (खुंघ) और घंटाको अधिक धारण करता है, इसकारण हम लोग अथ और वृषभमें जो भेद है, उसको जान जाते हैं । और इसी प्रकार अन्य इंद्रियगोचर पदार्थोंमें भी किसी न किसी

कारणसे भेद जान लेते है । परंतु नित्य तथा समान आकृति, गुण और क्रियोके धारक परमाणुओंमें, आकाशमें, कालमें, दिशामें, आत्माओंमें तथा मनोमें एकके दूसरेसे अर्थात् एक परमाणुसे दूसरे परमाणुमें, एक आत्मासे दूसरे आत्मामें इसीप्रकार आकाश आदि अन्य इंद्रिय अगोचर पदार्थोंमें भेद करानेवाला कोई भी बाह्यकारण नहीं है, इसकारण उनमें जो योगियोंके भेदका ज्ञान होता है, उस भेदज्ञानका कारणभूत एक विशेषनामक पदार्थ हमारे मतमें माना गया है । ५ ।

तथा अयुतसिद्धानामाधारार्थाधारभूतानामिहप्रत्ययहेतुः सम्बन्धः समवाय इति । अयुतसिद्ध्योः परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयानाश्रितयोरश्रयाश्रयिभावः ' इह तन्तुषु पटः ' इत्यादेः प्रत्ययस्यासाधारणं कारणं समवायः । यद्वा शात् स्वकारणसामर्थ्यादुपजायमानं पटाद्याधार्यं तन्त्वाद्याधार्यं सम्बन्धते । यथा छिदिक्रिया च्छेद्येनेति । सोऽपि द्रव्यादिलक्षणवैधर्म्यात्पदार्थान्तरमिति षड्पदार्थाः । ६ ।

और अयुतसिद्ध आधार्य तथा आधारभूतोंके इहप्रत्ययका कारण जो संबन्ध है, वह समवाय है अर्थात् एक दूसरेको छोड़कर अन्य किसी आधारमें न रहनेवाले ऐसे गुण गुणी आदिक जो एक दूसरेमें रहते है; वे अयुतसिद्ध है; उन अयुतसिद्धोंके जो 'इन तंतुओंमें पट है ।' इत्यादि प्रत्ययका असाधारण कारण है, वह समवाय है भावार्थ—जैसे छिदिक्रिया (छेदन करने रूप क्रिया) छेद्य (छेदने योग्य) में संबन्धित है । उसी प्रकार जिसके वशसे अपने कारणोंकी सामर्थ्यसे उत्पन्न हुआ पटादि आधेय (रहने योग्य) पदार्थ तंतु आदि आधारमें संबन्धित होता है, वह समवाय है । और यह समवाय द्रव्य आदिके लक्षणोंको नहीं धारण करता है । इसकारण यह समवाय भी, उन पूर्वोक्त पांचों पदार्थोंसे भिन्न एक छट्टा पदार्थ है ।

साम्प्रतमक्षरार्थो व्याक्रियते । सतामपीत्यादि । सतामपि सद्बुद्धिवेद्यतया साधारणानामपि षण्णां पदार्थानां मध्ये क्वचिदेव केषुचिदेव पदार्थेषु सत्ता सामान्ययोगः स्याद्भवेत् न सर्वेषु । तेषामेषा वाचोयुक्तिः । सदिति । यतो द्रव्यगुण-कर्मसु सा सत्ता इति वचनाद्यत्रैव सत्प्रत्ययस्तत्रैव सत्ता । सत्प्रत्ययश्च द्रव्यगुणकर्मस्वेवातस्तेष्वेव सत्तायोगः । सामान्यादिपदार्थत्रये तु न । तदभावात् । इदमुक्तं भवति । यद्यपि वस्तुस्वरूपमस्तित्वं सामान्यादित्रयेऽपि विद्यते । तथापि तदनुवृत्तिप्रत्ययहेतुर्न भवति । य एव चानुवृत्तिप्रत्ययः स एव सदितिप्रत्यय इति । तदभावान्न

सत्तायोगस्तत्र । द्रव्यादीनां पुनस्त्रयाणां षट्पदार्थसाधारणं वस्तुस्वरूपमस्तित्वमपि विद्यते । अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुः सत्तासम्बन्धोऽव्यस्ति । निःस्वरूपे शशविषाणादौ सत्तायाः समवायाभावात् ।

इस प्रकार वैशेषिकोंके माने हुए पदार्थोंका निरूपण करके अब अक्षरोंका अर्थ प्रकट करते हैं । “सतामपि ” ‘सत् ’ है इस प्रकारकी बुद्धिसे जानने योग्य होनेके कारण साधारण ऐसे भी छः पदार्थोंमेंसे “ कचिदेव ” कितने ही पदार्थोंमें “ सत्ता ” सामान्यका योग “ स्यात् ” है और सब पदार्थोंमें सत्ताका संबंध नहीं है । भावार्थ—वैशेषिक इस युक्तिसे कथन करते हैं कि, “ द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनोंमें वह सत्ता है ” इस वचनसे जहां सत्प्रत्यय होता है, वहां ही सत्ता रहती है, और सत्प्रत्यय द्रव्य, गुण, तथा कर्ममें ही है, इस कारण द्रव्य, गुण तथा कर्म इन तीनोंमें ही सत्ताका योग है और सामान्य, विशेष तथा समवाय नामक जो तीन पदार्थ हैं उनमें सत्ताका योग नहीं है । क्योंकि इन सामान्यादि तीन पदार्थोंमें सत्प्रत्ययका अभाव है । भावार्थ— इस कथनका यह है कि, यद्यपि वस्तुका स्वरूपभूत जो अस्तित्व धर्म है, वह सामान्य आदि तीन पदार्थोंमें भी रहता है, तथापि वह सामान्य आदि तीन पदार्थोंमें रहनेवाला अस्तित्व अनुवृत्तिप्रत्ययका कारण नहीं है । और जो अनुवृत्तिप्रत्यय है, उसीको सत्प्रत्यय कहते हैं, उस सत्प्रत्ययका सामान्य आदि तीन पदार्थोंमें अभाव है, इस कारण उन सामान्य आदिमें सत्ताका योग भी नहीं है । और द्रव्य, गुण, कर्म, इन तीनों पदार्थोंमें तो छः पदार्थोंमें साधारण (समानरूपसे रहनेवाला) वस्तुका स्वरूपभूत जो अस्तित्व है, वह भी रहता है और अनुवृत्तिप्रत्ययका कारणरूप जो सत्ताका योग (संबंध) है, वह भी है । अर्थात् द्रव्य, गुण और कर्म इनमें सत्ताका योग ही नहीं है, किन्तु अस्तित्व भी है । क्योंकि यदि इनमें अस्तित्व न होवे तो जैसे अस्तित्वरूप स्वरूपसे रहित शशविषाण (खुस्सेके सींग) आदिमें सत्ताका संबंध नहीं है, इसी प्रकार इनमें भी सत्ताके समवायका अभाव हो जावे इस कारण द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीनोंमें अस्तित्व और सत्ताका योग ये दोनों रहते हैं ।

सामान्यादिके कथं नानुवृत्तिप्रत्यय इति चेद्भाषकसम्भावादिति ब्रूमः । तथाहि—सत्तायामपि सत्तायोगाङ्गीकारेऽनवस्था । विशेषेषु पुनस्तदभ्युपगमे व्यावृत्तिहेतुत्वक्षणतत्स्वरूपहानिः । समवाये तु तत्कल्पनायां सम्बन्धाऽभावः । केन हि सम्बन्धेन तत्र सत्ता सम्बन्ध्यते । समवायान्तराऽभावात् । तथा च प्रामाणिकप्रकाण्डमुदयनः— “ व्य-

कैरभदस्तुल्यत्वं सङ्करोऽथानवस्थितिः । रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसङ्ग्रहः । १ ।” इति । ततः स्थितमेतत्स-
तामपि स्यात् क्वचिदेव सत्तेति ।

‘ जैसे द्रव्य, गुण और कर्म; इन तीनोंमें अनुवृत्तिप्रत्यय है, उसी प्रकार सामान्य, विशेष तथा समवाय; इन तीन पदार्थोंमें अनुवृत्तिप्रत्यय क्यों नहीं है । ’ ऐसा यदि आप प्रश्न करो तो हम (वैशेषिक) कहते हैं कि, वहां बाधकका सद्भाव है अर्थात् सामान्यादिकमें अनुवृत्तिप्रत्ययके माननेमें अनेक बाधाएँ हैं । सो ही दिखलते हैं—यदि सत्ता (सामान्य) में भी सत्ताका योग मानें तो अनवस्था होती है अर्थात् जब एक सत्तामें दूसरी सत्तामें तीसरी सत्ताको अनुवृत्तिप्रत्ययकी कारणभूता मानेंगे; तब कही भी स्थिति न होगी । यदि विशेषोंमें सत्ताके योगको स्वीकार करें तो व्यावृत्तिका हेतुरूप जो विशेषका स्वरूप है; वह नष्ट हो जावेगा भावार्थ—हमारे मतमें विशेषका स्वरूप यह है कि; वह नित्यपदार्थको पृथक् (भिन्न) करता है; और स्वयं पृथक् बना रहता है अर्थात् विशेष अपना व्यावर्तक आप ही है । अतः यदि विशेषमें विशेषस्वरूप सामान्य मान लिया जावेगा; तो विशेषके स्वतः व्यावर्तकस्वरूप स्वरूपका नाश हो जावेगा । क्योंकि ‘ जो सामान्यका आश्रय होता है; उसका सामान्यसे भेद होता है । ’ ऐसा नियम है । और यदि समवायमें सत्ताके योगको मानें तो संबंधका अभाव है अर्थात् समवायमें सत्ताका योग करनेवाला दूसरा समवाय नहीं है; इसकारण किस संबंधसे समवायमें सत्ताका योग किया जावे ? । सो ही प्रामाणिकपुरोधोंमें श्रेष्ठ ऐसे उदयनाचार्य कहते हैं कि;—“ व्यक्तिका अमेद १, तुल्यता, २, संकर ३, अनवस्था ४, स्वरूपहानि ५ और संबंधका अभाव ६, ये छः जाति (सामान्य) के बाधक हैं । १ । भावार्थ—आकाशत्वधर्म जातिरूप नहीं है । क्योंकि; वह आकाशरूप एक व्यक्तिमें रहता है । १ । घटत्व और कलशत्व ये दोनों धर्म जातिरूप नहीं हैं । क्योंकि, दोनोंकी व्यक्ति समान है अर्थात् घटत्व तथा कलशत्व ये दोनों एक ही पदार्थमें रहते हैं । २ । भूतत्व और मूर्तत्व ये दोनों जातिरूप नहीं हैं । क्योंकि; यद्यपि आकाशमें केवल भूतत्व और मनमें केवल मूर्तत्व रहता है, तथापि पृथ्वी, जल, तेज और वायुमें इन दोनोंका संकर है अर्थात् पृथ्वी आदिमें भूतत्व और मूर्तत्व ये दोनों धर्म रहते हैं । ३ । सामान्यमें सामान्यत्व जातिरूप नहीं है । क्योंकि; सामान्यमें

१. अथ न्यारया । आकाशत्वं न जातिः । व्यक्त्येक्यात् । १ । घटत्वकलशत्वे न जातिः । व्यक्तितुल्यत्वात् । २ । भूतत्वमूर्तत्वे न जातिः । आकाशे भूतत्वस्यैव मनसिच मूर्तत्वस्यैव सद्भावेऽपि पृथिव्यादिचतुष्टय उभयोः सद्भावात्संकरप्रसङ्गः । ३ । जातेरपि जालन्तराङ्गीकारेऽनवस्थाप्रसङ्गः । ४ । अन्यविशेषता न जातिः । तदङ्गीकारे तत्स्वरूपव्यावृत्तिहानिः स्यात् । ५ । समवायता न जातिः सम्बन्धाभावात् । ६ । इत्येते जातिबाधकाः ॥

सामान्यत्वको जातिरूप माननेसे अनवस्था होती है । ४ । विशेषमें विशेषत्वधर्म जातिरूप नहीं है । क्योंकि; विशेषमें विशेषत्वको जातिरूप माननेसे विशेषके स्वतः व्यावर्तकस्वरूप संबंध करानेवाला दूसरा समायाय नहीं है । ५ । समायायमें समायायत्व जातिरूप नहीं है । क्योंकि; किसी विशेषमें भी किसी समायाय एक है; अतः समायायमें समायायत्वका संबंध करानेवाला दूसरा समायाय नहीं है । ६ । इस कारण सत् पदर्थोंमें भी किसी किसीमें सत्ता रहती है, न कि सर्वमें यह जो हमारा मत है, वह निश्चित होयुका ।

तथा चैतन्यमित्यादि । चैतन्यं ज्ञानमात्मनः क्षेत्रज्ञान्दन्त्यदत्यन्तव्यतिरिक्तम् । असमासकरणदत्यन्तमिति लभ्यते । अत्यन्तभेदे सति कथमात्मनः सम्बन्धि ज्ञानमिति व्यपदेशः । इति पराशङ्कापरिहारार्थं औपाधिकमिति विशेषणद्वारेण हेत्वभिधानम् । उपाधेरगतमौपाधिकम् । समायायसम्बन्धलक्षणेनोपाधिना आत्मनि समवेतमात्मनः स्वयं जडरूपत्वात्समायायसम्बन्धोपढौकितमिति यावत् । यद्यात्मनो ज्ञानादव्यतिरिक्तत्वगुणानामुच्छेदावसरे जन्मप्रवृत्तिदोषमित्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावाद्बुद्ध्यादीनां नवानामात्मविशेषगुणानामुच्छेदावसरे आत्मनोऽप्युच्छेदः स्यात् । तदव्यतिरिक्तत्वात्तो भिन्नमेवात्मनो ज्ञानं यौक्तिकमिति ।

अब 'चैतन्यं' इत्यादि पादकी व्याख्या करते हैं । " चैतन्यं " ज्ञान जो है; वह " आत्मनः " आत्मासे " अन्यत् " अत्यंत भिन्न है । [यहां आत्माशब्दके साथ अन्यत्शब्दका समास न करनेसे भिन्न ही नहीं किंतु अत्यंत भिन्न है, यह अर्थ प्राप्त होता है ।] " यदि ज्ञान और आत्माके अत्यंत भेद है तो ' ज्ञान आत्माका संबंधी है । ' ऐसा कैसे कहा जाता है । " इस प्रतिवादियोंकी शकाको दूर करनेके लिये ' औपाधिकम् ' इस विशेषणके द्वारा हेतुका कथन करते हैं । " औपाधिकम् " उपाधिसे आया हुआ है अर्थात् समायायसंबन्धने ज्ञानको आत्मासे ज्ञान आत्माके मिला हुआ है । भावार्थ—आत्मा स्वयं जडरूप (ज्ञानशून्य) है; इस कारण समायायसंबन्धने ज्ञानको आत्मासे मिला हुआ है । क्योंकि; यदि आत्माको ज्ञानसे भिन्न (जुदा) न मानें तो दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्याज्ञान; इनमें क्रमशः उत्तरका नाश होनेसे पूर्वका नाश होनेपर बुद्धि आदि जो नौ ९ आत्माके विशेषगुण हैं; उनका नाश होवेगा और जब बुद्धिआदिका नाश होगा तब उसी समय आत्माका भी नाश हो जावेगा । क्योंकि आत्मा इनसे भिन्न नहीं है । भावार्थ—हमारे मतमें तत्त्वज्ञानके होनेसे मिथ्याज्ञानका

मन कायव्यापारः शुभाशुभफलः प्रवृत्तिः ३ रागद्वेषमोहाद्वयो दोषाः ईर्ष्यादीनामेव्वन्तर्भावः ॥

१ तत्त्वज्ञाननिमित्थाज्ञानापाये दोषा अपयान्ति । तदपाये प्रवृत्तिरपैति । तदपाये जन्मपैति । तदपाये एकविंशतिभेद दुःखमपैतीति । २ वाङ्-

नाश होता है, मिथ्याज्ञानको नष्ट होनेपर राग, द्वेष और मोहरूप दोषोंका नाश होता है । [स्मरण रहै कि, ईष्या आदि दोषोंका राग, द्वेष, मोहमें ही अन्तर्भाव है ।] दोषोंको नष्ट होने पर प्रवृत्तिका अर्थात् मन वचन तथा कार्यके व्यापारका नाश होता है । प्रवृत्तिका अभाव होनेसे जन्म (भव) का नाश होता है । और जन्मका नाश होनेपर इक्वीस २१ प्रकारका जो दुःख है; वह नष्ट होता है, ऐसा क्रम है । और बुद्धि १, सुख २, दुःख ३, इच्छा ४, द्वेष ५, प्रयत्न ६, धर्म ७, अधर्म ८, तथा संस्कार ९ नामक जो आत्मके नौ विशेष गुण है, वे, इन मिथ्याज्ञानादिकमें ही अन्तर्गत है; इसकारण मिथ्याज्ञानादिकोंका नाश हुआ तो बुद्धिसुखादिकका भी नाश हो ही गया । और बुद्धि मिथ्या ज्ञानरूप है; अतः यदि ज्ञानको आत्मासे अभिन्न मानें तो जिस समय बुद्धिका नाश हो; उसी समय आत्माका भी नाश हो जावे । इस कारण ' ज्ञान आत्मासे भिन्न है ' यह मानना ही युक्ति संगत है ।

तथा न संविदित्यादि । मुक्तिर्मोक्षो न संविदानन्दमयी न ज्ञानसुखरूपा । संविद्ज्ञानं आनन्दः सौख्यं ततो इन्द्रः संविदानन्दौ प्रकृतौ यस्यां सा संविदानन्दमयी । एतादृशी न भवति । बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मसंस्काररूपाणां नवानामात्मनो वैशेषिकगुणानामत्यन्तोच्छेदो मोक्ष इति वचनात् । चशब्दः पूर्वोक्ताभ्युपगमद्वयसमुच्चये । ज्ञानं हि क्षणिकत्वादनित्यं सुखं च सप्रक्षयतया सातिशयतया च न विशिष्यते संसारावस्थातः । इति तदुच्छेदे आत्मस्वरूपेणावस्थानं मोक्ष इति । प्रयोगश्चात्र । नवानामात्मविशेषगुणानां सन्तानोऽत्यन्तमुच्छिद्यते संतानत्वात् । यो यः सन्तानः स सोऽत्यन्तमुच्छिद्यते । तथा प्रदीपसन्तानः । तथा चायं तस्मादत्यन्तमुच्छिद्यत इति । तदुच्छेद एव महोदयो न कृत्स्नकर्मक्षयलक्षण इति । “ न हि वै सशरीरस्य प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति । ” “ अशरीरं वायु सन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशतः । ” इत्यादयोऽपि वेदान्तास्तादृशीमेवमुक्तिमादिशन्ति । अत्र हि प्रियाप्रिये सुखदुःखे ते चाशरीरं मुक्तं न स्पृशतः ।

अब ' न संवित् ' इत्यादिरूप काव्यके तृतीयचरणकी व्याख्या करते है । “ मुक्तिः ” मोक्ष जो है; वह “ संविदानन्दमयी ” सवित् और आनन्द ये दोनों जिसमें होंवें ऐसी अर्थात् ज्ञान तथा सुखरूप “ न ” नहीं है । [यहां पर संवित् और आनन्द; इन दोनों शब्दोंका द्वन्द्वसमास किया गया है ।] क्योंकि आत्मके जो नौ ९ वैशेषिक (विशेषमें होनेवाले) गुण है;

उनका जो अत्यंत नाश है, वह मोक्ष है, ऐसा वचन है । [न संविदानन्दमयी च सुक्तिः] यहां पर च शब्द पहिले कहे हुए (किसी पदार्थमें सत्ता है ? , ज्ञान आत्मासे भिन्न है २, इन) दो मतोंका समुच्चय (संग्रह) करनेके लिये है] भावार्थ— ज्ञान तो क्षणिक होनेसे अनित्य है और सुख हानि और वृद्धिरूप स्वरूपका धारक है. अर्थात् कभी कम हो जाता है, कभी अधिक हो जाता है, इसकारण ससारकी अवस्थासे भिन्न नहीं है अर्थात् ससारकी जैसी दशा है; वैसा ही है । अतः ज्ञान तथा सुख इन दोनोंका नाश होने पर जो आत्माका आत्मस्वरूपसे रहना है, वही मोक्ष है । इस विषयमें अनुमानका प्रयोग भी है । सो ही दिखलते है ।—आत्माके नवो विशेषगुणोंका सतान अत्यन्त नष्ट होता है । क्योंकि सतान है । जो जो संतान होता है, वह वह अत्यन्त नष्ट होता है । जैसे कि, मदीपका संतान अत्यंत नष्ट होता है । वैसा ही यह आत्मविशेषगुणोंका संतान है, इसकारण अत्यन्त नाशको प्राप्त होता है । अतः सिद्ध हुआ कि नौ ९ जो आत्मविशेषगुण है, उनके अत्यंतनाशरूप ही मोक्ष है और आप (जैनि्यों) का माना हुआ जो सपूर्णकर्मोंके नाशरूप लक्षणका धारक मोक्ष है; वह मोक्ष नहीं है । और “ शरीरके धारक जीवके निश्चयसे प्रिय (सुख) तथा अप्रिय (दुःख) इन दोनोंका नाश नहीं है ? , अथवा अशरीर (शरीरसे रहित) हुएको ही प्रिय—अप्रिय नहीं स्पर्शते (छूते) है २, [यहां पर प्रियसे सुखका और अप्रियसे दुःखका ग्रहण है, और वे प्रिय अप्रिय अशरीर अर्थात् मुक्त आत्माको नहीं स्पर्शते है, ऐसा अर्थ समझना चाहिये] इत्यादि वेदान्तके सूत्र भी ज्ञान और सुखसे रहित ऐसे मोक्षका ही कथन करते है ।

अपि च यावदात्मगुणाः सर्वे नोच्छिन्ना वासनादयः । तावदात्यन्तिकी दुःख-व्यावृत्तिर्न विकल्प्यते । १ । धर्मा-धर्मनिमित्तो हि सम्भवः सुखदुःखयोः । मूलभूतौ च तावेव स्तम्भौ संसारसद्मनः । २ । तदुच्छेदे च तत्कार्य-शरीराद्यनुपप्लवात् । नात्मनः सुखदुःखे स्त-इत्यसौ मुक्त उच्यते । ३ । इच्छाद्वेषप्रयत्नादि भोगायतनबन्धनम् । उच्छिन्नभोगायतनो नात्मा तैरपि युज्यते । ४ । तदेवं धिषणादीनां नवानामपि मूलतः । गुणानामात्मनो ध्वंसः सोऽपवर्गः प्रतिष्ठितः । ५ । ननु तस्याभवस्थायां कीदृगात्माऽवशिष्यते । स्वरूपैकप्रतिष्ठानः परित्यक्तोऽखिलैर्गुणैः । ६ । ऊर्मिषट्कान्तिगं रूपं तदस्याहुर्मनीषिणः । संसारबन्धनाधीन-दुःखहेशाद्यदूषितम् । ७ । (कामकोधलोभ-गर्वदम्भहर्षाः ऊर्मिषट्कमिति । ”

इस विषयमें हम और भी विशेष कहते हैं कि,—“जब तक वासनाको आदिलेकर समस्त आत्माके गुण अत्यंत नष्ट नहीं होंवें; तब तक आत्माके दुखोंसे अत्यंत रहितता नहीं मानी जाती है । १ । धर्म और अधर्मके निमित्तसे ही सुख तथा दुःखकी उत्पत्ति होती है अर्थात् धर्मसे सुख और अधर्मसे दुःख होता है, इसकारण संसाररूपी गृहके ये दोनों धर्म—अधर्म ही मूलभूत (आधार रूप) स्तंभ (शंभे) है । २ । धर्म तथा अधर्म, इन दोनोंका नाश होनेपर इन धर्म—अधर्मके कार्यरूप जो शरीर आदि उपद्रव हैं वे नहीं रहते हैं, इसकारण आत्माके सुख और दुःख नहीं रहता है, अतएव वह आत्मा मुक्त कहा जाता है । ३ । इच्छा, द्वेष और प्रयत्न आदिरूप जो विशेष गुण हैं, इनका भोगायतन (शरीर) ही कारण रूप है, इस कारण नष्ट हो गया है भोगायतन जिसके ऐसा अर्थात् शरीररहित ऐसा आत्मा, उन इच्छा, द्वेष आदिसे भी संबंधित नहीं होता है । भावार्थ—शरीरसे इच्छा, द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं, और आत्मा शरीर रहित हो चुका; अतः आत्मा इच्छा आदिसे भी रहित रहता है । ४ । सो इस पूर्वोक्त कथनके अनुसार बुद्धि आदि आत्माके नौ ९ विशेषगुणोंका जो मूलसे नाश है; वह मोक्ष है, यह स्थित (सिद्ध) हो चुका । ५ । यदि प्रश्न करो कि; उस अवस्थामें अर्थात् मुक्तदशामें कैसा आत्मा रह जाता है; तो उत्तर यह है कि;—अपने एक स्वरूपमें ही स्थित तथा समस्त गुणोंसे रहित ऐसा आत्मा मुक्त अवस्थामें रहता है । ६ । इसी कारण बुद्धिमान मनुष्य संसारबंधनके आधीन अर्थात् संसारी अवस्थामें नियमसे होनेवाले जो दुःख तथा क्लेश आदि हैं; उनसे अदूषित (रहित) तथा ऊर्मिषट्क (काम?, क्रोध २, लोभ ३, गर्व ४, दम्भ ५, और हर्ष ६, इन छः ऊर्मियों) को उलंघ गया ऐसा अर्थात् ऊर्मिषट्कसे रहित ऐसा इस मुक्त आत्माका स्वरूप कहते हैं । ७ । ”

तदेतदभ्युपगमत्रयमित्थं समर्थयद्भिरत्वदीयैस्त्वदाज्ञावहिर्यतैः कणादमतानुगामिभिः सुसूत्रमासूत्रितं सम्यगगामः प्रपञ्चितः । अथवा सुसूत्रमिति क्रियाविशेषणम् । शोभनं सूत्रं वस्तुव्यवस्थाघटनाविज्ञानं यत्रैवमासूत्रितं तत्र च्छास्त्रार्थोपनिबन्धः कृतः । इति हृदयम् । “सूत्रं तु सूचनाकारि ग्रन्थे तन्तुव्यवस्थयोः ।” इत्यनेकार्थवचनात् ।

सो इसप्रकार इन पूर्वोक्त तीन मतोंको समर्थित (पुष्ट) करते हुए “ अत्वदीयैः ” आपकी आज्ञासे वहिर्भूत अर्थात् आपकी आज्ञाको न माननेवाले ऐसे कणादऋषीके मतानुसारियोंने अर्थात् वैशेषिकोंने “ सुसूत्रं ” अच्छा शास्त्र “ आसूत्रितं ” गूथ

(रच) डाला है । अथवा ' सुसूत्र ' यह क्रियाका विशेषण है, इस कारण भाव यह है कि—' सु ' उत्तम है ' सूत्र ' पदार्थोंकी व्यवस्थाके रचनेका विज्ञान जिसमें ऐसा आसूत्रण किया है अर्थात् उन उन शास्त्रार्थोंकी रचना की है । क्योंकि " सूचना करनेवाला जो सूत्र शब्द है, वह ग्रन्थके अर्थमें, तंतुके अर्थमें और व्यवस्थाके अर्थमें व्यवहृत किया जाता है । " ऐसा अनेकार्थ-कोशका वचन है ।

अत्र सुसूत्रमिति विपरीतलक्षणयोपहासगर्भं प्रशंसावचनम् । यथा—“उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथि-
ता भवता चिरं ।” इत्यादि । उपहसनीयता च युक्तिरिक्त्वाचदङ्गीकाराणाम् । तथा हि—अविशेषेण सद्बुद्धिवे-
द्येष्वपि सर्वपदार्थेषु द्रव्यादिष्वेव त्रिषु सत्तासम्बन्धः स्वीक्रियते न सामान्यादित्रये । इति महतीयं पश्यतोहरता ।
यतः परिभाव्यतां सत्ताशब्दस्य शब्दार्थः । अस्तीति सन् सतो भावः सत्ता अस्तित्वं तद्द्रस्तुस्वरूपं निर्विशेषम-

शेष्वपि पदार्थेषु त्वयाप्युक्तम् । तत्किमिदमर्द्धजैरतीयं यद्द्रव्यादित्रय एव सत्तायोगो नेतरत्र त्रय इति ।
यहां पर ' सुसूत्र ' यह विपरीतलक्षणासे उपहास है अन्तर्गत जिसके ऐसा प्रशंसाका वचन है अर्थात् ग्रन्थकारने ' सुसूत्र ' इस वचनसे वैशेषिकोंकी प्रशंसा न करके प्रत्युत उनकी हांसी की है । जैसे कि—“ हे मित्र ? तुमने बहुत उपकार किया है, इस विषयमें कहना ही क्या है? आपने बहुत सज्जनता प्रकट की है । इसी प्रकार करते हुए तुम सौ १०० वर्षतक सुखी रहो । १। ” इत्यादि । भावार्थ—जैसे इस श्लोकमें विपरीतलक्षणासे उपकार आदि शब्दोंसे अपकार आदिरूप अर्थको ग्रहण किया गया है; उसी प्रकार ' सुसूत्र ' इस शब्दसे उपहासरूप अर्थको लिया गया है । और वैशेषिकोंके मत युक्ति रहित है, इसकारण वे उपहासके योग्य है । अब आचार्य निम्नलिखित प्रकारसे वैशेषिकोंके मतका खंडन करके उसको युक्ति रहित ही दिखलाते हैं ।—समान-तासे सभी पदार्थ सत् (है) इस प्रकारकी बुद्धिसे वेद्य (जानने योग्य) है, ऐसा मान करके भी जो तुम (वैशेषिक) द्रव्य, गुण तथा कर्म, इन तीनोंमें ही सत्ताका योग मानते हो सो यह तुम्हारा बड़ा देखते २ हरण करना है अर्थात् प्रत्यक्षमें ठगना है । क्योंकि तुम ' सत्ता ' इस शब्दके शब्दार्थका विचार करो । जो है, वह सत् कहलाता है, सत्का जो भाव है, वह सत्ता अर्थात् अस्तित्व है; और यह अस्तित्व वस्तुका स्वरूप है, इसकारण तुमने भी सभी पदार्थोंमें इसको समानरूपसे कहा है । तब फिर

१. विदधदीदशमेव सदा सबे सुखितमास्र तत. शरदां शतम् । १ । इत्युत्तरार्द्ध. । २. स्त्री जरगुरा तारुण्यरमणीया च यथा मत्तेन प्रोच्यते तत्तुल्यं भवद्वाक्यम् ॥

द्रव्य, गुण और कर्म इन तीनों ही सत्ताका योग है और सामान्य आदि तीन पदार्थोंमें नहीं। यह अर्द्धजरतीय न्यायके समान कैसे कहते हो भावार्थ—जैसे मदनमत्त पुरुष उसी एक स्त्रीको वृद्धावस्थासे पीडित तथा युवावस्थासे मनोहर कह देता है; उसीके समान यह तुझारा कहना है कि, द्रव्यादि तीनोंमें सत्ताका योग है और सामान्य आदिमें सत्ताका योग नहीं है।

अनुवृत्तिप्रत्ययाऽभावान्न सामान्यादित्रये सत्तायोग इति चेत् । न । तत्राप्यनुवृत्तिप्रत्ययस्यानिवार्यत्वात् । पृथिवीत्वगोत्वघटत्वादिसामान्येषु सामान्यं सामान्यमिति । विशेषेष्वपि बहुत्वादयमपि विशेषोऽयमपि विशेष इति । समवाये च प्रागुक्तयुक्त्या तत्तदवच्छेदकभेदादेकाकारप्रतीतेरनुभवात् ।

शंका—सामान्य आदि तीन पदार्थोंमें अनुवृत्तिप्रत्यय नहीं है, इसकारण उनमें सत्ताका संबंध नहीं है। समाधान—सो नहीं। क्योंकि सामान्यआदि तीन पदार्थोंमें भी अनुवृत्तिप्रत्यय वे रूकावट होता है। भावार्थ—पृथिवीत्व, गोत्व तथा घटत्व आदि रूप जो सामान्य है, उनमें यह सामान्य है, यह सामान्य है, इसप्रकारसे अनुवृत्ति प्रत्यय है। विशेष बहुत (अनंत) है; अतः उनमें यह भी विशेष है, यह भी विशेष है, इसप्रकारसे अनुवृत्तिप्रत्यय है। और समवायमें पूर्वोक्तप्रकारसे उस उस अवच्छेदकके भेदसे एक आकाररूप प्रतीतिका अनुभव होता है; इसकारण समवायमें भी अनुवृत्तिप्रत्यय है।

स्वरूपसत्त्वसाधर्म्येण सत्ताध्यारोपात्सामान्यादिष्वपि सत्सदित्यनुगम इति चेत्तर्हि मिथ्याप्रत्ययोऽयमापद्यते । अथ भिन्नस्वभावेष्वेकानुगमो मिथ्यैवेति चेद्द्रव्यादिष्वपि सत्ताध्यारोपकृत एवास्तु प्रत्ययानुगमः । असति मुख्येऽध्यारोपस्यासम्भवाद्द्रव्यादिषु मुख्योऽयमनुगतः प्रत्ययः सामान्यादिषु तु गौण इति चेत् । न । विपर्ययस्यापि शक्यकल्पनत्वात् ।

यदि कहो कि,—स्वरूपसत्त्वसाधर्म्यसे अर्थात् जैसे द्रव्य आदिमें अस्तित्वरूप वस्तुस्वरूपकी सत्ता है; उसी प्रकार सामान्य आदिमें भी अस्तित्वरूप वस्तुस्वरूपकी सत्ता रहनेसे सामान्य आदिमें सत्ताका अध्यारोप (उपचार) कर लेंगे, इस कारण सामान्य आदिमें भी यह सत् है, यह सत् है, ऐसी प्रतीति हो जावेगी, तो यह अनुगतप्रत्यय उपचार जनित है, अतः मिथ्याप्रत्यय हो जावेगा। यदि कहो कि,—भिन्न स्वभावके धारकोंमें एकताका अनुगम करना मिथ्या ही है अर्थात् सामान्य आदि भिन्न स्वभाववाले पदार्थोंमें एकरूपताकी प्रतीतिका करना असत्य ही है; तो द्रव्य आदिमें भी सत्ताके अध्यारोपसे ही किया हुआ अनुगत प्रत्यय

स्वरूपसत्ता पहले ही विद्यमान है । भावार्थ—जब सत्तामें सत्ताके रहनेसे अनवस्था होती है, तब द्रव्यादिकमें स्वरूपसत्ता रहती है । और वहाँ पर ही तुम अनुवृत्तिप्रत्ययकी कारणभूत दूसरी सत्ता मानते हो; अतः द्रव्यादिकमें भी सत्ताका योग माननेसे अनवस्था क्यों नहीं होती है ? और विशेषोंमें सत्ताका स्वीकार करनेपर भी विशेषोंके स्वरूपकी हानि नहीं होती है । क्योंकि, सामान्यरहित विशेष कहीं भी प्राप्त नहीं होता है, इसकारण विशेषमें विशेषस्वरूप सत्ताको स्वीकृत करनेपर उलटा विशेषोंके स्वरूपको उत्तेजन मिलता है । और समवायमें भी समवायस्वरूप स्वरूपसत्ताका अङ्गीकार करनेपर अविष्वग्भावस्वरूप संबंध (तादात्म्य संबंध) सिद्ध होता ही है । क्योंकि यदि समवायमें अविष्वग्भावस्वरूप संबंध न मानो तो उस समवायके स्वरूपका अभावस्वरूप प्रसंग होगा । अर्थात् समवाय स्वरूपरहित हो जावेगा; और वह तुमको इष्ट नहीं है । ऐसे पूर्वोक्तप्रकारसे सामान्य आदिमें बाधकका अभाव हो जानेसे जैसे—द्रव्य आदिमें सत्ताका संबंध मुख्य है, उसी प्रकार, उन सामान्य आदिमें भी सत्ताका संबंध मुख्य ही है, यह सिद्ध हो चुका । इसकारण द्रव्य-गुण-तथा कर्ममें ही जो तुम सत्ताकी कल्पना करते हो, वह व्यर्थ (निष्प्रयोजन) है ।

किञ्च तैर्वादिभिर्यो द्रव्यादित्रये मुख्यः सत्तासम्बन्धः कक्षीकृतः । सोऽपि विचार्यमाणो विशीर्यते । तथा हि—यदि द्रव्यादिभ्योऽत्यन्तविलक्षणा सत्ता तदा द्रव्यादीन्यसद्रूपार्थेव स्युः । सत्तायोगात्सत्त्वमस्त्येवेतिचेत्—असतां सत्तायोगेऽपि कुतः सत्त्वं, सतां तु निष्फलः सत्तायोगः । स्वरूपसत्त्वं भावानामस्त्येवेतिचेत्तर्हि किं शिखण्डिना सत्तायोगेन । सत्तायोगाल्याग्भावो न सन्, नाप्यसन्, सत्तायोगात्तु सन्नितिचेद्वाङ्मात्रमेतत् । सदसद्विलक्षणस्य प्रकारान्तरस्यासम्भवात् । तस्मात्सतामपि स्यात्कचिदेव सत्तेति तेषां वचनं विदुषां परिषदि कथमिव नोपहासाय जायते ।

और भी विशेष यह है कि, उन वैशेषिकोंने जो द्रव्य-गुण तथा कर्म इन तीनोंमें सत्ताके संबंधको मुख्यरूपसे स्वीकृत किया है, वह मुख्य सत्ताका संबंध भी जब हम उसका विचार करते हैं; तो जर्जरा हो जाता है । सो ही दिखलते है ।—यदि तुम सत्ताको द्रव्य आदिसे अत्यन्त विलक्षण (भिन्न स्वरूपवाली) मानते हो, तो द्रव्य आदिक असदरूपके धारक हो जावेगे । यदि कहो कि, सत्ताके योगसे उन द्रव्य आदिमें सत्त्व (सत्स्वरूप पना) है ही तो जो असत्स्वरूप द्रव्य आदि है; उनमें सत्ताका योग करने पर भी सत्त्व कैसे होगा अर्थात् असत्स्वरूप द्रव्य आदिकमें सत्ताका योग होने पर भी द्रव्य आदि सत्स्वरूप नहीं हो सकते है ।

और जो स्वरूप पदार्थ हैं; उनके तो सत्ताका योग निष्फल (व्यर्थ) है । यदि कहो कि; पदार्थोंके स्वरूपसत्त्व है ही; तो फिर न्युंसक (अकार्यकारी) सत्ताके योगको माननेसे क्या प्रयोजन है ? । यदि कहो कि; सत्ताके योगके पहिले न तो पदार्थ सत्ता या और न असत्ता, परन्तु सत्ताका योग होनेसे पदार्थ सत्ता ही नहीं हो सकता है । इस कारण 'सत् पदार्थोंमें भी किसी किसीमें सत्ता शोमें) सत् तथा असत्से भिन्नरूप कोई तीसरा प्रकार ही नहीं हो सकता है । इस कारण 'सत् पदार्थोंमें भी किसी किसीमें सत्ता है' ऐसा वैशेषिकोंका वचन विद्वानोंकी सभोंमें उपहासके अर्थ कैसे न हो अर्थात् हो ही हो ।

ज्ञानमपि यद्येकान्तेनात्मनः सकाशाद्भिन्नमिष्यते तदा तेन चैत्रज्ञानेन भैत्रस्येव नैव विषयपरिच्छेदः स्यादात्मनः । अथ यत्रैवात्मनि समवायसम्बन्धेन समवेतं ज्ञानं तत्रैव भावावभासं करोतीति चेत् । न, समवायस्यैकत्वाच्च सर्वत्र वृत्तेरविशेषात्समवायवदात्मनामपि व्यापकत्वादेकज्ञानेन सर्वेषां विषयावबोधप्रसङ्गः । अथ यत्रैवात्मनि समवायसम्बन्धेन समवेतास्तद्विनाशे च तदाश्रयस्य घटस्यापि विनाशः । एवं ज्ञानमप्याश्रयस्यैकत्वाच्च सर्वत्र वृत्तेरविशेषात्समवायवदात्मनामपि व्यापकत्वादेकज्ञानेन सर्वेषां विषयावबोधप्रसङ्गः ।

यथा च घटे रूपादयः समवायसम्बन्धेन समवेतास्तद्विनाशे च तदाश्रयस्य घटस्यापि विनाशः । एवं ज्ञानमप्याश्रयस्यैकत्वाच्च सर्वत्र वृत्तेरविशेषात्समवायवदात्मनामपि व्यापकत्वादेकज्ञानेन सर्वेषां विषयावबोधप्रसङ्गः ।

यदि तुम ज्ञानको भी आत्मासे सर्वथा भिन्न मानोगे तो जैसे भैत्रके ज्ञानसे आत्माके विषयका ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार उस चैत्रके ज्ञानसे भी आत्माके विषयका ज्ञान न होगा । भावार्थ—जैसे चैत्रनामक एक पुरुषसे भैत्रनामक दूसरे पुरुषका ज्ञान भिन्न है, अतः भैत्रके ज्ञानसे चैत्रके आत्माको पदार्थका ज्ञान नहीं होता है; उसी प्रकार चैत्रका ज्ञान भी चैत्रकी आत्मासे भिन्न है, इस कारण चैत्रके ज्ञानसे चैत्रकी आत्माको भी पदार्थका ज्ञान न होगा । और ऐसा होगा तो आत्मा पदार्थके ज्ञानसे रहित अर्थात् जडरूप ही हो जावेगा । यदि कहो कि,—जिस आत्मामें ज्ञान समवायसंबन्धसे समवेत (मिला हुआ) है, उसीमें ज्ञान पदार्थोंका अवभास (ज्ञान) करता है अर्थात् यद्यपि चैत्रका ज्ञान चैत्रकी आत्मासे भिन्न है, तथापि चैत्रकी आत्मामें समवायसे संबंधित है; अतः चैत्रकी आत्माको पदार्थका ज्ञान हो जाता है । सो नहीं । क्योंकि, तुम्हारे मतमें समवाय एक, नित्य और व्यापक होनेसे सब पदार्थोंमें समानरूपसे रहता है; और जैसे समवाय व्यापक है, उसी प्रकार आत्मा भी सर्वमें व्यापक है; इस कारण एक आत्माके ज्ञानसे सब आत्माओंको पदार्थका ज्ञान हो जानेसे तुम्हारे अनिष्टकी प्राप्ति होगी । तथा जैसे घटमें रूप आदिक समवायसंबन्धसे समवेत है और उन रूपआदिका नाश होनेपर उन रूपआदिके आधारभूत घटका भी नाश होता है, इसीप्रकार

ज्ञान भी आत्मामें समवेत है और वह ज्ञान क्षणिक है; अतः ज्ञानका नाश होनेपर उस ज्ञानके आधारभूत आत्माका भी नाश हो जानेसे आत्मके अनित्यताकी प्राप्ति होगी अर्थात् दुबारा नित्य आत्मा अनित्य हो जावेगा ।

अथास्तु समवायेन ज्ञानात्मनोः सम्बन्धः किन्तु स एव समवायः केन तयोः संबध्यते । समवायान्तरेण चेद-
नवस्था । खेनैव चेत्किं न ज्ञानात्मनोरपि तथा । अथ यथा प्रदीपस्तत्स्वाभाव्यादात्मानं परं च प्रकाशयति
तथा समवायस्येदृगेव स्वभावो यदात्मानं ज्ञानात्मानौ च सम्बन्धयतीति चेत्-ज्ञानात्मनोरपि किं न तथास्वभाव-
ता येन स्वयमेवैतौ संबध्यते । किञ्च प्रदीपदृष्टान्तोऽपि भवत्पक्षे न जाघटीति । यतः प्रदीपस्तावद्द्रव्यं, प्रकाशश्च
तस्य धर्मः, धर्मधर्मिणोश्च त्वयात्यन्तं भेदोऽभ्युपगम्यते । तत्कथं प्रदीपस्य प्रकाशात्मकता । तदभावे च स्वपरप्र-
काशकस्वभावताभणितिर्निर्मूलैव ।

अथवा कदाचित् ज्ञान और आत्मा, इन दोनोंके समवायसे संबंध रहै; तो भी हम प्रश्न करते है कि,—वही समवाय ज्ञान
तथा आत्मा इन दोनोंमें किससे संबंधित किया जाता है अर्थात् जैसे आत्मामें ज्ञान समवायसंबंधसे समवेत है; उसी प्रकार; उन
दोनोंमें समवाय किससे संबंधित है ? । यदि कहो कि;—ज्ञान और आत्माको संबंधित करनेवाला समवाय उन दोनोंमें दूसरे
समवायसे संबंधको प्राप्त होता है, तब तो अनवस्था दोष आता है । और यदि कहो कि;—समवाय स्वयं (अपने आप) ही ज्ञान
और आत्मामें संबंधित होता है; तो ज्ञान और आत्मा इन दोनोंके भी स्वयं संबंधित होना क्यों नहीं है अर्थात् जैसे समवाय ज्ञान
और आत्मामें स्वयं संबंधको प्राप्त होता है; उसी प्रकार ज्ञान तथा आत्मा ये दोनों भी स्वय ही परस्पर संबंधित क्यों नहीं होते
हे ? । भावार्थ—ज्ञान और आत्मा समवायसे संबंधित होते है ऐसा माननेमें कोई नियामक नहीं है; अतः जैसे तुम समवायका
ज्ञान तथा आत्मामें स्वतः संबंध मानते हो; उसी प्रकार ज्ञान और आत्मकेभी स्वतः संबंध ही मान लो समवायसे संबंध मानना व्यर्थ
है । अब कदाचित् ऐसा कहो कि;—जैसे दीपक उसके स्वभावसे आत्मको और परको प्रकाशित करता है, अर्थात् दीपक अपने
स्वभावसे आपको भी प्रकाशित करता है और घट पट आदि पर पदार्थोंको भी प्रकाशित करता है, इसीप्रकार समवायका भी ऐसा
ही स्वभाव है कि;—वह आपको और ज्ञान तथा आत्मा, इन दोनोंको संबंधित करता है अर्थात् समवाय अपने स्वभावसे ज्ञान
और आत्मको भी परस्पर संबंधित करता है और आप स्वयं भी उनमें संबंधित हो जाता है; तो ज्ञान और आत्मा; इन दोनोंके

भी ऐसा स्वभाव क्यों नहीं है, जिससे कि,—वे दोनों ज्ञान और आत्मा स्वयं ही संबंधको प्राप्त हो जावें अर्थात् जैसे समवायका स्वयं संबंधित होजानेरूप स्वभाव है, वैसे ही ज्ञान और आत्माका भी स्वयं परस्पर संबंधको प्राप्त होजानेरूप स्वभाव मानलेना चाहिये। और जो तुमने प्रदीपका दृष्टान्त दिया है, वह भी तुम्हारे पक्ष (मत) में घटित नहीं होता है। क्योंकि;—प्रदीप तो द्रव्य-(धर्मी) है और प्रकाश, उस प्रदीपका धर्म है, तथा धर्म और धर्मी इन दोनोंके तुमने अत्यंत भेद माना है; अतः प्रदीप तो प्रकाशरूप कैसे हो सकता है? अर्थात् जो जिसका स्वभाव होता है, वह उससे भिन्न नहीं रहता है और तुम प्रदीप तथा प्रकाशके तब 'प्रदीप स्वपरप्रकाशक है' यह तुम्हारा कहना निर्मूल (निराधार) अर्थात् असत्य ही है।

यदि च प्रदीपात्प्रकाशात्स्यात्यन्तभेदेऽपि प्रदीपस्य स्वपरप्रकाशकत्वमिष्यते तदा घटादीनामपि तदनुपप्यते । ततः समवायमात्रमेव । न तौ । तदव्यतिरिक्तत्वात्स्वरूपवदिति । किञ्च यथा इह समवायिषु समवाय इति मतिः

और यदि तुम प्रदीपसे प्रकाशके अत्यंत भेद होनेपर भी प्रदीपके निज तथा परका प्रकाशकपना मानोगे, तो घट आदिके भी स्वपरप्रकाशकताका प्रसंग होगा। क्योंकि, भेदका अविशेष है अर्थात् जैसे प्रदीपसे प्रकाश भिन्न है, उसी प्रकार घट पट आदिसे भी प्रकाश भिन्न है। तथा यह भी विशेष प्रष्टव्य है कि,—समवायके जो स्व तथा परका संबंध करनेरूप स्वभाव है, वे समवायसे भिन्न है? अथवा अभिन्न है? यदि कहो कि,—इह स्वभावोको समवायमें संबंधित करनेवाला जो दूसरा समवाय है, उसको तुमने इस प्रकारका संघ कैसे हुआ। क्योंकि;—

अनवस्थाके भयसे स्वीकार नहीं किया है। यदि कहो कि,—वे निज तथा परका प्रकाश करनेवाले स्वभाव समवायसे अभिन्न है, तो वे दोनों स्वभाव समवायरूप ही है; समवायसे भिन्न वे दोनों स्वभाव नहीं है। क्योंकि, वे दोनों समवायके स्वरूपके समान समवायसे अभिन्न है भावार्थ—जैसे अभिन्न होनेसे समवायका स्वरूप समवायके समान और परप्र-

काशकरूप स्वभाव भी समवायरूप ही है। और भी विशेष वक्तव्य यह है कि,—जैसे इन समवायियों (समवायके धारकों) में समवाय है; ऐसी बुद्धि समवायके विना भी उत्पन्न हुई है, उसी प्रकार यदि तुम ' इस आत्मामें ज्ञान है ' इस इहप्रत्ययरूप प्रतीतिको भी समवायके विना ही उत्पन्न हुई कह दो तो क्या दोष है ? अर्थात् समवायके विना ही ' इस आत्मामें ज्ञान है ' ऐसे प्रत्ययका होना मान लेनेमें कोई भी दोष नहीं है।

अथात्मा कर्त्ता, ज्ञानं च करणं, कर्तृकरणयोश्च वर्द्धकिवासीवद्भेद एव प्रतीतस्तत्कथं ज्ञानात्मनोरभेद इति चेत् । न। दृष्टान्तस्य वैषम्यात् । वासी हि बाह्यं करणं, ज्ञानं चाभ्यन्तरं तत्कथमनयोः साधर्म्यम् । न चैवं करणस्य द्वैविध्यमप्रसिद्धम् । यदाहुर्लक्षणाः—“करणं द्विविधं ज्ञेयं बाह्यमाभ्यन्तरं बुधैः । यथा लुनाति दात्रेण मेरुं गच्छति चेत्तसा । ११” यदि हि किञ्चित्करणमान्तरमेकान्तेन भिन्नमुपदर्शयते ततः स्याद्दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोः साधर्म्यम् । न च तथाविधमस्ति । न च बाह्यकरणगतो धर्मः सर्वोऽप्यान्तरे योजयितुं शक्यते । अन्यथा दीपेन चक्षुषा देवदत्तः पश्यतीत्यत्रापि दीपादिवच्चक्षुषोऽप्येकान्तेन देवदत्तस्य भेदः स्यात् । तथा च सति लोकप्रतीतिविरोध इति ।

शंका—आत्मा तो कर्त्ता है; ज्ञान करण है,—कर्त्ता और करणके बर्दई (खाती) और कुठारके समान भेद ही प्रतीत है; अर्थात् जैसे बर्दईरूप कर्त्ता अपनेसे भिन्न कुठाररूप करणसे काष्ठको छेदता है, उसी प्रकार आत्मारूप कर्त्ता ज्ञानस्वरूप करणके द्वारा पदार्थको जानता है, अतः आत्मा और ज्ञान ये दोनों भिन्न ही प्रतीतिके गोचर होते हैं। इस कारण ज्ञान तथा आत्मा, इन दोनोंके अभेद कैसे हो सकता है ? समाधान—यह कहना उचित नहीं है। क्योंकि दृष्टान्त विषम है। भावार्थ—कुठार तो बाह्यकरण है और ज्ञान अंतरंगकरण है; इस कारण इन दोनोंके समानता कैसे हो सकती है अर्थात् कुठाररूप बाह्यकरणके दृष्टान्तसे ज्ञानरूप अंतरंगकरणको भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते हो। और हमने जो दो प्रकारके करण कहे हैं; वे अप्रसिद्ध नहीं हैं। क्योंकि व्याकरणके ज्ञाता जन कहते हैं कि,—“ ज्ञानवानोंको बाह्य और आभ्यन्तर (अंतरंग) रूपसे दो करण जानने चाहियें। जैसे देवदत्त दात्र (दरांती) से छेदता है और मनसे मेरुपर्वतको जाता है; यहां पर दात्र बाह्यकरण है और मन अंतरंग करण है। हां यदि तुमने

जैसे बर्द्धरूप कर्त्तृसि कुठाररूप बाह्यकरणको भिन्न बताया है; उसीप्रकार किसी कर्त्तृको किसी अंतरंग करणसे सर्वथा भिन्न दिखलाओ तो दृष्टान्त तथा दार्ष्टान्तिक (ज्ञान) के समानता हो सकती है; परंतु इस प्रकारका कोई दृष्टान्त ही नहीं है। और बाह्यकरणमें प्राप्त जो धर्म है, उस सबको ही तुम अंतरंगकरणमें नहीं लगा सकते हो। क्योंकि; यदि बाह्यकरणके सब धर्मको अंतरंगमें लगे आगे तो देवदत्त दीपक और नेत्रसे देखता है, यहां जैसे देवदत्तसे दीप आदि भिन्न है, उसीप्रकार नेत्र भी देवदत्तसे सर्वथा भिन्न हो जावे और ऐसा होने पर लोककी प्रतीतिसे विरोध उत्पन्न होवे।

रा. जै. श.

अपि च साध्यविकलोऽपि वासिबर्द्धकिदृष्टान्तः । तथाहि—नायं बर्द्धकिः काष्ठमिदमनया वास्या घटयिष्य इत्येवं वासिग्रहणपरिणामेनाऽपरिणतः सन् तामगृहीत्वा घटयति । किन्तु तथा परिणतत्वां गृहीत्वा । तथा परिणाय मे च वासिरपि तस्य काष्ठस्य घटने व्याप्रियते पुरुषोऽपि । इत्येवं लक्षणैर्कार्यसाधकत्वाद्वासिबर्द्धक्योरभेदोऽप्युप पद्यते । तत्कथमनयोर्भेद एवेत्युच्यते । ततश्च ज्ञानात्मनोरुभयोरपि संवित्तिलक्षणं कार्यं ज्ञानस्याभीति ज्ञानग्रहणपरिणामवान् ज्ञानं गृहीत्वार्थं व्यवस्यति । ततश्च ज्ञानात्मनोरुभयोरपि संवित्तिलक्षणैर्कार्यसाधकत्वाद्भेद एव । एवं कर्त्तृकरणयोरभेदे सिद्धे संवित्तिलक्षणं कार्यं किमात्मनि व्यवस्थितं आहोस्विद्विषय इति वाच्यम् । आत्मनि चेत्-सिद्धं न पुरुषान्तरस्यापि । तत्रैक्यमात्मनोऽनुभवः प्रतीयते । अथ विषयस्थितसंविद्यैः सकाशादात्मनोऽनुभवस्तर्हि किं और भी यह दोष है कि, तुमने जो बर्द्ध और कुठारका दृष्टान्त दिया है, वह साध्यसे विकल (रहित) है अर्थात् आत्मा और ज्ञान इन दोनोंके भेदको नहीं साध सकता है। सो ही दिखलते है—वह बर्द्ध ' इस काष्ठको इस कुठार (कुहाड़े) से बर्द्धगा ' ऐसा जो कुठारको ग्रहण करनेरूप परिणामसे सहित होकर उस कुठारको ग्रहण करके ही काष्ठको घड़ता है। और जब वह बर्द्ध है, किन्तु कुठारके ग्रहण करनेरूप परिणामसे सहित हुआ तो सिद्ध हुआ कि कुठार भी उस काष्ठके घड़नेमें व्यापार करता है और वह बर्द्धरूप पुरुषमी काष्ठके घड़नेमें व्यापार करता है। और इस उक्त प्रकारसे काष्ठके घड़नेरूप अर्थक्रियाकी साधकतासे बर्द्ध तथा कुठारके अभेद भी सिद्ध होता है अर्थात् जैसे कुठारसे काष्ठ घड़ा जाता है, उसी प्रकार उस बर्द्धसे भी घड़ा जाता है;

अतः काष्ठघटनरूप एक अर्थक्रियाको करनेसे बढई और कुठार ये दोनों किसी अपेक्षासे अभिन्न भी है । अतः तुम ' ये दोनों भिन्न ही है ' ऐसा कैसे कहते हो । इसी प्रकार आत्मा भी ' विवक्षित (असुक) अर्थको इस ज्ञानसे जानूंगा ' इस प्रकारके ज्ञानग्रहणरूप परिणामसे सहित हुआ ज्ञानको ग्रहण करके पदार्थको जानता है । और जब ऐसा हुआ तो पदार्थके जाननेरूप एक अर्थके साधक होनेसे ज्ञान और आत्मा ये दोनों भी अभिन्न ही सिद्ध हुए । इस प्रकार कर्त्ता और करणके अभेद सिद्ध होने पर हम प्रश्न करते है कि; वह संवित्ति (जानते) रूप कार्य क्या ? आत्मामें स्थित है; अथवा विषय (जिस पदार्थको आत्मा जानता है, उस) में स्थित है; इसका उत्तर कहना चाहिये । यदि कहो कि; संवित्तिरूप कार्य आत्मामें स्थित है; तब तो हमारा मनोरथ सिद्ध होगया अर्थात् हम जैनी भी जाननेरूप कार्यको आत्मामें ही मानते है । यदि कहो कि; विषयमें स्थित है; तो आत्मामें सुख-दुःख आदिका अनुभव कैसे प्रतीत होता है ? । उत्तरमें कदाचित् यह कहो कि विषयमें विद्यमान जो संवित्ति है; उससे आत्मामें अनुभव होता है, तो वह अनुभव उस एक आत्मामें ही क्यों होता है अन्य आत्मामें क्यों नहीं होता है । कारण कि, भेदका अविशेष है अर्थात् जैसे विषयस्थितसंवित्तिसे दूसरे आत्मा भिन्न है, वैसे ही वह आत्मा भी भिन्न है ।

अथ ज्ञानात्मनोरभेदपक्षे कथं कर्त्तृकरणभाव इति चेत्-ननु यथा सर्प आत्मानमात्मना वेष्टयतीत्यत्र ' अभेदे यथा कर्त्तृकरणभावस्तथात्रापि ' । अथ परिकल्पितोऽयं कर्त्तृकरणभाव इति चेद्वेष्टनावस्थायां प्रागवस्थायिविलक्षणगतिनिरोधलक्षणार्थक्रियादर्शनात्कथं परिकल्पितत्वम् । न हि परिकल्पनाशतैरपि शैलस्तम्भ आत्मानमात्मना वेष्टयतीति वक्तुं शक्यम् । तस्मादभेदोऽपि कर्त्तृकरणभावः सिद्ध एव । किञ्च चैतन्यमितिशब्दस्य चिन्त्यतामन्वर्थः । चेतनस्य भावश्चैतन्यम् । चेतनश्चात्मा त्वयापि कीर्यते । तस्य भावः स्वरूपं चैतन्यम् । यच्च यस्य स्वरूपं न तत्ततो भिन्नं भवितुमर्हति । यथा वृक्षाद्बृक्षस्वरूपम् ।

अब यदि तुम (वैशेषिक) ऐसा प्रश्न करो कि, —ज्ञान और आत्मामें अभेद माननेमें कर्त्तृकरणभाव कैसे होगा अर्थात् यह कर्त्ता है, यह करण है ऐसी व्यवस्था कैसे होगी, तो उत्तर यह है कि, सर्प आपको अपनेसे वेष्टित करता है अर्थात् वेष्टता (घेरता) है ' यहां पर जैसे कर्त्ता और करणके अभेद होने पर भी कर्त्तृकरणभाव है; उसी प्रकार ' आत्मा ज्ञानसे

जानता है, यहाँ भी कर्तृकरणभाव होता है। यदि कहो कि, यह कर्तृकरणभाव परिकल्पित अर्थात् असत्य है; तो सर्पकी वेष्टन अवस्थामें पूर्व अवस्थासे विलक्षण गमनके निरोध रूप अर्थक्रियाको देखनेसे परिकल्पित कैसे है अर्थात् जब सर्प आपको अपनेसे वेष्टता है, उससमय वह पहलेकी जो गमनरूप अर्थक्रिया है; उसको छोड़कर गमनके वृद्ध होनेरूप अर्थक्रियाको धारण करता है; अतः उसमें कर्तृकरणभाव कल्पित नहीं हो सकता है। क्योंकि; सैकड़ों कल्पनाओंसे भी यह पापणका स्तम्भ (शंभा) आपको अपनेसे वेष्टित करता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। इस कारण आत्मा और ज्ञान इन दोनोंके अभेद होनेपर भी कर्तृकरणभाव वह चैतन्य कहलाता है और आत्माको चेतन तुम भी कहते हो, उस आत्माका जो भाव अर्थात् स्वरूप है, वह चैतन्य (ज्ञान) है। और जो जिसका स्वरूप होता है, वह उससे भिन्न नहीं हो सकता है। जैसे कि; जो वृक्षका स्वरूप है, वह वृक्षसे कदापि भिन्न नहीं होता है।

अथास्ति चेतन आत्मा। परं चेतनासमवायसम्बन्धात्। न स्वतः। तथाप्रतीतेरितिचेत्-तदनुक्तम्। यतः प्रतीति श्रेयसमाणीक्रियते तर्हि निर्वाधमुपयोगात्मक एवात्मा प्रसिद्ध्यति। न हि जातुचिदस्वयमचेतनोऽहं, चेतनायोगाच्चे- तनः, अचेतने वा मयि चेतनायाः समवाय इति प्रतीतिरस्ति। ज्ञाताहमिति समानाधिकरणतया प्रतीतेः। भेदे तथाप्रतीतिरिति चेत्। न। कथं चित्तादात्म्याऽभावे सामानाधिकरण्यप्रतीतेरदर्शनात्। यष्टिः पुरुष इत्यादिप्रतीतिस्तु भेदे सत्युपचाराद्दृष्टा। न पुनस्तात्त्विकी। उपचारस्य तु बीजं पुरुषस्य यष्टिगतस्तब्धत्वादिगुणभेदः। उपचारस्य मुख्यार्थस्पर्शित्वात्। तथा चात्मनि ज्ञाताहमितिप्रतीतिः कथंचिच्चेतनात्मतां गमयति। तामन्तरेण ज्ञाताहमिति प्रतीतेरनुपपद्यमानत्वात्। घटादिवत्। न हि घटादिरचेतनात्मको ज्ञाताहमिति प्रत्येति। तामन्तरेण ज्ञाताहमिति न तथा प्रत्येतीतिचेत्। न। अचेतनस्यापि चैतन्ययोगाच्चेतनोऽहमिति प्रतिपत्तेरनन्तरमेव निरस्तत्वात्। उपचारस्य तन्त्वं सिद्धमात्मनो जडस्यार्थपरिच्छेदं पराकरोति। तं पुनरिच्छता चैतन्यस्वरूपतास्य स्वीकरणीया। इत्यचे यदि कहो कि, आत्मा चेतन तो है; परंतु समवायसंबंधसे है अर्थात् समवायसंबंधसे ज्ञान आत्मामें समवेत है; अतः ज्ञानके योगसे चेतन है और आत्मा स्वयं चेतन नहीं है। क्योंकि ऐसी ही प्रतीति होती है। सो यह कहना अनुचित है। क्योंकि.

यदि तुम प्रतीतिको ही प्रमाण करते हो तो बिना किसी वायके ज्ञानस्वरूप ही आत्मा सिद्ध होता है। क्योंकि, 'मै स्वयं अचेतन हूँ, चेतना (ज्ञान) के योगसे चेतन हुआ हूँ, अथवा मुझ अचेतन आत्मामें चेतनाका समवाय है; ऐसी प्रतीति कदाचित् भी नहीं होती है। कारण कि 'मै ज्ञाता (जानने वाला) हूँ' इस प्रकारकी समानअधिकरणपनेरूप प्रतीति होती है। यदि कहो कि;— यह प्रतीति आत्मा और ज्ञानके भेद होनेपर भी हो जावेगी। सो नहीं। क्योंकि, कथंचित् तादात्म्य (अभिन्नता) के अभावमें सामानाधिकरण्यप्रतीति कहीं भी देखनेमें नहीं आती है अर्थात् जब किसी न किसी प्रकारसे एककी दूसरेके साथ अभिन्नता होती है; तभी उन दोनोंके समानअधिकरणपनेरूप प्रतीति होती है। और जो पुरुष यष्टि है अर्थात् यह पुरुष यष्टि (लाठी व लकड़ी) रूप है; इत्यादि प्रतीति होती है। और जो पुरुष यष्टि है अर्थात् यह पुरुष यष्टि (लकड़ी) रूप है। और 'पुरुष यष्टि है' यह प्रतीति तत्त्वरूप अर्थात् यथार्थ नहीं है। तथा पुरुषके यष्टिमें प्राप्त स्वधता आदि गुणोंसे जो अभेद है; वही उपचारका कारण है। क्योंकि, उपचार मुख्य अर्थको स्पर्श करनेवाला होता है। भावार्थ—पुरुष यष्टि है; इस प्रतीतिमें यद्यपि पुरुष और यष्टि दोनों भिन्न ? है; तथापि यष्टिके जो स्वधता आदि गुण है; वे पुरुषमें भी है; अतः यष्टिके स्वधता आदि मुख्य गुणोंको ग्रहण करके पुरुषमें यष्टिका उपचार किया गया है। और जैसे ' पुरुष यष्टि है ' यह प्रतीति पुरुषमें स्वधता आदि गुणोंसे कथंचित् यष्टिरूपता जनाती है, उसी प्रकार 'मै ज्ञाता हूँ' यह प्रतीति आत्मामें कथंचित् चैतन्यरूपता द्योतित करती है। क्योंकि, उस चैतन्यरूपताके बिना 'मै ज्ञाता हूँ' ऐसी प्रतीति उत्पन्न नहीं होती है। घट आदिके समान। क्योंकि; अचेतनरूप घट 'मै ज्ञाता हूँ' इस प्रतीतिको नहीं करता है। और 'मै ज्ञाता हूँ' ऐसी प्रतीति आत्मामें होती है; अतः ' आत्मा कथंचित् चेतनरूप है ' यह निश्चित होता है। यदि कहो कि; घटमें चैतन्य (ज्ञान) का योग नहीं है अर्थात् घटमें ज्ञान समवायसंबंधसे नहीं रहता है; इसकारण घट 'मै ज्ञाता हूँ' ऐसी प्रतीति नहीं करता है; सो नहीं। क्योंकि; अचेतनके भी चैतन्यके योगसे 'मै चेतन हूँ' ऐसी प्रतीति होती है " यह जो तुम्हारा अङ्गीकार (मत) है; उसका अभी ऊपर ही खंडन कर चुके हैं। इस प्रकार जड़ आत्मामें सिद्ध हुआ अचेतनपना आत्मामें विषयज्ञानको दूर करता है। और जो आत्मामें पदार्थका ज्ञान चाहता है; उसको आत्मामें चैतन्यस्वरूपता स्वीकार करनी चाहिये। भावार्थ—अचेतन आत्मा पदार्थको

नहीं जान सकता है; अतः यदि तुम (वैशेषिक) आत्माको ज्ञाता (पदार्थोंका जाननेवाला) मानना चाहते हो तो पहले आत्माको चैतन्यस्वरूप (ज्ञानरूप) स्वीकार करो ।

ननु ज्ञानवानहमिति प्रत्ययादात्मज्ञानयोर्भेदः । अन्यथा धनवानितिप्रत्ययादपि धनधनवतोर्भेदाभावानुपपत्नात् । यतो ज्ञानवानहमिति नात्मा भवन्मते प्रत्येति जडत्वैकान्तरूपत्वात् । घटवत् । सर्वथा जडश्च स्यादात्मा हि प्रत्ययो नाऽगृहीते ज्ञानाख्ये विशेषणे विशेष्ये चात्मनि जातृत्पद्यते । स्वमतविरोधात् । “ नागृहीतविशेषणा विशेष्ये बुद्धिः ” इति वचनात् ।

शंका—‘मै ज्ञानवान हूं’ इस प्रत्ययसे आत्मा और ज्ञानके भेद सिद्ध होता है । क्योंकि; यदि इस प्रत्ययसे आत्मा और ज्ञानके भेद न होवे तो ‘मै धनवान हूं’ इस प्रत्ययसे धन और धनवान इन दोनोंके भेदके अभावका प्रसंग होगा । भावार्थ—वैशेषिक अब यहांपर ऐसा कहते है कि, यदि ‘मै ज्ञाता हूं’ इस पूर्वोक्त प्रत्ययसे आत्मा तथा ज्ञानके भेद सिद्ध नहीं होता है; तो अस्तु मत हो; परन्तु ‘मै धनवान हूं’ इस प्रत्ययसे जैसे धनके और धनवानके भेद प्रतीत होता है, उसी प्रकार ‘मै ज्ञानवान हूं’ इस प्रत्ययसे आत्मा और ज्ञानके भेद सिद्ध होता है । समाधान—यह तुम्हारा कहना मिथ्या है । क्योंकि तुम्हारे मतमें आत्मा सर्वथा जडरूप है; अतः ‘मै ज्ञानवान हूं’ ऐसी प्रतीति नहीं कर सकता है । घटके समान अर्थात् जैसे—सर्वथा जड हो-नेसे घट उक्त प्रतीतिको नहीं करता है, वैसे ही आत्मा भी उक्त प्रतीतिको नहीं कर सकता है । अब कदाचित् ऐसा कहे कि; आत्मा सर्वथा जड भी है और मै ‘ज्ञानवान हूं’ इस प्रत्ययका धारक भी है । क्योंकि, ऐसा माननेमें कोई विरोध नहीं है । सो तुम ऐसा भी निर्णय मत करो । क्योंकि; आत्माके ‘मै ज्ञानवान हूं’ इस प्रत्ययका विशेषण और आत्मानामक विशेष्यको ग्रहण किये विना विशेष्यमें बुद्धि नहीं होती है; ऐसा वचन है; अतः तुम्हारे मतसे विरोध होता है । क्योंकि; ‘विशेषणको ग्रहण किये विना विशेष्यमें बुद्धि नहीं होती है’ ऐसा वचन है; अतः तुम्हारे मतसे विरोध होगा ।

गृहीतयोत्तयोरुत्पद्यत इति चेत्—कुतस्तद्गृहीतिः । न तावत्स्वतः । स्वसंवेदनाऽनभ्युपगमात् । परतश्चेत्तदपि ज्ञानान्तरं विशेष्यं नागृहीते ह्यात्मनि ज्ञाने च स्वतः सा युज्यते । नान्यथा । सन्तानान्तरवत् । परतश्चेत्तदपि ज्ञानान्तरं विशेष्यं नागृहीते

ज्ञानत्वविशेषणे ग्रहीतुं शक्यम् । गृहीते हि घटत्वे घटग्रहणमिति ज्ञानान्तरात्तद्ग्रहणेन भाव्यम् । इत्यनवस्थाना-
 ल्कृतः प्रकृतप्रत्ययः । तदेवं नात्मनो जडस्वरूपता संगच्छते । तदसङ्गतौ च चैतन्यमौपाधिकमात्मनोऽन्यदि-
 ति वाङ्मात्रम् ।

यदि कहो कि; जब आत्मा ज्ञाननामक विशेषण और आत्मानामक विशेष्य; इन दोनोंको ग्रहण कर चुकता है; तब 'मै ज्ञान-
 वान हू' ऐसा प्रत्यय उत्पन्न होता है; तो यहां पर हम प्रश्न करते है कि; आत्माके उस ज्ञान तथा आत्माका ग्रहण किससे
 हुआ ? यदि उत्तरमें कहो कि; आत्मा स्वतः (अपने आप ही से) उन दोनोंका ग्रहण कर लेता है; तो यह कहना उचित नहीं
 है । क्योंकि; तुमने आत्मा तथा ज्ञानको स्वसंवेदक (अपने जाननेवाला) नहीं माना है । भावार्थ—यदि आत्मा और ज्ञान ये
 दोनों स्वसंवेदित (अपनेसे आप जाननेमें आते हुए) हों; तब तो आत्माके ज्ञान तथा आत्माका ग्रहण हो सकता है और
 अन्यप्रकारसे नहीं । दूसरे संतानके समान । अर्थात् जैसे घट पट आदि दूसरे संतान (पदार्थ) अस्वसंवेदक होनेसे ज्ञान तथा
 आत्माका ग्रहण नहीं कर सकते है; उसी प्रकार आत्मा भी ज्ञान व आत्माके ग्रहण करनेमें असमर्थ है । अब कदाचित् ऐसा कहो
 कि; आत्मा पर (दूसरे) ज्ञानके द्वारा अपने ज्ञाननामक विशेषणको ग्रहण करता है; तो वह दूसरा ज्ञानरूप विशेष्य भी अपने
 ज्ञानत्वविशेषणको ग्रहण किये विना उस आत्माके ज्ञानरूपविशेषणको ग्रहण करनेमें असमर्थ है । क्योंकि; घटत्वका ग्रहण होनेपर घटका
 ग्रहण होता है भावार्थ—जैसे तुम्हारे मतमें घटत्वका ग्रहण हो चुकने पर घटका ग्रहण होता है; उसी प्रकार ज्ञानत्वका ग्रहण
 होनेके पश्चात् ही ज्ञानका ग्रहण होना चाहिये । इस कारण दूसरे ज्ञानके ज्ञानत्वका ग्रहण तीसरे ज्ञानसे और तीसरे ज्ञानके ज्ञान-
 त्वका ग्रहण चौथे ज्ञानसे एवं उत्तरोत्तर ज्ञानत्वका ग्रहण उत्तरोत्तर ज्ञानसे मानोगे तो कहीं भी स्थिति न होगी अर्थात् अनवस्था
 दोष प्राप्त होगा । अतः आत्माके 'मै ज्ञानवान हूं' यह प्रकृत प्रत्यय किससे होवे ? अर्थात् किसी प्रकारसे भी आत्मा 'मै ज्ञान-
 वान हूं' ऐसी प्रतीति नहीं कर सकता है । सो इस पूर्वोक्त प्रकारसे आत्माके जडरूपपना प्राप्त नहीं होता है अर्थात् आत्मा जड़
 सिद्ध नहीं होता है । और आत्माके जडरूपताकी प्राप्ति नहीं होनेपर 'ज्ञान उपाधिजनित होनेके कारण आत्मासे भिन्न है' यह जो
 तुम वैशेषिकोंका कहना है; सो वचनमात्र है अर्थात् व्यर्थ है ।

तथा यदपि न संविदानन्दमयी च मुक्तिरिति व्यवस्थापनायामनुमानमवादि सन्तानत्वादिति । तत्राभिधीयते । ननु किमिदं सन्तानत्वं स्वतन्त्रमपरापरपदार्थोत्पत्तिमात्रं वा, एकाश्रयाऽपरापरोत्पत्तिर्वा । तत्राद्यः पक्षः सव्यभिचारः । अपरापरेषामुत्पादुकानां घटपटकटादीनां सन्तानत्वेऽप्यत्यन्तमनुच्छिद्यमानत्वात् । अथ द्वितीयः पक्षस्तर्हि तादृशं सन्तानत्वं प्रदीपे नास्तीति साधनविकलो दृष्टान्तः । परमाणुपाकजरूपादिभिश्च व्यभिचारी हेतुः । तथाविधसन्तानत्वस्य तत्र सद्भावेऽप्यत्यन्तोच्छेदाभावात् । अपि च सन्तानत्वमपि भविष्यति अत्यन्तानुच्छेदश्च भविष्यति । विपर्यये बाधकप्रमाणाऽभावात् । इति संदिग्धविषयव्यावृत्तिकत्वाद्यनैकान्तिकोऽयम् । किञ्च स्याद्वादवादिनां नास्ति क्वचिदत्यन्तमुच्छेदो द्रव्यरूपतया स्थाणूनामेव सतां भावानामुत्पादव्यययुक्तत्वात् । इति विरुद्धश्च । इति नाधिकृतानुमानाद्बुद्ध्यादिगुणोच्छेदरूपा सिद्धिः सिध्यति ।

और जो तुमने ' ज्ञान तथा सुखस्वरूप मोक्ष नहीं है ' इस विषयको सिद्धकरनेके लिये सतानपनेसे अर्थात् ' आत्मके ज्ञान सुख आदि नवों विशेषगुणोंका संतान अत्यंत नाशको प्राप्त होता है, सतानपना होनेसे ' ऐसा अनुमान कहा है; उसमें हम यह कथन करते है कि, वह संतानत्व क्या है? अर्थात् स्वतंत्र अपर (भिन्न २) पदार्थोंकी उत्पत्तिरूप ही संतानत्व है? अथवा एक आश्रय (अधिकरण) में अपर अपर पदार्थोंकी उत्पत्तिरूप संतानत्व है । यदि कहो कि, - स्वतंत्ररूपसे जो भिन्न २ पदार्थोंकी उत्पत्ति है; वही संतानत्व है, तब तो यह तुम्हारा विकल्प व्यभिचार सहित है अर्थात् आत्मको ज्ञान-सुखरहित सिद्ध करनेके अर्थ जो तुमने संतानत्व हेतु दिया है, वह व्यभिचारी है । क्योंकि; उत्पन्न होनेवाले जो अपर अपर घट पट कट (चटाई) आदि है, इनके संतानपना होनेपर भी अत्यंत नाशवानपना नहीं है । भावार्थ—वैशेषिकमतमें घट आदि सतानोंका निरन्वय नाश नहीं होता है अर्थात् नष्ट हुए घट आदि पदार्थोंका परमाणुपर्यन्त समवायी रहता है । इस कारण घट आदिक सतान है तो भी उनका सर्वथा नाश नहीं होता है । अतः प्रकृत अनुमानमें जो संतानत्व हेतु है; वह सर्वथा नष्ट होनेवाले ज्ञान सुख आदिमें भी रहता है और सर्वथा नष्ट न होनेवाले घट पटादिमें भी रहता है; इसकारण व्यभिचारी है । यदि कहो कि; एक ही आश्रयमें जो अपर अपर पदार्थोंकी उत्पत्ति है; वह संतानत्व है, तो ऐसा संतानत्व प्रदीपमें नहीं है, इसकारण साधनविकल दृष्टान्त है । भावार्थ—प्रदीपमें जो संतान है; उसका अधिकरण एक नहीं है । क्योंकि पूर्वबन्दिहज्वाला

रूप जो प्रदीप है; वह जिस क्षणमें पूर्व बन्दिज्वाला नष्ट होती है; उसी क्षणमें नष्ट हो जाता है। इस कारण उक्त अनुमानमें जो तुमने प्रदीपका दृष्टान्त दिया है; वह साधनविकल (साधनसे शून्य) है। और परमाणुमें जो पाकजरूप आदि है, उनसे यह हेतु व्यभिचाही भी है। क्योंकि; उन रूप रस आदिमें परमाणुरूप एक आश्रयमें होनेवाले अपर अपर रूप रस आदि संतान है; तो भी उनका अत्यंत नाश नहीं होता है। भावार्थ—वैशेषिकमतमें पृथिवीके परमाणुमें पाक होता है, और जब घट रूप अवयवीका अग्निके संयोगसे नाश हो जाता है तब स्रतन्न (अवयवी रहित) जो परमाणुरूप अवयव है; उनमें पाक होता है और फिर पके हुए परमाणुओंके संयोगसे अदृष्टके बलसे पुनः घट हो जाता है, ऐसी व्यवस्था है। अतः घटको अग्निके धरनेसे जब उस घटका परमाणुपर्यन्त विभाग होता है, तब उन परमाणुओंमें जो पूर्व घटके रूप, रस आदि संतान है, वे बदलकर दूसरे रूप रस आदि रूपसे उत्पन्न होते हैं इसकारण यद्यपि पूर्व तथा अपर रूप रस आदिका संतानत्व परमाणुरूप एक आश्रयमें रहता है; तो भी उन रूपादिक संतानोंका सर्वथा नाश नहीं है। इस कारणसे भी संतानत्वरूप हेतु व्यभिचारी है। और संतानत्व भी होगा, अत्यंत नाश भी न होगा, इस विपरीतर्कमें कोई बाधक प्रमाण नहीं है। अर्थात् घट आदि पदार्थ संतान भी है और उनका सर्वथा नाश भी नहीं है, ऐसा यदि विपरीत तर्क किया जावे तो इस तर्कका बाधक कोई दूसरा प्रमाण नहीं है; इसकारण यह संतानत्व हेतु संदिग्ध है विपक्षसे व्यावृत्ति जिसकी ऐसा होनेके कारण अनेकान्तिक भी है। भावार्थ—वैशेषिकोंके प्रवृत्त अनुमानमें सर्वथा उच्छेद्यत्वरूप साध्यका अभावस्वरूप जो अनुच्छेद्यत्व है, उस अनुच्छेद्यत्वके धारक घटादि संतान हो सकते हैं; इस कारण विपक्षरूप घटादिमें सर्वथा उच्छेद्यत्वकी रहिततामें संदेह होनेसे यह संतानत्व हेतु अनैकान्तिक भी है।

नापि “ न हि वै सशरीरस्य ” इत्यादेरागमात् । स हि शुभाशुभादृष्टपरिपाकजन्ये सांसारिकप्रियाप्रिये परस्परानुषक्ते अपेक्ष्य व्यवस्थितः । मुक्तिदशायां तु सकलादृष्टक्षयहेतुकमैकान्तिकमात्यन्तिकं च केवलं प्रियमेव । तत्कथं प्रतिषिध्यते । आगमस्य चायमर्थः । सशरीरस्य गतिचतुष्टयान्यतमस्थानवर्त्तिन आत्मनः प्रियाप्रिययोः परस्परानुषक्तयोः सुखदुःखयोरपहतिरभावो नास्तीति । अवश्यं हि तत्र सुखदुःखाभ्यां भाव्यम् । (परस्परानुषक्तत्वं च समासकरणादभ्यूह्यते) । अशरीरं मुक्तात्मानं (वा शब्दस्यैवकारार्थत्वात्) अशरीरमेव वसन्तं सिद्धिक्षेत्रमध्यासीनं प्रियाप्रिये परस्परानुषक्ते सुखदुःखे न स्पृशतः ।

और 'नहि वै शरीरस्य प्रियाप्रियोरपहविरस्ति' इत्यादि आगमका प्रमाण जो तुमने दिया है; उससे भी मुक्त अवस्था में आत्मा सुखदुःख रहित नहीं सिद्ध होता है। क्योंकि; वह आगम गुणवद्वय (पुण्य) तथा अगुणवद्वय (पाप); इन दोनोंके उदयसे उत्पन्न हुआ और परस्परानुषक्त (आपसमें एकके पीछे दूसरा लगा हुआ) ऐसा जो संसारसंबंधी सुख तथा दुःख है; उसकी अपेक्षाकरके व्यवस्थित है। और मुक्त अवस्थामें तो समस्त-पुण्य पापके नाशसे उत्पन्न हुआ ऐसा केवल एकात्मिक (सर्वथा) तथा आत्यंतिक (फिर नाशको प्राप्त न होनेवाला) सुख ही है। अतः वह आगम उस सुखका निवेद्य कैसे कर सकता है। तथा आगमका अर्थ यह है कि; शरीर अर्थात् नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव नामक चार गतियोंमेंसे किसी भी एक गतिमें रहनेवाले आत्माके प्रिय अप्रियका अर्थात् परस्परानुषक्त जो सुख तथा दुःख है; उन दोनोंका अपहति (अभाव) नास्ति (नहीं है) इस कारण उन चारों गतियोंमेंसे किसी भी गतिमें रहनेवाले जीवके नियमसे सुख और दुःख ये दोनों होने चाहिये। ['प्रियाप्रिय' यहाँ पर जो द्रंढ्रसमास किया गया है; उससे सुख तथा दुःखके परस्परानुषक्तताका ग्रहण होता है] और 'न स्पृशतः' नहीं स्पर्श करते हैं (यहाँ वा शब्द एवकारके अर्थमें है।)

इदमत्र हृदयम् । यथा किल संसारिणः सुखदुःखे परस्परानुषक्ते स्वातां न तथा मुक्तात्मनः । किंतु केवल सुखमेव । दुःखमूलस्य शरीरस्यैवाऽभावात् । सुखं त्वात्मस्वरूपत्वाद्वावस्थितमेव । स्वस्वरूपावस्थानं हि मोक्षः । अत एव चाऽशरीरमित्युक्तम् । आगमार्थश्चायमित्थमेव समर्थनीयः । यत एतदर्थानुपातिन्येव सृष्टिरपि दृश्यते । " सुखमात्यन्तिकं यत्र बुद्धिमाह्वयमतीन्द्रियम् । तं वै मोक्षं विजानीयाद्-दुष्प्रापमकृतात्मभिः । १ । " न चायं इत्यादिवाक्येषु च सुखीतिप्रयोगस्य पौनरुक्त्यप्रसङ्गाच्च दुःखाभावमात्रस्य रोगाद्विमुक्तः सुखी जात भावार्थं यहाँ पर यह है कि, जैसे-संसारी जीवके परस्परानुषक्त सुखदुःख होते हैं अर्थात् जैसे संसारमें जीवके सुखके पीछे दुःख और दुःखके पीछे सुख होता है, वैसे परस्परानुषक्त सुख, दुःख मुक्त आत्माके नहीं होते हैं, किन्तु मुक्त जीवके केवल सुख ही होता है। क्योंकि; दुःखका मूल (असाधारण कारण) जो शरीर है, उस शरीरका ही उस मुक्त जीवके केवल

और सुख तो आत्माका स्वरूप होनेसे मुक्त जीवके है ही है। क्योंकि, अपने स्वरूपमें जो स्थित होना है; वही मोक्ष कहलाता है; भावार्थ—सुख आत्माका स्वरूप है। और स्वरूपमें स्थित होना ही मोक्ष है, अतः मुक्तजीवके सुख है ही। तथा इसी कारण 'अशरीरं वा' इत्यादि आगममें अशरीर ऐसा कहा है। और इस आगमके अर्थका इसी प्रकार तुमको समर्थन करना चाहिये अर्थात् हमने जैसा आगमका अर्थ किया है; वैसा ही तुमको करना चाहिये। क्योंकि उस आगमके अर्थका अनुसरण करनेवाली स्मृति भी देखी जाती है। वह यह है कि; 'जहां बुद्धिसे ग्रहण करने योग्य और इंद्रियोंके अगोचर ऐसा आत्यंतिक सुख है; उसीको पापी जीवोंको दुर्लभ (दुःखसे प्राप्त होने वाला) मोक्ष जानना चाहिये । १ ।' और यहां पर यह सुख शब्द केवल दुःखके अभावमें ही नहीं है। अर्थात् यदि तुम कहो कि; यहां सुखशब्दसे दुःखके अभावरूप अर्थका ही ग्रहण है, सो नहीं है। क्योंकि प्रथम तो सुख शब्दका मुख्य सुखरूप अर्थके करनेमें कोई बाधक नहीं है; दूसरे यदि सुखसे दुःखका अभाव ही माना जावे तो ' यह रोगसे रहित होकर सुखी हो गया ' इत्यादि वचनोंमें पुनरुक्तिदोषका प्रसंग होता है। भावार्थ—यदि दुःखके अभावको ही सुख मानों तो ' यह रोगसे रहित हो गया ' इस कहनेसे ही यह सुखी होगया ऐसा समझ लिया जावेगा अतः ' यह रोगसे रहित होकर सुखी हो गया ' ऐसा कथन करनेमें पुनरुक्तिदोष होगा और वह तुमको इष्ट नहीं है।

न च भवदुदीरितो मोक्षः पुंसामुपादेयतया संमतः। को हि नाम शिलाकल्पमपगतसकलसुखसंवेदनमात्मानमु-
पपादयितुं यतेत। दुःखसंवेदनरूपत्वादस्य। सुखदुःखयोरेकस्याभावे परस्यावश्यम्भावात्। अत एव त्वदुपहासः
श्रूयते। " वरं वृन्दावने रम्ये क्रोष्टृत्वमभिवाञ्छितम्। न तु वैशेषिकीं मुक्तिं गौतमो गन्तुमिच्छति। १। ”
सोपाधिकसावधिकपरिमितानन्दनिष्यन्दात्स्वर्गादत्यधिकं तद्विपरीतानन्दसम्लानज्ञानं च मोक्षमाचक्षते विचक्षणाः।
यदि तु जडः पाषाणनिर्विशेष एव तस्यामवस्थायामात्मा भवेत्तदलमपवर्गेण। संसार एव वरमस्तु। यत् तावद-
न्तरान्तरापि दुःखकलुषितमपि कियदपि सुखमनुभुज्यते। चिन्त्यतां तावत्किमल्पसुखानुभवो भव्य उत
सर्वसुखोच्छेद एव।

और तुम्हारे कहे हुए मोक्षको मनुष्य उपादेय (ग्रहण करने योग्य) रूप नहीं मानते है। क्योंकि; ऐसा कौन पुरुष है जो शिलके समान सब सुखोंके ज्ञानसे रहित ऐसे आत्माको बनानेके लिये प्रयत्न करे, भावार्थ—जैसे शिला (एक पाषाणभेद)

मुखके अनुभवसे रहित है; उसी प्रकार तुम्हारे मोक्षमें भी जीव मुखके जानने रहित हो जाता है। अतः हितका चाहनेवाला कोई भी पुरुष अपने आत्मको मुख रहित बनाना नहीं चाहता है। योंकिः—मुख और दुःख इन दोनोंजिसे एकका अभाव होनेपर दूसरेका अवश्य सद्भाव रहता है; अतः वह तुम्हारा मोक्ष दुःखके अनुभव रूप है। भावार्थ—जहां मुख नहीं रहता है; वहां दुःख और वहां दुःख नहीं रहता है; वहां मुख नियमसे रहता है और तुम्हारे मोक्षमें मुखका अनुभव होता नहीं है; अतः वह तुम्हारा मोक्ष दुःखके अनुभव रूप (दुःखरूप) है। और इसी कारण तुम्हारा उपहास भी युना जाता है। वह यह है—“न्यायदर्शनके कर्षी गौतममुनि मनोहर वृंदावनमें शृंगाल (गीदड) होनेकी इच्छाके करनेको तो अच्छा समझते हैं। परन्तु वैशेषिकोंकी मुक्तिमें जानेकी इच्छा नहीं करते हैं। भावार्थ—गौतम कर्षी वैशेषिकोंके ज्ञान—मुख रहित मोक्षमें जानेने वृंदावनमें शृंगाल हो जाना अच्छा समझते हैं। और उपधिमहित, मर्यादाके धारक (इस देवको यहाँ इतने समय ही मुख मिलेगा इत्येसे अधिक नहीं ऐसी हृदवाले) तथा परिमित (इनको यहाँ इस प्रकारका इतना ही मुख मिलेगा, इतने अधिक नहीं, इस प्रकारके परिमाण अर्थात् अदाज वाले) आनंदको देनेवाला जो स्वर्ग है; उनमें भी अधिक उपागिरहित, मर्यादारहित और अपरिमाण मुक्तको पारण करनेवाला तथा नहीं मलीन हुआ है; ज्ञान जिसमें ऐसा अर्थात् परिपूर्ण निर्गल ज्ञानरहित ऐसा मोक्ष कइते हैं। और यदि आत्मा पापाणके समान जडरूप ही उस मोक्षअवस्थामें होवे तो ऐसे मोक्षसे पूर्णता हो अर्थात् इस मोक्षसे पूरा पड़ो। तत्सार ही अच्छा रहो कि, जिसमें दुःखसे कञ्चित् ऐसा भी कुछ २ मुख बीच २ में भोगा जाता है। भावार्थ—मुखके अभावरूप मोक्षसे तत्सार ही अच्छा है; जिसमें कभी कभी थोड़ा २ मुख भोगनेमें आता है। तुम (वैशेषिक) ही विचार करो कि, क्या अल्प मुखका अनुभव करना अच्छा है ? वा सब मुक्तका नाश हो जाना ही अच्छा है ?।

अथास्ति तथाभूते मोक्षे लाभातिरेकः प्रेक्षादक्षणांम् । ते त्वेवं विवेचयन्ति । मंमारे तावद्दुःखासृष्टं मुखं न सम्भवति । दुःखं चावश्यहेयम् । विवेकहानं चानयोरेकभाजनपतितत्रिपमधुनोरिव दुःशकमत एव द्वे अपि त्यज्ये-
ते । अतश्च संसारान्मोक्षः श्रेयान् । यतोऽल दुःखं सर्वथा न स्याद् । चरमियती कादाचित्कमुखमात्रापि त्यक्त्वा न तु तस्याः कृते दुःखभार इयान् ब्यूढ इति ।

शंका—हमारे ज्ञान सुखरहित मोक्षमें हेयोपदेयके विचारमें चतुर पुरुषोंको संसारकी अपेक्षा विशेष लभ है। भावार्थ—
 अब वैशेषिक ऐसा कहते हैं कि, संसारमें जो सुख होता है; वह दुःखसे अस्पृशित नहीं होता है। अर्थात् संसारसंबंधी सुखकी
 आदिमें भी दुःख होता है और अंतमें भी दुःख होता है। और दुःख अवश्य छोड़ने योग्य है। तथा जैसे एक पात्रमें गिरे हुए मधु
 (सहत) तथा विष (जहर) इन; दोनोंमेंसे विषको निकालकर उसका त्याग कर देना अत्यंत कठिन है; उसी प्रकार इन सांसारिक
 सुखदुःखोंमेंसे दुःखको जुदा करके उस दुःखका त्याग कर देना भी बहुत ही कठिन है। इस कारण संसार संबंधी सुख तथा दुःख
 ये दोनों ही छोड़े जाते हैं। अतः संसारसे मोक्ष ही अच्छा है कि; जिसमें सर्वथा दुःख होता ही नहीं है। क्योंकि; यह कभी कभी
 होनेवाले सुखका अंश भी यदि छोड़ दिया जावे तो अच्छा है, परंतु उस थोड़ेसे सुखके अर्थ इतने दुःखोंके समूहका सहन
 करना (भोगना) अच्छा नहीं है।

तदेतत्सत्यम् । सांसारिकसुखस्य मधुदिग्धधाराकरालमण्डलाग्रआसवद्दुःखरूपत्वादेव युक्तैव मुमुक्षुणां तज्जि-
 हासा । किन्त्वात्यन्तिकसुखविशेषलिप्सूनामेव । इहापि विषयनिवृत्तिजं सुखमनुभवसिद्धमेव । तद्यदि मोक्षे विशिष्टं
 नास्ति ततो मेक्षो दुःखरूप एवापद्यत इत्यर्थः । ये अपि विषमधुनी एकत्र सम्युक्ते त्यज्येते ते अपि सुखविशेष-
 लिप्सयैव । किञ्च यथा प्राणिनां संसारावस्थायां सुखमिष्टं, दुःखं चानिष्टम् । तथा मोक्षावस्थायां दुःखनिवृत्तिरिष्टा,
 सुखनिवृत्तिस्त्वनिष्टैव । ततो यदि त्वदभिमतो मोक्षः स्यात्तदा न प्रेक्षावतां प्रवृत्तिः स्यात् । भवति चेयम् । ततः
 सिद्धो मोक्षः सुखसंवेदनस्वभावः । प्रेक्षावत्प्रवृत्तेरन्यथानुपपत्तेः ।

समाधान—यह वैशेषिकोंका कहना सत्य है। क्योंकि संसारसंबंधी जो सुख है; वह सहतसे लिपटी हुई तथा तीक्ष्ण धार-
 वाली ऐसी जो तलवारकी नोंक (अणी) है; उसको भक्षणकरने (चाटने) के समान है अर्थात् जैसे सहतसे लिपटी हुई तलवारकी
 नोंकको चाटनेसे प्रथम ही कुछ सुख और अंतमें अत्यंत दुःख होता है; उसीप्रकार संसारका सुख भी पहिले कुछ सुखरूप और
 अंतमें महादुःखरूप ही है; इस कारण मोक्षके इच्छक पुरुष जो उस सुखको छोड़नेकी इच्छा करते हैं; वह युक्त (ठीक) ही है।
 परंतु जो एक प्रकारके आत्यंतिक सुखको चाहनेवाले मुमुक्षुजन हैं; उन्हींको सांसारिक सुखका त्याग करना चाहिये। अर्थात् यदि
 मोक्षमें आत्यन्तिक सुख होवे तब तो मोक्षाभिलाषियोंको सांसारिकसुखके त्यागदेनेकी इच्छाका करना उचित ही है और मोक्ष-

में आत्यंतिक सुख न होवे तो संसारसंबंधी सुखको त्याग देना ठीक नहीं है। और विषयोंकी रहिततासे उत्पन्न होनेवाला सुख यहां भी अनुभव सिद्ध है अर्थात् इस संसारमें भी जो जो वैराग्यका अवलम्बन करके विषयोंका त्याग करते हैं, उनको एक प्रकारका विलक्षण सुख अनुभव गौचर होता है; इस कारण यदि मोक्षमें सांसारिक सुखसे विशिष्ट (ऊंचे दर्जेका) सुख नहीं है तो, वह तुम्हारा मोक्ष दुःखरूप ही हो जावेगा। तथा जो एक भाजनमें मिले हुए जहर और सहतका त्याग किया जाता है, वह भी विशेष सुखकी इच्छासे ही किया जाता है अर्थात् उस मिले हुए विषमयुक्त भक्षण करनेकी अपेक्षा भक्षण न करनेमें सुख अधिक है; इसीकारण उन दोनोंका त्याग किया जाता है। यदि उनके त्यागमें विशेष सुख न हो तो त्याग कदापि न करें। और भी विशेष यह है कि, जैसे जीवोंके संसारअवस्थामें सुख तो इष्ट है और दुःख अनिष्ट है, उसी प्रकार जीवोंके मोक्षअवस्थामें भी दुःखकी रहितता इष्ट है और सुखकी रहितता अनिष्ट ही है, अर्थात् जीव मोक्षमें भी दुःखसे छूटनेकी तथा सुखको भोगनेकी ही इच्छा करते हैं। इसकारण यदि तुम वैशेषिकोंका माना हुआ ज्ञान—सुख रहित ही मोक्ष होवे तो उस ज्ञान सुख रहित मोक्षमें प्रेक्षावानोंकी प्रवृत्ति न होवे अर्थात् विचारवान पुरुष उस मोक्षकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न न करें। परंतु विचारवानोंकी मोक्षके अर्थ प्रवृत्ति होती है अतः मोक्ष ' ज्ञान तथा सुखरूप स्वभावका धारक है ' यह सिद्ध हो गया। क्योंकि यदि ज्ञान—सुखरूप मोक्ष न होवे तो अन्यप्रकारसे मोक्षमें विचारवानोंकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है।

अथ यदि सुखसंवेदनैकस्वभावो मोक्षः स्यात्तदा तद्रागेण प्रवर्त्तमानो मुमुक्षुर्न मोक्षमधिगच्छेत् । नहि रागिणां मोक्षोऽस्ति । रागस्य बन्धनात्मकत्वात् । नैवम् । सांसारिकसुख एव रागो बन्धनात्मको विषयादिप्रवृत्तिहेतुत्वात् । मोक्षसुखे तु रागस्तन्निवृत्तिहेतुत्वान्न बन्धनात्मकः । परां कोटिमारूढस्य च स्पृहामात्ररूपोऽप्यसौ निवर्तते । “मोक्षे भवे च सर्वत्र निःस्पृहो मुनिसत्तमः ” इति वचनात् । अन्यथा भवत्प्रक्षेऽपि दुःखनिवृत्त्यात्मकमोक्षाङ्गीकृतौ दुःखविषयं कथायकालुष्यं केन निषिध्येत । इति सिद्धं कृत्तकर्मक्षयात्परमसुखसंवेदनात्मको मोक्षो न बुद्ध्यादिविशेषगुणोच्छेदरूप इति ।

शंका—यदि ज्ञान तथा सुखरूप ही मोक्ष होवे तो उस ज्ञानसुखरूप मोक्षके रागसे प्रवृत्ति करता हुआ मुमुक्षुपुरुष मोक्षको ही प्राप्त न होवे। क्योंकि राग बंधनरूप है; इसकारण रागियोंका मोक्ष नहीं होता है। समाधान—ऐसा न कहना चाहिये। क्योंकि;

संसारसुखमें जो रागका करना है वही बंधन रूप है । कारण कि; वह सांसारिकसुखमें रागका करना विषयादिकोंमें प्रवृत्तिका कारण है अर्थात् सांसारिकसुखमें राग होनेसे जीवकी विषय आदिमें प्रवृत्ति होती है और मोक्षसुखमें जो अनुराग है; वह विषयआदिमें निवृत्तिका कारण है अर्थात् मोक्षसुखमें रागके होनेसे जीवके विषयोंसे रहितता होती है; इस कारण वह मोक्ष सुखमें रागका करना बंधनरूप नहीं है । तथा उत्कृष्ट कोटि (कक्षा व श्रेणी) में चढे हुए जीवके तो केवल इच्छारूप राग भी दूर हो जाता है अर्थात् ऊंचे दर्जेको प्राप्त हुए आत्माके तो उस मोक्षसुखमें भी इच्छा नहीं रहती है । क्योंकि; 'जो उत्तम मुनि होता है; वह मोक्ष और संसारमें अर्थात् सभीमें इच्छा रहित रहता है' ऐसा वचन है । यदि ऐसा न होवे तो दुःखकी रहिततारूप मोक्षको स्वीकार करनेवाले तुम्हारे पक्षमें भी दुःखके विषयमें जो कषायरूप कालुष्य उत्पन्न होता है; उसका कौन निषेध कर सकता है । भावार्थ—जैसे सुखरूप मोक्ष माननेसे मोक्षसुखमें राग होता है, उसी प्रकार दुःखरहित मोक्षके माननेसे दुःखमें द्वेष तथा मोक्षमें राग उत्पन्न होता है; और राग तथा द्वेष ये दोनोंही बंधनरूप है. इस कारण पराकाष्ठाको प्राप्त हुए योगिके इच्छाका अभाव हो जाता है, यह तुमकी भी मानना पड़ेगा । इस पूर्वोक्त प्रकारसे संपूर्ण कर्मोंका नाश होनेसे जो परमसुख और परमज्ञानस्वरूप मोक्ष होता है; वही यथार्थ मोक्ष है और तुम्हारा माना हुआ जो बुद्धि आदि नव विशेषगुणोंका नाश है; उस स्वरूप मोक्ष नहीं है ।

अपि च भोस्तपस्विन् ! कथंचिदेषामुच्छेदोऽस्माकमप्यभिमत एवेति मा विरूपं मनः कृथाः । तथाहि बुद्धिशब्देन ज्ञानमुच्यते । तच्च मतिश्रुतावधिमनःपर्यायकेवलभेदात्पञ्चधा । तत्राद्यं ज्ञानचतुष्टयं क्षायोपशमिकत्वात्केवलज्ञानविर्भावकाल एव प्रलीनम् । “ नष्टं सिद्धं छान्दसिच्छिन्नं नाणे ” इत्यागमात् । केवलं तु सर्वद्रव्यपर्यायगतं क्षायिकत्वेन निष्कलङ्कात्मस्वरूपत्वादस्यैव मोक्षावस्थायाम् । सुखं तु वैषयिकं तत्र नास्ति । तद्धेतोर्वेदनीयकर्मणोऽभावात् । यत्तु निरतिशयमक्षयमनपेक्षमनन्तं च सुखं तद्भावं विद्यते । दुःखस्य चाधर्ममूलत्वात्तदुच्छेदादुच्छेदः ।

और हे तपस्विजनो १ किसी अपेक्षासे हमको भी इन बुद्धि आदि गुणोंका नाश अभीष्ट ही है अर्थात् हम भी कथंचित् बुद्धि आदिका नाश मानते ही हैं; इस कारण मनको विरूप (उदास अथवा मलीन) मत करो । सोही दिखाते हैं;—बुद्धि शब्दसे ज्ञान कहा जाता है अर्थात् हमारे मतमें बुद्धिसे ज्ञानका ग्रहण है और वह ज्ञान—मति १, श्रुत २, अवधि ३, मनः पर्यय ४ और केवल ५; इन भेदोंसे पांच प्रकारका है । उनमें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, और मनःपर्ययज्ञान ये चारों क्षायोपशमिक हैं

अर्थात् ज्ञानावरणीय कर्मके एकदेशक्षय और उपशमसे उत्पन्न होते हैं; इसकारण जब आत्माके केवलज्ञानकी प्रकटता होती है उसी समय नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि 'क्षयोपशमिक ज्ञानोंके नष्ट होनेपर' ऐसा वचन है। और सब द्रव्य तथा पर्यायोंमें प्राप्त अर्थात् समस्त द्रव्य और पर्यायोंको विषय करनेवाला (जाननेवाला) जो केवल ज्ञान है; वह तो ज्ञानावरणीयकर्मके सर्वथा क्षय (नाश) होनेसे उत्पन्न होता है, इसकारण आत्माका निर्मलस्वरूप होनेसे मोक्ष अवस्थामें है ही है। और विषयोंसे उत्पन्न होनेवाला सुख (नाश) तो उस मोक्ष अवस्थामें नहीं है। क्योंकि; उस विषयोंसे उत्पन्न होनेवाले सुखका कारण जो वेदनीय नामा कर्म है; उसका मोक्ष अवस्थामें अभाव है। और जो निरतिशय, अविनाशी तथा सतंत्र (किसी दूसरेकी अपेक्षा न करनेवाला) और जिसका कभी अंत (पार) न आवे ऐसा सुख तो उस मोक्षअवस्थामें पूर्णरूपसे विद्यमान है। दुःखका कारण अधर्म (पाप) है; उस अधर्मका मोक्ष अवस्थामें अभाव हो गया है; इसकारण दुःखका भी मोक्ष अवस्थामें नाश है।

नन्वेवं सुखस्यापि धर्ममूलत्वाच्चर्मस्य चोच्छेदात्तदपि न युज्यते। " पुण्यपापक्षयो मोक्षः " इत्यागमवचनात्।
 क्षयोपनतस्त्वस्यैव प्रयत्नो दानादिलब्धिवत्। प्रयत्नश्च क्रियाव्यापारगोचरो नास्त्येव। कृतकृत्यत्वात्। इच्छाद्वेषयोः पुनर्मोह-
 र्थायोरुच्छेदोऽस्त्येव। तदभावे मोक्षस्यैवायोगात्। संस्कारश्च मतिज्ञानविशेष एव। तस्य च मोहक्षयानन्तरमेव
 भेदत्वात्तस्य च समूलकायं कथितत्वादभावः। प्रयत्नश्च क्रियाव्यापारगोचरो नास्त्येव। कृतकृत्यत्वात्। इच्छाद्वेषयोः पुनर्मोह-
 र्थायोरुच्छेदोऽस्त्येव। तदभावे मोक्षस्यैवायोगात्। संस्कारश्च मतिज्ञानविशेष एव। तस्य च मोहक्षयानन्तरमेव
 शंका—जैसे अधर्ममूलक दुःखका अधर्मके नष्ट होनेसे नाश हो जाता है; उसीप्रकार सुखका भी मूल धर्म है और मुक्तात्माके
 धर्मका उच्छेद होगया है। अतः मुक्तात्माके सुख भी नहीं रहता है। क्योंकि; ' पुण्य तथा पापका जो नाश है; वही मोक्ष है'
 ऐसा आगमका वचन है। समाधान—यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि विषयजनित सुख ही धर्ममूलक है; इसकारण धर्मका
 नाश होनेसे मुक्तात्माके उस विषयजनितसुखका ही नाश होता है और उस धर्मकी अपेक्षा न करनेवाला जो सामाविक सुख है;
 उसका मुक्तात्माके नाश नहीं होता है। तथा इच्छा और द्वेष ये दोनों मोहके भेद हैं; उस मोहको मुक्तजीवने मूलसहित उखाड़
 (नष्ट कर) डाला है; अतः मोक्षअवस्थामें जीवके इच्छा तथा द्वेषका अभाव है। और क्रियाके व्यापारके गोचर जो प्रयत्न है;

वह तो मुक्तिमें है ही नहीं। क्योंकि; मुक्तात्मा कृतकृत्य है अर्थात् मुक्तजीवको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहा है, जो कुछ करना था; उसको वह कर चुका है। और वीर्यान्तरायकर्मके क्षयसे उत्पन्न हुआ जो प्रयत्न है; वह तो मुक्तिमें है ही है। दान आदि लब्धिके समान। भावार्थ—जैसे—मुक्तजीवके दानान्तरायकर्मके क्षयसे दानलब्धि, भोगान्तरायकर्मके क्षयसे भोगलब्धि आदि लब्धियें उत्पन्न हुई हैं। उसी प्रकार वीर्यान्तरायकर्मके नाशसे उत्पन्न जो वीर्यलब्धिरूप प्रयत्न है; वह भी मुक्तात्माके है ही। परंतु मुक्तात्मा कृतार्थ है; इस कारण वह प्रयत्न उसको कहीं उपयोग (काम) में नहीं आता है। तथा पुण्य और पाप है दूसरे पर्याय जिनके ऐसे जो धर्म और अधर्म है; उनका नाश तो मुक्तात्माके है ही है। क्योंकि उन धर्म अधर्मके नाशके विना जीवको मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती है। और जो संस्कार है, वह मतिज्ञानका ही भेद है और उस संस्कारका आत्माके जब मोहका नाश हुआ उसी समय नाश हो चुका है; अतः मुक्तात्माके संस्कार भी नहीं है। सो इस पूर्वोक्तप्रकारसे ' मोक्ष ज्ञान तथा सुखरूप नहीं है ' ऐसा जो तुम्हारा कथन है; वह युक्ति रहित है अर्थात् ज्ञान—सुखरहित मोक्षको माननेमें कोई भी युक्ति तुम वैशेषिकोंके पास नहीं है। इसप्रकार काव्यका अर्थ है ॥ ८ ॥

अथ ते वादिनः कायप्रमाणत्वमात्मनः स्वयं संवेद्यमानमन्यपल्प्य तादृशकुशास्त्रशस्त्रसंपर्कविनष्टदृष्टयस्तस्य विभुत्वं मन्यन्तेऽतस्तत्त्वोपालम्भमाह ।—

अब उसीप्रकारके कुशास्त्ररूपी शस्त्रके लग जानेसे नष्ट होगये है नेत्र जिनके ऐसे वे वैशेषिक आत्माकी स्वयं जाननेमें आती हुई भी शरीरप्रमाणताको गुप्त करके आत्माको सर्वव्यापक मानते है भावार्थ—यद्यपि आत्मा शरीरप्रमाण है तथापि वैशेषिक उसको सर्वव्यापक मानते है; इस कारण अग्निम काव्यसे आत्माको सर्वव्यापक माननेमें उपालम्भ देते है।

यत्रैव यो दृष्टगुणः स तत्र कुम्भादिवन्निष्प्रतिपक्षमेतत् ।
तथापि देहाद्दहिरात्मतत्त्वमतत्त्ववादोपहताः पठन्ति ॥ ९ ॥

काव्यभावार्थः—जैसे घटके रूप आदि गुण जहां हैं; वहां ही वह घट भी रहता है; उसी

प्रकार जिस पदार्थके गुण जिस स्थलमें देखे जाते हैं; वह पदार्थ उसी स्थलमें मिलता है। यह कथन बाधकरहित है। तथापि कुतत्ववादसे व्यामोहको प्राप्त हुए वैशेषिक आत्मानामक पदार्थको देहके बाहर भी रहनेवाला कहते हैं ॥ ९ ॥

यत्रैव देशे यः पदार्थो दृश्युणो दृष्टाः प्रत्यक्षादिप्रमाणतोऽनुभूता गुणा धर्मा यस्य स तथा स पदार्थस्तत्रैव विवक्षितदेश एवोपपद्यते (इति क्रियाव्याहारो गम्यः) (पूर्वस्यैवकारस्यावधारणार्थस्यात्राप्यभिसम्बन्धादेर्यत्रैव देशे रूपादयो गुणा उपलभ्यन्ते तत्रैव तस्यास्तित्वं प्रतीयते नान्यत्र । एवमात्मनोऽपि गुणाश्चैतन्यादयो देह एव दृश्यन्ते न बहिः । तस्मात्तत्प्रमाण एवायमिति । यद्यपि पुष्पादीनामवस्थानदेशादन्यत्रापि गुणाश्चैतन्यादयो उपलभ्यन्ते तथापि तेन न व्यभिचारः । तदाश्रया हि गन्धादिपुङ्गलास्तेषां च वैश्रसिक्या प्रायोगिक्या वा गत्या गतिमत्त्वेन तदुपलम्भकघ्राणादिदेशं यावदागमनोपपत्तेरिति । अत एवाह निष्प्रतिपक्षमेतदिति । एतन्निष्प्रतिपक्षं वाधकरहितम् । न हि दृष्टेऽनुपपन्नं नामेति न्यायात् ।

व्याख्यार्थः—“ यत्रैव ” जिसे देशमें अर्थात् स्थानमें ‘ यः ’ जो पदार्थ ‘ दृश्युणः ’ देखे हैं अर्थात् प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे अनुभवगोचर किये हैं गुण अर्थात् धर्म जिसके ऐसा है “ सः ” वह पदार्थ ‘ तत्रैव ’ उसी स्थानमें “ उपपद्यते ” प्राप्त होता है। भावार्थ—जहां जिसपदार्थके गुण देखनेमें आते हैं; वहां ही वह पदार्थ रहता है। [यहां पर ‘ उपपद्यते ’ प्राप्त होता अर्थात् कहनेवाला एवकार है; उसके आगे भी लगा देनेसे ‘ वह पदार्थ उसी स्थानमें है अन्य स्थानोंमें नहीं है; इस प्रकार अन्ययोगव्यवच्छेद होगया है] अब इसी ऊपर कहे हुए अर्थको दृष्टान्तद्वारा दृढ करते हैं। “ कुम्भादिवत् ” घट आदिके समान। भावार्थ—जैसे घटआदि पदार्थके रूप आदि गुण जिस स्थानमें देखे जाते हैं; उसी स्थानमें उस घटादिपदार्थकी विद्यमानता प्रतीत की जाती है, और उस स्थानसे भिन्न स्थानमें उन घटादिकी विद्यमानता नहीं जानी जाती

है। इसी प्रकारसे आत्मके जो ज्ञान आदि गुण है; वे शरीरमें ही देखे जाते हैं; शरीरके बाहर नहीं देखे जाते हैं; इसकारण आत्मा शरीरप्रमाण ही है अर्थात् जितना बड़ा उस आत्माका शरीर है; उतना बड़ा ही वह आत्मा है। यद्यपि पुष्प आदिकोंका गंध आदि गुण जहांपर पुष्पादि विद्यमान है; उस स्थानसे भिन्न दूसरे स्थानमें भी मिलता है; तथापि उस भिन्नस्थानमें गुणोंके मिलनेसे यहां पर व्यभिचार नहीं होता है। क्योंकि; उन पुष्पादिमें रहनेवाले गंधआदि गुणोंके पुद्गल स्वभावसे उत्पन्न हुई अथवा प्रयोगसे उत्पन्न हुई गतिसे गमनके धारक है अर्थात् वे गंधादि पुद्गल स्वभावसे अथवा वायु आदिके प्रयोग (प्रयत्न) से गमन करते हैं; इस कारण पुष्प आदिमें स्थित गंधादिपुद्गलोंका नासिकाइन्द्रिय आदि स्थानों तक आजाना सिद्ध है। इसी कारण आचार्यमहाराज कहते हैं कि,—“ एतत् ” जिसके गुण जहां मिलते हैं, वह वहां ही रहता है; यह जो हमारा कथन है, वह “ निष्प्रतिपक्षम् ” बाधक रहित है। क्योंकि, ‘ प्रत्यक्षसे देखे हुएमें असिद्धताकी संभावना नहीं है ’ ऐसा न्याय है। भावार्थ—हमारा उक्त कथन प्रत्यक्षप्रमाणसे सिद्ध है; अतः उसका कोई खंडन करनेवाला नहीं है।

ननु मन्त्रादीनां भिन्नदेशस्थानामव्याकर्षणोच्चाटनादिको गुणो योजनशतादेः परतोऽपि दृश्यत इत्यस्ति बाधकमिति चेत् । मैवं वचः । स हि न खलु मन्त्रादीनां गुणः किन्तु तदधिष्ठातृदेवतानाम् । तासां चाकर्षणीयोच्चाटनाद्यादिदेशगमने कौतस्कुतोऽयमुपालम्भः । न जातु गुणा गुणिनमतिरिच्य वर्तन्त इति । अथोत्तरार्द्धं व्याख्यायते । तथापीत्यादि । तथाप्येवं निःसपत्वं व्यवस्थितेऽपि तत्त्वे अतत्त्ववादीपहताः (अनाचार इत्यत्रैव नवः कुत्सार्थत्वात्) कुत्सिततत्त्ववादेन तदभिमतासाभासपुरुषविशेषप्रणीतेन तत्त्वाभासप्ररूपेणोपहता व्यामोहिता देहाद्बहिःशरीरव्यतिरिक्तेऽपि देशे आत्मतत्त्वमात्मरूपं पठन्ति । शास्त्ररूपतया प्रणयन्ते । इत्यक्षरार्थः ।

शंका—भिन्नदेशमें विद्यमान मंत्र आदिका सौ १०० योजन (चारसौ ४०० कोश) आदिसे भी दूर पर्यन्त आकर्षण, उच्चाटना आदिरूप गुण देखा जाता है। यही आपके कथनका बाधक है। भावार्थ—एक स्थानपर सिद्ध कियेहुए मंत्रका गुण; उस स्थानसे सौ योजनसे भी अधिक दूरपर रहनेवाले पुरुषका आकर्षण तथा उच्चाटन करता है, इस कारण मंत्रके स्थानसे भिन्न स्थानमें मिलनेवाला जो मंत्रका गुण है; वह आपके उक्त कथनका बाधक है। समाधान—ऐसा मत कहो। क्योंकि वह गुण, उन मंत्र आदिका नहीं है; किन्तु उन मंत्र आदिके अधिष्ठाता (स्वामी) जो देव है, उनका गुण है। और वे देव आकर्षण करने-

योग्य तथा उच्चाटन करनेयोग्य स्थानोंमें स्वयं चले जाते हैं; इस कारण यह तुम्हारा उपालम्ब कहलसे हो सकता है। भावार्थ— आकर्षण आदि गुण देवोंका है, अतः मंत्रके सिद्ध करनेसे उस मंत्रका स्वामी देव प्रसन्न होकर जिस स्थानमें स्थित पुरुषका आकर्षण करना है; उसी स्थानमें चला जाता है; इस कारण मंत्र आदिके गुणोंको भिन्न देशमें मिलते हुए बताकर जो तुम हमारे कथनोंमें दोष देते हो; वह दोष हमारे कथनमें नहीं होता है। इससे सिद्ध हुआ कि,—जो गुण है, वे गुणी (पदार्थ) को छोड़कर कदाचित् भी नहीं रहते हैं। अब काव्यके तथापीत्यादि उचरार्थकी व्याख्या करते हैं। “तथापि” इस उक्त प्रकारसे बाधकरहित जैसे ही वैसे तत्त्वको स्थित होनेपर भी अर्थात् हमारा सिद्धान्त विना बाधकके सिद्ध होगया है तौ भी “अतस्त्ववादोपहताः” निन्दित तत्त्ववादसे अर्थात् उनके अभीष्ट आप्तमासरूप किसी पुरुषके द्वारा रचे हुए तत्त्वमासोंके प्ररूपणसे व्यामोहको प्राप्त हुए वैशेषिक [जैसे ‘अनाचार’ यहांपर कुत्सित अर्थमें नव् समास होता है; उसी प्रकार अतस्त्ववाद यहांपर भी कुत्सित अर्थमें नव् समास किया गया है।] “देहाद्बुद्धिः” शरीरसे भिन्न स्थानमें भी “आत्मतत्त्वं” आत्मापना “पठन्ति” पढ़ते हैं अर्थात् शास्त्ररूपतासे कहते हैं। भावार्थ—हे भगवन् ? हमारा कथन निर्वाध है तौ भी वैशेषिक मतवाले किसी अपने अभीष्ट आप्तमाससे रचा हुआ जो अतस्त्ववाद है; उससे अमको प्राप्त होकर आत्मा शरीरसे बाहर भी रहता है; ऐसा शास्त्रकी आज्ञारूप उपदेश देते हैं। इस प्रकार मूलके अक्षरोंका अर्थ है।

भावार्थस्त्वयम् । आत्मा सर्वगतो न भवति । सर्वत्र तद्गुणानुपलब्धेः । यो यः सर्वत्रानुपलभ्यमानगुणः स सरिक्तदेशे तद्गुणानां बुद्ध्यादीनां वादिना प्रतिवादिना वाऽनभ्युपगमात् । तथा च भट्टः श्रीधरः “सर्वगतत्वेऽव्यात्मनो देहप्रदेशे ज्ञातृत्वम् । नान्यत्र । शरीरस्योपभोगायतनत्वात् । अन्यथा तस्य वैयर्थ्यादिति ” । भावार्थ तो यह है कि, आत्मा सर्वव्यापी नहीं है। क्योंकि, सर्व स्थानोंमें आत्माके गुणोंकी प्राप्ति नहीं होती है। जिस जिस पदार्थके गुण सब स्थानोंमें नहीं मिलते हैं; वह वह पदार्थ सर्वव्यापी नहीं होता है। जैसे कि,—घटके गुण सर्वत्र न मिलनेसे घट सर्वव्यापी नहीं है। उस घटके समान ही यह आत्मा है; इस कारण आत्मा सर्वव्यापी नहीं है। व्यतिरेकदृष्टान्तमें आकाश आदि हैं अर्थात् आकाश आदिके गुण सब स्थानोंमें प्राप्त होते हैं, अतः आकाश आदि पदार्थ सर्वव्यापी भी हैं। और हमने जो

यहांपर यह आत्माके गुणोंकी प्राप्ति न होनेरूप हेतु दिया है; सो असिद्ध नहीं है। क्योंकि; वादी (वैशेषिक) तथा प्रतिवादी (जैनी) इन दोनोंने ही आत्माके बुद्धि आदि गुणोंको शरीरसे भिन्न स्थानमें नहीं माने है। सो ही श्रीधरभट्ट कहता है कि; ' यद्यपि आत्मा सर्वव्यापी है; तथापि उस आत्माके ज्ञाता (जाननेवाला) पना अपने शरीरके प्रदेशोंमें ही है। दूसरे स्थानोंमें नहीं है। क्योंकि; शरीर जो है सो उपभोगका स्थान है। यदि शरीर उपभोगका स्थान न हो तो शरीर व्यर्थ हो जावे। भावार्थ—आत्माको जो शरीर मिला है, वह उपभोगके अर्थ है, इसकारण आत्मा शरीरमें रहकर ही पदार्थोंको जानता है। इस कथनसे श्रीधरभट्टने प्रकट किया है कि; आत्माके बुद्धि आदि गुण शरीरसे बाहर नहीं रहते है, इस कारण हमने जो हेतु दिया है, वह असिद्ध नहीं है।

अथास्त्यदृष्टमात्मनो विशेषगुणस्तच्च सर्वोत्पत्तिमतां निमित्तं सर्वव्यापकं च। कथमितरथा द्वीपान्तरादिष्वपि प्रतिनियतदेशवर्तिपुरुषोपभोग्यानि कनकरत्नचन्दनाङ्गनादीनि तेनोत्पाद्यन्ते। गुणश्च गुणिनं विहाय न वर्तते। अतोऽनुमीयते सर्वगत आत्मेति। नैवम्। अदृष्टस्य सर्वगतत्वसाधने प्रमाणाऽभावात्। अथास्त्येव प्रमाणं वन्देरूद्धज्वलनं वायोस्तिर्यक्पवनं चादृष्टकारितमिति चेत्—न तयोस्तत्स्वभावत्वादेव तत्सिद्धेर्दहनस्य दहनशक्तिवत्। साय्यदृष्टकारिता चेत्तर्हि जगन्नयवैचित्रीसूत्रणेऽपि तदेव सूत्रधारारायतां किमीश्वरकल्पनया। तन्नायमसिद्धो हेतुः। न चानैकान्तिकः। साध्यसाधनयोर्व्याप्तिग्रहणेन व्यभिचाराऽभावात्। नापि विरुद्धः। अत्यन्तं विपक्षव्यावृत्तत्वात्। आत्मगुणाश्च बुद्ध्यादयः शरीर एवोपलभ्यन्ते ततो गुणिनापि तत्रैव भाव्यम्। इति सिद्धः। कायप्रमाण आत्मा।

शंका—आत्माके अदृष्टनामक एक विशेषगुण है [बुद्धि आदि नव विशेष गुणोंमें जो धर्म और अधर्म नामक गुण है, वे दोनों अदृष्ट कहलाते है] और वह अदृष्ट सब उत्पन्न होनेवालोंका निमित्त है अर्थात् जो संसारमें पदार्थ उत्पन्न होते है, उन सबके उत्पन्न होनेमें अदृष्ट ही कारण है, तथा वह अदृष्ट सर्वव्यापक भी है। क्योंकि; यदि वह अदृष्ट सर्वव्यापक न होते तो एक नियतस्थान (मुर्करर जगह) में रहनेवाले पुरुषके भोगने योग्य जो सुवर्ण, रत्न, चन्दन, तथा स्त्री आदि पदार्थ है; उनको अन्य अन्य द्वीपोंमें भी कैसे उत्पन्न करता है। भावार्थ—एक स्थानमें रहनेवाले पुरुषके भोगनेके लिये जिस द्वीपमें वह पुरुष रहता है, उस द्वीपसे दूसरे द्वीपोंमें भी वह अदृष्ट सुवर्ण आदि पदार्थोंको उत्पन्न करता है; इससे जाना जाता है कि; अदृष्ट सर्वव्यापी

है। और जो गुण होता है, वह गुणी (अपने आधाररूप पदार्थ) को छोड़कर नहीं रहता है, इसकारण अनुमान किया जाता है कि; आत्मा सर्वव्यापक है अर्थात् आत्माके अदृष्टगुणको सर्वत्र देखनेसे अनुमान होता है कि; अदृष्टका धारक आत्मा सर्वव्यापक है। समाधान—ऐसा मत कहो। क्योंकि; आत्माका अदृष्टगुण सर्वगत है; इस मतको सिद्ध करनेमें कोई प्रमाण नहीं है। यदि कहे कि; अशिका ऊचा जलना अर्थात् अशिकी शिखाका ऊचा जाना और वायुका तिर्यक् (तिरछा) गमन करना अदृष्टका वशसे तिरछा गमन करता है। भावार्थ—अग्नि सर्वत्र अदृष्टके वलसे ऊर्द्ध गमन करता है और वायु भी सर्वत्र अदृष्टके अग्निमें दग्ध करने (जलने) की शक्ति समावसे है अर्थात् जैसे अशिका दग्धकरना समाव है, उसी प्रकार अशिका ऊर्द्धगमन-रूप तथा वायुका तिर्यक्गमनरूप भी समाव है। यदि कहो कि; अग्निमें जो दहनशक्ति (जलनेकी ताकत) है; वह भी अदृष्टके करई हुई है अर्थात् अदृष्टके वलसे ही समाव है। यदि कहो कि; अग्निमें जो दहनशक्ति (जलनेकी ताकत) है; वह भी अदृष्टके सूत्रधारकीसी तरह आचरण करै; ईश्वरकी कल्पनासे क्या है? भावार्थ—यदि तुम (वैशेषिक) पदार्थोंके समावोंको भी अदृष्टसे उत्पन्न हुए मानते हो तो फिर ' तीन जगतकी विचित्राको रचनेवाला ईश्वर है ' यह बुझारी कल्पना व्यर्थ है। क्योंकि अदृष्टसे ही तीनलोककी विचित्रता हो जावेगी। इसकारण यह हेतु असिद्ध नहीं है। भावार्थ—'आत्मा सर्वगत नहीं है। क्योंकि अदृष्टसे उपलभ्यमानगुण (सवस्थानोंमें नहीं मिलनेवाले गुणोंका धारक) है।' इस अनुमानके प्रयोगमें जो सर्वत्रानुपलभ्यमानगुणरूप हेतु दिया है; वह असिद्ध नहीं है। क्योंकि आत्माके गुण सब जगह नहीं मिलते हैं। और यह सर्वत्रानुपलभ्यमानगुणरूप हेतु कान्तिक भी नहीं है। क्योंकि आत्माके गुणोंका धारक) है।' इस अनुमानके प्रयोगमें जो सर्वत्रानुपलभ्यमानगुणरूप हेतु अने-प्रकारसे परस्पर व्याप्ति होती है। तथा विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि विपक्षसे अत्यंत व्यावृत्त है। भावार्थ—असर्वगतत्त्व साध्य उसके अभावरूप सर्वगतपनेको धारण करने वाला जो कोई है, वह विपक्ष कहलाता है; उस विपक्षसे यह सर्वत्रानुपलभ्यमानगुण-रूप हेतु अत्यंत व्यावृत्त (सर्वथा भिन्न) है, इस कारण यह हेतु विरुद्ध भी नहीं है। और आत्माके बुद्धि आदि गुण हैं; वे शरीरमें ही मिलते हैं; इस कारण गुणी (आत्मा) को भी शरीरमें ही रहना चाहिये। इस प्रकार आत्मा शरीरप्रमाण है; यह सिद्ध हो गया।

अन्यच्च त्वयात्मनां बहुत्वमिष्यते “ नानात्मानो व्यवस्थातः ” इति वचनात् । ते च व्यापकास्तेषां प्रदीपप्र-
भासण्डलानामिव परस्परानुबन्धे तदाश्रितशुभाशुभकर्मणामपि परस्परं सङ्करः स्यात् । तथा चैकस्य शुभकर्मणा
अन्यः सुखी भवेदितरस्याऽशुभकर्मणा चान्यो दुःखीत्यसमञ्जसमापद्येत । अन्यच्चैकस्यैवात्मनः स्वोपात्तशुभक-
र्मविपाकेन सुखित्वं परोपाजिताशुभकर्मविपाकसम्बन्धेन च दुःखित्वमिति शुगपत्सुखदुःखसंवेदनप्रसङ्गः । अथ
स्वावष्टब्धभोगायतनमाश्रित्यैव शुभाशुभयोर्भोगस्तिर्हि स्वोपाजितमप्यदृष्टं कथं भोगायतनाद्बहिर्निष्क्रम्य वहेरुद्ध-
ज्वलनादिकं करोतीति चिन्त्यमेतत् ।

तथा व्यवस्थासे अर्थात् आत्माके जन्म-मरण आदिके भिन्न २ होनेसे आत्मा अनेक हैं, इस वचनसे तुमने बहुतसे आत्मा माने
है । और वे आत्मा व्यापक (सर्वगत) है, अतः जैसे प्रदीपोंकी प्रभाओंके समूह परस्पर (एक दूसरेमें) मिल जाते हैं; उसी
प्रकार उन आत्माओंके भी परस्पर मिलजानेसे उन आत्माओंमें रहनेवाले जो शुभ तथा अशुभ कर्म है; वे भी परस्पर मिल जावेंगे ।
और जब उन भिन्न २ आत्माओंके शुभ-अशुभकर्मोंका परस्पर मेल हो जावेगा तब एकके शुभकर्मसे दूसरा सुखी हो जावेगा तथा
दूसरेके अशुभ कर्मसे दूसरा दुःखी हो जावेगा अर्थात् जिनदत्तकी आत्माके जो शुभकर्म है; उनसे देवदत्तका आत्मा सुखी हो जावेगा
और देवदत्तकी आत्माके अशुभ कर्मोंसे जिनदत्तका आत्मा दुःखी हो जावेगा इस प्रकार असंजस अर्थात् अनुचित (बुडाला)
हो जावेगा । और यही नहीं किन्तु एक ही आत्मा अपनेसे उपाजन किये हुए शुभकर्मके उदयसे सुखी और दूसरे आत्माके द्वारा
उपाजन किये हुए अशुभकर्मोंसे दुःखी हो जावेगा, और इसप्रकार होनेसे एक आत्माके एक ही समयमें सुख तथा दुःखका अनुभव
होगा, जो कि; तुमको अनिष्ट है । यदि कहो कि,—आत्मा अपनेसे अवष्टब्ध (ग्रहण किये हुए) भोगायतनको आश्रय करके ही शुभ-
अशुभको भोगता है अर्थात् जिस शरीरको आत्माने धारण कर रक्खा है; उस शरीरका अवलंबन करके ही आत्मा शुभ-अशुभ
कर्मोंके सुख-दुःखरूप फलोंको भोगता है तो आत्माका स्वोपाजित भी अदृष्ट भोगायतनसे बाहर निकलकर अग्निके ऊर्द्धज्वलन
आदिको कैसे करता है, यह विचारने योग्य है भावार्थ—जब आत्मा अपने शरीरमें रह कर सुखदुःख भोगता है; ऐसा तुम

मानत हो तो फिर यह कैसे कहते हो कि; आत्माका अदृष्ट शरीरसे बाहर निकलकर अग्निको ऊंचा जलता है और वायुका तिरछा गमन कराता है, अतः तुमको इस अपने पूर्वापरविरुद्ध कथनपर विचार करना चाहिये ।

आत्मनां च सर्वगतत्व एकैकस्य सृष्टिकर्तृत्वप्रसङ्गः । सर्वगतत्वेनेश्वरान्तरनुप्रवेशस्य सम्भावनीयत्वात् । ईश्वरस्य वा तदन्तरनुप्रवेशे तस्याप्यकर्तृत्वापत्तिः । न हि क्षीरनीयोरन्योऽन्यसंबन्धे एकतरस्य पानादिक्रिया अन्यतरस्य न भवतीति युक्तं वक्तुम् । किञ्चात्मनः सर्वगतत्वे नरनारकादिपर्यायाणां युगपदनुभवानुपङ्गः । अथ भोगायतनाभ्युपगमाश्रायं दोष इति चेन्ननु स भोगायतनं सर्वात्मना अवष्टम्बीयादेकदेशेन वा । सर्वात्मना चेदस्मदभिमताङ्गीकारः । एकदेशेन चेत्सावयवत्वप्रसङ्गः परिपूर्णभोगाभावश्च ।

और आत्माओंके सर्वगत होनेमें एक एक (हरएक) आत्माके सृष्टिकर्तृताका प्रसंग होगा । क्योंकि; सर्वगतपनेसे आत्माओंका ईश्वरके भीतर भी प्रविष्ट हो जाना संभावित है । भावार्थ—सर्वगत आत्मा ईश्वरके भीतर भी प्रवेश कर सकते हैं; अतः ईश्वरका जो जगत्कर्तृत्व है; वह प्रत्येक आत्मामें आजानेसे हर एक आत्मा जगतका करनेवाला हो जावेगा; जो कि, तुमको अनिष्ट है । अथवा यदि ऐसा कहो कि; आत्मा ईश्वरमें प्रवेश नहीं करते हैं; किन्तु ईश्वर उन सब आत्माओंके भीतर प्रवेश करता है तो उस ईश्वरके अकर्तृता प्राप्त होगी । क्योंकि दूध और जलके परस्पर संबंधमें किसी एककी पानादिक्रिया दूसरेकी नहीं होती है अर्थात् मिले हुए दूध तथा जलमेंसे कोई एक दूध अथवा जल पीने आदिमें आता है और दूसरा नहीं आता है; यह कहना ठीक नहीं है । भावार्थ—जैसे मिले हुए दूध और जलकी पानादिक्रिया एक ही होती है; उसीप्रकार व्यापकतासे परस्पर मिले हुए ईश्वर तथा आत्माओंकी क्रिया भी एक ही होगी अर्थात् ईश्वर जगतको रचनेरूप क्रिया करेगा तो अन्य आत्मा भी जगतको रचेंगे और जो अन्य आत्मा जगतको रचनेरूप क्रिया न करेंगे तो ईश्वर भी जगतको नहीं रचेगा । और भी विशेष यह है कि; यदि तुम आत्माको सर्वगत मानोगे तो मनुष्यपर्याय, नारकपर्याय आदि जो पर्याय हैं; उनको एक ही समयमें अनुभव करनेका प्रसंग होगा अर्थात् आत्मा सर्वव्यापक होनेसे मनुष्यपर्याय आदि समस्त पर्यायोंका एक ही समयमें अनुभव करेगा । जोकि, तुम्हारे अनिष्ट है । अब यदि ऐसा कहो कि; हमने आत्माके भोगायतन को स्वीकार किया है; अर्थात् आत्मा शरीरमें रह कर ही भोग करता है; यह माना है; तो हम प्रश्न करते हैं कि; वह आत्मा भोगायतनको सर्वरूपसे धारण करता है; अथवा एक देशसे अर्थात्

आत्मा शरीरमें पूर्णरूपसे व्याप्त है, वा अपने एक प्रदेशसे शरीरको व्याप्त कर रक्खा है? यदि उत्तरमें कहो कि; आत्मा भोगायतन-को पूर्णरूपसे व्याप्त कर रक्खा है अर्थात् आत्मा शरीरमें पूर्णरूपसे विद्यमान है तब तो तुमने हमारे मतको स्वीकार किया अर्थात् हम (जैनी) भी यही मानते है कि; आत्मा शरीरमें पूर्णरूपसे रहता है, इस कारण कोई विवाद ही नहीं है । यदि कहो कि; आत्मा अपने किसी एक प्रदेशसेही शरीरको धारण कर रक्खा है; तो आत्माके सावयवपनेका प्रसंग होगा । भावार्थ—जो प्रदेशो (हिस्सों) का धारक होता है; वह अवयवी होता है और आत्माको तुमने अवयवी माना नहीं है; इसकारण तुमको अनिष्टकी प्राप्ति होगी । और परिपूर्ण भोगका अभाव भी होता है । भावार्थ—यदि आत्मा एक प्रदेशसे शरीरको व्याप्त करके रहे-गा तो जिस प्रदेशसे शरीरको धारण कर रक्खा है उसी प्रदेशमें सुख, दुःख आदिका भोग होगा अन्य प्रदेशोंमें नहीं; इसकारण समस्त प्रदेशोंमें भोग न होनेसे आत्माके परिपूर्णरूपसे भोगका भी अभाव होगा ।

अथात्मनो व्यापकत्वाऽभावे दिग्देशान्तरवर्त्तिपरमाणुभिर्युगपत्संयोगाऽभावादाद्यकर्माऽभावस्तदभावादन्यसंयोगस्य, तन्निमित्तशरीरस्य तेन तत्संबन्धस्य चाभावादनुपायसिद्धः सर्वदा सर्वेषां मोक्षः स्यात् । नैवम् । यद्येन संयुक्तं तदेव तं प्रत्युपसर्पतीति नियमाऽसम्भवात् । अयस्कान्तं प्रत्ययसस्तेनासंयुक्तस्याप्याकर्षणोपलब्धेः । अथासंयुक्तस्याप्याकर्षणे तच्छरीरारम्भं प्रत्येकमुखीभूतानां त्रिभुवनोदरविवरवर्त्तिपरमाणूनामुपसर्पणप्रसङ्गान्न जाने तच्छरीरं कियत्प्रमाणं स्यादिति चेत् संयुक्तस्याप्याकर्षणे कथं स एव दोषो न भवेत् । आत्मनो व्यापकत्वेन सकलपरमाणूनां तेन संयोगात् । अथ तद्भावाविशेषेऽप्यदृष्टवशाद्विवक्षितशरीरोत्पादनानुगुणा नियता एव परमाणव उपसर्पन्ति तदितरत्रापि तुल्यम् ।

शंका—यदि आत्मा व्यापक न होगा तो दिगन्तर (एक दिशासे दूसरी दिशा) में तथा देशान्तर (एक देशसे अर्थात् स्थानसे दूसरे देश) में रहनेवाले जो परमाणु है; उनके साथ आत्माका एक ही समयमें संयोग न होनेसे आद्यकर्मका अभाव होगा; उस आद्यकर्मका अभाव होनेसे अन्यसंयोगका अभाव होगा; उस अन्यसंयोगके अभावसे उस आद्यकर्मरूप निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले शरीरका अभाव हो जावेगा । और शरीरका अभाव होनेसे उस शरीरका जो आत्माके साथ संबन्ध है; उसका अभाव होगा, इसकारण सब जीवोंके सदा विना उपायके सिद्ध हुआ अर्थात् किसी उपायको किये विना मोक्ष हो जावेगा ।

भावार्थ—वैशेषिकोंके मतमें पहले किसी कारणसे अर्थात् अदृष्टविशिष्ट आत्माके संयोगसे उस क्रियासे परमाणुका पूर्व आकाशप्रदेशसे विभाग (वियोग) होता है अर्थात् परमाणु एक आकाशप्रदेशको छोड़कर गमन करता है; उस विभागके द्वारा परमाणुका उत्तर आकाशप्रदेशके साथ संयोग होता है अर्थात् परमाणु पूर्व आकाशप्रदेशसे गमन कर दूसरे आकाशप्रदेशमें ठहरता है, इस रीतिसे एक आकाशप्रदेशमें जब अन्य अन्य परमाणु इकट्ठे होते हैं; तब द्वयणुक, त्रयणुक आदिरूप कार्य होते हैं; ऐसा माना गया है। इस कारण यहां वैशेषिक शंका करते हैं कि— यदि आत्मा सर्वव्यापक न होगा तो उस आत्माका भिन्न स्थानमें स्थित परमाणुके साथ संयोग न होनेसे वह आत्मा परमाणुमें क्रिया उत्पन्न न कर सकेगा; जिससे आधकर्मका अभाव हो जावेगा। क्योंकि—क्रियाका न होना ही आधकर्मका अभाव है; उस आधकर्मके अभावसे अर्थात् परमाणुका क्रियासे पूर्व आकाशप्रदेशके साथ संयोग होनेसे शरीररूप अवयवी पूर्ण होता है, उस अंत्यसंयोगका अभाव होगा और जब अन्यसंयोगका अभाव हो जावेगा तब उस अत्यसंयोगसे होनेवाले शरीरका अभाव होगा। और शरीरका अभाव होनेके कारण शरीरका आत्माके साथ संबध न रहेगा, जिससे आत्मा शरीर रहित हो जावेगा और शरीरका रहितता ही मोक्ष है, इसकारण सब जीव सदा किसी विना उपाय क्रिये ही मोक्षको प्राप्त हो जावेंगे। समाधान— ऐसा नहीं है। क्योंकि; जो जिससे संयुक्त होता है अर्थात् जिसका जिसके साथ संयोग होता है, वह बुम्बकलोहेसे असंयुक्त है तथापि उस लोहका प्रति गमन करता है, यह नियम नहीं हो सकता है। कारण कि; लोह जो है, वह बुम्बकलोहेसे असंयुक्त है, वही उसके बुम्बक आकर्षण कर लेता है, यह प्रत्यक्षमें देख पड़ता है। भावार्थ—जैसे बुम्बक अपने साथ संयोगको न धारण करनेवाले परमाणुओंका मोक्ष हो जानेरूप दोष दिया है; वह नहीं हो सकता है। अब कहो कि, यदि आत्मा अपने पर विना उपायके सब विद्यमान परमाणुओंका अपने प्रति आकर्षण कर लेगा, इस कारण जो तुमने आत्माको व्यापक न मानने पर विना देशान्तरमें धारण करनेवाले परमाणुओंका आकर्षण करेगा तो उस आत्माके शरीरको आरम्भ करनेके प्रति सन्मुख हुए ऐसे तीनलोकके उदर (बीच) में रहने वाले परमाणुओंके उपसर्पण (आजाने) का प्रसंग होनेसे न जाने आत्मा कितने प्रमाणका धारक हो जावेगा;

तो संयुक्त परमाणुओंका आकर्षण माननेमें भी यह दोष क्यों नहीं होता है। क्योंकि, आत्मा व्यापक है; इस कारण उस आत्माका समस्त परमाणुओंके साथ संयोग है। भावार्थ—वैशेषिक कहते हैं कि; यदि आत्मा असंयुक्त परमाणुओंका आकर्षण करेगा तो उस आत्माके शरीरको रचनेके लिये तीनलोकके समस्त परमाणु आजवोंगे और ऐसा होगा तो न मालूम उस आत्माका शरीर कितना लम्बा, चौड़ा व मोटा हो जावेगा। क्योंकि, वह सपूर्णपरमाणुओंसे रचा जावेगा। इस पर जैनी उत्तर देते हैं; कि—जो दोष तुम हमको देते हो, वही दोष आत्मा अपनेसे संयुक्त परमाणुओंका आकर्षण करता है; यह जो तुम्हारा पक्ष है; उसमें भी होता है। क्योंकि आत्मा व्यापक होनेसे सब परमाणुओंके साथ संयुक्त है, अतः जब संयुक्त परमाणुओंका आकर्षण करेगा तब तीनलोकके समस्त परमाणु उसका शरीर रचनेके अर्थ आ जावेंगे। अब यदि यह कहो कि, असंयुक्त तथा संयुक्त इन दोनों ही परमाणुओंका आकर्षण माननेमें कोई भेद नहीं है अर्थात् समान ही दोष है; तथापि अदृष्टके वशसे उस विवक्षित शरीरको उत्पन्न करनेके योग्य जो नियत (मुकरर) परमाणु है; वे ही उस आत्माके प्रति आगमन करते हैं अर्थात् आत्मा तो सभी परमाणुओंका आकर्षण कर सकता है, परंतु पुण्य-पापके बलसे जैसा शरीर उसको धारण करना है; वैसे शरीरको उत्पन्न करनेमें समर्थ कितने ही परमाणु आत्माके प्रति आते हैं, सबके सब परमाणु नहीं आते हैं। तो यह तुम्हारा कथन दूसरे पक्षमें अर्थात् असंयुक्त परमाणुओंका आकर्षण करनेरूप हम जैनियोंके पक्षमें भी समान है। भावार्थ—जैसे तुम पुण्य-पापके वशसे नियत परमाणुओंका ही आत्माके प्रति आना मानते हो, उसी प्रकार हम भी पुण्य-पापके अनुसार नियतपरमाणु ही आत्माके प्रति शरीर रचनेको आते हैं, ऐसा मानते हैं, इसकारण तुम जो दोष दिखाते हो, वह हमारे मतमें नहीं हो सकता है।

अथास्तु यथाकथञ्चिच्छरीरोत्पत्तिस्तथापि सावयवं शरीरम्। प्रत्यवयवमनुप्रविशन्नात्मा सावयवः स्यात्। तथा चास्य पदादिवत् कार्यत्वप्रसङ्गः। कार्यत्वे चासौ विजातीयैः सजातीयैर्वा कारणैरारभ्येत। न तावद्विजातीयैस्तेपामनारम्भकत्वात्। न हि तन्तवो घटमारभन्ते। न च सजातीयैर्यत आत्मत्वाभिसम्बन्धादेव तेषां कारणाना सजातीयत्वम्। पार्थिवादिपरमाणूनां विजातीयत्वात्। तथा चाल्मभिरात्मा आरभ्यत इत्यायातम्। तच्चाऽयुक्तम्। एकत्र शरीरेऽनेकाल्मनामात्मारम्भकाणामसम्भवात्। सम्भवे वा प्रतिसन्धानाऽनुपपत्तिः। न ह्यन्येन दृष्टमन्यः प्रतिसन्धानमुमर्हति। अतिप्रसङ्गात्। तदारभ्यत्वे चास्य घटवदवयवक्रियातो विभागात्संयोगविनाशाद्विनाशः

स्यात् । तस्माद्वाप्यक एवात्मा युज्यते कायप्रमाणतायामुक्तदोषसम्भाविति चेत्—न । सावयवत्वकार्यत्वयोः कथञ्चिदात्मन्यभ्युपगमात् । तत्र सावयवत्वं तावदसंख्येयप्रदेशात्मकत्वात् । तथा च द्रव्यालङ्कारकारौ, “ आकाशसूक्ष्मेक्षिका चिन्त्या । प्रदेशेष्वप्यवयवव्यवहारत्कार्यत्वं तु वक्ष्यामः ।” इति । यद्यप्यवयवप्रदेशयोग्यहृत्यादिषु भेदोऽस्ति तथापि नात्र अवयवोत्पन्न होवे, चाहे आत्मासे संयुक्त परमाणुओं द्वारा शरीर उत्पन्न होवे, इसमें हमको कोई विवाद नहीं है, तथापि शरीर आत्मा अवयव सहित हो जावेगा तो पट आदिके समान आत्माके कार्यत्वका प्रसंग होगा भावार्थ—जैसे पट आदि पदार्थ सावयव होनेसे कार्यरूप है, उसी प्रकार आत्मा भी सावयव होनेसे कार्य हो जावेगा और आत्माका कार्यरूप हो जाना आप (जैनियों) को अनिष्ट है । क्योंकि, कार्य अनित्य होता है और आपने आत्माको नित्य माना है । और यदि आत्माको कार्यरूप मानों तो भी हम (वैशेषिक) प्रश्न करते हैं कि, वह आत्मा विजातीय कारणोंसे आरम्भित होता है ? वा सजातीय कारणोंसे ? भावार्थ—जो कार्य होता है, उसका आरंभ (उत्पत्ति) कारणोंसे आरम्भित होता है ? वा सजातीय कारणोंसे ? विजातीयकारणोंसे उत्पन्न किया जाता है, अथवा सजातीय कारणोंसे उत्पन्न किया जाता है ? कि, वह आत्मारूप कार्य जातिसे भिन्न जातिके धारक) कारणोंसे आरम्भित होता है, सो नहीं । क्योंकि; तंतु घटका आरंभ नहीं करते है अर्थात् जैसे यदि कहे कि, सजातीय कारणों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । उसी प्रकार विजातीय कारणोंसे आत्मा भी उत्पन्न नहीं हो सकता है । विजातीय है; इस कारण आत्मत्वके सवधसे ही उन कारणोंमें सजातीयता होवे अर्थात् जिन कारणोंमें आत्माका संबंध होवे ही कारण किया जाता है, यह सिद्धान्त आ सड़ा रहै । और आत्माओंद्वारा आत्मा उत्पन्न किया जावे तो आत्माओं द्वारा आत्मा

उत्पन्न किया जाता है, यह सिद्धान्त आ सड़ा रहै । और आत्माओंद्वारा आत्मा उत्पन्न किया जावे तो आत्माओं द्वारा आत्मा उत्पन्न किया जाता है, यह मानना ठीक नहीं है ।

१ हेमचन्द्रगुणचन्द्रो । २ गन्धहस्तिनाम तच्चार्यसूत्रोपरि दिग्भन्वराचार्यश्रीसमन्तभद्रस्वामिनिर्मित चतुरशीतिसहस्रश्लोकसव्यात्मकं महाभाष्यम् । तदादिजैनशास्त्रेषु ।

क्योंकि, एक शरीरमें आत्माका आरंभ करनेवाले बहुतसे आत्मा नहीं हो सकते हैं अर्थात् बहुतसे आत्मा एक आत्माको नहीं बना सकते हैं। अथवा यदि एक आत्माको उत्पन्न करनेवाले बहुतसे आत्मा होसकें तौ भी प्रतिसंधान (स्मरण) की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि, अतिप्रसंग होनेसे अन्य आत्मासे देखे हुएका दूसरा आत्मा स्मरण करनेको समर्थ नहीं है। भावार्थ—जब बहुतसे आत्मारूप कारण एक आत्माको उत्पन्न करने लगेंगे तब एक आत्मारूप कारणने जो देखा है; उसका दूसरा आत्मारूप कारण स्मरण नहीं कर सकेगा, और ऐसा होगा तब आत्मारूप कार्यकी सिद्धि न होगी। और यदि उन आत्मारूप सजातीयकारणोंसे आत्मानामक कार्य उत्पन्न किये जाने योग्य होगा तो घटके समान उस आत्माका भी अवयवक्रियासे विभाग होनेके कारण संयोगका विनाश हो जानेसे विनाश हो जावेगा भावार्थ—जैसे घटरूपकार्यका अवयवक्रियासे विभाग होता है और विभागके होनेसे पूर्वसंयोगका (कपालद्वयसंयोग) का नाश होता है, जिससे घटका भी नाश हो जाता है; इसी प्रकार आत्मारूप कार्यका भी अवयवक्रियासे विभाग और विभागसे संयोगका नाश होनेपर नाश हो जावेगा, और आप (जैतियों) ने आत्माको नित्य माना है, अत आत्माका नष्ट होना आपको इष्ट नहीं है। इसकारण आप (जैतियों)को आत्मा व्यापक ही है, ऐसा मानना ठीक है। क्योंकि शरीरपरिमाण (जितना बड़ा शरीर हो उतना ही बड़ा) आत्मा माननेमें ऊपर कहे हुए अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। सो ठीक नहीं है अर्थात् तुम (वैशेषिकों) ने जो 'आत्माको व्यापक न मानोगे तो आत्मा अवयवोंका धारक तथा कार्यरूप हो जानेसे अनित्य हो जावेगा' यह दोष दिया है, वह दोष हमारे दोषरूप नहीं है। क्योंकि हम (जैतियों) ने किसी अपेक्षासे आत्मामें अवयवसहितपना तथा कार्यपना स्वीकार किया है। उनमें आत्मा असंख्यात प्रदेशोंवाला है; इस कारणसे तो आत्मामें अवयवसहितपना है। सो ही द्रव्यालंकारनामक ग्रन्थके रचनेवाले कहते हैं कि; "आकाश भी प्रदेशोंका धारक है, क्योंकि; एक ही समयमें समस्त मूर्त्त पदार्थोंसे सम्बन्ध रखनेयोग्य है अर्थात् आकाशमें एक ही समयमें सब मूर्त्तपदार्थ विद्यमान रहते हैं; अतः आकाश प्रदेशोंका धारक है।" भावार्थ—उक्त प्रमाणसे जैसे हम आकाशको नित्य मानकर भी प्रदेशोंका धारक मानते हैं; उसी प्रकार आत्माको भी नित्य मानकर किसी अपेक्षासे अवयवसहित मानते हैं। [यद्यपि तत्त्वार्थसूत्रपर दिगम्बराचार्य श्रीसमन्त-भद्रस्वामीविरचित जो ८४००० श्लोकपरिमाण गृहहस्तिनामक महाभाष्य है; उसको आदि ले कितने ही शास्त्रोंमें अवयव तथा प्रदे-

शमें भेद माना गया है, तथापि यहांपर इस सूक्ष्मताका विचार न करना चाहिये] और प्रदेशोंमें भी अवयवका व्यवहार होनेसे प्रदेशोंके कार्यता है अर्थात् प्रदेशोंको अवयवरूप माननेसे प्रदेश कार्य है, इस विषयको तो आगे कहेंगे ।

नन्वात्मनां कार्यत्वे घटादिवत्याकप्रसिद्धसमानजातीयावयवारभ्यत्वप्रसक्तिः । अवयवा ह्यवयविनमारभन्ते यथा तन्तवः पटमिति चेत् न वाच्यम् । न खलु घटादावपि कार्ये प्राक्प्रसिद्धसमानजातीयकपालसंयोगारभ्यत्वं दृष्टम् । कुम्भकारादिव्यापारान्वितान्मृत्पिण्डात्प्रथममेव पृथुभ्रौदराद्याकारस्यास्योत्पत्तिप्रतीतिः । द्रव्यस्य हि पूर्वाकारपरित्यागेनोत्तराकारपरिणामः कार्यत्वं तच्च बहिरिवान्तरायनुभूयत एव । ततश्चात्मपि स्यात्कार्यः । न च पटादौ स्वावयवसंयोगपूर्वककार्यत्वोपलम्भात् सर्वत्र तथाभावो युक्तः । काष्ठे लोहेलेख्यत्वोपलम्भाद्भेदोऽपि तथाभावप्रसङ्गात् । प्रमाणवाधनमुभयत्र तुल्यम् । न चोक्तलक्षणकार्यत्वाभ्युपगमेऽनित्यत्वानुषङ्गात्प्रतिसन्धानाऽभावोऽनुषज्यते । कथञ्चिदनित्यत्वे सत्येवास्योपपद्यमानत्वात् । प्रतिसन्धानं हि यमहमद्राक्षं तमहं स्मरामीत्यादिरूपम् । तच्चैकान्तनित्यत्वे कथमुपपद्यते । अवस्थाभेदात् । अन्या ह्यनुभवावस्था अन्या च स्मरणावस्था । अवस्थाभेदे चावस्थावतोऽपि भेदादेकरूपत्वक्षतेः कथञ्चिदनित्यत्वं युक्त्यायातं केन वार्यताम् ।

शंका—यदि आत्मा कार्य होवेंगे तो उन कार्यरूप आत्माओंके घट आदिकी तरह पूर्वप्रसिद्ध समानजातीय अवयवोंसे उत्पन्न होनेकी योग्यताका प्रसंग होगा । क्योंकि, अवयव अवयवीको उत्पन्न करते है । जैसे कि-ततुरूप अवयव पटरूप अवयवीको उत्पन्न करते है । भावार्थ—जो कार्य होता है, वह अवयवी होता है और अवयवीको उत्पन्न करनेवाले अवयव है, अत जैसे घटरूप अवयवी अपनेसे पहले विद्यमानतासे प्रसिद्ध जो समानजातीय अर्थात् अपनी पार्थिवत्व जातिको ही धारण करनेवाले दो कपालरूप अवयव है, उनसे उत्पन्न होता है, उसी प्रकार आत्मा भी पूर्वप्रसिद्ध समानजातीय (अपनी आत्मत्वजातिके धारक) अवयवोंसे उत्पन्न होवेंगे और ऐसा होना आपको इष्ट नहीं है । समाधान—ऐसा न कहना चाहिये । क्योंकि, घट आदि कार्यमें भी पूर्वप्रसिद्ध जो समानजातिके धारक दो कपालरूप अवयव है; उनके संयोगसे उत्पन्न होनेकी योग्यता नहीं देखते है । कारण कि-कुम्भकार आदिके व्यापारसे सहित जो मृत्तिकाका पिंड है, उसके द्वारा दो कपालोंके उत्पन्न होनेके पहले ही पृथु तथा बुध ऐसे उदरके जैसे आकारको धारण करनेवाले इस घटकी उत्पत्ति प्रतीत होती है । भावार्थ—तुम जो पूर्वप्रसिद्ध समानजातीय कपाल-

द्वयसंयोगसे घटकी उत्पत्ति मानते हो सो प्रत्यक्षप्रमाणसे बाधित है। क्योंकि; जब सृष्टिकाके पिण्डके प्रति कुंभकार तथा चाक आदि अपना २ व्यापार (क्रिया) करते हैं, तब उस सृष्टिकाके पिण्डसे दो कपालोंकी उत्पत्ति होनेके पहले ही अर्थात् कपालोंके बने बिना ही पृथुबुधोदरदि आकारका धारक घट बन जाता है; यह सबको प्रत्यक्षसे प्रतीति होती है। और पूर्व (पहले) के आकारका त्याग करके जो उत्तर (आगे) के आकाररूप परिणामका हो जाना है; वही द्रव्यके कार्यत्व है अर्थात् पूर्व आकारको छोड़कर उत्तर आकारको धारण करनेसे ही द्रव्य कार्यरूप है। और उस कार्यपनेका बाह्यके समान अंतरंगमें भी अनुभव किया ही जाता है अर्थात् जैसे बाह्यमें कटकआदि आकारोंको छोड़कर कुंडल आदि आकाररूप होनेवाले सुवर्ण आदि द्रव्योंमें कार्यरूपता देखते हैं; उसी प्रकार पूर्व आकारको छोड़कर उत्तर आकारमें भी कार्यरूपताका अनुभव होता ही है। इसकारण आत्मा भी कथंचित् कार्यरूप है। और पट आदिमें अपने अवयवोंके संयोगपूर्वक कार्यत्व देखकर सब द्रव्योंमें वैसा मानना ठीक नहीं है अर्थात् तंतुआदिरूप अवयवोंके संयोगसे पट आदि कार्य होते हैं; यह देख कर घटआदि कार्य भी अवयवोंके संयोगपूर्वक होते हैं, ऐसा मान लेना उचित नहीं है। क्योंकि; यदि ऐसा मानेंगे तो काष्ठ (लकड़ी) में लोहसे खुदनेकी योग्यता देखकर वज्र (हीरे) में भी वैसा होना (लोहसे खुदनेकी योग्यताका होना) स्वीकार करना पड़ेगा; जो कि, तुमको अनिष्ट है। और प्रमाणसे बाधा दोनों स्थानोंमें ही समान है। भावार्थ—यदि तुम कहो कि—वज्र लोहसे नहीं खुदता है, यह प्रत्यक्षमें देखते हैं। इस कारण वज्रमें लोहसे खुदनेकी योग्यता कैसे मान सकते हैं। क्योंकि; प्रत्यक्षप्रमाणसे बाधा आती है; तो कपालके संयोगसे घटका उत्पन्न होना भी प्रत्यक्षसे विरुद्ध है; इस कारण कार्य अपने समानजातीय अवयवोंसे उत्पन्न होता है; इस नियमका घटरूप कार्यमें व्यभिचार होता है, अतः उक्तनियमसे आत्माके समानजातीय अवयवोंसे उत्पन्न होनेकी योग्यता बताकर जो तुमने हमारे मतमें अनिष्टकी आपत्तिरूप दोष दिया है; वह नहीं हो सकता है। और आत्मामें पूर्व आकारके त्यागसे उत्तर आकारके स्वीकाररूप कार्यत्वके मानने पर भी जो आत्माके अनित्यताका अनुसंग (प्राप्ति) होता है; उससे प्रतिसंधानके अभावका अनुसंग नहीं होता है अर्थात् आत्माके अनित्य होनेपर प्रतिसंधान न होगा ऐसा नहीं है। क्योंकि; आत्माके कथंचित् अनित्यता होने पर ही यह प्रतिसंधान सिद्ध हो सकता है। कारण कि—प्रतिसंधान जिसको मैंने देखा है; उसको मैं स्मरण (याद) करता हूँ ' इत्यादि रूपका धारक है। और यह रूप आत्माके सर्वथा नित्यपनेमें कैसे सिद्ध होते ?। क्योंकि; अवस्थाका

भेद है। भावार्थ—अनुभव सरणके पहले होता है, इस कारण अनुभवकी अवस्था दूसरी है और सरण अनुभवके पीछे होता है; अतः सरणकी अवस्था दूसरी है। और अवस्थाका भेद होनेसे अवस्थाओंके धारक आत्माका भी भेद हुआ; जिससे आत्माके एकरूपताका नाश हुआ इस कारण आत्माके कथञ्चित् अनित्यपना जो बुद्धिमें आता है; उसको तुम किससे हूँ कर सकते हो अर्थात् आत्माके कथञ्चित् अनित्यत्वका खंडन तुम नहीं कर सकते हो।

अथात्मनः शरीरपरिमाणत्वे मूर्तत्वानुयङ्गाच्छरीरेऽनुप्रवेशो न स्यान्मूर्ते मूर्तस्यानुप्रवेशविरोधात् ततो निरात्मकमेवाखिलं शरीरं प्रामोतीति चेत् किमिदं मूर्तत्वं मूर्तत्वं नाम । असर्वगतद्रव्यपरिमाणत्वं रूपादिमत्त्वं वा । तत्र नाद्यः पक्षो दोषाय । संमतत्वात् । द्वितीयस्त्वयुक्तः । नहि श्वदसर्वगतं तन्नियमेन रूपादिमदित्यविनाभावोऽस्ति । मनसोऽसर्वगतत्वेऽपि भवन्मते तदसंभवात् । आकाशकालदिगात्मना सर्वगतत्वं परममहत्त्वं सर्वसंयोगिसमानदेशत्वं चेत्युक्तत्वान्मनसो वैधर्म्यात्सर्वगतत्वप्रतियेधनात् । अतो नात्मनः शरीरेऽनुप्रवेशानुपपत्तिर्येन निरात्मकत्वात् । असर्वगतद्रव्यपरिमाणलक्षणमूर्तत्वस्य मनोवत्प्रवेशाऽप्रतिबन्धकत्वात् । रूपादिमत्त्वलक्षणमूर्तत्वोपेतस्यापि जलोदेवाण्डुकादावनुप्रवेशो न निषिध्यते । आत्मनस्तु तद्रहितस्यापि तत्रासौ प्रतिषिध्यत इति महच्चिन्त्रम् ।

यदि कहे कि; आत्माको शरीरपरिमाण मानने पर आत्मा मूर्त हो जावेगा; इस कारण उस आत्माका शरीरमें प्रवेश न होगा। क्योंकि, मूर्तमें मूर्तके प्रवेशका विरोध है अर्थात् मूर्त शरीरमें मूर्त आत्माका प्रवेश होना विरुद्ध है। और जब मूर्त शरीरमें मूर्त आत्माका प्रवेश न होगा तो संसारके यावन्मात्र (सबके सब) शरीर आत्मासे शून्य (रहित) ही हो जावेगे। तो हम (जैनी) प्रश्न करते हैं कि, यह मूर्तपना क्या है? अर्थात् तुम (वैशेषिकों) ने मूर्तका क्या लक्षण माना है। असर्वगत द्रव्यपरिमाणपना जो है, वह मूर्त है, अथवा जो रूपादिमान् (रूप आदिका धारक) पना है; वह मूर्त है। असर्वगत असर्वगत (अव्यापक) द्रव्यका जो अल्पपरिमाण है; उस अल्पपरिमाणके धारक द्रव्यको मूर्त कहते हो; अथवा रूप आदिको

१ सर्वमूर्ते, सह सयोगः । न तु सर्वत्र । तेषां नि क्रियत्वात् । २ इयत्ताऽनवच्छिन्नपरिमाणयोगित्व परममहत्त्वम् । ३ सर्वसंयोगिसमानदेशत्वं सर्वेषामूर्तद्रव्याणाम् । आकाश समानो देश एक आधार इत्यर्थः । एव दिगादित्वपि व्याख्येयम् । यद्यपि आकाशादिकं सर्वसंयोगिनामाधारो न भवति । इहप्रत्ययविविक्तत्वेनावस्थानात् । तथापि सर्वसंयोगिसंयोगाधारमूर्तत्वादुपचारेण सर्वसंयोगिनामप्याधार उच्यते ।

धारण करनेवाले द्रव्यको मूर्त्त कहते ही । यदि कहो कि; असर्वगतद्रव्यपरिमाणताको ही हम मूर्त्त कहते है, तो यह प्रथमपक्ष तो हमारे दोषके लिये नहीं है । क्योंकि संमत है अर्थात् असर्वगत द्रव्यपरिमाणको ही तुम मूर्त्त कहते हो तो कहो, इससे हमारे सिद्धान्तमें कोई दोष नहीं है । यदि कहो कि, रूप आदिका धारक जो द्रव्य है; वह मूर्त्त है तो यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है क्योंकि जो असर्वगत है वह रूपादिमान है, ऐसी व्याप्ति नहीं हो सकती है । भावार्थ—जब तुम पहले असर्वगत द्रव्यको रूपादिमान सिद्ध करलो तब पश्चात् यह कह सकते हो कि; असर्वगत आत्मा रूपादिमान है; अतः मूर्त्त है, अन्यथा नहीं । और जो २ असर्वगत द्रव्य है, वह वह नियमसे रूपादिमान है, ऐसी व्याप्ति तुम नहीं कर सकते हो ॥ क्योंकि—तुम्हारे मतमें मन असर्वगत है तौभी रूपादिमान नहीं है । कारण कि; आकाश, काल, दिशा और आत्मा ये चारों सर्वागत (सब मूर्त्तद्रव्योंके संयोगके धारक) है, परममहत्परिमाणके धारक है और जो समस्त मूर्त्तद्रव्यरूप संयोगी है, उनके संयोगके आधारमूर्त्त है; अर्थात् सब मूर्त्तद्रव्योंका परस्पर संयोग इनमें होता है, ऐसा कहा है; और इस कथनसे मनमें इन आकाश आदिका धर्म न होनेसे सर्वगतपनेका निषेध किया गया है अर्थात् आकाश, काल, दिशा और आत्मा ये चार ही सर्वागत है, ऐसा कहकर मनको असर्वगत सिद्ध किया है । इस कारण आत्माका शरीरमें प्रवेश होना असिद्ध नहीं है, जिससे कि समस्त शरीर आत्मारहित हो जावें. क्योंकि; मनके समान असर्वगतद्रव्यपरिमाणत्वरूप लक्षणका धारक जो मूर्त्त है, उसके प्रवेशमें कोई प्रतिवन्धक नहीं है । भावार्थ—जैसे तुम्हारे मतमें मूर्त्त मनका मूर्त्त शरीरमें प्रवेश होता है, उसी प्रकार हमारे मूर्त्त आत्माका भी मूर्त्त शरीरमें प्रवेश हो जावेगा; इस कारण मूर्त्त आत्माका मूर्त्त शरीरमें प्रवेश न दिखलाकर जो तुम हमारे पक्षमें निरात्मक शरीर होजानेरूप दोष देते हो, वह नहीं हो सकता है । और रूपादिमान लक्षणरूपमूर्त्तताको धारण करनेवाले अर्थात् रूप आदिके धारक जो जल आदि है, उनका मूर्त्त मृत्तिका आदिमें जो प्रवेश होता है, उसका तो तुम निषेध नहीं करते हो और रूप आदिसे रहित ऐसा भी जो आत्मा है, उसके मूर्त्तशरीरमें प्रवेशको मना करते हो यह बड़ा आश्चर्य है ।

अथात्मनः कायपरिमाणत्वे बालशरीरपरिमाणस्य सतो युवशरीरपरिमाणस्वीकारः कथं स्यात् । किं तत्परिमाणपरित्यागात्तदपरित्यागाद्वा । परित्यागाच्चेत्तदा शरीरवत्तस्याऽनित्यत्वप्रसङ्गात्परलोकाद्यभावाद्युषङ्गः । अथाऽपरित्यागात् । तन्न । पूर्वपरिमाणाऽपरित्यागे शरीरवत्तस्योत्तरपरिमाणोत्पत्त्यनुपपत्तेः । तदयुक्तम् । युवशरीरपरिमा-

णावस्थाचामात्मनो बालशरीरपरिमाणपरित्यागे सर्वथा विनाशाऽसम्भवात् । विफणावस्थोत्पादे सर्पवत् । इति कथं परलोकाभावोऽनुपप्यते । पर्यायतस्तस्याऽनित्यत्वेऽपि द्रव्यतो नित्यत्वात् ।

शंका—यदि आत्मा शरीरपरिमाण होगा तो जो आत्मा बालशरीरपरिमाण (बालकके शरीर जितना बड़ा) है; वह युव-शरीरपरिमाण (युवा अर्थात् जवान पुरुषके शरीर जितने बड़े आकार) को कैसे ग्रहण करेगा ? क्या ? उस बालशरीरपरिमाणको छोड़कर युवशरीरपरिमाणको ग्रहण करेगा अथवा उस बालशरीरके आकारका त्याग न करके युवशरीरपरिमाणको स्वीकार करेगा । भावार्थ—जो आत्मा देवदत्तकी बालअवस्थाके छोटे शरीर जितना है; वही आत्मा जब देवदत्त जवान होगा तब उसके बड़े शरीर जितना पूर्वपरिमाणको छोड़कर होगा ? वा विना छोड़े ही ? यदि कहे कि; आत्मा बालशरीरपरिमाणका त्याग करके युव-शरीरपरिमाणको ग्रहण करता है; तब तो शरीरके समान आत्मा भी अनित्य हो जावेगा । यह प्रसंग होगा । जिससे परलोक आदिके अभावका अनुपग होगा । भावार्थ—जैसे पूर्वपरिमाणको छोड़कर उत्तर परिमाणका स्वीकार करेगा तब उसके बड़े जावेगा तो फिर आत्मके परलोक (अन्य २ जन्मोंका धारण करना) आदि नहीं होगा; जोकि; आपको अनित्य है; कि, आत्मा बालशरीरपरिमाणका त्यागकरके उत्तर परिमाणको ग्रहण करनेसे अनित्य हो जावेगा और यदि आत्मा अनित्य हो बिना उत्तर परिमाणका त्याग किये विना उत्तर परिमाणकी उत्पत्ति की सिद्धि नहीं है; उसी प्रकार उस आत्मके भी पूर्व परिमाणको छोड़े शरीरपरिमाणको ग्रहण करते समय बालशरीरपरिमाणका त्याग करता है; उसी प्रकार उत्तर परिमाणको ग्रहण करनेसे अनित्य हो जावेगा और यदि आत्मा अनित्य हो नहीं होता है जैसे कि-फणरहित अवस्थाके उत्पन्न होनेमें सर्पका नाश नहीं होता है; तब यद्यपि वह सर्प पहली फणसहितअवस्थाका त्यागकरके पिछली फणरहितअवस्थाको ग्रहण करता है, तथापि उस सर्पका सर्वथा नाश नहीं होता है । भावार्थ—जो सर्प फणको फेला करके छोड़कर उत्तर युवशरीरपरिमाणरूप अवस्थाको स्वीकार करता है, तथापि आत्मका सर्वथा विनाश नहीं होता है; किंतु किसी अपेक्षासे विनाश होता है । इस कारण परलोकका अभावरूप प्रसंग कैसे होता है अर्थात् जो हमने पूर्वपरिमाणका त्याग किये

विना उत्तर परिमाणके स्वीकारमें आत्माके परलोकिकादिका अभाव ही जावेगा यह दोष दिया है, वह नहीं हो सकता है । क्योंकि; आत्मा यद्यपि पर्ययरूपसे अनित्य है, तथापि द्रव्यरूपसे नित्य है ॥

अथात्मनः कायपरिमाणत्वे तत्खण्डने खण्डनप्रसङ्ग इति चेत्—कः किमाह । शरीरस्य खण्डने कथञ्चित् खण्डनस्येष्टत्वात् । शरीरसम्बद्धात्मप्रदेशेभ्यो हि कतिपयात्मप्रदेशानां खण्डितशरीरप्रदेशेष्वस्थानादात्मनः खण्डनम् । तच्चात्र विद्यत एव । अन्यथा शरीरात्युत्थभूतावयवस्य कम्पोपलब्धिर्न स्यात् । न च खण्डितावयवानुग्रयविष्टस्यात्मप्रदेशस्य पृथगात्मत्वप्रसङ्गः । तत्रैवानुप्रवेशात् । न चैकत्र सन्तानेऽनेके आत्मानः । अनेकार्थप्रतिभासिज्ञानानामेकप्रमात्राधारतया प्रतिभासाभावप्रसङ्गात् । शरीरान्तरव्यवस्थितानेकज्ञानावसेयार्थसंवित्तिवत् ।

यदि कहो कि, आत्मा शरीर परिमाण होगा तो जब शरीरका खंडन होगा तब आत्माके भी खंडनका प्रसंग होगा अर्थात् शरीरके टुकड़े किये जाने पर आत्माके भी टुकड़े होंगे तो कौन क्या कहता है । क्योंकि; शरीरका खंडन होनेपर किसी अपेक्षासे आत्माका खंडन भी इष्ट ही है । कारण कि; शरीरसे संबंधको प्राप्त हुए जो आत्माके प्रदेश है; उनमेंसे कितने ही आत्माके प्रदेशोंके खंडित (कटे हुए) शरीरमें रहनेसे आत्माका खंडन होता है । और वह खंडन आत्मामें है ही । क्योंकि; यदि ऐसा खंडन आत्मामें न होवे तो शरीरसे भिन्न (जुड़े) हुए अवयव (हिस्से) में कंप की प्राप्ति न होवे भावार्थ—पूर्णशरीरसे जो शरीरका अवयव कट कर अलग होता है, वह थोड़ी देरतक कांपा करता है अर्थात् हिलता है व उछलता है; ऐसा प्रत्यक्षमें देखते है, अतः प्रतीत होता है कि, शरीरसे संबंधित आत्माके प्रदेश खंडित शरीरमें भी कुछ देरतक रहते है, और ऐसा हुआ तो आत्माका भी खंडन हो ही गया और यह खंडन कथञ्चित् हमको इष्ट ही है । इसकारण तुम जो दोष देते हो, वह नहीं हो सकता है । यदि कहो कि; ऐसा है तो शरीरके खंडित अवयवमें विद्यमान जो आत्माके प्रदेश हैं, उनके भिन्न आत्मापनेका प्रसंग होगा अर्थात् शरीरके कटे हुए भागमें आत्माके प्रदेशोंका रहना मानोगे तो उस भागमें जुदा आत्मा सिद्ध हो जायगा जोकि; तुमको अनिष्ट है । सो यह न कहना चाहिये । क्योंकि; उस खंडित अवयवमें रहनेवाले जो आत्माके प्रदेश है, उनका उस शरीरमें ही प्रवेश हो जाता है, अर्थात् आत्माके प्रदेश शरीरके खंडित भागमें थोड़ी देर तक रहकर फिर उस पूर्वशरीरमें ही प्रवेश कर जाते है । और एक संतान (शरीर) में अनेक आत्मा नहीं है । भावार्थ—यदि तुम यहां पर यह कहो कि,—शरीरके

खंडित अवयवमें विद्यमान आत्मप्रदेशोंका शरीरस्थ आत्मप्रदेशोंमें प्रवेश न मानना चाहिये; किन्तु उस खंडित अवयवमें दूसरा ही आत्मा मान लेना चाहिये । तो यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि यदि एक शरीरमें अनेक आत्मा मानेंगे तो अनेक रूप रस आदि पदार्थोंका प्रतिभास (निश्चय) करानेवाले जो नेत्रइंद्रिय आदिसे उत्पन्न ज्ञान हैं, उनके एक प्रमाता (ज्ञाता आत्मा) की आधारतासे प्रतिभास (अनुव्यवसाय) न होनेका प्रसंग होगा । जैसे कि,—दूसरे शरीरोंमें विद्यमान अनेकज्ञानोंसे जाननेयोग्य जो रूप आदि पदार्थ है, उनके ज्ञानका एक आत्मामें प्रतिभास नहीं होता है । भावार्थ—जैसे देवदत्तकी आत्मका ज्ञान जिस रूप आदि पदार्थको देखता है, उसका 'मैं देखता हूँ' इस प्रकारका अनुव्यवसाय देवदत्तके आत्मको ही होता है । जिनदत्तके आत्मा को नहीं होता है । उसी प्रकार एक शरीरमें अनेक आत्मा माननेपर शरीरके नेत्ररूप अवयवमें स्थित आत्मा जिस रूपको देखेगा, उसका अनुव्यवसाय उस जिनदत्तके नेत्रस्थ आत्मको ही होगा और उस जिनदत्तके कर्णरूप शरीरावयवमें जो आत्मा स्थित है, उसके 'मैं देखता हूँ' ऐसा अनुव्यवसाय नहीं होगा । और ऐसा होगा तो प्रत्येक आत्मके जो 'मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं संघृता हूँ, इत्यादिरूप से एक प्रमाता (जाननेवाले) को अवलंबन करके प्रतिभास होता है, वह न होगा । और इस एक प्रमाताके आधाररूपसे प्रतिभासका न होना तुमको अनिष्ट है ।

कथं खण्डितावयवयोः संघट्टनं पश्चादिति चेत् एकान्तेन छेदाऽनभ्युपगमात् । पञ्चनालतन्नुवच्छेदस्यापि स्वीकारात् । तथाभूताहृष्टवशात्तसंघट्टनमविरुद्धमेवेति तनुपरिमाण एवात्माङ्गीकर्त्तव्यो न व्यापकः । तथा च आत्मा व्यापको न भवति चेतनत्वात् । यत्तु व्यापकं न तच्चेतनम् । यथा व्योम । चेतनश्चात्मा । तस्मान्न व्यापकः । अव्यापकत्वे चास्य तत्रैवोपलभ्यमानगुणत्वेन सिद्धा कार्यप्रमाणता । यत्पुनरष्टसमयसाध्यैकवैकलिसमुद्घातदशायामाहृतानामपि चतुर्दशरज्ज्वात्मकलोकव्यापित्वेनात्मनः सर्वव्यापकत्वम् । तत्कादाचित्कम् । इति न तेन व्यभिचारः । स्वाहादमन्त्वकवचावगुण्ठितानां च नेदशविभीषिकाभ्यो भयम् । इति काव्यार्थः ॥ ९ ॥

यदि कहो कि; आत्मके खंडित अवयवों (प्रदेशों) का पीछे मेल कैसे हो जाता है अर्थात् जो आत्मके प्रदेश कट कर शरीरके खंडित अवयवोंमें चले गये है, वे और जो आत्मके प्रदेश शरीरमें विद्यमान हैं वे, ये दोनों पीछे परस्पर कैसे मिल जाते हैं, तो उत्तर यह है कि, हमने उन आत्मके प्रदेशोंका छेद (विभाग) सर्वथा नहीं माना है । और जो छेद माना है, उसको भी क्रम-

लकी नालीके तन्तुओंके छेदके समान माना है भावार्थ—जैसे कमलकी नाली (दंडी) का टुकड़ा करने पर उस नालीके तंतु-
 ओंका विभाग होता है; परंतु वे तंतु पूर्व तंतुओंमें आ मिलते हैं; इसी प्रकार यद्यपि शरीरका खंडन होनेपर आत्माके प्रदेशोंका
 विभाग होता है; तथापि वे आत्माके प्रदेश पूर्व आत्मप्रदेशोंमें आ मिलते हैं । और उस प्रकारके अदृष्टके वशसे उन खंडित
 आत्मप्रदेशोंका परस्पर मिलना विरोधरहित ही है । भावार्थ—जैसे तुम्हारे मतमें पाकमें गेरे हुए घटके परमाणु भिन्न २ होकर
 फिर वैसे अदृष्टके वशसे मिलकर घटरूप हो जाते हैं, उसीप्रकार आत्माके प्रदेश भी भिन्न २ होकर पुनः परस्पर मिल जाते हैं; अतः
 हमारे माननेमें कोई विरोध नहीं है । इस कारण तुम (वैशेषिको) को आत्मा शरीरपरिमाण ही मानना चाहिये और व्यापक न
 मानना चाहिये । इस उक्तविषयको सिद्ध करनेके लिये अनुमानका प्रयोग भी है । वह यह है—‘आत्मा व्यापक नहीं है । क्योंकि
 चेतन है, जो व्यापक होता है; वह चेतन नहीं होता है । जैसे कि—आकाश व्यापक है; अतः चेतन नहीं है । और आत्मा चेतन
 है, इस कारण व्यापक नहीं है । ’ इस अनुमानसे जब आत्मा व्यापक न हुआ तो अव्यापक सिद्ध हुआ और अव्यापक होनेपर
 इस आत्माके गुण शरीरमें ही प्राप्त होते हैं; इसकारण आत्मा शरीरपरिमाण है; यह सिद्ध हो चुका । और हम जैनियोंके भी जो
 आठ ८ समयोंसे सिद्ध (पूर्ण) होनेयोग्य केवलिसमुद्घातकी दशमें चौदह रज्जुपरिमाण तीन लोकमें व्याप्त हो जानेसे आत्मा
 सर्वव्यापक है, वह कादाचित्क (किसी समयमें हुआ करता) है इस कारण उससे यहां व्यभिचार नहीं होता है । भावार्थ—यद्यपि हम
 (जैनियों) ने आत्माको केवलिसमुद्घातदशमें सर्वव्यापक माना है । क्योंकि; केवलिसमुद्घातदशमें आत्माके प्रदेश दंड, कपाटादि-
 रूप होकर तीनलोकमें व्याप्त हो जाते हैं, परन्तु वह केवलिसमुद्घात किसी समय किसी आत्माके हो जाता है नियमित नहीं है;
 इसकारण तुम आत्माको अव्यापक माननेरूप इस अनुमानमें दोष नहीं दे सकते हो । और स्याद्वाद (अनेकान्तवाद) रूपी
 कवच (बकतर) से ढके हुए हम जैनियोंको तुम्हारी ऐसी विभीषिकाओंसे अर्थात् व्यभिचारादिदोषरूप भयोंको उत्पन्न करनेवाली
 कुयुक्तियोंसे भय (डर) नहीं है । इस प्रकार काव्यका अर्थ है ॥ ९ ॥

वैशेषिकनैयायिकयोः प्रायः समानतन्त्रत्वादौलूक्यमते क्षिप्ते यौगमतमपि क्षिप्तमेवावसेयम् । पदार्थेषु च तयोरपि
 न तुल्या प्रतिपत्तिरिति सांप्रतमक्षपादप्रतिपादितपदार्थानां सर्वेषां चतुर्थपुरुषार्थं प्रत्यसाधकतमत्वे वाच्येऽपि

तदन्तःपातिनां छलजातिनिग्रहस्थानानां परोपन्यासिनिरासमात्रफलतया अत्यन्तमनुपादेयत्वात्तदुपदेशदातुर्वैरा-
ग्यमुपहसन्नाह ।—

वैशेषिक और नैयायिक; इन दोनोंके सिद्धान्त प्रायः समान है; इस कारण पूर्वोक्त प्रकारसे जो वैशेषिकोंके मतका खडन किया गया है; उससे नैयायिकोंके मतका खडन भी हो चुका ही समझना चाहिये और पदार्थोंमें उन दोनोंके भी समान स्वीकारता नहीं है अर्थात् वैशेषिक तथा नैयायिक ये दोनों पदार्थोंको भिन्न २ प्रकारसे मानते हैं; अतः इस अवसरमें यद्यपि अक्षपाद (न्यायसूत्रकार गौतम ऋषी) के कहे हुए सब पदार्थोंको मोक्षके प्रति असाधकतम (मोक्षकी प्राप्ति न करनेवाले) कहने चाहिये तथापि उन पदार्थोंके मध्यमें रहनेवाले जो छल, जाति तथा निग्रहस्थान नामक तीन पदार्थ है, वे केवल परके कथनका तिरस्कार करनेरूप ही प्रयोजनको धारण करते है अतः सर्वथा ग्रहण करने योग्य नहीं है, इस कारण उन छल जाति और निग्रहस्थानोंका उपदेश देनेवाले गौतम ऋषीके वैराग्यका हास्य करते हुए आचार्य अग्निम काव्यका कथन करते है ।—

**स्वयं विवादग्रहिले वितण्डापाण्डित्यकण्डूलमुखे जनेऽस्मिन् ।
मायोपदेशात्परमर्मे भिन्दन्नहो विरक्तो मुनिरन्यदीयः ॥ १० ॥**

सूत्रभावार्थः—अपने आप ही विवादरूपी पिशाचसे ग्रहीत (पकड़े हुए) और वितंडाकी चतुराईसे मानो खुजलीको ही धारण करता है मुख जिनका ऐसे मूर्खसदृश मनुष्योंमें मायाका उपदेश देकर परमर्माँको अर्थात् वादीके सिद्धान्तको सिद्ध करनेमें समर्थ उत्तम हेतुओंको भेदता हुआ नैयायिकोंका गौतममुनि वैराग्यका धारक है; यह आश्चर्य है ॥ १० ॥

व्याख्या । अन्येऽविज्ञातत्वदाज्ञासारतयाऽनुपादेयनामानः परे तेषामयं शास्त्रत्वेन संबन्धी अन्यदीयो मुनिरक्षपादऋषिरहो विरक्तोऽहो वैराग्यवान् । (अहो इत्युपहासगर्भमाश्चर्यं सूचयति ।) (अन्यदीय इत्यत्र “ईयकारके”

इति दोन्तः।) किं कुर्वन्नित्याह।-परमर्म भिन्दन् (जातावेकवचनप्रयोगात्) परमर्माणि व्यथयन् बहुभिरात्मप्रदेशैरधिष्ठिता देहावयवा मर्माणीति पारिभाषिकी संज्ञा तत उपचारात्साध्यस्वतत्त्वसाधनाव्याभिचारितया प्राणभूतः साधनोपन्यासोऽपि मर्मैव मर्म । कस्मात्तन्निन्दन् मायोपदेशाद्धेतोः । माया परवञ्चनं तस्या उपदेशश्छलजातिनिग्रहस्थानलक्षणपदार्थत्रयप्ररूपणद्वारेण शिष्येभ्यः प्रतिपादनं तस्मात् । (“ गुणादस्त्रियां न वा ” इत्यनेन हेतौ तृतीयाप्रसङ्गे पञ्चमी) ।

व्याख्यार्थ—“ अन्यर्तीयः ” अन्य अर्थात् आपकी आज्ञाके सार (रहस्य) को न जाननेके कारण नहीं ग्रहण करने योग्य है नाम जिनके ऐसे जो पर (नैयायिक) है उनका अर्थात् उनके साथ उपदेशकरूपसे संबंधको धारण करनेवाला [‘ अन्यर्तीय ’ यहां पर ‘ ईयकारके ’ इस सूत्रसे अन्तमें अर्थात् अन्यके आगे ‘ द ’ हुआ है ।] “ भुनिः ” जो अक्षपाद (गौतम) ऋषी है; वह “ अहो ” आश्चर्य है कि; [‘ अहो ’ यह उपहास (हास्य) सहित आश्चर्य को सूचित करता है ।] “ विरक्तः ” वैराग्यका धारक है । क्या करता हुआ वैराग्यको धारण करता है; सो कहते हैं।— “ परमर्म ” दूसरोंके (सिद्धान्तियोंके) मर्मोंको [‘ परमर्म ’ यहां पर जातिमें एकवचनका प्रयोग है; अतः बहुवचनका अर्थ किया गया है] “ भिन्दन् ” भेदता (दुःखित करता) हुआ । भावार्थ—बहुतसे आत्माके प्रदेशोंसे व्याप्त जो शरीरके अवयव हैं; वे अर्थात् शरीरके जिन भागोंमें बहुतसे आत्माके प्रदेश रहते हैं वे भाग, मर्म कहलाते हैं; यह शास्त्रका संकेतित नाम है; इसकारण सिद्ध करने योग्य जो अपने अभीष्ट तत्त्व है; उनके साधनमें व्यभिचार रहिततासे अर्थात् सिद्ध करनेमें समर्थ होनेसे प्राणोंके समान आचरण करनेवाला ऐसा जो साधनका उपन्यास (निर्दोष हेतुका स्थापन करना अथवा देना) है; उसको भी उपचारसे मर्मके समान आचरण करनेसे मर्म कहते हैं; उस परमर्मको अर्थात् सिद्धान्तियोंके निर्दोष हेतुको खंडित करता हुआ । किससे उस परमर्मको भेदता हुआ ? “ मायोपदेशात् ” मायाका उपदेश देनेरूप हेतुसे भावार्थ—परके ठिगनेरूप मायाका जो छल, जाति तथा निग्रहस्थान नामक तीन पदार्थोंके कथनके द्वारा शिष्योंके प्रति उपदेश देना है; उस कारणसे । [‘ मायोपदेशात् ’ यहांपर “ गुणादस्त्रियां न वा ” इस सूत्रसे हेतुमें तृतीयाका प्रसंग होनेपर पंचमी विभक्ति की गई है]

कस्मिन् विषये मायामयमुपदिष्टवान् इत्याह।-अस्मिन् प्रत्यक्षोपलक्ष्यमाणे जने तत्त्वाऽतत्त्वविमर्शबहिर्मुखतया

प्राकृतप्राये लोके । कथस्मृते स्वयमात्मना परोपदेशनिरपेक्षमेव विवादग्रहिले । विरुद्धः परस्परकक्षीकृतपक्षाधिके-
पदक्षो वादो वचनोपन्यासो विवादः । तथा च भगवान् हरिभद्रसूरिः—“ लब्धिव्यात्यर्थिना तु स्याद् दुःस्थिते-
नामहात्मना । छलजातिप्रधानो यः स विवाद इति स्मृतः । १ । ” तेन ग्रहिल इव ग्रहयहीत इव विवादग्रहिलस्त-
त्र । यथा ग्रहाद्यपस्मारपरवशः पुरुषो यत्किंचन प्रलापी स्यादेवमयमपि जन इति भावः ।
किसके विषयमें अर्थात् किन शिष्योंमें इस गोतम ऋषीने मायाका उपदेश दिया सो कहते हैं ।—“ अस्मिन् ” इस प्रत्यक्ष-
प्रमाणसे देखनेमें आते हुए “ जने ” तत्त्व और अतत्त्वके विचारसे बहिर्मुख (रहित) होनेके कारण मूर्खके समान लोक
(मनुष्योंके समूह) में । कैसे लोकमें ? “ सैयं ” दूसरेके उपदेशकी आवश्यकताके विना अपने आप ही “ विवादग्रहिले ”
, वि ’ विरुद्ध अर्थात् परस्पर (आपस) में स्वीकार किया हुआ जो पक्ष है; उसके खंडन करनेमें समर्थ ऐसा जो ‘ वाद ’
वचनका देना है अर्थात् दूसरेके मतको खंडन करनेमें समर्थ वचनका जो कहना है; वह विवाद है । सोही भगवान् श्रीहरिभद्रसूरी
कहते हैं—“ द्रव्य आदिका लाभ तथा जातिको मुख्य ग्रहण करके कहा जाता है अर्थात् लाभ व कीर्तिके इच्छक नीच दुर्मती छल व
है; उनके द्वारा जो छल, तथा जातिको मुख्य ग्रहण करके कहा जाता है अर्थात् लाभ व कीर्तिके इच्छक नीच दुर्मती छल व
जातिको प्रधान कर जो कुछ कहते हैं; वह विवाद है । १ । ” उस विवादसे ग्रहिल अर्थात् ग्रह करके पकड़े हुएकी तरह जो
होवें; उस लोकमें । भावार्थ—जैसे भूत पिशाच आदिके घुस जानेसे स्थिति (बुद्धि) के नाशको प्राप्त हुआ पुरुष चाहे सो
बकता है, उसी प्रकार अपने आप ही विवादरूपी ग्रहके वशमें हुआ यह लोक भी जो कुछ (भला बुरा) चाहता है, सो

तथा वितण्डा प्रतिपक्षस्थापनाहीनं वाक्यम् । वितण्ड्यते आहन्यतेऽनया प्रतिपक्षसाधनमिति व्युत्पत्तेः ।
“ अभ्युपेत्य पक्षं यो न स्थापयति स वैतण्डिक इत्युच्यते ” इति न्यायवार्तिकम् । वस्तुतस्त्वपरामृष्टतत्त्वात्त्व-
विचारं मौख्यं वितण्डा । तत्र यत्पाण्डित्यमविकलं कौशलं तेन कण्डूलं मुखं लपनं यस्य स तथा तस्मिन् । कण्डूः
खर्बूः कण्डूरस्यास्तीति कण्डूलम् (सिध्मादित्वान्मत्वर्थीयो लप्रत्ययः) । यथा किलान्तरुत्पन्नकृमिकुलजनितानां कण्डूति

१ वादिप्रयुक्तपक्षप्रतिपक्षप्रतिपक्षान्यासः प्रतिपक्षः । कोऽर्थः । वादिपक्षापेक्षया प्रतिपक्षो वैतण्डिकस्य स्वपक्ष एवेति ॥

निरोद्धुमपायन् पुरुषो व्याकुलतां कलयति । एवं तन्मुखमपि वितण्डापाण्डित्येनासम्बद्धप्रलापचापलमाकलयत् कण्डूलमित्युपचर्यते ।

तथा “ वितण्डापाण्डित्यकण्डूलमुखे ” खंडित किया जाता है प्रतिपक्ष अर्थात् वादीकरके कहे हुए पक्षका विरोधी होनेसे प्रतिवादीके पक्षका अर्थात् अपने पक्षका सिद्ध करना जिससे; वह वितंडा है; इस व्युत्पत्तिसे तथा “ जो किसी पक्षको स्वीकार करके फिर उसको स्थिर (सिद्ध) नहीं करता है; उसको वैतंडिक कहते है ” इस न्यायवात्तिकसे प्रतिपक्ष (अपने मत) की स्थापना (सिद्धि) से रहित जो वाक्यका कहना है; सो वितंडा है । यथार्थमें तात्पर्य तो यह है कि—नहीं किया गया है तत्त्व, तथा अतत्त्वका विचार जिसमें ऐसा जो मौख्य (शीघ्रता से कह देना) है अर्थात् विना सोचे समझे मुखसे बक देना है; उसको वितंडा कहते है; उस वितंडामें जो पाण्डित्य अर्थात् परिपूर्ण चतुरता है; उससे कण्डूल अर्थात् कण्डू (खाज व खुजली) है जिसके वह कण्डूल कहलाता है [‘ कण्डू ’ यह शब्द सिध्मादिगणका है; इस कारण यहां मत्वर्थीय ल प्रत्यय हुआ है ।] कण्डूलके समान कण्डूल है अर्थात् खुजलीका धारक है मुख जिसका ऐसे लोकमें । भावार्थ—जैसे अपने शरीरके भीतर पैदा हुए कीड़ोंके समूहसे उत्पन्न हुई खुजलीको रोकने (मिटाने) में असमर्थ हुआ पुरुष व्याकुलताको करता है; इसी प्रकार उस विवादग्रस्तलोकका जो मुख है; वह भी वितंडाकी चतुराईसे विना संबंधके बकवाद करनेकी चपलताको धारण करता है; इस कारण यहां पर उस विवादग्रस्तलोकके मुखमें साधर्म्यसे कण्डूल इस शब्दका उपचार किया गया है ॥ [सूचना—यहां पर व्याख्यार्थके अनुसार खंडान्वयकी रीतिसे ही अनुवाद किया गया है; परंतु यदि दूरान्वय होनेके कारण आशय समझमें न आवे तो इस अनुवादमें मूलके शब्दों पर जो दंडान्वयकी रीतिसे अंक दिये गये हैं; उनको क्रमशः लगाकर आशय समझ लेना चाहिये ।]

एवं च स्वरसत एव स्वस्वाभिमतमतव्यवस्थापनाविसंस्थुलो वैतण्डिकलोकस्तत्र च तत्परमाप्तभूतपुरुषविशेषपरिकल्पितपरवच्चनप्रचुरवचनचर्चनोपदेशश्चेत्सहायः समजनि तदा स्वत एव ज्वालाकलापजटिले प्रज्वलति हुतारान इव कृतो घृताहुतिप्रक्षेप इति । तैश्च भवाभिनन्दिभिर्वादिभिरैतादृशोपदेशदानमपि तस्य मुनेः कारुणिकत्व-

१ रचनानाम अर्थज्ञानपूर्वकं प्रागसत्या एव पदानुपूर्व्याः करणम् । २ सकटे प्रस्तावे च सति छलादिभिः स्वपक्षस्थापनमभिमतं परविजये हि न धर्मध्वंसादिदोषसम्भवः तस्माद्द्वर छलादिभिरपि जय इति ।

कोटावारोपितम् । तथा चाहुः—“दुःशिक्षितकुतर्कांश-लेशवाचालिताननाः । शक्याः किमन्यथा जेतुं वितण्डाटोप-
मण्डिताः । १ । गतानुगतिको लोकः कुमार्यं तल्पतारितः । मागादिति च्छलादीनि ग्राह कारुणिको मुनिः । २ । ”
कारुणिकत्वं च वैराग्यान्न भिद्यते । ततो युक्तमुक्तमहो विरक्त इति स्तुतिकारोपोपहासवचनम् ।

रा.जै.शा.

इस पूर्वोक्त प्रकारसे वैतंडिकलोक सभावासे ही अपने अपने अभीष्ट मतका स्थापन करनेमें चतुर है और उसमें जो उस वैतंडिकलोकके परम आप्त (यथार्थवक्ता) स्वरूप पुरुषविशेष (गोतममुनि)के द्वारा कल्पना किये हुए दूसरोंका ठिगना है प्रधान जिनमें ऐसे वचनोंकी रचनारूप (पदार्थ ज्ञानसहित अपूर्व वाक्योंके बनाने रूप) उपदेश सहायक हो गया तब मानों गोतममुनिने अपने आप ही ज्वालाओंके समूहसे व्याप्त ऐसी जलती हुई अग्निमें घृतकी आहुतिका ही क्षेपण किया । भावार्थ—जैसे स्वतः जाज्वल्यमान अग्निमें घृतके गेरनेसे वह अग्नि द्विगुण-चतुर्गुणरूपसे प्रज्वलित हो जाती है; उसी प्रकार सभावासे ही वितंडाकी धारण करनेवाले मनुष्योंमें गोतममुनिने छल आदिका उपदेश देकर उन मनुष्योंकी वितंडाको अत्यन्त वृद्धा दी है । और ससारमें संतोषकी धारण करनेवाले मनुष्योंमें गोतममुनिने छल आदिका उपदेश देकर उन मनुष्योंकी वितंडाको अच्छा समझनेवाले उन नैयायिक वादियोंने उस गोतममुनिका जो ऐसा अर्थार्थ संकट तथा प्रस्तावके आनेपर छलआदिके द्वारा अपने पक्ष (मत) की स्थापना करनी चाहिये; क्योंकि—दूसरोंके जीतनेमें छल आदिके भी करुणावानपनेकी श्रेणीमें रक्सा है । सो ही वे नैयायिक कहते हैं कि,—अत्यन्त परिश्रमसे पढ़े हुए जो कुतर्क हैं; उसको भी करुणावानपनेकी श्रेणीमें रक्सा है । सो ही वे नैयायिक कहते हैं कि,—अत्यन्त परिश्रमसे पढ़े हुए जो कुतर्क अर्थात् छल आदिके विना कैसे जीते जा सकें । १ । लोक गतानुगतिक (देखादेखीसे गयेके पीछे जानेवाला) है, अतः उन वादियोंसे ठिगा हुआ होकर उनका अनुकरण करके कुमार्यमें न चला जावे; इसी हेतुसे दयाके धारक गोतममुनीने छल आदिका उपदेश दिया है । भावार्थ—यदि मैं छल आदिका उपदेश न दूंगा तो भोले मनुष्य दूसरे वादियोंके मतमें चले जावेंगे, यही अपने मतमें विचारकर करुणाके धारक गोतममुनिने छल आदिका उपदेश दिया है । २ । ” और करुणावानपना वैराग्यसे जुदा नहीं होता है अर्थात् कारुणिकत्व और वैराग्य ये दोनों एकरूप ही हैं; इस कारण स्तुतिके कर्त्ता आचार्यमहाराजने जो “ आश्चर्य है कि— गोतम मुनि विरक्त है ” ऐसा हास्यका वचन कहा है; सो ठीक ही कहा है ।

अथ मायोपदेशादितिसूचनासूत्रं वितन्धते । अक्षपादमते किल षोडश पदार्थाः—“प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृ-
ष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवाद्जल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानाग्निःश्रेयसाधिगमः”
इति वचनात् । न चैतेषां व्यस्तानां समस्तानां ना अधिगमो निःश्रेयसायासिहेतुः । न हेतुकेन नित्याधिशक्तिरेन
ज्ञानमात्रेण मुक्तियुक्तिमती । असमप्रसामग्रीकत्वात् । निघटितैकचप्रस्थेन भनीपित्तनगरप्राशिवत् ।

अथ ‘ मायोपदेशात् ’ इरा सूचनासूत्रको निस्तृत करते हैं अर्थात् मूल्यों जो गायान्के अन्वेषणसे प्रेसा कुछ सूचित किया है;
इयको यहाँ विस्तारसे कहते हैं । अक्षपादके मतों (नैयायिक मतों) “ प्रमाण १, प्रमेय २, संशय ३, प्रयोजन ४, अद्यस्त
६, सिद्धान्त ६, अवयव ७, तर्क ८, निर्णय ९, नाद १०, जल्प ११, वितण्डा १२, हेत्वाभास १३, उल्ल १४, गति १५,
और निग्रहस्थान १६, इन सबोंके तत्त्वज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । ” इसतन्त्रसे शोल्क १६ गवर्थ है । परन्तु नैयायिकोंके
माने हुए इन शोल्क पदार्थोंसे व्यस्त अर्थात् एक दो चार आदि शोल्कसे पदार्थोंका ज्ञान लेना अथवा इन सब शोल्क पदार्थोंका
ज्ञान लेना भी मोक्षकी प्राप्तिमें कारण नहीं है । क्योंकि; नित्यासे रचित केवल एक ज्ञानसे ही मोक्षकी प्राप्तिका योग्य स्थिति नहीं
धारण करता है; कारण कि;—पूर्णसागरीसे (सपूर्ण कारणोंसे) शून्य है । जैसे कि;—एक इष्टे हुए पट्टियेको धारण करनेवाले
स्थसे मनोवाञ्छित नगरकी प्राप्ति नहीं होती है । भावार्थ—नैयायिक जो शोल्क; पदार्थोंके तत्त्वज्ञानसे मोक्षकी प्राप्तिका योग्य
कहते हैं सो ठीक नहीं है । क्योंकि; जैसे स्थके दो पहियोंसे एक पहिया हुआ हो तो उस एक पहियेवाले स्थों नञ्जसे
मनुष्य अपने चाहे हुए नगरको नहीं जाता है, इसी प्रकार; इन शोल्क; पदार्थोंके ज्ञानके मात्रसे ही आत्मानको मोक्षकी प्राप्ति
नहीं होती है; किन्तु ज्ञान और क्रिया इन दोनोंके योगसे ही आत्मानको मोक्ष मिलता है ।

न च वाच्यं न खलु वयं कियां प्रतिक्षिपामः । किन्तु तत्त्वज्ञानपूर्विक्रिया एव तस्या मुक्तिहेतुत्वमिति त्पनार्थ
ज्ञानानग्निः—श्रेयसाधिगम इति ब्रूम इति । न ह्यमीषां संघतं अपि ज्ञानधिषे मुक्तिप्राप्तिहेतुभूते । विनशत्यात्
तत्क्रिययोः । न च वितथत्वमसिद्धम् । विचार्यमाणानां योऽज्ञानागपि तत्त्वाभासत्वात् । तथा हि—
१ तावदक्षणमित्थं सूत्रितम्—“ अर्थोपलब्धिहेतुः प्रमाणम् ” इति । एतच्च न विचारयत्तम् । अगोऽर्थोपल-
वं यदि निमित्तत्वमात्रं तत्सर्वकारकसाधारणमिति कर्तृकर्माद्वरि प्रमाणत्वप्रयत्नः । अथ कर्तृकर्माद्विधि-

लक्षणं हेतुशब्देन करणमेव विवक्षितं तर्हि तज्ज्ञानमेव युक्तं न चेन्द्रियसन्निकर्षादि । यस्मिन् हि सत्यर्थ उपलब्धो भवति स तत्करणम् । न चेन्द्रियसन्निकर्षसामग्र्यादौ सत्यपि ज्ञानाभावेऽर्थोपलम्भः । साधकतमं' हि दन्यत्र प्रमाणत्वम् । अन्यत्रोपचारात् । व्यवहितफलस्यापि करणत्वे दुग्धभोजनादेरपि तथाप्रसङ्गः । तन्न ज्ञाना- ज्ञानस्यैव । इति न तत्सम्यग्लक्षणम् । "स्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम् ।" इति तु तात्त्विकं लक्षणम् । साधकतमत्वं अत्र यदि यद् नैयायिक यह कहे कि, हम क्रियाका निषेध नहीं करते है; अर्थात् सूत्रमें १६ पदार्थोंके तत्त्वज्ञानसे मोक्ष होता है ऐसा कहनेसे यह न समझना चाहिये कि, -हम क्रिया (आचरण व चारित्र) को मोक्षकी प्राप्तिके प्रति कारण नहीं मानते है, किन्तु सोलहपदार्थोंके तत्त्वज्ञान पूर्वक (सहित) जो क्रिया है; वही युक्तिकी कारणभूता है; इस आशयको विदित करनेके लिये ' तत्त्वज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं । सो यह भी उनको न कहना चाहिये । क्योंकि पदार्थोंके ज्ञान और क्रिया ये दोनों मिले हुए भी मोक्षकी प्राप्तिमें कारणभूत नहीं हैं अर्थात् इन सोलह पदार्थों संबंधी ज्ञान और क्रियाके समुदायको भी मोक्षका कारण मानना ठीक नहीं है । क्योंकि; उन पदार्थोंसंबंधी जो ज्ञान तथा क्रिया है; वे सो ही मिथ्या है । और मिथ्यापना असिद्ध नहीं है । कारण कि, -परीक्षा करनेपर ये सोलह ही पदार्थ तत्त्वाभास सिद्ध होते हैं । प्रत्यक्षमें जो हेतु है; वह प्रमाण है " । और यह प्रमाणका लक्षण विचारको नहीं सहता है " अर्थोपलब्धिमें अर्थात् पदार्थके सिद्ध होता है । क्योंकि; यदि अर्थोपलब्धिमें हेतु जो है वह निमित्तमात्र है अर्थात् जो जो अर्थोपलब्धिमें निमित्तकारण है; उस २ सभीको अर्थोपलब्धिमें हेतु कहेंगे तो वह हेतुत्व सब कारकोंमें साधारण है; अतः कर्त्ता, कर्म आदिके भी प्रमाणताका प्रसंग

१ यत्र हि प्रमात्रा व्यापारिते सत्यवश्यं कार्योत्पत्तिरन्यथा पुनरुत्पत्तिरेव तत्तत्र साधकतमम् । तथाचोक्तं— " क्रिया- या. परनिष्पत्ति. यद्वाहादारादनन्तरम् । विवक्ष्यते यदा नत्र करणत्वं तदा स्तुतम् ॥ १ ॥ " २ कारणे कार्योपचारात् कार्ये कारणोपचाराद्वा प्रमाण- भूतेन पक्षहेतुवचनात्मकेन परार्थानुमानेन व्यभिचारवारणाय अन्यत्रोपचारादित्युक्तम् ।

होगा अर्थात् अर्थोपलब्धिमें छहों ही कारक निमित्तभूत हैं; इसकारण कर्त्ता कर्म आदि भी प्रमाण हो जावेंगे; जो कि; तुम्हारे अनिष्ट है। और यदि हेतुशब्दसे कर्त्ता कर्म आदिसे भिन्न लक्षणका धारक (जुदे स्वरूपवाला) ऐसा जो करण है; वह ही विवक्षित है अर्थात् हेतुशब्दसे करणका ही कथन करना चाहते हो; तो उस आत्मा ज्ञानको ही अर्थोपलब्धिमें करण कहना ठीक है और इन्द्रियसन्निकर्ष (इन्द्रिय और पदार्थके संबंध) आदिको अर्थोपलब्धिमें करण कहना अनुचित है। क्योंकि; जिसके विद्यमान होनेपर अर्थ उपलब्ध होवे अर्थात् देखा व जाना जावे; वही अर्थोपलब्धिमें करण है। और इन्द्रियसन्निकर्ष आदि सामग्री (सहकारी कारणोंके समूह) के विद्यमान होने पर भी ज्ञानका अभाव होवे तो अर्थका उपलम्भ (ज्ञान) नहीं होता है। भावार्थ—ज्ञानके होने पर ही अर्थोपलब्धि होती है; न कि; केवल इन्द्रिय सन्निकर्ष आदिसे; अतः ज्ञानको ही अर्थोपलब्धिमें हेतु मानना चाहिये। क्योंकि; जो साधकतम (कार्यको मुख्यतासे सिद्ध करनेवाला) होता है; वही हेतु (कारण) करण कहलाता है। अर्थात् जहां जिस कारण को व्यवहारमें लानेसे अवश्य ही कार्यकी उत्पत्ति होती है; वही वहां साधकतम होता है और वह करण अव्यवहितफल माना गया है अर्थात् उस कारणको व्यवहारमें लानेसे कार्यरूप फलकी ही उत्पत्ति होती है बीचमें अन्य कुछ भी नहीं होता है। यदि व्यवहितफलवालेको (बीचमें अन्य २ कार्यको करनेके पश्चात् कालान्तरमें अभीष्टकार्यरूप फल देनेवालेको) भी करण मानें तो दुग्धके भोजन आदिके भी करणता हो जावे। भावार्थ—दुग्धभोजन आदिसे इन्द्रिय आदिकी शक्ति बढ़ती है इन्द्रिय आदिकी शक्ति हो तब पदार्थके साथ उनका संबंध होनेसे अर्थोपलब्धि होती है; इसप्रकार परंपरासे अर्थोपलब्धिमें कारणभूत जो दुग्ध भोजन आदि हैं; वह भी करण हो जावें; जो कि तुमको अभीष्ट नहीं है। इस कारण ज्ञानसे अन्यमें प्रमाणता नहीं है अर्थात् अर्थोपलब्धिमें हेतु होनेसे ज्ञान ही प्रमाण है। क्योंकि; अन्य स्थलमें अर्थात् कारणमें कार्यका व कार्यमें कारणका उपचार करके पक्ष तथा हेतुका कथन करने रूप जो परार्थानुमान है; उसमें जो प्रमाणत्व है; वह उपचारसे है। और “ जो अनुभवका सम्यक् (भले प्रकार) साधन है, वह प्रमाण है। ऐसा जो न्यायभूषणसूत्रके कर्त्ताने प्रमाणका लक्षण कहा है; उस लक्षणमें भी साधनका ग्रहण करनेसे कर्त्ता-कर्म आदिको दूर करने द्वारा करणके ही प्रमाणता सिद्ध होती है। तो भी अव्यवहितफलपनेसे ज्ञान ही साधकतम (करण) है। इस कारण यह भी प्रमाणका लक्षण अच्छा नहीं है। और ‘ अपने तथा परका निश्चयकरानेवाला जो ज्ञान है; वह प्रमाण है। ’ ऐसा जो हम जैनियोंका लक्षण है; वह तो यथार्थ (सच्चा) है।

प्रमेयमपि तैरात्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रत्यभावफलदुःखापवर्गभेदाद्द्वादशविधमुक्तम् । तच्च न सम्यग् । यतः शरीरेन्द्रियबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषफलदुःखानामात्मन्येवान्तर्भावो युक्तः । संसारिण आत्मनः कथञ्चित्तदविवर्णशून्यत्वात् । आत्मा च प्रमेय एव न भवति । तस्य प्रमातृत्वात् । इन्द्रियबुद्धिमनसां तु करणत्वात् प्रमेयत्वाऽभावः । दोषास्तु रागद्वेषमोहास्ते च प्रवृत्तेर्न पृथग्भवितुमर्हन्ति । वाङ्मनःकायव्यापारस्य शुभाशुभफलस्य विंशतिविधस्य तन्मते प्रवृत्तिशब्दवाच्यत्वात् । रागादिदोषाणां च मनोव्यापारात्मकत्वात् । दुःखस्य शब्दादीनामिन्द्रियार्थानां च फल एवान्तर्भावः । “ प्रवृत्तिदोषजनितं सुखदुःखात्मकं मुख्यं फलं तत्साधनं तु गौणम् । ” इति जयन्तवचनात् । प्रत्यभावापवर्गयोः पुनरात्मन एव परिणामान्तरापत्तिरूपत्वान्न पार्थक्यमात्मनः सकाशादुचितम् । तदेवं द्वादशविधं प्रमेयमिति वाग्विस्तरमात्रम् । “ द्रव्यपर्यायात्मकं वस्तु प्रमेयम् ” इति तु समीचीनं लक्षणम् । सर्वसंज्ञाहकत्वात् । एवं संज्ञयादीनामपि तत्त्वाभासत्वं प्रेक्षावद्भिरनुपेक्षणीयम् । अत्र तु प्रतीतत्वाद्ग्रन्थगौरवभयाच्च न प्रपञ्चितम् । न्यक्षेण ह्यत्र न्यायशास्त्रमवतारणीयम् । तच्चावतार्यमाणं पृथग्ग्रन्थान्तरतामवगाहत इत्यास्ताम् ।

उन नैयायिकोंने प्रमेय (प्रमाण करने योग्य जो पदार्थ) है, उसको भी आत्मा १, शरीर, २, इन्द्रिय ३, अर्थ ४, बुद्धि ५, मन ६, प्रवृत्ति ७, दोष ८, प्रत्यभाव ९, फल १०, दुःख ११ और अपवर्ग; इन भेदोंसे बारह १२ प्रकारका कहा है । और वह बारह प्रकारके प्रमेयका कथन करना उत्तम नहीं है । क्योंकि,—शरीर १, इन्द्रिय २, बुद्धि ३, मन ४, प्रवृत्ति ५, दोष ६, फल ७, तथा दुःख ८, इन आठ भेदोंका तो आत्मामें ही अन्तर्भाव कर लेना ठीक है अर्थात् शरीरादि आठ प्रमेयोंको तो आत्मारूप प्रमेयमें ही मिला लेने चाहिये । क्योंकि जो ससारी आत्मा है; वह किसी प्रकार (अपेक्षा) से इन शरीर आदिसे भिन्न नहीं है अर्थात् शरीरादिरूप ही है । और जो आत्मा है वह तो प्रमाता (प्रमितिक्रियाका करनेवाला) है अतः प्रमेय ही नहीं हो सकता है । इन्द्रिय, बुद्धि तथा मन ये तीनों तो करण है अर्थात् प्रमाता इनके द्वारा प्रमितिक्रियाको करता है अतः प्रमेय नहीं है । और दोष जो राग, द्वेष तथा मोहरूप है, वे प्रवृत्तिसे जुड़े होने योग्य नहीं है । क्योंकि, उन नैयायिकोंके मतमें शुभ और अशुभफलको धारण करनेवाला ऐसा जो वीस २० प्रकारका मन, वचन, तथा काय, इन तीनोंका व्यापार है,

वही प्रवृत्तिशब्दसे वाच्य (कहने योग्य) है अर्थात् उन नैयायिकोंने प्रवृत्तिशब्दसे मन, वचन तथा कार्यके वीस प्रकारके व्यापाररूप अर्थको ग्रहण किया है और राग आदि दोष मनके व्यापार रूप हैं । दुःखका तथा शब्द आदि जो इंद्रियोंके विषय है; उनका फलरूप प्रमेयमें ही अन्तर्भाव होता है अर्थात् दुःख और अर्थरूप जो दो प्रमेय है वे फलनामक प्रमेयमें ही शामिल होते हैं । क्योंकि ' प्रवृत्ति तथा दोषसे उत्पन्न हुआ ऐसा जो सुख दुःखरूप फल है; वह मुख्य फल है और उस सुखदुःखरूप फलका जो साधन है, वह गौणफल है । ' ऐसा जयन्तका वचन है । प्रेत्यभाव और अपवर्ग ये दोनों आत्मा ही के दूसरे परिणामरूप है अर्थात् आत्मा ही पूर्वपरिणामका त्याग करके इस प्रेत्यभाव तथा अपवर्गरूप उत्तर परिणाम (अवस्था) को धारण कर लेता है; अतः इन दोनोंको आत्मासे जुदे मानना उचित नहीं है । सो इस पूर्वोक्तप्रकारसे वारहप्रकारके प्रमेयोंका जो कथन करना है, वह केवल वाग्जाल (वचनोंके आडम्बर) रूप है अर्थात् व्यर्थ है । और द्रव्य तथा पर्यायस्वरूप जो वस्तु है; वह प्रमेय है, यह जो हम जैनियोंने प्रमेयका लक्षण कहा है सो तो बहुत उत्तम है । क्योंकि;—यह लक्षण सबका सग्रह करनेवाला है । इस पूर्वोक्त प्रकारसे प्रेक्षावान पुरुषोंको संशय आदिके भी तत्त्वाभासपना उपेक्षित नहीं करना चाहिये । भावार्थ—जैसे नैयायिकोंके १६ पदार्थोंमेंसे प्रमाण तथा प्रमेयको हमने उक्त प्रकारसे तत्त्वाभासरूप सिद्ध किया है; उसीप्रकार विचारवान पुरुष संशय आदि शेष चौदह १४ पदार्थोंको भी तत्त्वाभासरूप समझ लेंगे । यहा तो वे सब संशयादि पदार्थ जाने हुए हैं इस कारणसे तथा उनका यहा कथन करनेसे ग्रंथका विस्तार अधिक हो जानेके भयसे उनको विस्तृतरूपसे नहीं दिखाये है । क्योंकि यहां पूर्णरूपसे न्यायशास्त्र (नैयायिकोंके मत) का अवतरण करना चाहिये अर्थात् संपूर्ण नैयायिकोंके मतको दिखलाना चाहिये । और अवतरण किया हुआ वह न्यायशास्त्र इस ग्रंथसे भिन्न एक दूसरे ग्रंथरूप हो जावे । इस कारण वह न्यायशास्त्र यहां न कहा हुआ ही रहे ।

तदेवं प्रमाणादिषोडशपदार्थानामविशिष्टेऽपि तत्त्वाभासत्वे प्रकटकपटनाटकसूत्रधारणां त्रयाणामेव ह्यलजाति-
निग्राहस्थानानां मायोपदेशादितिपदेनोपक्षेपः कृतः । तत्र परस्य वदतोऽर्थविकल्पोपपादनेन वचनविधातश्छलम् ।
तत्रिधा वाक्छलं सामान्यच्छलमुपचारच्छलं चेति । तत्र साधारणे शब्दे प्रयुक्ते वक्तुरभिप्रेतादार्थादर्थान्तरकल्प-
नया तन्निषेधो वाक्छलम् । यथा नवकम्बलोऽयं माणवक इति नूतनविवक्षया कथिते परः संख्यामारोप्य निषेधति
कुतोऽस्य नव कम्बला इति । संभावनयातिप्रसङ्गिनोऽपि सामान्यस्योपन्यासे हेतुत्वारीपणेन तन्निषेधः सामान्य-

च्छलम् । यथा अहो नु खल्वसौ ब्राह्मणो विद्याऽऽचरणसंपन्न इति ब्राह्मणस्तुतिप्रसङ्गे कश्चिद्ददति संभवति ब्राह्मणे विद्याऽऽचरणसंपदिति । तच्छलवादी ब्राह्मणत्वस्य हेतुतामरोप्य निराकुर्वन्नभियुङ्क्ते । यदि ब्राह्मणे विद्याऽऽचरणसंपद्भवति त्रात्येऽपि सा भवेद्ब्राह्मण्येऽपि ब्राह्मण एवेति । औपचारिके प्रयोगे मुख्यप्रतिषेधेन प्रत्यवस्थानमुपचारच्छलम् । यथा मञ्चाः क्रोशन्तीत्युक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते कथमचेतना मञ्चाः क्रोशन्ति मञ्चस्था पुरुषाः क्रोशन्तीति ।

सो इस पूर्वोक्तप्रकारसे प्रमाण आदि सोलह पदार्थके तत्त्वाभासपनेमें कोई भी विशेष नहीं है अर्थात् नैयायिकोंके माने हुए सोलह ही पदार्थ समानरूपतासे तत्त्वाभास है; तौ भी स्तुतिके कर्त्ता आचार्यमहाराजने 'मायोपदेशात्' इस पदसे उन पदार्थोंमेंसे प्रकटमें कपटरूप नाटकके सूत्रधार अर्थात् सर्वसाधारणके देखते २ कपटको रचनेवाले ऐसे जो छल, जाति तथा निग्रहस्थान नामक तीन पदार्थ है, उनका ही उपक्षेप (ग्रहण) किया है । उनमें वादी जो कहै; उसके कथनमें अर्थविकल्प (दूसरे अर्थ) को उत्पन्न करके जो वादीके वचनका निषेध करना है, उसको छल कहते है । वह छल वाक्छल ? , सामान्यछल २ और उपचार-छल ३, इन भेदोंसे तीन प्रकारका है । इन तीनों छलोंमेंसे वादी साधारणशब्द (अनेक अर्थके धारक एक शब्द) का प्रयोग करे, तब उस कहनेवाले वादीके वांछित (चाहे हुए) अर्थसे अन्य दूसरे अर्थकी कल्पना करके जो वादीके कथनका निषेध करना है, वह वाक्छल है । जैसे यह बालक नव (नये) कञ्चल (' कामला ' नामक वस्त्रविशेष) को धारण करता है, इस प्रकार ' नव ' शब्दसे नवीन (नये) रूप अर्थको कहनेकी इच्छासे वादी कहै; तब प्रतिवादी नव इस शब्दसे नौ ९ की संख्यारूप अर्थको ग्रहण करके इस बालकके नव (नौ) कञ्चल कहां है अर्थात् यह तो एक ही कञ्चलका धारक है इस प्रकार कहकर वादीके कथनको निषेध करता है । ? । संभावनासे अत्यंत प्रसंग (संबन्ध) को धारण करनेवाले सामान्यका कथन करनेपर उस सामान्यमें हेतुका आरोप करके अर्थात् सामान्यको हेतु बनाकर जिसमें दूसरेके कथनका निषेध किया जाता है; वह सामान्यछल कहलाता है । जैसे आश्चर्य है कि—यह ब्राह्मण विद्या और आचरणरूप संपदाको धारण करता है, इस प्रकार ब्राह्मणकी स्तुतिके प्रसंगमें अर्थात् यह ब्राह्मण ज्ञान व चरित्र सहित है इसरूपसे कोई ब्राह्मणकी प्रशंसा करता हो; उसी अवसरमें कोई पुरुष कथन करे कि, ब्राह्मणमें विद्या और आचरणरूप संपदा ही सकती है । तब सामान्यछलको कहनेवाला

प्रतिवादी ब्राह्मणमें हेतुताका आरोप करके अर्थात् ब्राह्मणरूप सामान्यको हेतु बनाकर उसके कथनका खंडन करनेको तैयार होता है कि—यदि ब्राह्मणमें विद्या तथा आचरणकी संपदा होती है तो ब्राह्मणों में भी अर्थात् जो जातिसे तो ब्राह्मण है; परंतु संस्कार आदिसे रहित होनेके कारण ब्राह्मणोंके समूहसे गिर गया है; उसमें भी वह विद्या और आचरणकी संपदा होवे। क्योंकि ब्राह्मण भी ब्राह्मण ही है अर्थात् यद्यपि ब्राह्मणोंने उसको अपने समूहमेंसे निकाल दिया है तथापि वह ब्राह्मण मातापिताओंके योगसे उत्पन्न हुआ है, अतः वह भी ब्राह्मण ही है। २। उपचार (लक्षणा) से किये हुए प्रयोगमें मुख्य अर्थका निषेध करके जिसमें वादीके कथनसे विरुद्ध कथन किया जावे; वह उपचारछल कहलाता है। जैसे—‘ मंच (मंचे अर्थात् खोंट) रुदन करती हैं ’ इस प्रकार वादीके कहनेपर पर उपचारछलसे कथन करनेवाले प्रतिवादी विरुद्ध भाषण करते हैं कि; अचेतन मंच कैसे रुदन करते हैं ? मंचपर स्थित पुरुष रुदन करते हैं। भावार्थ—तुम जो कहते हो कि,—‘ मंच रुदन करते हैं, ’ सो ठीक नहीं है; क्योंकि मंच तो अचेतन है; अतः तुमको मंचपर बैठे हुए मनुष्य रुदन करते हैं, ऐसा कहना चाहिये।

तथा सम्यग्हेतौ हेत्वाभासे वा वादिना प्रयुक्ते श्रुति तद्दोषतत्त्वाप्रतिभासे हेतुप्रतिबिम्बनप्रायं किमपि प्रत्यवस्थानं जातिदूषणाभास इत्यर्थः। सा च चतुर्विंशतिभेदा साधर्म्यादिप्रत्यवस्थानभेदेन। यथा-साधर्म्यवैधर्म्योत्कर्षाऽपकर्षवर्ण्याऽवर्ण्यविकल्पसाध्यप्राप्तिसिद्धप्रतिदृष्टान्ताऽनुत्पत्तिसंशयप्रकरणाऽहेत्वर्थापत्यविशेषोपपत्त्युपलब्धनुपलब्धिनित्याऽनित्यकार्यसमाः।

तथा जब वादी निर्दोष हेतु अथवा हेत्वाभासका प्रयोग करे तब उस वादीके कथनमें किसी दोषका प्रतिभास न होनेपर भी अर्थात् दोष मालूम हुए बिना भी जो, प्रायः हेतुके समान प्रतीत हो, ऐसा शीघ्रतासे कुछ भी विरुद्ध कह देना है; उसको जाति अथवा दूषणाभास कहते हैं। वह साधर्म्यआदिसे प्रत्यवस्थान (विरुद्ध भाषण करने) रूप भेदोंसे चौबीस २४ प्रकारकी है। वे चौबीस भेद निम्नलिखित हैं—साधर्म्य १, वैधर्म्य २, उत्कर्ष ३, अपकर्ष ४, वर्ण्य ५, अवर्ण्य ६, विकल्प ७, साध्य ८, प्राप्ति ९, अप्राप्ति १०, प्रसंग ११, प्रतिदृष्टान्त १२, अनुत्पत्ति १३, संशय १४, प्रकरण १५, हेतु १६, अर्थोपपत्ति १७, अविशेष १८, उपपत्ति १९, उपलब्धि २०, अनुपलब्धि २१, नित्य २२, अनित्य २३, और कार्यसम २४।

तत्र साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं साधर्म्यसमा जातिर्भवति। अनित्यः शब्दः कृतकत्वाद् घटवदिति प्रयोगे कृते

साधर्म्यप्रयोगैव प्रत्यवस्थानम् । नित्यः शब्दो निरवयवत्वादाकाशवत् । न चास्ति विशेषहेतुघटसाधर्म्यात्कृत-
कत्वादनित्यः शब्दो न पुनराकाशसाधर्म्यान्निरवयवत्वान्नित्य इति । वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं वैधर्म्यसमाजातिर्भवति ।
अनित्यः शब्दः कृतकत्वाद् घटवदित्यत्रैव प्रयोगे स एव प्रतिहेतुवैधर्म्येण प्रयुज्यते । नित्यः शब्दो निरवयवत्वात् ।
अनित्यं हि सावयवं दृष्टं घटादीति । न चास्ति विशेषहेतुघटसाधर्म्यात् कृतकत्वादनित्यः शब्दो न पुनस्तद्वैधर्म्या-
न्निरवयवत्वान्नित्य इति । उल्कार्पापकर्पाभ्यां प्रत्यवस्थानमुल्कार्पापकर्पसमे जाती भवतः । तत्रैव प्रयोगे दृष्टान्तधर्म
कंचित्साध्यमिण्यापादयद्युल्कर्पसमां जातिं प्रयुक्ते । यदि घटवत् कृतकत्वादनित्यः शब्दो घटवदेव मूर्तोऽपि
भवतु । न चेन्मूर्तो घटवदनित्योऽपि माभूदिति शब्दे धर्मान्तरोल्कर्पमापादयति । अपकर्पस्तु घटः कृतकः सन्-अ-
श्रावणो दृष्टः । एवं शब्दोऽप्यस्तु । नो चेद् घटवदनित्योऽपि माभूदिति शब्दे श्रावणत्वधर्ममपकर्पतीति । इत्ये-
ताश्चतस्रो दिङ्मानत्रदर्शनार्थं जातय उक्ताः । एवं शेषा अपि विंशतिरक्षपादशास्त्रादवसेयाः । अत्र त्वनुपयो-
गित्वात्र लिखिताः ।

उप २४ प्रकारकी जातियोंनेसे जो साधर्म्यके द्वारा प्रत्यवस्थान है, वह साधर्म्यसमाजाति कहलाती है । भावार्थ—जैसे कोई
वादी 'शब्द जो है, वह अनित्य है । कृतक होनेसे, घटके समान अर्थात् जैसे कृतक (अपनी उत्पत्तिमें दूसरेके व्यापारको चाह-
नेवाला) होनेसे घट अनित्य है, उसी प्रकार कृतक होनेसे शब्द भी अनित्य है, ऐसा अनुमानका प्रयोग करे अर्थात् घटके कृतक-
त्वरूप धर्मको शब्दमें ग्रहण करके शब्दको अनित्य सिद्ध करे तब प्रतिवादी जो 'शब्द नित्य है निरवयव होनेसे आकाशके
समान अर्थात् जैसे अवयवरहित होनेके कारण आकाश नित्य है, उसी प्रकार अवयवरहित होनेसे शब्द भी नित्य है । और
घटके साधर्म्यरूप कृतकत्वको धारण करनेसे शब्द अनित्य है तथा आकाशके साधर्म्यरूप निरवयवत्वको धारण करता हुआ भी
शब्द नित्य नहीं है इस माननेमें कोई विशेषहेतु (नियामक) नहीं है जिससे कि—शब्दको घटके समान अनित्य ही माना
जावे और आकाशके समान नित्य न माना जावे । इस प्रकार आकाशके निरवयवत्वधर्मका धारक शब्दको दिसलाकर वादीके कथनसे
विरुद्ध भाषण करे अर्थात् शब्दमें नित्यता सिद्ध करे तो समझना चाहिये कि, यहा पर प्रतिवादी साधर्म्यसमाजातिका प्रयोग

१. निरवयवत्वरूप एव । २. घटरूपदृष्टान्तवैधर्म्येण ।

करता है । १ । वैधर्म्यसे जो प्रत्यवस्थान है; वह वैधर्म्यसमा जाति है । भावार्थ—जैसे—शब्द अनित्य है कृतक होनेसे घटके समान इसी वादीके कहे हुए अनुमान प्रयोगमें ' शब्द नित्य है अवयवरहित होनेसे । क्योंकि जो अनित्य होता है; वह सावयव (अवयवसहित) देखा गया है । जैसे कि—घटादिपदार्थ अनित्य है इसकारण सावयव है । और घटके साधर्म्य कृतकत्वसे शब्द अनित्य है तथा घटके वैधर्म्य (घटमें न रहनेवाले) निरवयवत्वसे शब्द नित्य नहीं है अर्थात् कृतकताको धारण करता हुआ शब्द अनित्य है और शब्द यद्यपि निरवयवत्वको धारण करता है तो भी नित्य नहीं है ऐसा माननेमें कोई विशेषहेतु नहीं है; जिससे कि 'शब्द अनित्य ही है' यह माना जावे । इसप्रकार उसी निरवयवत्वरूप हेतुको घटके वैधर्म्यरूप दिखलाकर जो प्रतिवादी विरुद्ध भाषण करे अर्थात् शब्दमें नित्यता सिद्ध करे तो समझना चाहिये कि; यहां पर प्रतिवादीने वैधर्म्यसमा जातिका प्रयोग किया है । २। उत्कर्षसे जो प्रत्यवस्थान है; वह उत्कर्षसमा जाति कहलाती है । भावार्थ— जो ' शब्द अनित्य है कृतक होनेसे घटके समान ' इसी वादीद्वारा किये हुए अनुमानके प्रयोगमें साध्यधर्ममें अर्थात् वादी जिस पदार्थमें जिस धर्मको सिद्ध करता है; उसी पदार्थमें दृष्टान्तके किसी दूसरे धर्मको सिद्ध करे तो समझना चाहिये कि यहांपर प्रतिवादी उत्कर्षसमा जातिका प्रयोग करता है । जैसे कि—कृतक होनेसे यदि घटके समान शब्द अनित्य है, तो घटके समान ही शब्द मूर्त्त भी होवे यदि शब्द मूर्त्त नहीं होता है तो घटके समान शब्द अनित्य भी मत हो । इस प्रयोगमें प्रतिवादी वादीके अनित्य-त्वरूप साध्यके धर्म शब्दमें घट दृष्टान्तके मूर्त्तत्वरूप दूसरे धर्मको सिद्ध करता है । ३ । अपकर्षसे जो प्रत्यवस्थान है, वह अप-कर्षसमाजाति कहलाती है । भावार्थ—साध्यधर्ममेंसे दृष्टान्तमें नहीं रहनेवाले किसी धर्मको निकालकर जो प्रतिवादी वादीके विरुद्ध भाषण करे तो जानना चाहिये कि, यहांपर प्रतिवादीने अपकर्षसमा जातिका प्रयोग किया है । जैसे कि—कृतक हुआ घट कर्णइंद्रियाका विषय नहीं देखनेमें आता है अर्थात् घट कृतक है । परंतु सुननेमें नहीं आता है । उसीप्रकार शब्दको भी श्रवण-का विषय न होना चाहिये अर्थात् घटके समान शब्दको भी सुननेमें नहीं आना चाहिये । यदि ऐसा नहीं है अर्थात् घटके समान शब्द-श्रवणइंद्रियके अविषयरूप नहीं है तो घटके समान शब्द अनित्य भी मत हो । इस प्रयोगमें प्रतिवादी वादीके साध्यधर्म शब्दमें घट दृष्टान्तके श्रवणइंद्रियाविषयत्वधर्मको दूर करता है । ४ । ऐसे ये चार जातियें यहापर थोड़ासा जातियोंका स्वरूप दिखलानेके

लिये कही गई हैं । इसीप्रकार बाकी की जो भीस जातियें हैं; उनका स्वरूप भी गीतमके शाल (न्यायदर्शनसूत्र अथवा नैयायिकोंके ग्रन्थों) से जान लेना चाहिये । इस प्रकृत ग्रन्थमें तो वे अनुपयोगी है, इसलिये उनका स्वरूप नहीं लिखा गया है ।

तथा विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम् । तत्र विप्रतिपत्तिः साधनाभासे साधनबुद्धिर्दूषणाभासे च दूषणबुद्धिरिति । अप्रतिपत्तिः साधनस्यादूषणं दूषणस्य चानुद्धरणम्तच्च निग्रहस्थानं द्वाविंशतित्विधम्तद्यथा—प्रतिज्ञाहानिः, प्रतिज्ञान्तरं, प्रतिज्ञाविरोधः, प्रतिज्ञासंन्यासः, हेत्वन्तरं, अर्थान्तरं, निरर्थकं, अविज्ञातार्थं, अपार्थकं, अप्राप्तकालं, न्यूनं, अधिकं, पुनरुक्तं, अननुभाषणं, अज्ञानं, अप्रतिभा, विक्षेपः, मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्योपेक्षणं, निरनुयोज्यानुयोगः, अपसिद्धान्तः, हेत्वाभासाश्च ।

और विप्रतिपत्ति तथा अप्रतिपत्ति जो है; उसको निग्रहस्थान कहते हैं । उनमें साधनाभासेमें अर्थात् जो यथार्थमें तो साधन न हो, परतु साधन जैसा जान पड़े उसमें जो साधनकी बुद्धि है अर्थात् साधनपना मान लेना है; वह, तथा दूषणाभास (दूषणके समान प्रतीत होनेवाले) में जो दूषणकी बुद्धिका होना है; वह; ऐसे इन दोनों प्रकारोंरूप तो विप्रतिपत्ति है । और साधनका अदूषण अर्थात् प्रतिवादीके साधनको दोषरहित मानलेना तथा प्रतिवादीके दिये हुए दूषणको दूर न करना, इन दोनों प्रकारोंरूप अप्रतिपत्ति है । यह निग्रहस्थान वाईस २२ प्रकारका है । वे भेद इस निम्न लिखित रीतिसे है—प्रतिज्ञाहानि १, प्रतिज्ञान्तर २, प्रतिज्ञाविरोध ३, प्रतिज्ञासंन्यास ४, हेत्वन्तर ५, अर्थान्तर ६, निरर्थक ७, अविज्ञातार्थ ८, अपार्थक ९, अप्राप्तकाल १०, न्यून ११, अधिक १२. पुनरुक्त १३, अननुभाषण १४, अज्ञान १५, अप्रतिभा १६, विक्षेप १७ मतानुज्ञा १८, पर्यनुयोज्योपेक्षण १९, निरनुयोज्यानुयोग २०, अपसिद्धान्त २१ और हेत्वाभास २२ ।

तत्र हेतावनैकान्तिकीकृते प्रतिदृष्टान्तधर्म स्वदृष्टान्तेऽभ्युपगच्छतः प्रतिज्ञाहानिर्नाम निग्रहस्थानम् । यथाऽनित्यः शब्द ऐन्द्रियकत्वाद् घटवदिति प्रतिज्ञासाधनाय वादी वदन् परेण सामान्यमैन्द्रियकत्वमपि नित्यं दृष्टमिति हेतावनैकान्तिकीकृते घट्येवं ब्रूयात् सामान्यवद्घटोऽपि नित्यो भवत्विति । स एवं ब्रुवाणः शब्दाऽनित्यत्वप्रतिज्ञां जह्यात् । प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधे परेण कृते तत्रैव धर्मिणि धर्मान्तरं साधनीयमभिदधतः प्रतिज्ञान्तरं नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्यः शब्द ऐन्द्रियकत्वादित्युक्ते तथैव सामान्येन व्यभिचारे चोदिते यदि ब्रूयाद्युक्तं सामान्य-

भेन्द्रियकं नित्यम् । तद्धि सर्वगतम् । असर्वगतस्तु शब्द इति । तदिदं शब्देऽनित्यत्वलक्षणपूर्वप्रतिज्ञातः प्रतिज्ञान्तर-
 मसर्वगतः शब्द इति निग्रहस्थानम् । अनया दिशा शेषाण्यपि विंशतिर्ज्ञेयानि । इह तु न लिखितानि पूर्वहेतोरिव ।
 इत्येवं मायाशब्देनात्रच्छलादित्रयं सूचितम् । तदेवं परवञ्चनात्मकान्यपि छलजातिनिग्रहस्थानानि तत्त्वरूपतयोपदि-
 शतोऽक्षपादपूर्वैराग्यव्यावर्णनं तमसः प्रकाशात्मकत्वप्रख्यापनमिव कथमिव नोपहसनीयम् । इति काव्यार्थः ॥१०॥

इन २२ निग्रहस्थानोंमेंसे—प्रतिवादी जब हेतुको अनैकान्तिक (व्यभिचारी) सिद्ध करदे तब प्रतिदृष्टान्तके धर्मको अपने
 दृष्टान्तमें स्वीकार करते हुए वादीके प्रतिज्ञाहानिनामक निग्रहस्थान होता है । जैसे—वादी शब्दमें अनित्यत्वरूप प्रतिज्ञाको सिद्ध
 करनेक लिये 'शब्द अनित्य है ऐन्द्रियक (इन्द्रियका विषय) होनेसे घटके समान' ऐसे अनुमानके प्रयोगका कथन करे और इस प्रयो-
 गमें प्रतिवादी सामान्य ऐन्द्रियक है तौ भी नित्य देखा गया है; इस प्रकार कहकर ऐन्द्रियकत्वरूपहेतुको व्यभिचारी बना देवे
 तब वादी जो ऐसा कहै कि; सामान्यके समान घट भी नित्य हो जावे; तौ इस प्रकार कहता हुआ वह वादी शब्दमें अनित्यता
 सिद्ध करनेरूप जो प्रतिज्ञा है; उसको छोड़ देता है अर्थात् सामान्यरूप प्रतिदृष्टान्तके नित्यत्वधर्मको घटरूप दृष्टान्तमें स्वीकार
 करके शब्दको नित्य मानता हुआ वादी प्रतिज्ञाहानिनामक दोषसे दूषित होता है । ? । जब प्रतिवादी अपने (वादीके)
 प्रतिज्ञा किये हुए अर्थका निषेध करदे तब उसी धर्ममें दूसरे धर्मको सिद्ध करनेयोग्य कहते हुए अर्थात् धर्ममें उस धर्मके सिवाय
 किसी दूसरे धर्मको मानते हुए वादीके प्रतिज्ञान्तरनामा दूसरा निग्रहस्थान होता है । जैसे—'शब्द अनित्य है; ऐन्द्रियक होनेसे
 इस प्रकार वादीके कहने पर प्रतिवादी पहलेके समान ही सामान्यसे अर्थात् सामान्य ऐन्द्रियक है तौभी नित्य है यह कहकर ऐन्द्रि-
 यकत्व हेतुको व्यभिचारी करदे तब यदि वादी ऐसा कहै कि;—' सामान्य ऐन्द्रियक होनेसे नित्य है ' यह तुम्हारा कहना ठीक
 है; परन्तु सामान्य तौ सर्वगत है और शब्द असर्वगत है; । तौ इस प्रकार वादी शब्दमें अनित्यता सिद्ध करनेरूप जो पहले
 प्रतिज्ञा की थी, उसको छोड़कर उसी शब्दरूप धर्ममें असर्वगतरूप दूसरी प्रतिज्ञाको कहता हुआ प्रतिज्ञान्तर नामक दूसरे निग्रह
 स्थानको प्राप्त होता है । इसी प्रकारसे शेष जो वीस २० निग्रहस्थान है उनको भी जान लेने चाहियें । यहां तौ पहले ही कारण-
 से अर्थात् अनुपयोगी होनेसे ही शेष निग्रहस्थानोंको नहीं लिखे है । ऐसे स्तुतिके कर्त्ता आचार्यमहाराजने काव्यमें स्थित मायाशब्दसे
 छल, जाति तथा निग्रहस्थान नामक तीन पदार्थोंको सूचित किये है । सौ इस पूर्वोक्त प्रकारसे दूसरों (वादियों) को ठिगनेरूप छल

जाति और निग्रहस्थानोंका तत्त्वरूपता (पदार्थपत्ने) से उपदेश देतेहुए गौतमऋषीके वैराग्यका वर्णन करना अर्थात् छल आदिके उपदेष्टा गौतमको कारुणिक कहना मानों अंधकारको प्रकाशस्वरूप कहनेके समान है; अतः कैसे उपहासके योग्य न हो । भावार्थ—जैसे अंधकारको प्रकाशरूप कहता हुआ पुरुष हास्यका पात्र होता है; उसीप्रकार छल आदिके उपदेष्टा गौतमको कारुणिक कहते हुए नैयायिक भी उपहासके पात्र है । इस प्रकार काव्यका अर्थ है ॥ १० ॥

अधुना मीमांसकभेदाभिमतं वेदविहिताहिंसाया धर्महेतुत्वमुपपत्तिपुरस्सरं निराकुर्वन्नाह ।—

अब एक प्रकारके मीमांसक अर्थात् पूर्वमीमांसक और उत्तरमीमांसक (वेदान्ती) इन दो प्रकारके मीमांसकोंमेंसे पूर्वमीमांसक जो है, वे वेदमें कहीं हुई हिंसाको जो धर्मकी कारणभूता मानते हैं; उसका युक्तिपूर्वक खंडन करते हुए आचार्य इस अग्रिम काव्यका कथन करते हैं—

न धर्महेतुर्विहितापि हिंसा नोत्सृष्टमन्यार्थमपोद्यते च ।
स्वपुत्रघातानृपतित्वलिप्सासब्रह्मचारि स्फुरितं परेषाम् ॥ ११ ॥

सूत्रभावार्थः—वेदमें कहीं हुई भी हिंसा धर्मकी कारण नहीं है । और यदि पूर्वमीमांसक कहें कि; वेदोक्त हिंसाकी विधि अपवादमार्गसे है; इसकारण दोषके लिये नहीं है; सो उचित नहीं है । क्योंकि; उत्सर्गवाक्य जो है; वह दूसरे कार्यके लिये प्रयुक्त किये हुए वाक्यसे अपवादका विषय नहीं होता है अर्थात् शास्त्रमें जिस प्रयोजनको अत्रलम्बनकरके उत्सर्गवाक्य वर्त्तता है; उसी प्रयोजनको ग्रहणकरके अपवादवाक्य भी वर्त्तता है । इस कारण उन मीमांसकोंकी चेष्टा अपने पुत्रको मार कर राजा बननेवाले पुरुषकी चेष्टाके समान है । भावार्थ—जैसे कोई अपने पुत्रको मारकर राजा

१. मीमांसका द्विधा—पूर्वमीमांसावादिनश्च, उत्तरमीमांसावादिनामभिमत्सु । तेषु पूर्वमीमांसावादिनामभिमत्सु । २. युक्तिपूर्वकम् ।

बनजावे तौ भी वह अपने पुत्रको मारनेके कलंकसे नहीं बच सकता है; इसीप्रकार यद्यपि वेदोक्त हिंसाको करके वे मीमांसक नीच देवताओंको प्रसन्न करलेते हैं; तथापि वे मीमांसक उस हिंसाजनित पापसे रहित नहीं हो सकते हैं ॥ ११ ॥

व्याख्या । इह खल्वर्चिर्मार्गप्रतिपक्षधूममार्गाश्रिता जैमिनीया इत्थमाचक्षते । या हिंसा गार्ह्याद् व्यसन्नितया वा क्रियते सैवाऽधर्मानुबन्धहेतुः । प्रमादसंपादितत्वात् । शौनिकलुब्धकादीनामिव । वेदविहिता तु हिंसा प्रत्युत धर्महेतुः । देवतातिथिपितृणां प्रीतिसंपादकत्वात् । तथाविधपूजोपचारवत् । न च तत्प्रीतिसम्पादकत्वमसिद्धम् । कैारीप्रभृतियज्ञानां स्वसाध्ये वृष्ट्यादिफले यः खल्वव्यभिचारः स तत्प्रीणितदेवताविशेषानुग्रहहेतुकः । एवं त्रिपुराणववर्णितच्छगलजाङ्गलहोमात्परराष्ट्रवशीकृतिरपि तदनुकूलितदैवतप्रसादसंपाद्या । अतिथिप्रीतिस्तु मधुपर्क-संस्कारादिसमास्वाद्जा प्रत्यक्षोपलक्ष्यैव । पितृणामपि तत्तदुपयाचितश्राद्धादिविधानेन प्रीणितात्मनां स्वसन्तानवृद्धिविधानं साक्षादेव वीक्ष्यते । आगमश्चात्र प्रमाणम् । स च देवप्रीत्यर्थमश्वमेधगोमेधादिविधानाभिधायकः प्रतीत एव । अतिथिविषयस्तु 'महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियाय प्रकल्पयेत् ।' इत्यादिः । पितृप्रीत्यर्थस्तु "द्वौ मासौ मत्स्यमासेन त्रीन्मासान् हारिणेन तु । औरभ्रेणाथ चतुरः शाकुनेनेह पञ्च तु । १ । इत्यादिः ।

व्याख्यार्थ—यहा पर अर्चिर्मार्गसे विरुद्ध (प्रतिकूल) धूममार्गके धारक जैमनीय (जेमनिऋषीके शिष्य मीमांसक) ऐसा कहते है कि, कसाई व शिकारीके समान जो हिंसा लोभीपनेसे अथवा व्यसनीपनेसे की जाती है, वही पापके बंधकी कारण है । क्योंकि; प्रमादसे की जाती है । और जो वेदोक्त हिंसा है, वह तो पापके बंधकी कारण नहीं है किन्तु उल्टी उस प्रकारकी पूजा

१ कं जलं ऋच्छतीति कारो मेघस्तमीरयतीतिकारीरी इति न्युत्पत्तेः कारीरीनामा वृष्टिकारको यज्ञविशेषः । २. त्रिपुराणो बो अन्धविशेषः । ३. दक्षा तु मधु संयुक्त मधुपर्कम् । ४. अश्वो मेच्यते हिंस्यते यत्रेत्यश्वमेधो यज्ञविशेषः । एवमन्यत्रापि । ५. प्राधूर्णिकश्रोत्रियाय । ६ पण्मासांश्छाग-मासेन पापेतेन हिंस्यते । अष्टावेणस्य मासेन रौरवेण नवैव तु । ७. दशमासांस्तु तुष्यन्ति वराहमहिषामिषैः । शशकूर्मस्य मासेन मासानेकादशैव तु । ८. संवत्सर तु गन्धेन पयसा पायसेन वा । वार्ध्राणसस्य मासेन वृसिद्धां दशवापिकी । ९ । इति पूर्णपाठः ।

सेवाके समान धर्मकी कारण है। क्योंकि देवता अतिथि और पितृजनके प्रीतिको उत्पन्न करती है। भावार्थ—जैसे वेदोक्त पूजासेवाके करनेसे देवतादि प्रसन्न होते हैं; उसी प्रकार इस वेदोक्त हिंसासे भी देवतादि प्रसन्न होते हैं अतः यह वेदोक्तहिंसा धर्मबंधकी कारण है। और वेदोक्त हिंसासे देवतादिके प्रीति उत्पन्न नहीं होती है; ऐसा न कहना चाहिये अर्थात् वेदोक्तहिंसासे देवतादि प्रसन्न होते ही हैं। क्योंकि; कारीरीनामक यज्ञको आदि ले जो यज्ञ है; उनके अपने द्वारा सिद्ध करने योग्य वृष्टिआदि फलमें जो अव्यभिचारित्व (सफलता) है; वह उन यज्ञोंसे प्रसन्न किये हुए देवोंके अनुग्रहरूप हेतुवाला ही है अर्थात् कारीरी-आदि यज्ञोंके करनेसे जो वृष्टि (वर्षा) आदि फलोंकी प्राप्ति होती है; वह उन यज्ञोंद्वारा प्रसन्न किये हुए देवोंकी कृपासे ही होती है। इसी प्रकार त्रिपुरार्णवनामक एक प्रकारके ग्रन्थमें कहे हुए वकरे तथा जांगल (वनके पशु) के होमसे दूसरेके राज्यको वशमें करना है; वह भी उस होमसे अनुकूल किये हुए देवताओंके प्रसादसे ही सिद्ध होता है। और मधुपर्कपूजामें दही, और सहत आदिके भक्षणसे उत्पन्न हुई अतिथिप्रीति (पाहुणेकी प्रसन्नता) तो प्रत्यक्षमें ही देखनेमें आती है। तथा उन २ उपयाचना किये हुए श्राद्ध आदिके करनेसे प्रसन्न हो गया है आत्मा जिनका ऐसे अर्थात् जो २ पितर जिस २ श्राद्धकी याचना करें; उस २ श्राद्धके करनेसे प्रसन्न हुए वे पितर अपने संतानकी वृद्धि करते हैं अर्थात् श्राद्धकर्ताके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि उत्पन्न करते हैं; यह भी प्रत्यक्षमें देखा जाता है। और आगम भी इस विषयमें प्रमाण है। वह निम्न लिखित प्रकारसे है। देवोंकी प्रीतिके लिये अश्वमे-धयज्ञ (जिसमें घोडा मारा जावे ऐसे यज्ञ,) को तथा गोमेधयज्ञ आदिको कहनेवाला आगम प्रसिद्ध ही है। “ आये हुए श्रोत्रिय (वेदपाठी) के लिये बड़े बैलको अथवा बड़े बकरेको प्रकल्पन करे अर्थात् मारे। ” इत्यादि आगम अतिथि (पाहुणे) की प्रीतिके लिये हिंसा करनेका उपदेश देता ही है। तथा पितरोंकी प्रीतिके लिये “ मत्स्य (मांछले) के मांससे दो महिने तक, हिरणके मांससे तीन महिने तक भेष (मीठे) के मांससे चार महिने तक और शाकुन (पक्षिविशेष) के मांससे पांच महिनेतक पितृजन तृप्त रहते हैं अर्थात् यदि उक्त जीवोंके मांससे श्राद्ध किया जावे तो पितृजन उक्त समयपर्यन्त किसी पदार्थको खानेकी इच्छा नहीं करते हैं। १। ” इत्यादि कथन करनेवाला आगम है।

एवं पराभिप्रायं हृदि संप्रधार्यार्थायः प्रतिविधत्ते । न धर्मेत्यादि । विहितापि वेदप्रतिपादितापि आस्तां तावद-
विहिता हिंसा प्राणिप्राणव्यपरोपणरूपा न धर्महेतुर्न धर्मानुबन्धनिबन्धनम् । यतोऽत्र प्रकट एव स्ववचनविरोधः ।

तथाहि—‘हिंसा चेद्धर्महेतुः कथम्’ ‘धर्महेतुश्चेद्धिंसा कथम्’ ‘श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधारयताम् ।’ इत्यादिः । न हि भवति माता च बंध्या चेति । हिंसा कारणं, धर्मस्तु तत्कार्यमिति पराभिप्रायः । नचायं निरपायः । यतो यद्यस्यान्वयव्यतिरेकावनुविधत्ते तत्तस्य कार्यम् । यथा मृत्पिण्डादेर्घटादिः । न च धर्मो हिंसात् एव भवतीति प्रातीतिकम् । तपोविधानदानध्यानादीनां तदकारणत्वप्रसङ्गात् ।

इस प्रकार उन पूर्वमीमांसकोंके आशयको हृदयमें धारण करके स्तुतिके कर्त्ता आचार्यमहाराज ‘न धर्म’ इत्यादि श्लोकसे उनके मतका खंडन करते हैं; वह इसप्रकार है।—“विहिता अपि” वेदमें कही हुई भी अर्थात् वेदमें न कही हुई हिंसा तो दूर रही वेदोक्त भी जीवोंके प्राणोंका त्याग करानेरूप हिंसा । “धर्महेतुः” धर्मका कारण “न” नहीं है । क्योंकि; इस वेदोक्त हिंसाको धर्मकी कारण माननेमें उन वादियोंके अपने वचनसे विरोध प्रकट ही है । सो ही दिखाते हैं—यहि हिंसा है तो धर्मकी कारण कैसे है ? और धर्मकी कारण है तो हिंसा कैसे है ? अर्थात् जो हिंसा है वह धर्मकी कारण नहीं है, जो धर्मका कारण है; वह हिंसारूप नहीं है । क्योंकि—“तुम धर्मके सर्वस्व (सारभूत रहस्य) को श्रवण करो और श्रवणकरके हृदयमें धारण करो; वह धर्मका रहस्य यह है कि; अपने प्रतिकूल दूसरोंके मत करो अर्थात् जो तुमको बुरा लगे; वह कार्य तुम दूसरोंके लिये भी मत करो । १।” इत्यादि आगम हिंसाको पापकी कारण कहता है । और माता है तथा बंध्या (बांझ) है; ऐसा नहीं होता है भावार्थ—जैसे कोई किसी स्त्रीको माता भी कहै और बंध्या भी कहै तो इसमें उसको अपने वचनसे विरोध आता है । क्योंकि; जो माता हो, वह बंध्या नहीं हो सकती है और जो बंध्या हो वह माता नहीं हो सकती है, इसी प्रकार जीवोंके प्राणोंका त्याग करानेरूप हिंसाको पाप तथा धर्म; इन दोनोंकी कारण कहते हुए उन वादियोंके भी अपने वचनसे विरोध आता है । यहां पर उन वादियोंका यह अभिप्राय है कि—हिंसा तो कारण है और धर्म उस हिंसाका कार्य (फल) है सो यह निरपाय अर्थात् दोषरहित नहीं है । क्योंकि; जो जिसका अन्वय (सत्त्व) होनेपर अपने अन्वयको करता है और व्यतिरेक होनेपर अपने व्यतिरेकको करता है; वही उसका कार्य होता है । जैसे कि, मृत्पिण्ड आदिका अन्वय तथा व्यतिरेक होनेपर घट आदि अपना अन्वय और व्यतिरेक करते हैं । भावार्थ—जैसे घट मृत्पिण्डके सत्त्वमें अपने सत्त्वको और मृत्पिण्डके अभावमें अपने अभावको करता है; अतः घट मृत्पिण्डरूप

है, ऐसी शंका भी न करनी चाहिये । क्योंकि, उस वेदोक्तहिंसाके करनेवाले याज्ञिक (यज्ञ करनेवाले) जन लोकमें पूज्य देखे जाते हैं । भावार्थ—वेदोक्तहिंसाके कर्त्ता याज्ञिकजनोंको लोक पूजते हैं; अतः वेदोक्तहिंसा जगतमें निन्दनीय भी नहीं है । सो तुम्हारा यह कथन भी चतुर पुरुषोंके विचारको नहीं सहता है अर्थात् युक्तिरहित ही है । क्योंकि, तुमने जो लोहपिंड आदिके दृष्टान्त दिये हैं, वे विषमरूप होनेसे असाधकतम हैं अर्थात् वेदोक्त विधिसे जीवोंको मारनेरूप दृष्टान्तिकमें बराबर न घटनेसे वेदोक्त हिंसाको निर्दोष सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं हैं । कारण कि, लोहके पिंड आदि जो हैं, वे पत्र (पत्तर) आदिरूप दूसरे भावों (अवस्थाओं वा पर्यायों) को प्राप्त होकर जलमें तिरने आदिरूप क्रियाके करनेमें समर्थ होते हैं । और वेदोक्तमंत्रोंसे संस्कारकरनेरूप विधिसे भी मारे जाते हुए उन पशुओंके वेदना (पीड़ा) आदिके उत्पन्न न होनेरूप किसी दूसरे भावकी उत्पत्ति प्रतीत नहीं होती है अर्थात् वेदोक्त विधिसे मारे जाते हुए भी वे पशु मरते समयमें वेदनाको ही भोगते हुए देखे जाते हैं । यदि कही कि; मारनेके पश्चात् वे जीव देवपनेको प्राप्त हो जाते हैं यह भावान्तर है ही अर्थात् वे पशु मरकर देव हो जाते हैं यह एक अवस्थाका पलटना है ही है, तो हम प्रश्न करते हैं कि; इस कथनमें क्या प्रमाण है अर्थात् तुम जो कहते हो कि; वेदोक्तहिंसासे पशु मरकर देव हो जाते हैं, सो कौनसे प्रमाणसे कहते हो । यदि कही कि, इस कथनमें प्रत्यक्ष प्रमाण है सो तो नहीं हो सकता है । क्योंकि “ चक्षु आदि इंद्रियें अपनेसे संबन्धको प्राप्त हुए तथा वर्तमान ऐसे पदार्थका ग्रहण करती हैं । ” इस वचनसे वह प्रत्यक्ष इंद्रियोंसे संबन्धित वर्तमान पदार्थको ही ग्रहण करता है । और इस कथनमें अनुमान प्रमाण भी नहीं हो सकता है । क्योंकि; उस देवपनेकी प्राप्तिरूप भावांतरसे संबन्धित जो लिंग (साधन) है; वह जाननेमें नहीं आता है । और आगम प्रमाण भी इस कथनको सिद्ध करनेवाला नहीं है । क्योंकि, वह अवतक भी विवादका स्थान है अर्थात् उसकी सत्यतामें अभीतक सदेह है । तथा अर्थापत्ति और उपमान ये दो प्रमाण तो अनुमान प्रमाणमें ही अन्तर्गत होते हैं अर्थात् अनुमानके ही भेद है, इसकारण अनुमानप्रमाणमें जो साधनकी अप्राप्तिरूप दूषण दिया है, उसीसे गतार्थ हैं अर्थात् उसी दोषके धारक है ।

अथ भवतामपि जिनायतनादिविधाने परिणामविशेषात्स्थिव्यादिजन्तुजातघातनमपि यथा पुण्याय कल्प्यत इति कल्पना । तथा अस्माकमपि किं नेष्यते । वेदोक्तविधिविधानरूपस्य परिणामविशेषस्य निर्विकल्पं तत्रापि भावात् । नैवम् । परिणामविशेषोऽपि न एव शुभफलो यत्राऽनन्योपायत्वेन यतनयाऽपकृष्टप्रतनुचैतन्यानां पृथि-

व्यादिजीवानां वधेऽपि स्वल्पपुण्यव्ययेनाऽपरिमितसुकृतसंप्राप्तिर्न पुनरितरः । भवत्पक्षे तु सत्स्वपि तत्तत्श्रुतिस्मृ-
तिपुराणेतिहासप्रतिपादितेषु यमनियमादिषु स्वर्गवाप्युपायेषु तांस्तान् देवानुद्दिश्य प्रतिप्रतीकं कर्तनकदर्शनया
कान्दिशीकान् कुर्येणपञ्चेन्द्रियान् शौनिकाधिकं मारयतां कृत्स्नसुकृतव्ययेन दुर्गतिमेवानुकूलयतां दुर्लभः शुभप-
रिणामविशेषः । एवं च यं कंचन पदार्थं किञ्चित्साधर्म्यद्वारेणैव दृष्टान्तीकुर्वतां भवतामतिप्रसङ्गः सङ्गच्छते ।

शंका—जैसे आप (जैनियों) के भी “ जिनमदिर आदिके वनानेमें जो पृथिवी आदि जीवोंके समूहका घात (वध) होता है,
वह भी परिणामविशेषसे पुण्यके अर्थ माना गया है ” ऐसी कल्पना है, उसी प्रकार आप हमारे भी क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि,
वेदोक्तविधिके करनेरूप जो परिणामविशेष है; वह उस वेदोक्तहिसामें निर्विकल्प (निश्चित) रूपसे है ही है । समाधान—ऐसा
न कहना चाहिये, क्योंकि, परिणामविशेष भी वही शुभफल (स्वर्ग आदिकी प्राप्तिरूप फल) का धारक है, कि—जिसमें किसी
दूसरे उपायके न होनेपर प्रवृत्ति करनेसे अत्यंत स्वल्प ज्ञानको धारण करनेवाले पृथिवी आदि जीवोंका वध होनेपर भी बहुत अल्प
(कम) पुण्यका नाश होनेसे अपरिमाण (वे अंदाज़) पुण्यकी प्राप्ति होती है और इससे भिन्न जो कोई परिणामविशेष है; वह
शुभफलका धारक नहीं है । और तुम्हारे मतमें तो उन उन श्रुति, स्मृति, पुराण तथा इतिहास आदिकोंमें कहे हुए यम, नियम
आदि बहुतसे स्वर्गकी प्राप्तिके उपायोंको विद्यमान रहते भी उन २ देवोंका उद्देश्य करके अर्थात् मैं असुक देवके अर्थ इस असुक
पशुका वध करता हूं, ऐसा विचार करके भयसे विह्वल और कृपण (दयाके योग्य) ऐसे पंचेन्द्रियजीवोंको शरीरके प्रत्येक
अवयवको काटनेरूप पीड़ा पहुंचानेसे कसाईसे भी अधिक निर्दयतापूर्वक मारनेवाले और समस्तपुण्यका नाश करके केवल दुर्गतिको
ही अनुकूल करनेवाले अर्थात् नरक गतिका बंध बांधनेवाले ऐसे जो यज्ञके कर्ता पुरुष है, उनके शुभफलके धारक परिणामविशेषका
होना अत्यंत कठिन है । और इसप्रकार जिस किसीपदार्थको किसी साधर्म्यद्वारा ही दृष्टान्तगोचर करते हुए अर्थात् किसी
साधर्म्यको लेकर किसी पदार्थका दृष्टान्त देते हुए तुम पूर्वमीमांसकोंके अत्यंत अनिष्टकी प्राप्ति होती है ।

न च जिनायतनविधापनादौ पृथिव्यादिजीववधेऽपि न गुणः । तथाहि—तद्दर्शनाद्गुणानुरागितया भव्यानां
बोधिलोभः । पूजातिशयविलोकनादिना च मनःप्रसादः, ततः समीधिः, ततश्च क्रमेण निःश्रेयसप्राप्तिरिति । तथा

१. प्रत्यवयवम् । २. भयविह्वलान् । ३. कृपाहान् । ४. बोधिः सम्यक्त्व प्रेत्यजिनधर्मासिवां । ५. समाधिश्चास्त्रिवासाः । ६. निःश्रेयसो मोक्षः ।

च भगवान् पञ्चलिङ्गीकारः—“पुढवाइयाण जइवि हु होइ विणसो जिणालयाहितो । तव्विसया वि सुदिट्ठिसस णियमओ अत्थि अणुकंपा । १ । एयाहितो बुद्धा विरया रक्खति जेण पुढवाइ । इत्तो निव्वाणगया अवाहिया आभवमिमाणं । २ । रोगिसिरावेहो इव सुविज्जकिरियाव सुप्पउताओ । परिणामसुंदरच्चिय चिच्छा से वाहजोगेवि” । ३ ।

और जिनमदिर बनवाने आदिमें पृथिवी आदि जीवोंका जो वध होता है; उसमें भी गुण नहीं है अर्थात् जैसे आप वेदोक्त विधिपूर्वक हिंसाके करनेमें गुण नहीं बतलाते हैं, उसीप्रकार जिनमंदिर आदिके बनवानेमें भी गुण नहीं है; ऐसा न कहना चाहिये। क्योंकि श्रीजिनेन्द्रके दर्शन करनेसे श्रीजिनेन्द्रके गुणोंमें अनुराग (प्रीति) होता है, श्रीजिनेन्द्रके गुणोंमें प्रीति होनेसे जो भव्य हैं, उनको बोधि (सम्यग्दर्शन) की प्राप्ति होती है, और श्रीजिनेन्द्रकी पूजा तथा अतिशय (प्रभाव) को देखने आदिसे चित्त प्रसन्न (प्रफुल्लित) होता है, मन-प्रसादके होनेसे समाधि, (समताभाव) की प्राप्ति होती है; और फिर क्रमानुसार मोक्षकी प्राप्ति होती है । सो ही पञ्चलिङ्गीके कर्ता भगवान् श्रीजिनपतिसूरीश्वरजी कहते हैं कि;—“यद्यपि जिनमदिर बनवाने आदि क्रियाओंके करनेसे पृथिवी आदि जीवोंका विनाश होता ही है । तथापि सम्यग्दृष्टीके उन पृथिवी आदि जीवों संवधी दया नियमसे है ही अर्थात् सम्यग्दृष्टी जीवके चित्तमें उन पृथिवी आदि जीवोंकी दया ही बस रही है; उसके परिणाम उन जीवोंकी दयासे शून्य कभी नहीं होते है । १ । क्योंकि, भव्यजीव इन जिनमंदिर बनवाने आदि क्रियाओंसे ज्ञानको प्राप्त होकर फिर संसारसे विरक्त होकर अर्थात् मुनि होकर पृथिवी आदि जीवोंकी रक्षा करते है, इसीकारण इन पृथिवी आदि जीवोंको वाधा न पहुंचानेवाले इस भवमें मोक्ष गये है । भावार्थ—जिनमंदिर बनवाने आदिसे गृहस्थोंको ज्ञानकी प्राप्ति होती है, हेथोपादेयका ज्ञान होनेपर वे गृहस्थाश्रमसे तथा संसारसे विरक्त होकर मुनिपदको धारण करते है और मुनिपद धारण करके इन पृथिवी आदि जीवोंकी अधिक रक्षा करते है और जब इन पृथिवी आदि जीवोंकी पूर्ण दया पालते है तब वे इसी भवमें मोक्ष चले जाते है; अतः जिनमदिर आदिका बनवाना दयाभावका वर्धक ही है नाशक नहीं है । २ । जैसे रोगीकी नसका छेदना और उत्तमप्रकारसे प्रयोगमें लाई हुई उत्तम

१ पञ्चलिङ्गीकारः श्रीजिनपतिसूरिः । २. “पृथिव्यादीना यद्यपि भवत्येव (प्राकृते हु एवकार्थे) विनाशो जिनालयादिभ्यः । तद्विययापि सुद्योर्नियमतोऽस्त्यनुकम्पा । १ । एताभ्यः (जिनालयादिक्रियाभ्यः) बुद्धा विरता रक्षन्ति येन पृथिव्यादीन् । अतो निर्वाणगता भवाधका भागवं (अस्मिन् भवे) एयाम् । २ । रोगिशिरावेध इव सुवैद्यक्रिया इव सुप्रयुक्ता तु । परिणामसुन्दरैव चेष्टा सा प्राधायोगेऽपि । ३ ।” इतिच्छाया ।

वैद्यकी रोगीको लंघन कराना, कटुकौषधि देना आदि क्रिया परिणामसुंदर हैं अर्थात् शुभपरिणामोंसे की हुई है अथवा अंतमें उत्तम फलकी धारक है; उसी प्रकार जिनमादिर बनवाने आदिरूप जो भव्यजीवोंकी चेष्टा है; वह भी पृथिवी आदि जीवोंकी वाधाका योग होनेपर भी शुभ परिणामोंसे उत्पन्न हुई तथा शुभफलकी धारक है । ३ । ”

वैदिकवधविधाने तु न कंचित्पुण्यार्जनानुगुणं गुणं पश्यामः । अथ विप्रेभ्यः पुरोडाशादिप्रदानेन पुण्यानुबन्धी-
गुणोऽस्त्येव इति चेत्—न । पवित्रसुवर्णादिप्रदानमात्रेणैव पुण्योपार्जनसम्भवात् । कृपणपशुगणव्यपरोपणसमुत्थमां-
सदानं केवलं निर्घृणत्वमेव व्यनक्ति । अथ न प्रदानमात्रं पशुवधक्रियायाः फलं किन्तु भूत्यादिकम् । यदाह श्रुतिः—
“ श्वेतं वायव्यमजमालभेत भूतिकामः ” इत्यादि । एतदपि व्यभिचारपिशाचप्रस्तत्वात्प्रमाणमेव । भूतेश्चापयिका-
न्तरैरपि साध्यमानत्वात् । अथ तत्र सत्रे हन्यमानानां छागादीनां प्रेत्य सद्गतिप्राप्तिरूपोऽस्त्येवोपकार इति चेत् वाङ्मा-
त्रमेतत् । प्रमाणाऽभावात् । न हि ते निहताः पशवः सद्गतिलाभमुदितमनसः कस्मैचिदागल्य तथाभूतमात्मानं
कथयन्ति । अथास्त्यागमाख्यं प्रमाणम् । यथा—“ औषध्यः पशवो वृक्षास्तिर्यञ्चः पक्षिणस्तथा । यज्ञार्थं निधनं
प्राप्ताः प्रासुवन्त्युच्छ्रितं पुनः । १ । ” इत्यादि । नैवम् । तस्य पौरुषेयाऽपौरुषेयविकल्पाभ्यां निराकरिष्यमाणत्वात् ।

और वेदोक्त हिंसाके करनेमें तो हम पुण्यको उपार्जन करने योग्य कोई भी गुण नहीं देखते है । यदि कहो कि यज्ञमें जो ब्राह्मणोंको पुरोडाश (होम करनेके पश्चात् वचा हुआ द्रव्य) आदि दिया जाता है; उससे पुण्यकी प्राप्तिरूप गुण है ही । सो नहीं । क्योंकि, पवित्र ऐसा जो सुवर्णआदि द्रव्य है, उसके देनेसे ही पुण्यका उपार्जन हो सकता है । विचारे पशुओंके समूहको मारनेसे उत्पन्न हुए ऐसे मांसका देना तो केवल वृणा (ग्लानि) रहितपना ही प्रकट करता है । यदि कहो कि; वेदोक्तरीतिसे पशुवध करनेका ब्राह्मणोंको पुरोडाश आदि देनेमात्र ही फल नहीं है, किन्तु भूति (ऐश्वर्य) की प्राप्ति आदिक भी फल है; क्योंकि श्रुतिमें कहा है कि—“ ऐश्वर्य प्राप्त होनेकी इच्छा रखनेवाला यज्ञमें वायु देवताके अर्थ श्वेत (सफेद) वर्णके बकरेका होम करे ” इत्यादि । सो यह कहना भी व्यभिचाररूपी पिशाचसे प्रसित होनेके कारण प्रमाणरहित ही है । क्योंकि; भूतिकी प्राप्ति अन्य २ उपायोंसे भी सिद्ध हो सकती है । यदि कहो कि; उस यज्ञमें मारे जानेवाले जो बकरे आदि पशु है; वे मरण करके

परलोकमें (अर्थात् दूसरे भवमें) उत्तमगति (स्वर्ग) को प्राप्त होते है, यह उन पशुओंके प्रति उपकार होता ही है; तो यह भी कहनेमात्र ही है। क्योंकि, इस कथनमें कोई प्रमाण नहीं है। कारण कि वे मरे हुए पशु उत्तम गतिकी प्राप्ति होनेसे प्रसन्न हो गया है चित्त जिनका ऐसे हो कर अर्थात् हर्षित होकर और स्वर्गमेंसे आकर किसीको अपने उत्तम गतिको प्राप्ति होनेका कथन नहीं करते है। यदि कहो कि; इस हमारे कथनमें आगमनामक प्रमाण तो है ही है जैसे कि—औषधियें, पशु, वृक्ष, तिर्यंच और पक्षी ये सब यदि यज्ञके लिये नाशको प्राप्त होवें तो फिर उत्तम गतिको प्राप्त होते है। १। ” इत्यादि और भी आगमके प्रमाण है। सो यह भी न कहना चाहिये। क्योंकि तुम्हारे आगमका पौरुष्ये (पुरुषका रचा हुआ) तथा अपौरुष्ये (किसीका नहीं बनाया हुआ) इन दोनों विकल्पोंसे आगे खंडन किया जावेगा। भावार्थ— तुम्हारा आगम पौरुष्ये भी नहीं सिद्ध होता है और अपौरुष्ये भी नहीं सिद्ध होता है; इसकारण उस असिद्ध आगमका प्रमाण यहा माननेयोग्य नहीं है।

न च श्रौतेन विधिना पशुविशसनविधायिनां स्वर्गवासिरुपकार इति वाच्यम्। यदि हि हिंसयाऽपि स्वर्गप्राप्तिः स्यात्तर्हि बाढं पिहिता नरकपुरप्रतोल्यः। शौनिकादीनामपि स्वर्गप्राप्तिप्रसङ्गात्। तथा च पठन्ति परमार्थाः—“यूपं छित्त्वा पशून् हत्त्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम्। यद्येवं गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते। १। ” किंचाऽपरिचिताऽस्पष्टचै- तन्याऽनुपकारिपशुहिंसनेनापि यदि त्रिदिवपदवीप्राप्तिस्तदा परिचितस्पष्टचैतन्यपरमोपकारिमातापित्रादिव्यापादनेन यज्ञकारिणामधिकतरपदप्राप्तिः प्रसज्यते। अथ ‘अचिन्त्यो हि मणिमन्त्रौषधीनां प्रभावः’ इति वचनाद्वैदिकमन्त्रा- णामचिन्त्यप्रभावत्वात् तत्संस्कृतपशुवधे संभवत्येव स्वर्गप्राप्तिः, इति चेत्—न। इह लोके विवाहगर्भधानजातक- मादिषु तन्मन्त्राणां व्यभिचारोपलम्भाददृष्टे स्वर्गदावपि तद्व्यभिचारोऽनुमीयते। दृश्यन्ते हि वेदोक्तमन्त्रसंस्कारवि- शिष्टेभ्योऽपि विवाहादिभ्योऽनन्तरं वैधव्यात्पायुष्कतादारिद्र्याद्युपद्रवविधुराः परःशताः। अपरे च मन्त्रसंस्कारं विना कृतेभ्योऽपि तेभ्योऽनन्तरं तद्विपरीताः। अथ तत्र क्रियावैगुण्यं विसंवादेतुः, इति चेत्—न। संशयानिवृत्तेः। किं तत्रक्रियावैगुण्यात्फले विसंवादः, किं वा मन्त्राणामसामर्थ्यादिति न निश्चयः। तेषां फलेनाविनाभावासिद्धेः।

और वेदोक्तविधिसे जो पशुओंकी हिंसा करते हैं, उनको स्वर्गकी प्राप्ति होती है यह उपकार वेदोक्त हिंसासे होता ही है; यह भी न कहना चाहिये। क्योंकि यदि हिंसके करनेसे भी स्वर्गकी प्राप्ति होवे तो नरकनगरेके दरवाजे खूब ढक जावें। भावार्थ—हिंसके करनेसे भी जब स्वर्ग मिलेगा तब नरकमें कोई भी नहीं जावेगा। और जो कसाई आदि है, उनको भी स्वर्गकी प्राप्ति होना सिद्ध होगा, जो कि तुमको अभीष्ट नहीं है। सो ही पारमार्थ (सांख्य) कहते हैं कि,—वेदोक्तप्रकारसे यज्ञके स्तम्भ (खम्भे) को छेदकर पशुओंको मारकर और लघिर (खून) से पृथ्वीमें कादा मचाकर यदि यज्ञके कर्त्ता स्वर्गमें जावेंगे तो फिर नरकमें कोन जावेगा अर्थात् हिंसके करनेवाले जब स्वर्गमें जावेंगे तब नरकमें कोई भी नहीं जावेगा। १।” और भी विशेषवक्तव्य यह है कि; यदि यज्ञके कर्त्ताओंको—अपरिचित (वेदान बूझके) निर्मल ज्ञानको नहीं धारण करनेवाले और जिन्होंने कभी अपना (यज्ञकर्त्ताका) उपकार नहीं किया ऐसे पशुओंके मारनेसे भी देवपदकी प्राप्ति होगी तो परिचित (जन्मसे परिचयमें अर्थात् जानकारीमें आये हुए) स्पष्ट (निर्मल अर्थात् अधिक) ज्ञानके धारक और अपने (यज्ञकर्त्ताके) ऊपर अत्यंत उपकार करनेवाले ऐसे जो माता, पिता आदि हैं, उनका वध करनेसे यज्ञकर्त्ताओंको देवपदसे भी अधिक ऊंचा पद प्राप्त होनेका प्रसंग होगा। यदि कहो कि,—“मणि (रत्न), मंत्र और औषधियोंका प्रभाव अचिन्त्य (विचारमें न आनेवाला अर्थात् अत्यंत अधिक) है।” इस वचनसे वैदिक (वेदके) मंत्र अर्चिय माहात्म्यके धारक है, इस कारण उन वैदिकमंत्रोंसे सस्कारको प्राप्त हुए पशुके मारनेसे यज्ञकर्त्ताओंके स्वर्गकी प्राप्ति हो ही सकती है। सो नहीं। क्योंकि; इस लोकमें विवाह, जातकर्म, तथा गर्भधान आदि कर्मोंमें उन वैदिकमंत्रोंका व्यभिचार देखनेमें आता है; इस कारण नहीं देखे हुए स्वर्ग आदिमें भी उन मंत्रोंके व्यभिचारका अनुमान किया जाता है। क्योंकि; वेदोक्तमंत्रोंसे संस्कारको प्राप्त हुए ऐसे भी विवाहादि कर्मोंके होनेके पीछे विधवापन, अल्पआयुका धारक होना तथा दरिद्रताका प्राप्त होना इत्यादि उपद्रवोंसे दुःखित हजारों नरनारी देखे जाते हैं। और मंत्रसंस्कारके विना भी विवाह आदि कर्मोंके करने पीछे हजारों नर नारी उनसे विपरीत अर्थात् सधवापन, पूर्णआयु व संपदाका धारक होना आदि सुखोंसे सुखी देखनेमें आते हैं। भावार्थ—जिनके वेदोक्तमंत्रोंसे वाहादि कर्म हुए हैं; वे तो कितने ही दुःखी और जिनके मंत्रोंसे विवाहादि नहीं हुए ऐसे कितने ही सुखी देखे जाते हैं। यदि कि; उस मंत्रसंस्कृत विवाहादिकर्मोंके उत्तमफल न होनेमें क्रियाका वैगुण्य (फेरफार) अर्थात् जिस विधि (प्रकार) से

वेदोक्तमंत्रोंद्वारा विवाहादिकर्म करने चाहियें; उस विधिसे जो न करना है; वही इस विसंवाद (व्यभिचार) का कारण है । सो यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि संशय दूर नहीं होता है । भावार्थ—क्या उस मंत्रसंकृतविवाहादि कर्मके फलमें क्रिया-वैगुण्यसे विसंवाद है, अथवा उन वेदोक्तमंत्रोंमें सामर्थ्यके न होनेसे विसंवाद है, यह निश्चय नहीं है । क्योंकि; उन मंत्रोंकी फलके साथ व्याप्ति सिद्ध नहीं होती है ।

अथ यथा युष्मन्मते “ आरोगं वोहिलाभं समाहितरमुत्तमं दिंतु ” इत्यादीनां वाक्यानां लोकान्तर एव फल-मिष्यते एवमसदभिमतवेदवाक्यानामपि नेह जन्मनि फलमिति किं न प्रतिपद्यते । अतश्च विवाहादौ नोपलम्भाव-काशः, इति चेत्—अहो वचनवैचित्री । यथा वर्तमानजन्मनि विवाहादियु प्रयुक्तैर्मन्त्रसंस्कारैरगामिनि जन्मनि तत्फलमेवं द्वितीयादिजन्मान्तरेऽपि विवाहादीनामेव प्रवृत्तिधर्मणां पुण्यहेतुत्वाद्भीकारेऽनन्तभवानुसन्धानं प्रस-ज्यते । एवं च न कदाचन संसारस्य परिसमाप्तिः । तथा च न कस्यचिदपवर्गप्राप्तिः । इति प्राप्तं भवदभिमतवेदस्य पर्यवसितसंसारवछरीमूलकन्दत्वम् । आरोग्यादिप्रार्थना तु अंमत्याऽमृयाभाषापरिणामविशुद्धिकारणत्वाच्च दोषाय । तत्र हि भावारोग्यादिकमेव विवक्षितम् । तच्च चातुर्गतिकंसारलक्षणभावरोगपरिश्रयस्वरूपत्वादुत्तमफलम् । त-द्विपथा च प्रार्थना कथमिव विवेकिनामनादरणीया । न च तज्जन्यपरिणामविशुद्धेस्तफलं न प्राप्यते । भववादिना भावशुद्धेरपवर्गफलसम्पादनेऽविप्रतिपत्तेरिति ।

अब यदि ऐसा कहो कि,—जैसे आप (जैनियों) के मतमें “ रोगरहितपनेत्रो, तन्नास्वके लाभको तथा समाधि (रागद्वेग-रहितता) रूप वरको देवो । ” इत्यादि वाक्योंका परलोक (परभव) में ही फल माना गया है, उन्ही प्रकार हमारे मानेहुए वेदके वाक्योंका फल भी परभवमें ही होता है; ऐसा आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं और जब आप वेदके मंत्रोंका परगवमं फल मान लेंगे तो विवाहआदिमें उपालंभ (ठपके) को अवकाश (म्यात) नहीं मिलेगा अर्थात् विवाहआदिसें अविष्ट दूर न होनेमें आप दोष नहीं दे सकेंगे, तो तुम्हारे वचनोंकी विचित्रतासे हमको आश्चर्य होता है । क्योंकि; जैसे तुम इस जन्ममें विवाह आदि कर्मोंमें प्रयोग कियेहुए मंत्रसंस्कारोंसे आगामी जन्ममें उन विवाहादिका फल होना मानते हो, उसी प्रकार यदि तुम दूसरे, तीसरे

जन्म आदिमें भी विवाह आदि प्रवृत्ति धर्मोंको ही पुण्यके कारण मान लेंगे तो अनन्तजन्मोंके अनुसंधान (परंपरा) का प्रसंग होगा । और अनन्त जन्मोंके अनुसंधान होनेसे कभी भी संसारकी समाप्ति न होगी अर्थात् जीवोंके संसारपरिभ्रमण लगा ही रहेगा । और जब संसारकी समाप्ति न होगी तब किसी जीवको मोक्षकी प्राप्ति भी न होगी । और इस पूर्वोक्त प्रकारसे तुम्हारे माने हुए वेदके अंतरहित ऐसी जो संसाररूपी बेल है, उसका मूलकंदपना प्राप्त हुआ । और हमारे मतमें जो आरोग्य आदिकी प्रार्थना है; वह तो असत्यामृषाभाषासे अर्थात् न सच्ची ही और न झूठी ही ऐसी व्यवहारभाषाद्वारा परिणामोंकी निर्मलताका कारण है; इस लिये दोषके अर्थ नहीं है । भावार्थ—जैसे जिस घटमें घृत रक्खा हो उस घटको व्यवहारमें घृतघट कहते हैं, और यह कहना एक अपेक्षासे असत्य है । क्योंकि घट मृत्तिकाका है न कि घृतका, तथा दूसरी अपेक्षासे सत्य भी है क्योंकि उस घटमें घृतका संबंध है । इसीप्रकार आरोग्यआदिकी प्रार्थना भी श्रीजिनेन्द्र किसीको कुछ नहीं देते हैं; इसकारणसे तो असत्य है और श्रीजिनेन्द्रकी सेवासे आरोग्यादिके देनेवाले शुभ कर्मोंका बंध होता है अतः आरोग्यादिकी प्राप्तिमें श्रीजिनेन्द्र निमित्तकारणरूप है इस अपेक्षासे सत्य भी है । यही सत्यासत्यरूप भाषा व्यवहारभाषा कहलती है और इस व्यवहारभाषाद्वारा आरोग्यादिकी प्रार्थना करनेसे परिणाम निर्मल होते हैं अतः यह प्रार्थना निर्दोष है । क्योंकि उस आरोग्यादिकी प्रार्थनामें भावोंके आरोग्य आदि ही विवक्षित है । और वह भावारोग्य चार गतियोंके धारक संसाररूप जो भावरोग है, उसके नाशरूप स्वरूपवाला होनेसे उत्तम फलका धारक है । और उस उत्तम फलवाले भावारोग्यकी प्राप्तिके विषयमें जो प्रार्थना है वह ज्ञानी जीवोंके अनादर करने योग्य कैसे होवे अर्थात् ज्ञानीपुरुष उस भावारोग्यकी प्रार्थनाका आदर ही करते हैं । क्योंकि वे भावारोग्यकी प्राप्तिके इच्छक हैं । और भावारोग्यादिकी प्रार्थनासे उत्पन्न हुई भावोंकी निर्मलतासे संसारकी रहितता वा मोक्षकी प्राप्तिरूप फल नहीं मिलता है; ऐसा न कहना चाहिये । क्योंकि सभी वादी ' भावोंकी शुद्धिसे मोक्ष फलकी प्राप्ति होती है ' इस सिद्धान्तमें सहमत है ।

न च वेदनिवेदिता हिंसा न कुत्सिता । सम्यग्दर्शनज्ञानसम्पन्नैरिच्छिर्मार्गप्रपन्नैर्वेदान्तवादिभिश्च गहितत्वात् । तथा च तत्त्वदर्शिनः पठन्ति—“ देवोपहारव्याजेन यज्ञव्याजेन येऽथवा । व्रन्ति जन्तून् गतघृणा घोरां ते यान्ति दुर्गतिम् । १ । ” वेदान्तिका अप्याहुः—“ अन्धे तमसि मज्जासः पशुभिर्ये यजामहे । हिंसा नाम भवेद्धर्मो न भूतो न

१. संसारवृद्धिहेतुर्थेज्ञादिरूपाद्भूममार्गाद्धिपरीतो यमनियमादिरिच्छिर्मार्गः ॥

भविष्यति । १ । तथा 'अग्निर्मांसेतस्माद्धिसाकृतादेनसो मुञ्चतु छान्दसत्वान्मोचयतु इत्यर्थः' इति । व्यासेनाप्युक्तम्—ज्ञानपालिपरिक्षिसे ब्रह्मचर्यदयाम्भसि । स्नात्वातिविमले तीर्थे पापपङ्कपहारिणि । १ । ध्यानाग्नौ जीवकुंडस्थे दममारुतदीपिते । असत्कर्मसमित्क्षेपरग्निहोत्रं कुरुत्तमम् । २ । कयायपशुभिर्दुष्टै—धर्मकामार्थनाशकैः । शममन्त्रहृतैर्यज्ञं विधेहि विहितं बुधैः । ३ । प्राणिघातात्तु यो धर्ममीहते मूढमानसः । स त्राञ्छति सुधावृष्टिं कृष्णाहिसुखकोटरात् । ४ । ” इत्यादि ।

और वेदोक्तहिंसा निंदनीय नहीं है ऐसा भी न कहना चाहिये । क्योंकि सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञानके धारक पुरुषोंने तथा अर्ची मार्गको स्वीकार करनेवाले वेदान्तवादियोंने उस वेदोक्त हिंसाकी निन्दा की है । सो ही तत्त्वोंके देखने (जानने) वाले कहते है कि,—“ जो वृणा (ग्लानि) रहित पुरुष देवताके भेट करनेरूप छलसे अथवा यज्ञ करनेके भिपसे जीवोंको मारते है; वे घोर दुर्गति (सप्तम नरक आदि) को गमन करते है । वेदान्तिक भी कहते है कि,—“ जो हम पशुओंसे देवादिकोंकी पूजा करें तो अंध तम (सप्तम नरक अथवा घोर अज्ञानान्धकार) में डूब जावें । क्योंकि हिंसा नामक धर्म न तो कभी हुआ और न कभी होगा । ? । ” तथा “अग्नि देवता मुझको इस हिंसाद्वारा किये हुए पापसे मुक्त करो [यहांपर मुञ्चतु यह प्रयोग वेदका है, अतः णिजन्तका अर्थ किया गया है] श्रीव्यासजीने भी कहा है कि,—“ज्ञानरूपी पालि (पाल) पर गिरा हुआ ब्रह्मचर्य और दयारूप है जल जिसमें ऐसे पापरूपी कर्दमको दूर करनेवाले अत्यंत निर्मल तीर्थमें स्नान करके । ? । जीवरूपी कुंडमें दमरूपी पवनसे दीपित ऐसी जो ध्यानरूपी अग्नि है, उसमें अशुभकर्मरूपी काष्ठको गेरकर उत्तम अग्निहोत्रको करो । २ । धर्म, काम और अर्थको नष्ट करनेवाले, शमरूपी मंत्रसे आहूतिको प्राप्त हुए ऐसे दुष्ट कयायरूपी पशुओंसे ज्ञानवानोंद्वारा किये हुए यज्ञको करो । ३ । जो मूर्खचित्तका धारक मनुष्य जीवोंके मारनेसे धर्मकी प्राप्तिकी इच्छा करता है, वह काले सर्पके मुखरूपी कोटर (वृक्षके छिद्र) से अमृतकी वर्षाको चाहता है भावार्थ—जीवोंके मारनेसे धर्म कभी भी नहीं हो सकता है । ४ । ” इत्यादि ।

यच्च याज्ञिकानां लोकपूज्यत्वोपलम्भादित्युक्तं इदमप्यसारम् । अबुधा एव हि पूजयन्ति तान्न तु विविक्तबुद्धयः । अबुधपूज्यता तु न प्रमाणम् । तस्याः सारमेयादिष्वप्युपलंभात् । यदप्यभिहितं देवतातिथिपितृप्रीतिसंपादकत्वाद्देदविहिता हिंसा न दोषायेति तदपि विवितथम् । यतो देवानां संकल्पमात्रोपनताभिमताहारपुद्गलर-

सास्वादसुहितानां वैक्रियशरीरत्वाद् शुष्मदावर्जितजुगुप्सितपशुमांसाद्याहुतिप्रगृहीताविच्छैव दुःसंभवा । औदारिकशरीरिणामेव तदुपादानयोग्यत्वात् । प्रक्षेपाहारस्वीकारे च देवानां मन्त्रमयदेहत्वाभ्युपगमवाधः । न च तेषां मन्त्रमयदेहत्वं भवत्पक्षे न सिद्धम् । “चतुर्थ्यन्तपदमेव देवता” इति जैमिनिवचनग्रामाण्यात् । तथा च मृगेन्द्रः “शब्देतरत्वे युगपद्भिन्नदेशेषु यष्टृषु । न सा प्रयाति सांनिध्यं मूर्तत्वादस्मदादिवत् ॥ १ ॥” सेति देवता ।

और जो तुमने यह कहा है कि; यज्ञके कर्त्ता पुरुषोंको लोकपूज्य देखते हैं; इसकारण वेदोक्त हिंसा निर्दिष्ट नहीं है; सो यह कथन भी असार (ब्यर्थ) है; क्योंकि; मूर्त्त मनुष्य ही उन यज्ञकर्त्ताओंकी पूजा करते हैं किंतु निर्मल बुद्धिके धारक उनकी पूजा नहीं करते हैं । और मूर्त्तसे पूज्यपना प्रमाण करने योग्य नहीं है । क्योंकि वह मूर्त्तसे पूज्यपना श्रान (कुत्से) आदिमें भी देखा जाता है अर्थात् मूर्त्तजन श्रान वगैरह पशुओंकी भी पूजा किया करते हैं । और जो तुमने कहा है कि; देवता, अतिथि तथा पितृ जनोंकी प्रीतिको उत्पन्न करनेके कारण वेदोक्त हिंसा दोषके लिये नहीं है; सो यह कहना भी मिथ्या है । क्योंकि संकल्प मात्र (मनमें भोजन करनेकी इच्छा) करनेसे ही प्राप्त हुए जो मनोवांछित आहारके पुद्गल हैं; उनके रसका आस्वादन करनेसे तृप्त होनेवाले देवोंके वैक्रिय शरीर होनेके कारण तुम्हारी दी हुई जो ग्लानियुक्त पशुमांस आदिकी आहुति है; उसको ग्रहण करनेमें इच्छाका होना ही कठिन है । क्योंकि जो औदारिक शरीरके धारक जीव है; वे ही उस तुम्हारी दी हुई आहुतिको ग्रहण करनेकी योग्यता रखते हैं । और यदि तुम देवोंके दिये हुए आहारका स्वीकार करना पना मानोगे तो ‘देव मन्त्रमयशरीरके धारक है’ इस तुम्हारी स्वीकारतामें दोष आवेगा । और देवोंके मन्त्रमय शरीरका होना तुम्हारे मत्तमें असिद्ध नहीं है । क्योंकि; ‘देवताओंके अर्थ चतुर्थीविभक्तिसहित पदका ही प्रयोग करना चाहिये’ ऐसा जैमिनिऋषि का वचन प्रमाण करने योग्य है । सो ही मृगेन्द्र नामक एक तुम्हारा आचार्य कहता है कि—“यदि देवता शब्दमय (मन्त्रमय) शरीरसे भिन्न शरीरका धारक होवे तो जैसे हम तुम मूर्त्त शरीरके धारक होनेसे एक ही समयमें भिन्न २ स्थानोंमें उपस्थित (विद्यमान) नहीं हो सकते है; उसी प्रकार वह देव भी मूर्त्त देहको धारण करनेवाला होनेसे एक ही समयमें भिन्न २

१ दत्त- । २ यदि शब्देतरत्वं मन्त्रमयस्वरूपादपरस्वरूपत्वं स्याद्देस्वरूपं भवति तदा भिन्नदेशस्थाथियु याञ्जिकेषु कथं सांनिध्यं कुरुते । मूर्त्तत्वात् सर्वत्र सांनिध्यस्याप्रसङ्गः ॥

स्थानोंमें पूजा करनेवाले पुरुषकी समीपताको प्राप्त न हो। (यहां 'सा' इस शब्दसे देवताका ग्रहण करना चाहिये.) भावार्थ— यदि देव मंत्रमय देहके धारक न हों तो एक ही समयमें अनेक स्थानोंमें पूजा करनेवालेके समीप न जा सकें, इसलिये देव मन्त्रमय शरीरके धारक ही है।

ह्यमानस्य च वस्तुनो भस्मीभावमात्रोपलम्भात्तदुपभोगजनिता देवानां प्रीतिः प्रलापमात्रम् । अपि च योऽयं त्रेताग्निः स त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवतानां मुखम् । “ अग्निमुखा वै देवाः ” इति श्रुतेः । ततश्चोत्तममध्यमाऽधमदेवानामेकेनैव मुखेन मुञ्जानानामन्योन्योच्छिष्टमुक्तिप्रसङ्गः । तथा च ते तुरुकेभ्योऽप्यतिरिच्यन्ते । तेऽपि तावदेकत्रैवामत्रे भुञ्जते । न पुनरेकेनैव वदनेन । किञ्च एकस्मिन् वपुषि वदनवाहुल्यं क्वचन श्रूयते । यत्पुनरनेकशरीरेष्वेकं मुखमिति महदाश्चर्यम् । सर्वेषां च देवानामेकस्मिन्नेव मुखेऽङ्गीकृते यदा केनचिदेको देवः पूजादिनाऽऽराद्धोऽन्यश्च निन्दादिना विराद्धस्ततश्चैकेनैव मुखेन युगपदनुग्रहनिग्रहवाक्योच्चारणसंकरः प्रसज्येत । अन्यच्च मुखं देहस्य नवमो भागस्तदपि येषां दाहात्मकं तेषामैकैकशः सकलदेहस्य दाहात्मकत्वं त्रिभुवनभस्मीकरणपर्यवसितमेव संभाव्यत इत्यलमतिचर्चया ।

और होम किये जातेहुए पदार्थका केवल भस्म होना ही देखा जाता है, इसकारण उस होम किये हुए पदार्थके उपभोगसे देवोंके प्रीति उत्पन्न होती है, यह तुम्हारा कहना प्रलाप (वक्त्राद्) करने रूपही है। और “ देव अग्निरूप मुखके ही धारक है अर्थात् देवोंका अग्नि ही मुख है ” इस श्रुतिके वचनसे जो यह त्रेताग्नि (दक्षिणाग्नि, आहवनीयाग्नि तथा गार्हपत्याग्नि नामक तीनों अग्नियोंका समुदाय) है, वह तैत्तिरीय ३३ करोड़ देवोंका मुख है और जब त्रेताग्नि ही सब देवोंका मुख हुआ, तब एकही मुखसे भोजन करते हुए उन उत्तम, मध्यम तथा जघन्य श्रेणीके सभी देवोंके परस्पर उच्छिष्ट (जूठन) खानेका प्रसङ्ग हुआ और ऐसा होनेपर वे देव तुरुकों (मुसलमानों) से भी अधिक नीच हुए। क्योंकि, वे तुरुक तो एक ही पात्रमें भोजन करते हैं और एकही मुखसे भोजन नहीं करते हैं। और भी विशेष वक्तव्य यह है कि;—एक शरीरमें बहुतसे मुखोंका होना किसी २ में अर्थात् ब्रह्मा, स्वामी कार्तिकेय तथा रावण आदि व्यक्तियोंमें सुना जाता है और जो तुम अनेक शरीरोंमें एक मुखका होना कहते हो, यह बड़ा आश्चर्य है। और यदि सब देवोंके एकही मुखका होना स्वीकार करोगे; तो जब कोई पुरुष एक देवको

तो पूजा आदिके करनेसे प्रसन्न करेगा और किसी दूसरे देवको निन्दाआदिके करनेसे अप्रसन्न (कुपित) करेगा तब एक ही समयमें एकही मुखसे अनुग्रह तथा निग्रहरूप वाक्यके कहनेमें संकरदोषका प्रसङ्ग होगा अर्थात् प्रसन्न हुआ देव जिस समय जिस मुखद्वारा उस पुरुषके प्रति अनुग्रह—वचन कहना चाहेगा उसी समय कुपित हुआ दूसरा देव उस पुरुषके प्रति निग्रह (तिरस्कार) रूप वचन कहना चाहेगा और ऐसी दशमें गड़बड़ मच जावेगी; जोकि; तुमको भी अभीष्ट नहीं है। और भी विशेष वक्तव्य यह है कि,—मुख शरीरका नवम (९ वां) भाग है, वह भी जब देवोंके दाह स्वरूप है अर्थात् भस्म करनेवाला है; तब उन सब तैत्तिस करोड़ देवोंमेंसे जो प्रत्येक देवका पूर्ण शरीर है वह भी यदि दाहस्वरूप हो जायगा; तो वह सब देवोंके सब शरीरोंका दाहरूप होना तीनों लोकोंके भस्म करनेमें समर्थ ही होगा; ऐसी संभावना की जाती है। इसप्रकार इस विषयमें बहुत कुछ चर्चा की जा सकती है; परन्तु उसको यहांही समाप्त करते हैं।

यश्च कारीरीयज्ञादौ वृथ्यादिफलाव्यभिचारस्तस्मीणितदेवतानुग्रहेतुक उक्तः । सोऽप्यनैकान्तिकः क्वचिद् व्यभिचारस्यापि दर्शनात् । यत्रापि न व्यभिचारस्तत्रापि न त्वदाहिताहुतिभोजनजन्मा तदनुग्रहः । किंतु स देवताविशेषोऽतिशयज्ञानी स्वोद्देशनिर्वर्तितं पूजोपचारं यदा स्वस्थानवस्थितः सन् जानीते तदा तत्कर्तारं प्रति प्रसन्नचेतोवृत्तिस्तत्कार्यणीच्छावशात्साधयति । अनुपयोगादिना पुनरजानानो जानानोऽपि वा पूजाकर्तुरभाग्य-सहकृतः सन्न साधयति । द्रव्यक्षेत्रकालभावादिसहकारिसाचिव्यापेक्षस्यैव कार्योत्पादस्योपलम्भात् । स च पूजो-पचारः पशुविशसनव्यतिरिक्तैः प्रकारान्तरेरपि सुकरस्तत्किमनया पापैकफलया शौनिकवृत्त्या ।

और “जो कारीरी यज्ञादिके करनेसे वृष्टि आदिरूप फलमें व्यभिचार नहीं होता है अर्थात् कारीरी यज्ञादिके करनेसे वृष्टि आदि फल नियमसे होते ही हैं, उसमें उन यज्ञ आदिसे प्रसन्न किये हुए देवताओंका अनुग्रह ही कारण है ” यह जो तुमने पहले कहा है, वह कहना भी अनैकान्तिक है क्योंकि, किसी २ स्थानमें यज्ञादिके करनेसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति न होनेरूप व्यभिचार भी देखा जाता है। और जहां व्यभिचार नहीं होता है अर्थात् यज्ञादिके करनेसे अभीष्ट फल मिलता ही है; वहा भी तुम्हारी दी हुई आहुतिके भोजन करनेसे उन देवोंका अनुग्रह नहीं हुआ है; किन्तु वह देवताविशेष अतिशय (तुम्हारी अपेक्षा अधिक) ज्ञानका धारक है अर्थात् अवधिज्ञानी है; इसकारण अपने स्थानमें स्थित हुआ ही वह देव जब अपने उद्देश्यसे किये हुए पूजा

सत्कारको जानता है; तब उस पूजा सत्कारको करनेवालेके प्रति प्रसन्नचित्त होकर उस आराधक पुरुषके उन २ अभीष्ट कार्योको अपनी इच्छाके वशसे सिद्ध कर देता है। और जब उपयोग (पूजाकी ओर ध्यान व खयाल) आदिके न होनेसे उस अपने उद्देश्यसे की हुई पूजाको नहीं जानता है; अथवा जानता हुआ भी पूजा करनेवालेके अभाग्यसे सहकृत होता है; तब वह देव उस पूजकके कार्यको नहीं सिद्ध करता है; और वह पूजोपचार पशुओंको मारनेके विना जो अन्य २ प्रकार है; उनसे भी सुखपूर्वक उत्पत्ति होती है, ऐसा देखा जाता है। फिर इस पापरूप ही एक फलको धारण करनेवाली कसाई पनेकी जीविकासे क्या प्रयोजन है (सुगमतासे) होता है; फिर इस नैवेद्यादि द्रव्योंके समर्पण करने आदिसे भी होती है अतः पूजाके अर्थ पशुओंकी भावार्थ—देवोंकी पूजा अर्थात् पुण्य हिंसा करना वृथा है।

यच्च छगलजाङ्गलहोमात्परराष्ट्रवशीकृतिसिद्ध्या देव्याः परितोषानुमानं तत्र कः किमाह । कासांचित् शुद्रदेव-तानां तथैव प्रत्यङ्गीकारात् । केवलं तत्रापि तद्वस्तुदर्शनज्ञानादिनैव परितोषो न पुनस्तद्भुक्त्या । निम्बपत्रकटु-कैतलरनालधूमांशादीनां ह्यमानद्रव्याणामपि तद्भोज्यत्वप्रसङ्गात् । परमार्थतस्तु तत्तत्सहकारिसमवधानसन्धि-वाराधकानां भक्तिरेव तत्तत्फलं जनयति । अचेतने चिन्तामण्यादौ तथा दर्शनात् । अतिथीनां तु प्रीतिः संस्का-रसंपन्नपक्वाशादिनापि साध्या । तदर्थं महोक्षमहाजादिप्रकल्पनं निर्विकितामेव व्यापयति । सिद्ध हो जाता है;

और जो तुमने यह कहा है कि,—“ वकरा और वनके पशुओंका होम करनेसे पर राज्यका वशीकरण सिद्ध हो अपने वशमें हो इस कारणसे देवीकी प्रसन्नताका अनुमान होता है अर्थात् देवीके आगे वकराआदिके मारनेसे दूसरोंका राज्य अपने वशमें हो जाता है; अतः अनुमान किया जाता है कि;—वकरेके चढ़ानेसे देवी प्रसन्न होती है।” तो इस कथनमें कौन क्या कहता है; अर्थात् हम (जैनी) तुम्हारे इस कथनको असत्य नहीं कहते है, क्योंकि; कितनीही नीच देवियें वकरे आदिके चढ़ानेसे ही इस कारणसे देवीकी प्रसन्नताका अनुमान होता है अर्थात् देवीके आगे वकराआदिके मारनेसे अथवा जाननेआदिसे ही प्रसन्नताको स्वीकार करती है। परन्तु उस हिंसामें भी केवल उस वस्तु (वकरेके मांसादि पदार्थ) के देखने अथवा जाननेआदिसे देवी प्रसन्न होती है अतः अनुमान किया जाता है और उस मांसादिके भोजन करनेसे देवी प्रसन्न नहीं होती है, क्योंकि,—यदि मांसादिके खानेसे देवी प्रसन्न होवे तो नीमके पत्ते, कड़वा तैल, कांजिक (कांजिया) और धूमांश (धूमसा) आदि जो होमे जाते हुए पदार्थ है;

उनकी भी भोज्यताका प्रसंग देवीको होगा। भावार्थ—यदि देवी मांसका भोजन करती है; ऐसा मानोगे तो देवीके निब-
पत्रादिका भोजन करना भी सिद्ध होगा, जो कि तुमको अभीष्ट नहीं है। परमार्थसे (यथार्थमें) तो उन २ सहकारी कारणोंके
संयोगकी सहायताको धारण करनेवाले जो आराधक पुरुष हैं उनकी भक्ति ही उस २ अभीष्ट फलको उत्पन्न करती है। क्योंकि,—
अचेतन चिन्तामणि रत्नादिमें ऐसा देखा जाता है। भावार्थ—जैसे चिन्तामणि रत्न अचेतन होनेसे किसीपर लुप्त तथा रुष्ट
नहीं होता है; उसी प्रकार देवी भी किसीपर लुप्त, रुष्ट नहीं होती है; किन्तु उस आराधक पुरुषकी भक्ति ही अभीष्ट फल दे
देती है। और जो अतिथियोंकी प्रीति है; वह तो संस्कारयुक्त (मन्त्रादिके संस्कारसहित) जो पक्वान्न आदि पदार्थ है;
उन्से भी सिद्ध होती है; उस अतिथिप्रीतिके अर्थ महोक्ष (बड़ा बेल) और बड़े बकरे आदिका मारना केवल लुहारी मूर्ख-
ताको ही कहता है।

पितृणां पुनः प्रीतिरनैकान्तिकी । श्राद्धादिविधानेनापि भूयसां संतानवृद्धेरनुपलब्धेः । तदविधानेऽपि च
केषांचिद्दुर्दभशूकराजादीनामिव सुतरां तद्दर्शनात् । ततश्च श्राद्धादिविधानं सुग्धजनविप्रतारणमात्रफलमेव । ये
हि लोकान्तरं प्राप्तास्ते तावत्स्वकृतसुकृतदुष्कृतकर्मानुसारेण सुरनारकादिगतिषु सुखमसुखं वा मुञ्जाना एवासते । ये
ते कथमिव तनयादिभिरावर्जितं पिण्डमुपभोक्तुं स्पृहयालवोऽपि स्युः । तथा च शुष्मद्यूथिनः पठन्ति—“मृता-
नामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्तृप्तिकारणम् । तन्निर्वाणप्रदीपस्य स्नेहः संवर्द्धयेच्छिखाम् ॥ १ ॥” इति । कथं च श्राद्ध-
विधानाद्यर्जितं पुण्यं तेषां समीपमुपैतु तस्य तदन्यकृतत्वात् जडत्वान्निश्चरणत्वाच्च ।

और जो तुमने श्राद्धादिके करनेसे पितृजनके प्रीतिके उत्पन्न होना कहा है; वह भी अनैकान्तिक (सव्यभिचार) दोषसे
दूषित है। क्योंकि;—बहुतसे पुरुष श्राद्धआदि करते हैं; तोभी उनके करनेसे उनके संतानकी वृद्धि नहीं देखी जाती है
अर्थात् श्राद्धादिके करनेपर भी कितनेही लोग संतानरहित ही रह जाते हैं। और श्राद्धादिके न करनेपर भी कितनेही पुरुषोंके गधा,
सूअर, तथा बकरेआदिके समान अतिशयरूपसे (बहुतसी) सन्तानकी वृद्धि देखते हैं। इस कारणसे सिद्ध हुआ कि,
जो श्राद्धआदिका करना है; वह भोले मनुष्योंको ठगनेरूप ही फलका धारक है। क्योंकि,—जो पितृजन परलोकको चले गये
है, वे तो अपने कियेहुए पुण्य तथा पापकर्मके अनुसार देवगति तथा नारकगति आदिमें सुख अथवा दुःखको भोगते हुए ही

रहते हैं । भावार्थ—जिन्होंने पुण्य किया है; वे स्वर्गमें सुखको ही भोगा करते हैं और जिन्होंने पाप किया है; वे नरकमें दुःख ही भोगा करते हैं । इसकारण वे पितृजन, पुत्रादिकोंद्वारा दिये हुए पिंडका भोजन करनेके लिये इच्छाके धारक भी कैसे हो सकते हैं अर्थात् नहीं हो सकते हैं । सो ही सुहारे साथी कहते हैं कि,—“यदि श्राद्ध मरे हुए जीवोंकी भी वृत्तिका कारण है तो तैल भी बुझे हुए दीपककी शिखाको बढ़ावे” । भावार्थ—जैसे दीपकके बुझ जानेपर तैल उस दीपककी शिखाको नहीं बढ़ाता है, उसीप्रकार श्राद्ध भी मृतक जीवोंको वृत्त नहीं करता है । और श्राद्धआदिके करनेसे प्राप्त किया हुआ जो पुण्य है; वह भी उन मृत पितृजनोंके समीप कैसे जावे, क्योंकि वह पुण्य उनसे भिन्न जो पुत्रादिक है उनसे किया हुआ है, जडरूप तथा चरणों (पगों) से रहित है ।

अथ तेषामुद्देशेन श्राद्धादिविधानेऽपि पुण्यं दातुरेव तनयादेः स्यादिति चेत् तन्न । तेन तज्जन्यपुण्यस्य स्वाध्य-वसायादुच्चारितत्वात् । एवं च तत्पुण्यं नैकतरस्यापि इति विचाल एव विलीनं त्रिशङ्कुज्ञातेन किन्तु पापानुबन्धि-पुण्यत्वात् तत्त्वतः पापमेव । अथ विप्रोपमुक्तं तेभ्य उपतिष्ठत इति चेत्कइवैतत्प्रत्येतु । विप्राणामेव मेदुरोदरताद-र्शनात् । तद्धपुषि च तेषां संक्रमः श्रद्धातुमपि न शक्यते । भोजनावसरे तत्संक्रमलिङ्गस्य कस्याप्यनवलोकनात्, विप्राणामेव च तृप्तेः साक्षात्करणात् । यदि परं त एव स्थूलकवलैराकुलतरमतिगार्ध्याद्भक्षयन्तः प्रेतप्रायाः । इति मुधैव श्राद्धादिविधानम् । यदपि च गयाश्राद्धादियाचनमुपलभ्यते तदपि तादृशविप्रलम्भकविभङ्गज्ञानि-व्यन्तरादिक्रुतमेव निश्चयेयम् ।

अब यदि ऐसा कहो कि; “ उन पितृजनोंके उद्देशसे जो श्राद्ध आदि किया जाता है; उससे दान देनेवाले पुत्रादिको ही पुण्य होता है । भावार्थ—पुत्र जो पिताके उद्देशसे श्राद्ध करता है; उस श्राद्धसे उत्पन्न हुआ पुण्य यदि उस पुत्रके पिताको प्राप्त नहीं होता है, तो न हो, उस पुत्रको तो होताही है । सो नहीं । क्योंकि,— उस पुत्रने उस श्राद्धआदिके करनेसे उत्पन्न हुए पुण्यको अपने अध्यवसायसे उत्तार दिया है । भावार्थ—पुत्रने उस पुण्यसे अपना कुछ भी सम्बन्ध न रखकर श्राद्धआदि

१ त्रिशङ्कुर्नाम राजा वशिष्ठशापाच्चण्डालो जातो विश्वामित्रं पुरोधाय कृतकतुल्यकभूतल शक्रक्रीपेन स्वर्गातिवर्तितोऽन्तराल एव स्थितः । तस्मात् चौरपि न मूरपि तस्योपमुक्त्यै तद्वत् ॥

किया है, अतः वह पुत्र उस पुण्यका भागी नहीं हो सकता है। और ऐसा होनेपर वह पुण्य पिता और पुत्र इन दोनोंमेंसे किसी एकको भी न हुआ, त्रिशंकुराजके दृष्टान्तसे बीचमें ही नष्ट होगया। भावार्थ—जैसे-त्रिशंकुराजक राजा वशिष्ठ ऋषिके शापसे चांडाल होगया और विश्वामित्रजीकी सहायतासे यज्ञ करके पृथ्वीको छोड़कर स्वर्गमें जाने लगा परन्तु इन्द्रने कुपित होकर उसको स्वर्गमें नहीं आने दिया, तब वह त्रिशंकु पृथ्वी और स्वर्ग इन दोनोंके बीचमें ही लटकता रहगया, यह तुम्हारे पुराणोंकी कथा है; उसी प्रकार वह श्राद्धसे उत्पन्न हुआ पुण्य पूर्वोक्त प्रकारसे पिता और पुत्र इन दोनोंमेंसे किसीको भी प्राप्त न होकर बीचमें ही रह गया। और भी विशेष यह है कि, वह श्राद्ध आदिसे उत्पन्न हुआ पुण्य पापको उत्पन्न करता है अर्थात् अपना फल देकर पश्चात् पापमें प्रवृत्ति करता है अतः यथार्थमें वह पुण्य भी पापरूप ही है। अब यदि यह कहो कि,—“ब्राह्मणोंकरके खाया हुआ अन्न उनके अर्थ प्राप्त होता है। तो इस तुम्हारे कथनकी कौन प्रतीति करो। क्योंकि,—उस भोजनसे केवल ब्राह्मणोंके उदरका ही मोटा होना देखते हैं। और ‘उन ब्राह्मणोंके शरीरमें उन पितृजनोका प्रवेश होता है’ इस कथनका तो श्रद्धान भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भोजनके समयमें अर्थात् जब ब्राह्मणोंको भोजन कराया जाता है; उस समय ब्राह्मणोंके शरीरमें पितृजनोके प्रवेशको सिद्ध करनेवाला कोई चिन्ह देखनेमें नहीं आता है तथा ब्राह्मणोंकी ही वृत्ति प्रत्यक्षमें देखी जाती है। और आकुलतापूर्वक अत्यन्त लोलुपतासे बड़े २ ग्रासोंद्वारा उस भोजनको खाते हुए वे ब्राह्मण ही प्रेतोंके समान प्रतीत होते हैं। इसकारण श्राद्धादिका करना वृथा ही है। और जो गयाश्राद्ध आदिकी याचना देखी जाती है अर्थात् लोकमें जो कितने ही पितृजन पुत्रादिके शरीरमें प्रविष्ट होकर पुत्रादिकोंको गयाश्राद्ध आदि करनेके लिये कहते हैं; वह भी उसी प्रकारके जो धोखा देनेवाले और विभ्रान्तानके धारक व्यन्तर (भूत पिशाच) आदि नीच देव है; उनका किया हुआ ही समझना चाहिये।

यदप्युदितमागमश्चात्र प्रमाणम् । तदप्यप्रमाणम् । स हि पौरुषेयो वा स्यात्, अपौरुषेयो वा । पौरुषेयश्चेत् सर्वज्ञकृतः, तदितरकृतो वा । आद्यपक्षे युष्मन्मतव्याहृतिः । तथा च भवत्सिद्धान्तः—“अतीन्द्रियाणामर्थानां साक्षाद्द्रष्टा न विद्यते । नित्येभ्यो वेदवाक्येभ्यो यथार्थत्वविनिश्चयः ॥ १ ॥” द्वितीयपक्षे तु तत्र दोषवत्कर्तृत्वेनाऽनाश्वासप्रसङ्गः । अपौरुषेयश्चेत् न संभवत्येव । स्वरूपनिराकरणात् तुरङ्गशृङ्गवत् । तथाहि “उक्तिर्वचनमु-

च्यते” इति चेति पुरुषक्रियानुगतं रूपमस्य । एतत्क्रियाऽभावे कथं भवितुमर्हति । न चैतत्केवलं क्वचिद्ब्रह्मवन्दुपलभ्यते । उपलब्धावप्यहश्यवक्राशङ्कासंभवात् । तस्मात् वचनं तत्पौरुषेयमेव । वर्णात्मकत्वात्कुमारसंभवादि-वचनवत् । वचनात्मकश्च वेदः । तथाचाहुः—“ताल्वादिजन्मा ननु वर्णवर्गो वर्णात्मको वेद इति स्फुटं च । पुंसश्च ताल्वादिरतः कथं स्यादपौरुषेयोऽयमिति प्रतीतिः । १ ।” इति ।

और जो तुमने “हिंसके करनेमें आगम प्रमाण है” ऐसा कहा है । सो वह तुहारा आगम भी हमारे प्रमाणभूत नहीं है । क्योंकि, वह आगम पौरुषेय (किसी पुरुषका रचा हुआ) है, वा अपौरुषेय (किसी पुरुषका नहीं रचा हुआ) है ? यदि कहो कि;—आगम पौरुषेय है, तो हम प्रश्न करते हैं कि,—वह आगम सर्वज्ञ पुरुषकृत है, अथवा असर्वज्ञ पुरुषकृत है ? यदि उत्तर दो कि,—सर्वज्ञ पुरुषकृत है; तब तो “इन्द्रियोंके अगोचर पदार्थोंको प्रत्यक्षमें देखनेवाला कोई नहीं है; अतः नित्य ऐसे जो वेदके वाक्य हैं; उनहीसे उन अतीन्द्रियपदार्थोंकी यथार्थताका (अस्तित्व आदि स्वरूपका) निश्चय होता है । १ ।” यह जो तुहारा सिद्धांत (मत) है; उसका खंडन होगा । यदि कहो कि,—वह आगम असर्वज्ञ पुरुषसे रचा हुआ है; तो वह असर्वज्ञ पुरुष दोषी है अर्थात् असर्वज्ञपनेरूप दोषका धारक है और वह आगम उससे किया हुआ है; अतः दोषीकृत आगममें अविश्वासका प्रसंग होगा । भावार्थ—दोषीकृत आगममें विश्वासका करना हम और तुम दोनोंको ही अभीष्ट नहीं है. यदि कहो कि; वह आगम अपौरुषेय है, तो जैसे-स्वरूपरहित होनेसे घोड़ेका सँग असत् है; उसी प्रकार स्वरूपका निराकरण होनेसे वह आगम अपौरुषेय हो ही नहीं सकता है । सो ही दिखलते हैं कि,—जो उक्ति अर्थात् बोलना है; उसको वचन कहते हैं. इसकारण वचनका स्वरूप पुरुषक्रियसे युक्त है; अतः वह वचन पुरुषक्रियके विना कैसे हो सकता है । भावार्थ—जब मनुष्य वचनके उच्चारण करनेमें प्रवृत्त होवे; तभी वचन उत्पन्न हो सकता है । और पुरुषक्रियारहित यह केवल वचन कहीं भी शब्द करता हुआ नहीं प्राप्त होता है । और यदि कहीं पुरुषक्रियके विना शब्द करता हुआ यह वचन मिल जावे तो भी उस स्थानमें अदृश्य वक्ताकी अर्थात् अपने महात्म्यसे हमारे तुम्हारे देखनेमें नहीं आनेवाला ऐसा जो वचनको कहनेवाला पुरुष है, उसकी आशंका हो सकती है । इसकारण अनुमान किया जाता है कि,—जो वचन है, वह पौरुषेय ही है । अक्षररूप होनेसे कुमारसंभव आदि ग्रन्थोंके वचनोंकी समान । भावार्थ—जैसे—अक्षररूप होनेसे कुमारसंभव काव्य

आदिके वचन पौरुषेय है; उसी प्रकार सब वचन पौरुषेय है। और जो वेद है; वह वचनरूप है, अतः वेद भी पौरुषेय ही है। सो ही आचार्योंने कहा है कि,—“वर्णोंका समूह निश्चय करके तालु आदि स्थानोंसे उत्पन्न होता है और वेद वर्णों- (अक्षरों) स्वरूप है; यह भी निश्चित है, और वे तालु आदि स्थान पुरुषके होते हैं; अतः यह तुम्हारा आगम (वेद) अपौरुषेय है यह प्रतीति कैसे होवे अर्थात् नहीं हो सकती है। १।”

श्रुतेरपौरुषेयत्वमुरीकृत्यापि तावद्भवद्भिरपि तदर्थव्याख्यानं पौरुषेयमेवाङ्गीक्रियते। अन्यथाऽग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकाम इत्यत्र श्वमांसं भक्षयेदिति किं नाथों नियामकाऽभावात्। ततो वरं सूत्रमपि पौरुषेयमभ्युपगतम्। अस्तु वाऽपौरुषेयस्तथापि तस्य न प्रामाण्यम्। आसपुरुषार्थीना हि वाचां प्रमाणतेति। एवं च तस्याऽप्रामाण्ये तदुरुक्तदनुपातिस्मृतिप्रतिपादितश्च हिंसात्मको यागश्राद्धादिविधिः प्रामाण्यविधुर एवेति।

और तुमने भी श्रुति (वेदकी ऋचा) को अपौरुषेय मान करके उस श्रुतिके अर्थके व्याख्यानको पौरुषेय ही स्वीकार किया है। यदि तुम श्रुतिके अर्थ व्याख्यानको पौरुषेय न मानो तो ‘अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः’ इस श्रुतिका जो ‘स्वर्गकी इच्छा करनेवाला अग्निहोत्र नामक आहुति दे’ ऐसा प्रसिद्ध अर्थ है; उसके स्थानमें ‘स्वर्गका इच्छक अग्निहा (कुत्ते) के उत्र (मांस) की आहुति देवे, यह अर्थ भी क्यों नहीं होवे। क्योंकि,—‘इस शब्दका यही अर्थ करो, दूसरा अर्थ मत करो’ इस विषयमें कोई नियामक नहीं है। इसकारण जैसे-तुम श्रुतिके अर्थको पुरुषकृत मानते हो; उसी प्रकार श्रुतिको भी पुरुषकृत ही मानलो तो अच्छा है। अथवा चाहे तुम आगमको अपौरुषेय ही मानो; तथापि उस अपौरुषेय आगमकी प्रामाण्यता नहीं है। क्योंकि,—वचनोंकी प्रामाण्यता आस (यथार्थवक्ता) पुरुषके आधीन है अर्थात् लोकमें यथार्थवादी पुरुषके कहे हुए वचन ही प्रमाणभूत माने जाते हैं। अतः अपौरुषेय आगम आसकृत न होनेसे प्रमाण नहीं है। और इसप्रकार उस तुम्हारे आगमकी अप्रामाण्यता सिद्ध होनेपर उस आगमका कहा हुआ और उस आगमका अनुसरण करनेवाली (वेदोंके अनुकूल उपदेश देनेवाली) स्मृतियोंद्वारा कहा हुआ जो हिंसारूप यागश्राद्धादिका करना है; वह प्रमाणरहित ही है।

अथ योऽयं ‘न हिंस्यात् सर्वभूतानि’ इत्यादिना हिंसानिषेधः स औत्सर्गिको मार्गः। सामान्यतो विधिरित्यर्थः। वेदविहिता तु हिंसा अपवादपदं विशेषतो विधिरित्यर्थः। ततश्चाऽपवादेनोत्सर्गस्य बाधितत्वान्न श्रौतो

हिंसाविधिर्दोषाय । “ उत्सर्गापवादयोरपवादौ विधिर्वलीयान् ” इति न्यायात् । भवतांमपि हि न खल्वेकान्तेन हिंसानिषेधः । तत्कारणे जाते पृथिव्यादिप्रतिसेवनानामनुज्ञातत्वाद् ग्लानाद्यसंस्तरे आधाकर्मादिग्रहणभणनाच्च । अपवादपदं च याज्ञिकी हिंसा देवतादिप्रीतेः पुष्टालम्बनत्वात् । इति परमाशङ्क्य स्तुतिकार आह-नोत्सृष्टमित्यादि ।

शंका—जो यह “ न हिंसात् सर्वभूतानि ” अर्थात् ‘सर्व जीवोंकी हिंसा मत करो ।’ इत्यादि वचनोंसे हिंसाका निषेध है, वह उत्सर्गका मार्ग है अर्थात् सामान्य प्रकारसे हिंसा न करनेका उपदेश है । और जो वेदोक्त हिंसा है; वह अपवादका मार्ग है अर्थात् विशेष प्रकारसे हिंसा करनेका उपदेश है । और अपवादके उपदेशसे उत्सर्गका उपदेश बाधित होता है; अतः वेदोक्त हिंसाका विधान दोषके अर्थ नहीं है अर्थात् आपने जो पहले एक वाक्यसे हिंसाका निषेध और दूसरे वाक्यसे हिंसाका विधान करनेसे हमारे पक्षमें स्ववचनविरोध नामक दोष दिया था; वह दोष हमारे पक्षमें नहीं हो सकता है । क्योंकि उत्सर्गविधि और अपवादविधि इन दोनोंमेंसे अपवादविधि बलवान् होती है; ऐसा न्याय है । और आप (जैनियों) के भी एकान्तसे (सर्वथा) हिंसाका निषेध नहीं है, क्योंकि उन २ कारणोंके उत्पन्न होनेपर पृथ्वीकाय आदिके प्रतिसेवनोंकी (वध करनेकी) आज्ञा दी गई है । और ग्लान (रोगी) आदि मुनियोंका निर्वाह न होनेपर आधा कर्म आदिके ग्रहण करनेका कथन किया गया है । भावार्थ—उत्सर्गमार्गसे मुनियोंको अपने निमित्त किये हुए भोजनका आहार करनेकी आज्ञा नहीं है, परंतु यदि मुनि रोगी हो और उसका निर्वाह न हो सके तो वह अपने निमित्त किये हुए भोजनका भी आहार करले ऐसा अपवादमार्गसे उपदेश किया गया है । [अपने निमित्त किये हुए भोजनको ग्रहण करनेवाला मुनि आधाकर्म नामक दोषसे दूषित होता है] और यज्ञमें होनेवाली जो हिंसा है; वह अपवादरूप है । क्योंकि; देवताआदिकी प्रीतिका पुष्ट आलंबन है अर्थात् यज्ञआदिमें हिंसाके कियेविना देवताआदि प्रसन्न नहीं होते हैं । इसप्रकार वादियोंकी ओरसे परम आशंका करके स्तुतिके कर्ता आचार्य महाराज “नोत्सृष्टम्” इत्यादि काव्यके दूसरे चरणका कथन करते हैं ।—

अन्यार्थमिति मध्यवर्त्ति पदं उमरुकमणिन्यायेनोभयत्रापि सम्बन्धनीयम् । अन्यार्थमुत्सृष्टं अन्यस्मै कार्याय प्रयुक्तं उत्सर्गवाक्यमन्यार्थप्रयुक्तेन वाक्येन नापोद्यते नाऽपवादगोचरीक्रियते । यमेवार्थमाश्रित्य शास्त्रेषूत्सर्गः ; अनिवाहे ।

प्रवर्तते तमेवार्थमाश्रित्याऽपवादोऽपि प्रवर्तते । तयोर्निम्नोन्नतादिव्यवहारवत्परस्परसापेक्षत्वैकैकार्थसाधनविषयत्वात् । यथा जैनानां संयमपरिपालनार्थं नवकोटिविशुद्धाहारग्रहणमुत्सर्गः । तथाविधद्रव्यक्षेत्रकालभावापत्सु च निपतितस्य गत्यन्तराऽभावे पञ्चकादितनयाऽनेषणीयादिग्रहणमपवादः । सोऽपि च संयमपरिपालनार्थमेव । न च मरणैकशरणस्य गत्यन्तराऽभावोऽसिद्ध इति वाच्यम् । “सव्वत्थ संजमं संजमाओ अप्पाणमेव रक्खिज्जा । मुच्चइ अइवायाओ पुणो विसोही नयाऽविरई । १ ।” इत्यागमात् ।

‘नोत्सृष्टमन्यार्थमपोद्यते च’ इस पदमें जो ‘अन्यार्थ’ यह मध्यवर्ती पद है; उसका उमरुकमणिन्यायसे दोनों स्थानोंपर संबंध किया गया है । “अन्यार्थ” दूसरे कार्यके लिये “उत्सृष्टम्” प्रयोग किया हुआ उत्सर्गका वाक्य “अन्यार्थेन” अन्य प्रयोजनके अर्थ प्रयोग किये हुए वाक्यसे “न अपोद्यते” अपवादके गोचर नहीं किया जाता है । भावार्थ—जिस प्रयोजनको ग्रहण करके शाल्भोंमें उत्सर्ग प्रवर्तता है; उसी अर्थको लेकर शाल्भोंमें अपवाद भी प्रवर्तता है । क्योंकि—जैसे नीचेपन ऊंचेपन आदिका व्यवहार एक दूसरेकी अपेक्षाको धारण करनेसे एक ही कार्यका साधक है; उसीप्रकार ये दोनों उत्सर्ग और अपवाद भी आपसमें एक दूसरेकी अपेक्षा (जरूरत) के धारक होनेसे एक ही प्रयोजनके साधक हैं । दृष्टान्तमें जैसे—हम जैनियोंके मतमें ‘मुनिको सयमकी रक्षा करनेके लिये नवकोटियोंसे विशुद्ध अर्थात् मन, वचन और काय इन तीनोंको कृत, कारित और २ अनुमोदनासे गुणा करनेपर जो नौ भेद होते हैं; उनसे निर्दोष ऐसे आहारका ग्रहण करना चाहिये’ यह उत्सर्ग है । और अमुक २ प्रकारकी द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भावसंबंधी आपदाओंमें गिरा हुआ मुनि दूसरा कोई मार्ग न हो, तब अर्थात् जब इस उत्सर्गकथित नवकोटि विशुद्ध आहारके न मिलनेसे मरण ही होता हो; उस अवस्थामें उक्त नवकोटियोंसे एषणा करनेके अयोग्य जो पदार्थ है; उसको पांचआदि कोटियोंसे विशुद्ध करके ग्रहण कर लेवे’ यह अपवाद है । और यह अपवाद भी संयमकी रक्षा करनेके लिये ही है । और “मरण ही है एक शरण जिसके ऐसे मुनिके अन्य उपायका अभाव असिद्ध है अर्थात् उत्सर्गका निर्वाह न होनेपर मरण करता हुआ मुनि अपवादको ग्रहण न करके किसी दूसरे उपायको धारण करे’ ऐसा तुमको न कहना चाहिये । क्योंकि—“मुनि प्रथम तो सर्व प्रकारसे संयमकी

१ सर्वार्थतः संयमं संयमत आत्मानमेव रक्ष्यात् । मुच्यतेऽतिपातेभ्यः पुनर्विशुद्धिर्नचाविरतिः । १ । इति च्छाया ।

की रक्षा करे, जो संयमकी रक्षा करनेपर मरण होता हो तो; उस अवस्थामें संयमको छोड़कर आत्माकी रक्षा करे। क्योंकि-
संयमका त्याग करनेसे जो दोष लगते हैं; उनसे वह मुनि रहित हो जाता है। कारण कि उन दोषोंकी प्रायश्चित्त आदिसे
फिर शुद्धता हो जाती है। और ऐसी दशामें वह मुनि अविरति (व्रतरहित) नहीं होता है। १।” यह आगम अपवा-
दको ग्रहण करनेका उपदेश देता है।

तथा आयुर्वेदपि यमवैकं रोगमधिकृत्य कस्यांचिदवस्थायां किंचिद्वस्त्वपथ्यं तदेवाऽवस्थान्तरे तत्रैव रोगे
पथ्यम्। “उत्पद्यते हि साऽवस्था देशकालामयान् प्रति। यस्यामकार्यं कार्यं स्यात् कर्म कार्यं तु वर्जयेत्। १।” इति
वचनात्। यथा बलवदादेर्ज्वरिणो लङ्घनं क्षीणघातोस्तु तद्विपर्ययः। एवं देशाद्यपेक्षया ज्वरिणोऽपि दधिपानादि-
योज्यम्। १।” एवं च यः पूर्वमपथ्यपरिहारो यश्च तत्रैवाऽवस्थान्तरे तस्यैव परिभोगः स खलुभयोरपि तस्यैव

रोगस्य शमनार्थः। इति सिद्धमेकविषयत्वमुत्सर्गाऽपवादयोरिति।
इसी प्रकार आयुर्वेद (वैद्यक शास्त्रों) में भी जिस ही एक रोगमें किसी अवस्थामें कोई वस्तु अपथ्य है; उसी रोगमें
दूसरी अवस्थामें वही वस्तु पथ्य है। क्योंकि—“देशकालसंबंधी रोगोंमें वह अवस्था उत्पन्न होती है कि, जिसमें न करने
योग्य कार्य तो करने योग्य हो जाता है और करने योग्य कार्य छोड़ दिया जाता है। १।” ऐसा वैद्यकशास्त्रोंका, कथन है।

जैसे—यदि ज्वररोगी बलआदिका धारक हो तो उसको लंघन कराया जाता है और यदि ज्वररोगी क्षीणवीर्य हो तो उसको
लंघन न करके प्रत्युत भोजन कराया जाता है। इसीप्रकार किसी देश आदिकी अपेक्षासे ज्वररोगीको भी दहीका पान कराना
आदि समझ लेना चाहिये अर्थात् किसी देशकी अपेक्षासे ज्वररोगीको ज्वररोगीको भी दहीका पान कराना
रोगीके लिये वही दधिपानादि पथ्य है। सो ही वैद्य लोग कहते हैं कि—“वात, श्रम, क्रोध, शोक और काम, इनसे उत्पन्न
हुए जो ज्वर है उनको छोड़कर अन्य कारणोंसे उत्पन्न हुए ज्वरोंमें कालका अविरोधी अर्थात् ग्रीष्म शीत आदि ऋतुओंके
अनुकूल ऐसा जो लंघन है; वह हितकारी (पथ्य) कहा गया है।” और इसप्रकारसे जो जिस रोगमें पहले अपथ्यका
त्याग है और उसी रोगमें दूसरी अवस्थाओंमें उसी रोगकी शांतिके

अर्थ है। और इस उक्त प्रकारसे उत्सर्ग और अपवाद इन दोनोंका एकविषय सिद्ध होगया। भावार्थ—शास्त्रोंमें जिस कार्यके लिये उत्सर्ग है; उसीके लिये अपवाद भी है, यह जो हम (जैनी) कहते हैं सो उक्त प्रमाणोंसे सिद्ध हो चुका।

भवतां चोत्सर्गोऽन्यार्थः, अपवादश्चान्यार्थः। “न हिंस्यात्सर्वभूतानि।” इत्युत्सर्गो हि दुर्गतिनिषेधार्थः। अपवादस्तु वैदिकहिंसाविधेर्वेदवताऽतिथिपितृप्रीतिसंपादनार्थः। अतश्च परस्परनिरपेक्षत्वे कथमुत्सर्गोऽपवादेन बाध्यते। तुल्यबलयोर्विरोध इति न्यायात्। भिन्नार्थत्वेऽपि तेन तद्बाधनेऽतिप्रसङ्गात्। न च वाच्यं वैदिकहिंसाविधिरपि स्वर्गहेतुतया दुर्गतिनिषेधार्थ एवेति। तस्योक्तयुक्त्या स्वर्गहेतुत्वनिर्लोठनात्। तमन्तरेणापि च प्रकारान्तरेरपि तत्सिद्धिभावात्। गत्यन्तराऽभावे ह्यपवादपक्षकक्षीकारः।

और तुम्हारे मतमें तो उत्सर्ग दूसरे प्रयोजनके लिये है तथा अपवाद दूसरे कार्यके लिये है। जैसे—‘सब जीवोंकी हिंसा न करनी चाहिये’ यह उत्सर्ग तो नरक आदि दुर्गतियोंमें न जानेके अर्थ है और वेदोक्त हिंसा करने रूप जो अपवाद है; वह देवता, अतिथि और पितृजनोंकी प्रीतिको सिद्ध करनेके लिये है। और इसप्रकार जब उत्सर्ग तथा अपवादके परस्पर निरपेक्षपना रहा तब अपवादसे उत्सर्गका बाध कैसे हो? क्योंकि—‘दो समान बलवालोंका विरोध रहता है अर्थात् दो बराबरके हों तो उनमें कोई किसीसे नहीं हटता है’ ऐसा न्याय है। यदि उत्सर्ग तथा अपवादको भिन्न २ प्रयोजनकी साधकता होनेपर भी अपवादसे उत्सर्गका बाध मानोगे तो अतिप्रसंग होगा। ‘स्वर्गका कारण होनेसे वेदोक्त हिंसाविधान भी दुर्गतिका नाश करनेके लिये ही है; इस कारण उत्सर्ग तथा अपवादके भिन्नार्थता नहीं है’ यह भी तुमको न कहना चाहिये। क्योंकि उस वेदोक्त हिंसा विधिकी स्वर्गकी कारणताका पूर्वोक्त प्रकारसे खंडन कर चुके है। और उस वेदोक्त हिंसा करनेके बिना जो अन्य २ प्रकार है, उनसे भी स्वर्गकी सिद्धि होती है। और जब दूसरा कोई उपाय न हो तभी अपवाद पक्षका स्वीकार होता है।

नच त्रयमेव यागविधेः सुगतिहेतुत्वं नाङ्गीकुर्महे किंतु भवदाप्ता अपि। यदाह व्यासमहर्षिः—“पूजया विपुलं राज्य-मशिकार्येण संपदः। तपः पापविशुद्ध्यर्थं ज्ञानं ध्यानं च मुक्तिदम्। १।” अत्राश्रिकार्यशब्दवाच्यस्य यागादिविधेरुपायान्तरैरपि लभ्यानां संपदामेव हेतुत्वं वदन्नाचार्यस्य सुगतिहेतुत्वमर्थात्कदर्थितवानेव। तथा च स एव भावाग्निहोत्रं ज्ञानपालीत्यादिरलौकिकैः स्थापितवान्।

रूपी कलंकका पंक (फईम) है वह कहीं नहीं जाता है अर्थात् राज्यमिलनेपर भी वह पुरुष पुत्रके मारनेरूप कलंकसे दूषित रहता है उसी प्रकार वेदोक्त हिंसाके करनेसे देवता आदिकी प्रीतिके सिद्ध हो जानेपर भी जीवोंकी हिंसासे उत्पन्न हुआ पाप नष्ट नहीं होता है अर्थात् यज्ञकर्त्ता पापका भागी रहता ही है । 'नृपतित्वलिप्सा' इत्यादि वाक्यमें जो आचार्यने लिप्साशब्दका प्रयोग किया है; उससे आचार्य यह विदित करते हैं कि जैसे कोई दूसरा न कर सके ऐसे उस पुत्रको मारनेरूप खोटे कर्मसे उत्तम कर्मोंका मूल नाश करनेवाले उस महानिघ परिणामोंके धारक पापीपुरुषके राज्यको प्राप्त करनेमें केवल इच्छा ही है और उस राज्यकी प्राप्ति नहीं है, उसी प्रकार आगामीकालमें होनेवाली इष्टसिद्धिके लिये वेदोक्त हिंसाको करते हुए; उन कुवादियोंके भी देवताआदिको प्रसन्न करनेमें मनका राज्य ही है । उससे उन कुवादियोंके उत्तमजनोंद्वारा पूज्यपना भी नहीं होता है और इंद्रादि देवोंकी वृत्ति भी सिद्ध नहीं होती है । क्योंकि उन कुवादियोंका यह मत पूर्वोक्त प्रकारसे खंडित हो चुका है । इसप्रकार काव्यका अर्थ है ॥ ११ ॥

सांप्रतं नित्यपरोक्षज्ञानवादिनां भीमांसकभेदभट्टानामेकात्मसमवायिज्ञानान्तर्वेद्यज्ञानवादिनां च यौगानमतं विकुट्टयन्नाह—

अब 'ज्ञान सदा परोक्ष ही है अर्थात् ज्ञान अपना प्रत्यक्ष आप नहीं कर सकता है. दूसरे ज्ञानसे ही ज्ञानका प्रत्यक्ष होता है' ऐसा कहनेवाले जो भीमांसकोंके भेदोंमें भट्टमतानुयायी है उनके मतका और 'एक आत्मामें मिला हुआ जो ज्ञान है उस ज्ञानसे अन्य जो ज्ञान है, उससे ज्ञानका निश्चय होता है' ऐसा माननेवाले जो योगमतवलंबी है, उनके मतका खंडन करते हुए आचार्य इस निम्नलिखित काव्यका कथन करते हैं:—

**स्वार्थावबोधमक्षम एव बोधः प्रकाशते नार्थकथाऽन्यथा तु ।
परे परेभ्यो भयतस्तथापि प्रपेदिरे ज्ञानमनात्मनिष्ठम् ॥ १२ ॥**

सूत्रभावार्थः—ज्ञान जो है वह निज और पर पदार्थके जाननेमें समर्थ ही प्रतिभासता है । जो ऐसा न हो तो पदार्थकी कथाको भी कौन कहे । तौ भी हे नाथ, अन्यमतवालोंने पूर्वपक्षवादियोंके भयसे ज्ञानको अपने ज्ञानसे रहित मान लिया है ॥ १२ ॥

बोधो ज्ञानं स च स्वार्थविबोधक्षम एव प्रकाशते स्वस्यात्मस्वरूपस्वार्थस्य च योऽवबोधः परिच्छेदस्तत्र क्षम एव समर्थ एव प्रतिभासते । इत्ययोगव्यवच्छेदः । प्रकाशत इति क्रिययाऽवबोधस्य प्रकाशरूपत्वसिद्धेः सर्वप्रकाशानां तु स्वार्थप्रकाशकत्वेन बोधस्यापि तत्सिद्धिः । विपर्यये दूषणमाह । नार्थकथान्यथात्विति । अन्यथेति अर्थप्रकाशनेऽविवादाज्ज्ञानस्य स्वसंविदितत्वाऽनभ्युपगमेऽर्थकथैव न स्यात् । अर्थकथा पदार्थसंबन्धिनी वार्त्ता सदसद्रूपात्मकं स्वरूपमिति यावत् । (तुशब्दोऽवधारणे भिन्नक्रमश्च स चार्थकथया सह योजित एव) यदि हि ज्ञानं स्वसंविदितं नेष्यते तदा तेनात्मज्ञानाय ज्ञानान्तरमपेक्षणीयं तेनाप्यपरमित्याद्यनवस्था ततो ज्ञानं तावत्स्वात्रबोधव्यप्रतामश्रम् । अर्थस्तु जडतया स्वरूपज्ञापनाऽसमर्थ इति को नामार्थस्य कथामपि कथयेत् ।

व्याख्यार्थः—“बोधः” ज्ञान जो है वह “स्वार्थविबोधक्षमः” अपने और पदार्थके जाननेमें समर्थ “एव” ही “प्रकाशते” प्रतिभासता है । [इस प्रकार यहां अयोगका व्यवच्छेद है] ‘प्रकाशते’ इस क्रियापदका प्रयोग करनेसे ज्ञानके प्रकाशरूपता सिद्ध होती है; अतः जैसे अन्य सब प्रदीप आदि प्रकाश अपने और पदार्थके प्रकाशक है उसीप्रकार ज्ञान भी निजस्वरूप तथा पदार्थ इन दोनोंका प्रकाशक सिद्ध होता है । विपर्ययमें अर्थात् ज्ञानको निजका और पदार्थका प्रकाशक न माननेपर आचार्य ‘नार्थकथान्यथा तु’ इस वाक्यद्वारा दोषका कथन करते हैं । “अन्यथा” ज्ञानको अर्थका प्रकाशक माननेमें तो किसीको विवाद नहीं है अर्थात् सभी वादी ज्ञानको पदार्थका प्रकाशक मानते हैं, इसकारण शेष जो ज्ञानका स्वप्रकाशकपना है; उसको यदि न स्वीकार किया जावे तो “अर्थकथा एव” पदार्थसंबन्धी वार्त्ता अर्थात् पदार्थ है वा नहीं है; इत्यादि प्रकारका कथन ही पदार्थके विषयमें न होवे । ‘नार्थकथान्यथा तु’ यहां पर जो ‘तु’ शब्द है उसके निश्चय और भेदरूप दो अर्थ होते हैं, उनमेंसे यहां निश्चय अर्थको ग्रहण करके ‘तु’ के पर्यायी ‘एव’ को अर्थकथके साथ लगा दिया गया है ।] भावार्थ—यहां पर यह है कि,—यदि ज्ञानको स्वसंविदित (अपनेद्वारा ही अपने स्वरूपको जाननेवाला अर्थात् स्वप्रकाशक) न माना जावेगा तो वह ज्ञान अपने स्वरूपको जाननेके लिये दूसरे ज्ञानकी अपेक्षा करेगा और वह दूसरा ज्ञान भी अपने स्वरूपको विदित करनेके लिये तीसरे ज्ञानकी अपेक्षा करेगा तब अनवस्था दोष हो जावेगा । अतः ज्ञान तो अपने स्वरूपके

ज्ञाननेकी चित्तमें डूब जावेगा और पदार्थ स्वयं जडरूप है; इसकारण अपने स्वरूपको विदित नहीं करसकता है इसकारण पदार्थकी कथाको भी कौन कहेगा ।

तथाप्येवं ज्ञानस्य स्वसंविदितत्वे युक्त्या घटमानेऽपि परे तीर्थान्तरीयाः ज्ञानं कर्मतापन्नमनात्मनिष्ठं न विद्यत आत्मनः स्वस्य निष्ठा निश्चयो यस्य तदनात्मनिष्ठं अस्वसंविदितमित्यर्थः प्रपेदिरे प्रपन्नाः । कुत इत्याह ।—परेभ्यो भयतः । परे पूर्वपक्षवादिनस्तेभ्यः सकाशात् ज्ञानस्य स्वसंविदितत्वं नोपपद्यते स्वात्मनि क्रियाविरोधादित्युपालम्भसम्भावनासम्भवं यद्भयं तस्मात्तदाश्रित्येत्यर्थः ।

‘तथापि’ इस पूर्वोक्त प्रकारसे ज्ञानके स्वसंविदितपना युक्तिद्वारा सिद्ध होता है तौ भी ‘परे’ अन्यमतावलम्बी पुरुष ‘ज्ञानम्’ ज्ञानको [‘ज्ञानम्’ यह ‘प्रपेदिरे’ इस क्रियाका कर्म है ।] ‘अनात्मनिष्ठम्’ नहीं है अपना निश्चय जिसके ऐसा अर्थात् अस्वसंविदित (निजस्वरूपका अप्रकाशक) ‘प्रपेदिरे’ मानते है । अब वादियोंने ज्ञानको अस्वसंविदित क्यों माना है सो कहते हैं । “परेभ्यः” पर जो पूर्वपक्षके कहने वाले है उनसे “भयतः” ज्ञानके स्वसंविदितपना सिद्ध नहीं हो सकता है; क्योंकि—अपनी आत्मामें क्रियाका विरोध है; इस उपालम्भकी संभावनासे उत्पन्न हुए भयको ग्रहण करके ही वादियोंने ज्ञानको अस्वप्रकाशक मान लिया है । भावार्थ—‘यदि भट्टमतानुयायी ज्ञानको स्वप्रकाशक (अपने प्रकाशको उत्पन्न करनेवाला) मान लें- तो उनको निज आत्मामें क्रिया अवश्य माननी पड़ेगी; क्योंकि, निज आत्मामें क्रिया माने बिना ज्ञान स्वप्रकाशक कदापि नहीं होसकता है । और ऐसा माननेपर वैशेषिक आदि मतवाले उनको कहेंगे कि—ज्ञान आत्माका विशेषगुण है और ‘गुणादि-निर्गुणक्रियः’ इस वचनसे गुण क्रियारहित माना गया है, अतः तुम ज्ञानको स्वप्रकाशक नहीं मान सकते हो’ इस प्रकार वैशेषिकोंसे डरकर ही भट्टोंने ज्ञानको अस्वप्रकाशक मान लिया है ।

इत्थमक्षरगमनिकां विधाय भावार्थः प्रपञ्च्यते । भट्टास्तावदिदं वदन्ति । यज् ज्ञानं स्वसंविदितं न भवति, स्वात्मनि क्रियाविरोधात् । न हि सुशिक्षितो ऽपि नटवटुः स्वस्कन्धमधिरोढुं पटुर्न च सुतीक्ष्णाप्यसिधारा स्वं छेत्तुमा-

१ स्वप्रकाशकत्वं च स्वप्रकाशजनकत्वं तच्च स्वात्मनि क्रियामन्तरा नितरामसम्भवि ‘गुणादिनिर्गुणक्रियः’ इति वचनात् । ज्ञानं चात्मनो विशेषगुणः । इति वैशेषिकोपालम्भभयादिति तात्पर्यम् ।

हितव्यापारा । ततश्च परोक्षमेव ज्ञानमिति । तदेतन्न सम्यक् । यतः किमुत्पत्तिः स्वात्मनि विरुध्यते ज्ञप्तिर्वा । यद्युत्पत्तिः सा विरुध्यतां, न हि वयमपि ज्ञानमात्मानमुत्पादयतीति मन्यामहे । अथ ज्ञप्तिर्नैयमात्मनि विरुद्धा तदात्मनैव ज्ञानस्य स्वहेतुभ्य उत्पादात् । प्रकाशात्मनैव प्रदीपालोकस्य । अथ प्रकाशात्मैव प्रदीपालोक उत्पन्न इति परप्रकाशको ऽस्तु आत्मानमप्यतावेन्मात्रेणैव प्रकाशयतीति कोऽयं न्याय इति चेत् तत्किं तेन वराकेणाप्रकाशिते- नैव स्थातव्यम्, आलोकान्तराद्वाऽस्य प्रकाशेन भवितव्यम् । प्रथमे प्रत्यक्षबाधो द्वितीये ऽपि सैवानवस्थापत्तिश्च ।

इस प्रकार अक्षरोंका अर्थ करके अब विस्तारपूर्वक भावार्थका कथन करते हैं । प्रथम ही भट्ट यह कहते हैं कि—'ज्ञान स्वसं- विदित नहीं होता है, क्योंकि, निज आत्मामें क्रियाका विरोध है अर्थात् निजस्वरूपमें क्रिया नहीं होती है । दृष्टान्त—जैसे अच्छे प्रकारसे शिक्षाको प्राप्त हुआ भी नटका शिष्य अपने कंधेपर चढ़नेके लिये चबुर नहीं है अर्थात् अपने कंधेपर नहीं चढ़ सकता है और बहुत तीक्ष्ण (तीखी) भी तलवारकी धार अपने छेदनेके लिये व्यापारको नहीं धारण करती है अर्थात् आप आपको नहीं काटती है; इसीप्रकार ज्ञान भी आप आपको नहीं जानता है; इसकारण ज्ञान परोक्ष (आप अपने प्रत्यक्षको न करने- वाला) ही है; सो यह भट्टोंका कहना ठीक नहीं है; क्योंकि, हम पूछते हैं कि, ज्ञानकी निज आत्मामें उत्पत्ति विरुद्ध है अर्थात् ज्ञान निजस्वरूपमें उत्पन्न नहीं होता है ? अथवा ज्ञानकी निज आत्मामें ज्ञप्ति विरुद्ध है . अर्थात् ज्ञान निजस्वरूपको जानता नहीं है ? यदि कहो कि—ज्ञानकी निज आत्मामें उत्पत्ति विरुद्ध है; तो वह विरुद्ध रहो, क्योंकि, हम (जैनी) भी निज आत्मामें ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं मानते हैं । यदि कहो कि—ज्ञानकी निजआत्मामें ज्ञप्ति विरुद्ध है; तो यह ज्ञप्ति ज्ञानके निजस्- रूपमें विरोध नहीं करती है क्योंकि, जैसे अपने कारणोंसे प्रदीपका प्रकाश प्रकाशरूप ही उत्पन्न होता है, उसीप्रकार ज्ञान भी अपने कारणोंसे ज्ञप्तिरूप (जाननेरूप) ही उत्पन्न होता है । अब यदि ऐसा कहो कि; प्रदीपका प्रकाश प्रकाशरूप उत्पन्न हुआ है; अतः वह पर (घट पट आदि) का प्रकाशक रहो, प्रकाशरूप उत्पन्न होनेसे ही वह आपको भी प्रकाशता है, इस माननेमें कौनसा न्याय है ? तो हम पूछते हैं कि, क्या वह बेचारा प्रदीपका प्रकाश स्वयं अप्रकाशित ही रहेगा ? वा कोई दूसरा प्रकाश इस प्रदीपके प्रकाशका प्रकाशक होगा ? यदि कहो कि, प्रदीपका प्रकाश स्वयं अप्रकाशित ही रहेगा, तो इस कथनमें प्रत्यक्षसे बाधा आती है । भावार्थ—प्रदीपका प्रकाश जैसे घट आदि पदार्थोंके स्वरूपका प्रकाशक है; उसी प्रकार अपने

स्वरूपका भी प्रकाशक है; यह प्रत्यक्षमें देखा जाता है इसकारण प्रदीपप्रकाशको अप्रकाशित माननेमें प्रत्यक्षसे विरोध आता है । यदि कहो कि एक प्रदीपके प्रकाशको किसी दूसरे प्रदीपका प्रकाश प्रकाशित करता है, तो इस कथनमें भी वही प्रत्यक्षसे बाधा आती है, क्योंकि, जहां एक ही प्रदीप प्रकाशित हो रहा है; उस स्थानमें उसको प्रकाशित करनेवाला कोई दूसरा प्रदीप देखनेमें नहीं आता है और एक प्रदीपके प्रकाशको दूसरे प्रदीपका प्रकाश और दूसरे प्रदीपके प्रकाशको तीसरे प्रदीपका प्रकाश प्रकाशित करेगा इत्यादिरूपसे अनवस्था दोगकी भी प्राप्ति होती है ।

अथ नासौ स्वमपेक्ष्य कर्मतया चकास्तीत्यस्वप्रकाशकः स्वीक्रियते, आत्मानं न प्रकाशयतीत्यर्थः । प्रकाशरूपतया वृत्पन्नत्वात्स्वयंप्रकाशत एवेति चेत्-चिरंजीव० । न हि वयमपि ज्ञानं कर्मतयैव प्रतिभासमानं स्वसंबन्धं ब्रूमः, ज्ञानं स्वयं प्रतिभासत इत्यादावकर्मकस्य तस्य चकासनात् । यथा तु ज्ञानं स्वं जानामीति कर्मतयापि तद्भ्राति, तथा प्रदीपः स्वं प्रकाशयतीत्ययमपि कर्मतया प्रथित एव ।

अब यदि ऐसा कहो कि—यह प्रदीपप्रकाश आपको अपेक्षित करके कर्मरूपसे नहीं प्रकाशित होता है । भावार्थ—एक पदार्थमें एक ही क्रियाद्वारा निरूपण किये हुए कर्तृत्व और कर्मत्वरूप दोनों धर्म नहीं रह सकते है इस कारण जो प्रदीप प्रकाशने रूप क्रियाका कर्त्ता है, वही प्रदीप प्रकाशनेरूप क्रियाका कर्म नहीं हो सकता है; अतः हम प्रदीपको निजका प्रकाशक नहीं मानते है, अर्थात् प्रदीपप्रकाश अपने आपको प्रकाशित नहीं करता है; और प्रकाशरूपतासे उत्पन्न हुआ है, इसकारण स्वयं प्रकाशित होता ही है; तो चिरंजीव, हम भी कर्मरूपतासे ही प्रतिभासते हुए ज्ञानको स्वसंविदित (स्वप्रकाशक) नहीं कहते है अर्थात् जैसे तुम प्रकाशरूपतासे उत्पन्न हुए प्रदीपप्रकाशको स्वतः प्रकाशित मानते हो उसीप्रकार हम भी ज्ञप्तिरूपसे उत्पन्न हुए ज्ञानको स्वसंविदित मानते है, क्योंकि, ' ज्ञान स्वयं प्रतिभासता है ' इत्यादि प्रयोगोंमें कर्मरहित ज्ञान ही प्रतिभासता है । और जैसे हमारे पक्षमें ' ज्ञान अपने आपको जानता है ' इस वाक्यमें कर्मरूपतासे भी ज्ञानका भान होता है; उसीप्रकार तुम्हारे पक्षमें प्रदीप अपने आपको प्रकाशता है, इस वाक्यमें प्रदीप भी कर्मरूपतासे जाननेमें आता ही है ।

१ एकत्र पदार्थे एकक्रियानिरूपितकर्तृत्वकर्मत्वयोर्विरोधादित्यत्र योजनीयम् । २ 'ज्ञानं स्वं जानामीति वाक्यात् ज्ञानविषयकज्ञानवानहमिति शाब्दबोधतः ज्ञानस्यापि कर्मतया भानं भवतीति भावः ।

यस्तु स्वात्मनि क्रियाविरोधो दोष उद्भाषितः, सोऽयुक्तः अनुभवसिद्धेऽर्थे विरोधासिद्धेः । घटमहं जानामी-
त्यादौ कर्तृकर्मवज्ज्ञप्तेरप्यवभासमानत्वात् । न चाप्रत्यक्षोपलम्भस्यार्थदृष्टिः प्रसिध्यति । न च ज्ञानान्तरादुपलम्भ-
सम्भावना, तस्याप्यनुपलब्धस्य प्रस्तुतोपलम्भप्रत्यक्षीकाराभावात् । उपलम्भान्तरसम्भावने चानवस्था । अर्थोपल-
म्भात्तस्योपलम्भेऽन्योन्याश्रयदोषः ।

और जो तुमने 'अपनी आत्मा में क्रियाका विरोध है' यह दोष ज्ञानके स्वसन्निहित माननेमें उत्पन्न किया है, सो ठीक नहीं है; क्योंकि, अनुभवसे सिद्ध पदार्थमें विरोधकी प्राप्ति नहीं होती है; कारण कि 'मैं घटको जानता हूँ' इत्यादि प्रयोगमें जैसे कर्त्ता और कर्मका अनुभव होता है; उसीप्रकार ज्ञप्तिका भी भाव होता है । और परोक्ष ज्ञानके पदार्थका जानना सिद्ध नहीं होता है अर्थात् ज्ञानको अस्वप्रकाशक माननेपर ज्ञान परोक्ष हो जावेगा और तब वह परोक्षज्ञान पदार्थको जान नहीं सकता है । यदि कहो कि, उस परोक्ष ज्ञानका ज्ञान दूसरे ज्ञानसे हो सकता है । सो ठीक नहीं । क्योंकि वह दूसरा ज्ञान भी अज्ञात (नहीं जाना हुआ) अर्थात् परोक्ष है, इसकारण प्रस्तुत जो पहला ज्ञान है, उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है । और यदि यह कहोगे कि, उस दूसरे ज्ञानके ज्ञानको तीसरा ज्ञान कर सकता है तो ऐसा माननेपर अनवस्था आती है । यदि कहो कि, पदार्थके ज्ञानसे उस ज्ञानका ज्ञान होगा तो ऐसा माननेमें अन्योन्याश्रयदोष प्राप्त होगा अर्थात् 'ज्ञानका ज्ञान होनेसे तो अर्थका ज्ञान होगा और अर्थका ज्ञान होनेसे ज्ञानका ज्ञान होगा' इस प्रकार ज्ञान और अर्थ ये दोनों ही अपने ज्ञानके लिये परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षाको धारण करेंगे ।

अथार्थप्राकट्यमन्यथा नोपपद्येत यदि ज्ञानं न स्यात् इत्यर्थार्थपत्त्या तदुपलम्भ इति चेत् न । तस्या अपि ज्ञाप-
कत्वेनाज्ञाताया ज्ञापकत्वायोगात् । अर्थार्थपत्त्यन्तरात्तज्ज्ञानेऽनवस्थेत्तेतराश्रयदोषापत्तेः सादवस्थः परिभवः ।
तस्मादर्थोन्मुखतथैव स्वोन्मुखतयापि ज्ञानस्य प्रतिभासात्स्वसंविदितत्वम् ।

१ परस्परसापेक्षत्वमन्योन्याश्रयत्वम् । २ 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते' इत्यत्र यथा दिवसाधिकरणकभोजनकर्तृत्वाभावविशिष्टदेवदत्तस्य रात्रि-
भोजनमन्तरा पीनत्वं नोपपद्येत इति पीनत्वान्यथा नुपपत्त्या रात्रिभोजनं कल्प्यते । तथैवात्र घटज्ञानमन्तरा घटप्राकट्यं नोपपद्येत इति घटप्राकट्यान्यथा नु-
पपत्त्या घटज्ञानमन्योपलम्भम्. (ज्ञानं) कल्प्यते ।

यदि ऐसा कहो कि,—जो ज्ञान न होवे, तो पदार्थोंका प्रकाश न होवे, इस अर्थोपत्तिसे उस ज्ञानका ज्ञान ही जाता है । भावार्थ—जैसे ‘ देवदत्त मोटा है और दिनोंमें भोजन नहीं करता है ’ इस स्थलमें यदि देवदत्त दिनोंमें भोजन नहीं करता है तो मोटा कैसे हो रहा है ? इस प्रश्नके उत्तरमें अर्थोपत्तिसे कहना पड़ता है कि,—देवदत्त रात्रिमें भोजन करता है । क्योंकि, यदि ऐसा न कहें तो देवदत्तके मोटापना सिद्ध न होवे; इसी प्रकार यहां भी घटपदार्थके ज्ञानके बिना घटका प्रकाश नहीं हो सकता है और घटका प्रकाश होता ही है, इस कारण घटका प्रकाश सिद्ध करनेके लिये अर्थोपत्तिसे घटज्ञानका ज्ञान ही जाता है । सो यह कहना भी ठीक नहीं है । क्योंकि, जैसे ज्ञान ज्ञापक (जननेवाला) है, उसी प्रकार अर्थोपत्ति भी ज्ञापक है अतः स्वयं अज्ञात (नहीं जानी हुई) वह अर्थोपत्ति भी ज्ञानको नहीं जना सकती है । और यदि दूसरी अर्थोपत्तिसे उस अर्थोपत्तिको ज्ञान मानोगे तो अनवस्था और अन्योन्याश्रय दोष आवेगा; इसकारण दूसरे ज्ञानको पहले ज्ञानका प्रकाशक माननेमें जो तुमको दोष आया था; वही यहां भी आगया । अतः सिद्ध हुआ कि—जैसे ज्ञान अर्थोन्मुखतासे प्रतिभासता है अर्थात् अर्थका ज्ञान करता है; उसी प्रकार खोन्मुखतासे भी ज्ञान प्रतिभासता है अर्थात् ज्ञान अपने ज्ञानको भी आप ही करता है । और ऐसा सिद्ध होनेसे ज्ञानके स्वसंविदितपना सिद्ध हो गया ।

नन्वनुभूतेरनुभाव्यत्वे घटादिवदननुभूतित्वप्रसङ्गः । प्रयोगस्तु ज्ञानमनुभवरूपमप्यनुभूतिर्न भवति, अनुभाव्यत्वाद् घटवत् । अनुभाव्यं च भवद्भिरिष्यते ज्ञानं, स्वसंवेद्यत्वात् । नैवम् । ज्ञानुज्ञातृत्वेनवानुभूतेरनुभूतित्वेनैवानुभवात् । न चानुभूतेरनुभाव्यत्वं दोषोऽर्थापेक्षयानुभूतित्वात्स्वापेक्षया चानुभाव्यत्वात् । स्वपितृपुत्रापेक्षयैकस्य पुत्रत्वपितृत्ववद्भिरौघाभावात् ।

शंका—यदि आप अनुभूति (ज्ञप्ति) को अर्थात् जाननेरूप क्रियाको अनुभाव्य (अनुभव करने योग्य) अर्थात् ज्ञेय (जानने योग्य) मानोगे तो घटादिके समान ज्ञानके भी अनुभूतिसे रहितताका प्रसंग होगा अर्थात् जैसे घटादि पदार्थ अनुभाव्य होनेसे अनुभूतिरूप नहीं है, उसीप्रकार ज्ञान भी अनुभाव्य (ज्ञेय) होनेसे अनुभूति (ज्ञप्ति) स्वरूप न रहेगा । इस विषयमें अनुमानका प्रयोग इस प्रकार है कि,—ज्ञान अनुभवरूप है तौ भी अनुभूति नहीं है, अनुभाव्य होनेसे, घटके समान । और

१ यथा घटादेरनुभाव्यत्वेनानुभूतित्वं नास्ति तथा अनुभूतेरप्यनुभाव्यत्वेनानुभूतित्वप्रसङ्गात् । अतोऽनुभूतेरनुभाव्यत्वं न स्वीकार्यमिति भावः ।

आप ज्ञानको अनुभाव्य स्वीकार करते ही है; क्योंकि, आपके मतमें ज्ञान स्वसंविदित है। समाधान—यह तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। क्योंकि, जैसे ज्ञाता (जाननेवाले) को ज्ञातृतासे अर्थात् मैं जाननेवाला हूँ इसरूपसे अनुभव होता है; उसीप्रकार अनुभूतिके अनुभूतिपनेसे ही अनुभव होता है, और अनुभूतिको अनुभाव्यता दोष नहीं है अर्थात् अनुभूतिको अनुभाव्य माननेमें जो जो तुमने दोष दिया है, वह नहीं हो सकता है, क्योंकि; वह अनुभूति अर्थकी अपेक्षासे तो अनुभूति है और अपनी अपेक्षासे अनुभाव्य है, इसकारण जैसे एक ही पुरुष अपने पिताकी अपेक्षासे पुत्रत्व और अपने पुत्रकी अपेक्षासे पितृत्व धर्मको अविरोधतासे धारण करता है अर्थात् भिन्न २ अपेक्षासे पुत्रत्व और पितृत्वरूप दोनों धर्मोंको धारण करनेसे उस पुरुषमें कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता है, इसी प्रकार अनुभूतिको भिन्न २ अपेक्षासे अनुभूतित्व और अनुभाव्यत्व धर्मको धारण करनेवाली माननेमें कोई विरोध (दोष) नहीं है।

अनुमानाच्च स्वसंवेदनसिद्धिः । तथा हि-ज्ञानं स्वयं प्रकाशमानमेवार्थं प्रकाशयति प्रकाशकत्वात्प्रदीपवत् । संवेदनस्य प्रकाश्यत्वात्प्रकाशकत्वमसिद्धिमिति चेत् न । अज्ञाननिरासादिद्वारेण प्रकाशकत्वोपपत्तेः ।

और अनुमानसे भी ज्ञानके स्वसंवेदनता सिद्ध होती है। सो ही अनुमानका प्रयोग दिखाते हैं कि,—ज्ञान जो है वह स्वयं (अपनेको) प्रकाशता हुआ ही अर्थको प्रकाशित करता है, प्रकाशक होनेसे, प्रदीपके समान अर्थात् जैसे प्रकाशक होनेसे प्रदीप आपके और पदार्थके दोनोंके स्वरूपको प्रकट करता है, उसीप्रकार ज्ञान भी प्रकाशक है अतः अपने और पदार्थके दोनोंके स्वरूपको जानता है। यदि कहो कि; ज्ञान प्रकाश्य (प्रकृशित होने योग्य) है अतः ज्ञान प्रकाशक (प्रकाश करनेवाला) सिद्ध नहीं होता है सो नहीं, क्योंकि, ज्ञान जो है वह उत्पन्न होते ही अज्ञानके नाश आदिको करता है, इस कारण ज्ञानके प्रकाशकपना सिद्ध होता है।

ननु नेत्रादयः प्रकाशका अपि स्वं न प्रकाशयन्तीति प्रकाशकत्वहेतोरनैकान्तिकतेति चेत्, न नेत्रादिभिरनैकान्तिकता । तेषां लब्ध्युपयोगलक्षणभावोन्द्रियरूपणामेव प्रकाशकत्वात् । भावेन्द्रियाणां च स्वसंवेदनरूपतैवेति न व्यभिचारः । तथा संचित् स्वप्रकाशा अर्थप्रतीतित्वात् । यः स्वप्रकाशो न भवति नासावर्थप्रतीतिः । यथा घटः ।

१ ज्ञान स्वप्रकाशकम्, अर्थप्रकाशकत्वात् । यत्रैवं तत्रैवं यथा घट इति तात्पर्यम् ।

यदि ऐसा कहो कि,—नेत्र आदि प्रकाशक है तो भी निजका प्रकाश नहीं करते है अर्थात् नेत्र दूसरे पदार्थोंको तो प्रकट करता है, परंतु स्वयं अप्रकट रहता है, इस कारण प्रकृत अनुमानमें जो आपने प्रकाशकत्व हेतु दिया है; वह अनैकान्तिक है अर्थात् 'यह प्रकाशकत्व हेतु ज्ञान आदिमें तो स्वप्रकाशकताको सिद्ध करता है और नेत्र आदिमें स्वप्रकाशकताको सिद्ध नहीं करता है; इसकारण व्यभिचारसहित है' तो उत्तर यह है कि,—इस अनुमानमें प्रकाशकत्व हेतुके नेत्र आदिसे अनैकान्तिकता सिद्ध नहीं होती है। क्योंकि; लब्धि और उपयोगरूप जो भाव इन्द्रिये है; उन भाव इन्द्रियोरूप जो नेत्र आदि है; उनके ही प्रकाशकपना है और जो भावइन्द्रियरूप नेत्र आदि हैं, वे स्वसंवेदन (स्वप्रकाशक) रूप है ही। भावार्थ—हमारे (जैनियोंके) मतमें द्रव्य और भावरूप भेदोंसे इन्द्रियें दो प्रकारकी हैं; इनमें द्रव्येन्द्रिय भी दो प्रकारकी है एक निर्वृत्तिरूप और दूसरी उपकरणरूप, शरीरमें जो नेत्र आदिके आकारोंकी रचना है, वह निर्वृत्तिरूप द्रव्येन्द्रिय है, और (नेत्रादिकी) रक्षा करनेके लिये जो नेत्रादिपर डोला भाफणी आदि है वह उपकरणरूप द्रव्येन्द्रिय कहलाती हैं। यह द्रव्येन्द्रिय जडरूप है। और लब्धि तथा उपयोग, इन भेदोंसे भाव इन्द्रिय भी दो प्रकारकी है; इनमें नेत्र आदिमें स्थित आत्मप्रदेशोंमें जो देखनेकी शक्तिकी प्रकटता है सो लब्धिरूप भावेन्द्रिय है और जो देखने आदिकी तरफ आत्माका ध्यान होता है; वह उपयोगरूप भावेन्द्रिय है। यह भावेन्द्रिय चेतनरूप है, और जैसे पदार्थको जानती है उसीप्रकार अपने स्वरूपको भी जानती है। इसकारण तुम भावेन्द्रियरूप नेत्र आदिको अप्रकाशक कहकर उससे हमारे प्रकाशकत्व हेतुमें अनैकान्तिकता सिद्ध नहीं कर सकते हो। और ज्ञान जो है; वह स्वप्रकाशक है, पदार्थको जाननेवाला होनेसे। जो स्वप्रकाशक नहीं है; वह पदार्थका ज्ञाता भी नहीं है। जैसे कि-घट। भावार्थ—अर्थका प्रकाशक होनेसे ज्ञान स्वप्रकाशक है, जो अर्थका प्रकाशक नहीं है, वह स्वप्रकाशक भी नहीं है, जैसे कि; घट अर्थका प्रकाशक नहीं है, इसलिये स्वप्रकाशक भी नहीं है। इस अनुमानके प्रयोगसे भी ज्ञानके स्वसंवेदनता सिद्ध होती है।

तदेवं सिद्धेऽपि प्रत्यक्षानुमानाभ्यां ज्ञानस्य स्वसंविदितत्वे “संप्रयोगे इन्द्रियबुद्धिजन्मलक्षणं ज्ञानं, ततोऽर्थ-प्राकट्यं तस्मादर्थपत्तिस्तथा प्रवर्तकज्ञानस्योपलम्भः” इत्येवंरूपा त्रिपुटीप्रत्यक्षकल्पना भट्टानां प्रयासफलैव।

इस प्रकारसे प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणद्वारा ज्ञानके स्वसंवेदनपना सिद्ध होता है तो भी भट्टमतानुयायियोंने जो 'सत्-संप्रयोग होनेपर (पदार्थका इन्द्रियोंके साथ संबंध होनेपर) इन्द्रियबुद्धिजन्मरूप लक्षणका धारक (इन्द्रियोंमें जो बुद्धि उत्पन्न होती

हे उसरूप) ज्ञान होता है, उस ज्ञानसे अर्थका प्रकाश होता है; पदार्थके प्रकाशसे अर्थोपपत्ति होती है और अर्थोपपत्तिसे प्रवर्तक (पदार्थको प्रकाशित करनेवाले) ज्ञानका ज्ञान होता है' इस प्रकारसे त्रिपुटी प्रत्यक्षकी कल्पना की है, अर्थात् तीन पुट (चक्र) लगाकर ज्ञानका प्रत्यक्ष माना है वह केवल परिश्रमरूप फलको ही धारण करती है । भावार्थ—भट्टोंने ज्ञानको स्वसंवेदन न मानकर जो इतना वाग्जाल फैलाया है, उससे लाभके बदले परिश्रमकी वृद्धिरूप हानि ही होती है ।

यौगास्त्वाहुः । ज्ञानं स्वान्यप्रकाश्यम् ईश्वरज्ञानान्यत्वे सति प्रमेयत्वात् । घटवत् । समुत्पन्नं हि ज्ञानमेकात्मसमवेताऽनन्तरोद्भविष्णुमानसप्रत्यक्षेणैव लक्ष्यते न पुनः स्वेन । नचैवमनवस्था । अर्थोवसायिज्ञानोत्पादमात्रेणैवार्थसिद्धौ प्रमातुः कृतार्थत्वात् । अर्थज्ञानजिज्ञासायां तु तत्रापि ज्ञानमुत्पद्यत एवेति ।

और यौग (नैययिकमतावलम्बी पुरुष) यह कहते हैं कि,— 'ज्ञान अपनेसे भिन्न जो कोई दूसरा है, उससे प्रकाशित होता है, ईश्वरके ज्ञानसे भिन्न होकर प्रमेय (प्रमाणका विषय) होनेसे घटके समान । भावार्थ—जैसे घट पदार्थ ईश्वरके ज्ञानसे भिन्न है और प्रमेय है उसीप्रकार संसारी जीवोंका ज्ञान भी ईश्वरके ज्ञानसे भिन्न तथा प्रमेय है अतः जैसे घटका ज्ञान घटसे भिन्न जो ज्ञान है; उससे होता है, उसीप्रकार ज्ञानका ज्ञान भी दूसरेसे होता है अर्थात् जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह उसी आत्मामें समवायसंबंधसे रहनेवाला तथा ज्ञानकी उत्पत्तिके पश्चात् ही उत्पन्न होनेवाला ऐसा जो मानस प्रत्यक्ष है उसीके द्वारा जाना जाता है और अपने द्वारा अपना ज्ञान नहीं करता है । और इस हमारे मतमें अनवस्था दोष नहीं होता है । क्योंकि; प्रमाता (ज्ञानको करनेवाला) जो है, वह पदार्थका निश्चय करानेवाले ज्ञानकी उत्पत्ति होनेसे ही प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर कृतार्थ (संतुष्ट) हो जाता है । और जब प्रमाताके पदार्थके ज्ञानकी जिज्ञासा (जाननेकी इच्छा) होती है, तो उस जिज्ञासामें भी ज्ञान उत्पन्न होता ही है ।'

तदयुक्तं पक्षस्य प्रत्यनुमानवाधितत्वेन हेतोः कालालययापदिष्टत्वात् । तथा हि-विवादास्पदं ज्ञानं स्वसंविदितं ज्ञानत्वात् । ईश्वरज्ञानवत् । न चायं वाद्यप्रतीतो दृष्टान्तः पुरुषविशेषस्येश्वरतया जैनैरपि स्वीकृतत्वेन तज्ज्ञानस्य तेषां प्रसिद्धेः ।

सो यह तुम्हारा कथन ठीक नहीं है, क्योंकि; ज्ञानको अस्वसंविदित माननेरूप जो पक्ष है; वह प्रत्यनुमानसे बाधित है; इस-कारण हेतु कालात्ययापदिष्ट है। उस प्रत्यनुमानका प्रयोग निम्नलिखित प्रकारसे है।—“विवादका स्थानभूत जो ज्ञान है; वह स्वसंविदित है, ज्ञान होनेसे ईश्वरके ज्ञानके समान अर्थात् जैसे ईश्वरका ज्ञान स्वप्रकाशक है; उसीप्रकार अन्यजीवोंका ज्ञान भी स्वप्रकाशक है, क्योंकि, ईश्वरज्ञानके समान वह भी ज्ञान है” और इस दृष्टान्तको वादी (जैनी) नहीं मानते है अर्थात् जैनी ईश्वरको नहीं मानते है और जब ईश्वरको नहीं मानते है तो यहाँपर ईश्वरके ज्ञानका दृष्टान्त देकर उसके द्वारा हमारा खंडन कैसे कर सकते है यह न कहना चाहिये, क्योंकि जैनियोंने भी किसी २ पुरुषविशेषको ईश्वररूप स्वीकार किया है; इसकारण जैनियोंके ईश्वरका ज्ञान प्रसिद्ध ही है।

व्यर्थविशेष्यश्चात्र तव हेतुः समर्थविशेषणोपादानेनैव साध्यसिद्धेरग्निसिद्धौ धूमवत्वे सति द्रव्यत्वादितिवत् ईश्वरज्ञानान्यत्ववादित्येतावतैव गतत्वात्। न हीश्वरज्ञानादन्यत्स्वसंविदितप्रमेयं वा ज्ञानमस्ति यद्द्रव्यवच्छेदाय प्रमेयत्वादिति कियेत, भवन्मते तदन्यज्ञानस्य सर्वस्य प्रमेयत्वात्।

और इस प्रकृत अनुमानमें जो तुमने हेतु दिया है; वह व्यर्थविशेष्यका धारक है; क्योंकि, समर्थविशेषणको ग्रहण करनेसे ही साध्यकी सिद्धि हो जाती है। भावार्थ—जैसे पर्वत अग्निका धारक है धूमवान् होकर द्रव्यत्व होनेसे; इस अनुमानमें धूमवान् होनेसे इस समर्थ विशेषणके देनेसे ही पर्वतमें अग्निकी सिद्धि हो जाती है अतः द्रव्यत्वरूप जो हेतुका विशेष्य है, वह व्यर्थ है, उसीप्रकार ज्ञान किसी दूसरेसे प्रकाशित होता है ईश्वरके ज्ञानसे भिन्न होकर प्रमेयत्व होनेसे, इस अनुमानमें ईश्वरज्ञानसे भिन्न होनेसे, इस समर्थ विशेषणके देनेसे ही ज्ञानके परप्रकाशकता सिद्ध हो जाती है; इस कारण तुमने जो हेतुका प्रमेयत्वरूप विशेष्य दिया है, वह व्यर्थ (निष्प्रयोजन) है- क्योंकि, ईश्वरके ज्ञानके सिवाय अन्य कोई दूसरा ज्ञान स्वसंविदित अथवा अप्रमेय नहीं है कि; जिसको दूर करनेके लिये तुम प्रकृतअनुमानमें प्रमेयत्व होनेसे, ऐसा कथन करो, कारण कि तुम्हारे मतमें ईश्वरके ज्ञानसे भिन्न जितने ज्ञान है, वे सभी प्रमेयत्वको धारण करते है।

अप्रयोजकश्चायं हेतुः सोपाधित्वात्। साधनाव्यापकः साध्येन समव्याप्तिश्च खलूपाधिरभिधीयते। तत्पुलत्वा-दिना श्यामत्वे साध्ये शाकाद्याहारपरिणामवत्। उपाधिरचाल जडत्वम्। तथाहि—ईश्वरज्ञानाऽन्यत्वे प्रमेयत्वे च

सत्यपि यदेव जडस्तम्भादि तदेव स्वस्मादन्येन प्रकाश्यते । स्वप्रकाशे परमुखप्रेक्षित्वं हि जडस्य लक्षणम् । न च ज्ञानं जडस्वरूपम् । अतः साधनाव्यापकत्वं जडत्वस्य । साध्येन समव्याप्तिकत्वं चास्य स्पष्टमेव । जाड्यं विहाय स्वप्रकाशाभावस्य तं च त्यक्त्वा जाड्यस्य क्वचिदप्यदर्शनात् । इति ।

स्याद्रादमं-

॥ ९७ ॥

और जो तुमने अनुमानके प्रयोगमें ' ईश्वरके ज्ञानसे भिन्न हो कर प्रेमय है ' ऐसा हेतु दिया है; वह अप्रयोजक है; क्योंकि, यह हेतु उपाधिसहित है । भावार्थ—जो साधनमें तो अव्यापक हो और साध्यके साथ व्याप्त रहे उसको उपाधि कहते हैं; जैसे " गर्भस्थः श्यामो मैत्रतनयत्वात्, इतरतत्पुत्रवत् " अर्थात् गर्भमें स्थित जो पुत्र है वह श्याम (काला) है क्योंकि मैत्रका पुत्र है, मैत्रके अन्यपुत्रोंके समान अर्थात् जैसे मैत्रके अन्य पुत्र काले है, उसीप्रकार मैत्रका गर्भस्थ पुत्र भी काला है । इस अनुमानके प्रयोगमें शाक आदिके आहारका परिणाम जो है; वह उपाधि है अर्थात् गर्भस्थ पुत्र श्यामताको सिद्ध करनेमें मैत्रके अन्य पुत्र कारण नहीं है, क्योंकि, जो मैत्रके पुत्र नहीं है, उनमें भी श्यामता देखी जाती है । इसकारण गर्भस्थकी श्यामताका कारण शाकादिके आहारका परिणाम है अर्थात् उस गर्भस्थ पुत्रकी माता शाक आदिका भक्षण अधिक करेगी तो वह पुत्र श्याम प्रयोजक नहीं है, क्योंकि, जो मैत्रके पुत्र नहीं है, उनमें तो नहीं अन्य पुत्र कारण नहीं है, क्योंकि, साधन (हेतु) रूप जो मैत्रके अन्य पुत्र है, उनमें तो नहीं कारण शाकादिके आहारका परिणाम उपाधि है, क्योंकि, साधन (हेतु) रूप जो जडत्व उपाधि है सो ही होगा । और यह शाकादिके आहारका परिणाम उपाधि है; उसी प्रकार जो इस प्रकृत अनुमानमें भी जडत्व उपाधि है सो ही रहता है और श्यामत्वरूप जो साध्य है, उसमें रहता है; उसी प्रकार जो इस प्रकृत अनुमानसे भिन्न ऐसे किसी परपदार्थसे दिखलता है—ईश्वरके ज्ञानसे भिन्न तथा प्रेमय होनेपर भी जो जडरूप संभ आदि पदार्थ है वही अपनेसे भिन्न ऐसे किसी परपदार्थसे प्रकाशित होते है, क्योंकि, जो अपने प्रकाशित होनेके लिये परपदार्थका मुख देखना अर्थात् परपदार्थकी अपेक्षा (जरूरत) रखना है; वही जडका लक्षण है । और ज्ञान जडरूप नहीं है; इस कारण यह जडत्व ईश्वरज्ञानसे भिन्न और प्रेमय ऐसे ज्ञानरूप साधनमें नहीं रहता है । और यह जडत्व स्वान्यप्रकाशकत्वरूप साध्यके साथ व्याप्तिको धारण करता है; वही जड़का लक्षण है । और यह जडत्व स्वान्यप्रकाशकत्वरूप साध्यके साथ व्याप्तिको धारण करता है वही जड़ है । साधनमें नहीं रहता है । और यह जडत्व स्वान्यप्रकाशकताका अभाव और स्वप्रकाशताके अभावको छोड़कर जडत्व ये दोनों कहीं भी नहीं देखे जाते है कि; जडत्वको छोड़कर स्वप्रकाशकताका अभाव द्वारा प्रकाशित होता है और जो पदार्थ परसे प्रकाशित होता है वही जड़ है । अर्थात् जो जड़ है, वही अपनेसे भिन्न दूसरे पदार्थ द्वारा प्रकाशित होता है और जो पदार्थ परसे प्रकाशित होता है वही जड़ है । भावार्थ—जैसे शाक आदिके आहारका परिणाम मैत्रपुत्ररूपी साधनमें न रहकर श्यामत्वरूपी साध्यके साथ व्याप्तिको धारण

करनेसे उपाधि है; उसीप्रकार जडत्व जो है वह ईश्वरके ज्ञानसे भिन्न प्रमेयरूपी साधनमें न रहकर परप्रकाशकत्तरूपी साध्यके साथ व्याप्तिके धारण करनेसे उपाधि है ।

यच्चोक्तं “ समुत्पन्नं हि ज्ञानमेकाल्मसमवेतम् ” इत्यादि । तदव्यसत्यम् । इत्थमर्थज्ञानतज्ज्ञानयोरुत्पद्यमानयोः क्रमानुपलक्षणत्वात् इति । आशूत्यादात् क्रमानुपलक्षणमुत्पलपत्वशतव्यतिभेदवत् इति चेन्न । जिज्ञासाव्यवहित-स्वार्थज्ञानस्योत्पादप्रतिपादनात् । न च ज्ञानानां जिज्ञासासमुत्पाद्यत्वं घटते । अजिज्ञासितेष्वपि योग्यदेशेषु विषयेषु तदुत्पादप्रतीतेन । न चार्थज्ञानमयोग्यदेशम् । आत्मसमवेतस्यास्य समुत्पादात् । इति जिज्ञासामन्तरेणैवार्थज्ञाने ज्ञानोत्पादप्रसङ्गः । अथोत्पद्यतां नामेदं को दोषः, इति चेत् नन्वेवमेव तज्ज्ञानज्ञानेऽव्यपरज्ञानोत्पादप्रसङ्गः । तत्रापि चैवमेवायम् । इत्यपरापरज्ञानोत्पादपरम्परायामेवात्मनो व्यापारान्न विषयान्तरसंचारः स्यादिति । तस्माद्यज्ज्ञानं तदात्मबोधं प्रत्यनपेक्षितज्ञानान्तरव्यापारम् । यथा गोचरान्तराहिज्ञानात्प्राग्भावविगोचरान्तरा-हिधारवाहिज्ञानप्रबन्धस्यान्यज्ञानम् । ज्ञानं च विवादाध्यासितं रूपादिज्ञानम् । इति न ज्ञानस्य ज्ञानान्तरज्ञेय-तां युक्तिं सहते । इति काव्यार्थः ॥ १२ ॥

और जो तुमने यह कहा है कि; उत्पन्न हुए ज्ञानका ज्ञान उसी आत्मामें मिले हुए और उस ज्ञानके पश्चात् उत्पन्न हुए मानस प्रत्यक्षद्वारा होता है; सो भी असत्य है । क्योंकि— इसप्रकारसे उत्पन्न होते हुए पदार्थके ज्ञानमें और पदार्थज्ञानके ज्ञानमें क्रम नहीं देखा जाता है, अर्थात् यह पदार्थका ज्ञान तो पहले उत्पन्न हुआ और यह पदार्थके ज्ञानका ज्ञान पीछे उत्पन्न हुआ इस प्रकारका क्रम नहीं देखा जाता है ।

यदि कहोकि,— जैसे सौ १०० कमलोंके पत्रोंके समुदायको सूईसे बीधा जावे तो उसमें क्रम नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि; वे शीघ्रतासे भेदे गये है, इसीप्रकार पदार्थज्ञान और पदार्थज्ञानका ज्ञान ये दोनों शीघ्र उत्पन्न होते है; अतः इनमें क्रम नहीं देखा जाता है तो यह ठीक नहीं । क्योंकि तुमने जिज्ञासा (जाननेकी इच्छा)से अव्यवहित अर्थात् जिज्ञासाके साथ ही जिज्ञासासे ही अर्थज्ञानकी उत्पत्ति होती है; ऐसा प्रतिपादन किया है । और ज्ञान जो है वे जिज्ञासा (जाननेकी इच्छा) से उत्पन्न होते है यह भी सिद्ध नहीं होता है । क्योंकि; जो अजिज्ञासित ऐसे योग्यदेशस्थ विषय हैं अर्थात् जो इन्द्रियोंके विषय जानने योग्य स्थानोंमें विद्यमान हैं; उन विषयों-

को जाननेकी इच्छा किये बिना भी उन विषयोंका ज्ञान उत्पन्न होनेकी प्रतीति होती है। और पदार्थका ज्ञान अयोग्यदेश नहीं है अर्थात् जानने योग्य स्थलमें विद्यमान नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि; यह आत्मामें समवेत (समवाय संबंधसे संबद्ध हुआ) उत्पन्न होता है।

यदि कहेकि,—जिज्ञासोंके बिना ही अर्थज्ञानमें ज्ञान उत्पन्न होजाओ क्या दोष है, तो यह तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। क्योंकि, ऐसा माननेपर उस अर्थज्ञानके ज्ञानमें दूसरे ज्ञानकी उत्पत्तिकी परंपरामें ही अपना व्यापार होनेसे ज्ञानका दूसरे विषयमें उत्पत्तिका प्रसंग होगा और कारण जो ज्ञान है वह अपना ज्ञान होनेके लिये किसी दूसरे ज्ञानके व्यापारकी अपेक्षा नहीं करता है। और यहा विवादापन्न जो सच्चार नहीं होगा। इस कारण जो ज्ञान है वह अपने ज्ञान होनेके लिये किसी दूसरे ज्ञानके व्यापारकी अपेक्षा नहीं करता है। और यहा विवादापन्न जो जैसे कि— एक विषयको छोडकर दूसरे विषयको ग्रहण करनेवाले ज्ञानसे पहले होनेवाले विषयान्तरको ग्रहण करनेवाले धारावाही ज्ञानके प्रवधका अन्तिम ज्ञान अपने ज्ञानके लिये किसी दूसरे ज्ञानके व्यापारकी अपेक्षा नहीं करता है। इस उक्त प्रकारसे सिद्ध हुआ पटका निश्चय न हो तबतक 'पटोऽयं पटोऽयम्' अर्थात् यह पट है इत्यादि रूप जो धारावाही ज्ञान है, उस धारावाही ज्ञानके प्रवधका जो पटका निश्चय करनेवाला अन्तिम ज्ञान है; वह अपने ज्ञानके लिये दूसरे ज्ञानकी सहायता नहीं चाहता है; इसी प्रकार जो ज्ञान है, वह अपने ज्ञानको दूसरे ज्ञानके लिये किसी दूसरे ज्ञानकी सहायता नहीं करता है सो युक्तिको सहन नहीं करता है अर्थात् मिथ्या है। इसप्रकार काव्यका अर्थ है। १२।

अथ ये ब्रह्माद्वैतवादिनोऽविद्याऽपरपर्यायमायावाशात्प्रतिभासमानत्वेन विश्वत्वयवतिवस्तुप्रपञ्चमपारमार्थिकं समर्थयन्ते। तन्मतमुपहसन्नाह।—

अथ जो ब्रह्माद्वैतवादी (एक आत्मको ही पदार्थरूप कहेनेवाले) अर्थात् वेदान्ती अविद्या है दूसरा नाम जिसका ऐसी मा-याके वशसे प्रतिभासमान होनेसे तीन लोकमें विद्यमान पदार्थोंके समूहको अपारमार्थिक सिद्ध करते है अर्थात् तत्त्वरूप नहीं मानते है, उनके मतका हास्य करते हुए आचार्य इस अग्रिम काव्यका कथन करते है।—

माया सती चेद्भयतत्त्वसिद्धिरथासती हन्त कुतः प्रपञ्चः । मायैव चेदर्थसहा च तत्किं माता च वन्ध्या च भवत्परेषाम् ॥ १३ ॥

सूत्रभावार्थ—हे भगवन् ! यदि वेदान्ती मायाको सत्स्वरूप मानें तब तो दो तत्त्व सिद्ध होजावें । अर्थात् एक तो उनका माना हुआ आत्मब्रह्मतत्त्व है ही और दूसरा सत्स्वरूप माननेसे मायारूप तत्त्व भी सिद्ध होजावे । और यदि वे मायाको असत्स्वरूप मानें तो आश्चर्य है कि, यह तीनलोकवर्ती पदार्थोंका समूहरूपी प्रपंच कैसे दृष्टिगोचर होता है । और यदि वे वेदान्ती यह कहें कि, वह माया भी है और अर्थक्रियामें समर्थ पदार्थोंकी दिखलनेमें भी समर्थ है तो क्या आपसे पर (आपकी आज्ञाके बहिर्भूत) उन वेदान्तियोंके माता भी है और वन्ध्या भी है ॥ १३ ॥

व्याख्या । तैर्वादिभिस्तात्त्विकात्मब्रह्मव्यतिरिक्ता या माया अविद्या प्रपञ्चहेतुः परिकल्पिता सा सद्गुणा असद्गुणा वा द्वयी गतिः । सती सद्गुणा चेत् तदा द्वयतत्त्वसिद्धिर्द्वावयवौ यस्य तद् द्वयं तथाविधं यत्तत्त्वं परमार्थस्तस्य सिद्धिः । अयमर्थः एकं तावत्त्वदभिमतं तात्त्विकमात्मब्रह्म, द्वितीया च माया तत्त्वरूपा सद्गुणतयाङ्गीक्रियमाणत्वात् । तथा चाद्वैतवादस्य मूले निहितः कुठारः । अयेति पक्षान्तरद्योतने । यदि असती गगनाभोजवदवस्तुरूपा सा माया ततो हन्तेत्युपदर्शने आश्चर्यं वा, कुतः प्रपञ्चः अयं त्रिभुवनोदरविवरवित्तिपदार्थसार्थरूपप्रपञ्चः कुतो न कुतोऽपि सम्भवीत्यर्थः । मायाया अवस्तुत्वेनाभ्युपगमात्, अवस्तुनश्च तुरङ्गशृङ्गस्यैव सर्वापरव्याविरहितस्य साक्षात्क्रियमाणेदशाविवर्तजननेऽसमर्थत्वात् । किलेन्द्रजालादौ मृगतृष्णादौ वा मायोपदर्शितार्थानामर्थक्रियायामसामर्थ्यं दृष्टम्, अत्र तु तदुपलम्भात्कथं मायाव्यपदेशः शङ्कीयताम् ।

व्याख्यार्थः—उन वेदांतवादिओंने तत्त्वस्वरूप आत्मब्रह्मसे जुदी ऐसी जिस माया (अविद्या) को प्रपंचकी कारण-भूता माना है, वह माया या तो सत्स्वरूप होवे और या असत्स्वरूप होवे; ये दोही विकल्प है । “ सती चेत् ” यदि वादी मायाको सत्स्वरूप कहे, तब तो “ द्वयतत्त्वसिद्धिः ” जिसके दो अवयव होवें उसको द्वय कहते हैं, द्वय (दो अवयवोंका धारक) ऐसा जो तत्त्व अर्थात् परमार्थ है; उसकी सिद्धि होगी अर्थात् पहले एक तो उनका माना हुआ तत्त्वरूप आत्मब्रह्म है ही और

अर्थक्रियामें समर्थ पदार्थोंको दिखलनेमें समर्थ स्वीकार करनेपर उन वेदान्तवादियोंको भी अपने वचनसे विरोध आता है, यह स्पष्ट ही है । इस प्रकार काव्यका सक्षेपसे अर्थ है ॥

व्यासार्थस्त्वयम् । ते वादिन इदं प्रणिगदन्ति तात्त्विकमात्मब्रह्मैवास्ति । “ सर्वं स्वल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्च न । आरामं तस्य पश्यन्ति न तत्पश्यति कश्चन ॥ १ ॥ ” इति न्यायात् । अयं तु प्रपञ्चो मिथ्यारूपः, प्रतीयमानत्वात् । यदेवं तदेवम् । यथा शुक्तिशकले कलधौतम् । तथा चायं तस्मात्तथा ।

विलारसे तो काव्यका अर्थ यह है—वे वेदान्तवादी यह कहते हैं कि “ जो आत्मब्रह्म है वही तात्त्विक अर्थात् वस्तु तथा परमार्थरूप है । क्योंकि—“ यह सब ब्रह्मरूप है, इसमें नानाप्रकारका कुछ भी नहीं है । उसके आराम (प्रपञ्च) को सब देखते हैं परतु उस ब्रह्मको कोई भी नहीं देखता है ” इत्यादि आगमके वचन हैं । और यह (देखनेमें आता हुआ) प्रपञ्च मिथ्यारूप है; क्योंकि प्रतीयमान है अर्थात् इसकी प्रतीति होती है । जो प्रतीत होता है, वह मिथ्यारूप होता है । जैसे सीपके टुकड़ोंमें चांदी प्रतीत होती है; इसकारण सीपके टुकड़ोंमें चांदी मिथ्यारूप है । उसीप्रकार यह प्रपञ्च भी है, इसप्रकारण मिथ्यारूप है ।

तदेतद्वार्तम् । तथा हि मिथ्यारूपत्वं तैः कीदृग् विवक्षितम् । किमत्यन्तासत्वम्, उतान्यस्थान्याकारतया प्रतीतत्वम्, आहोस्विदनिर्वाच्यत्वम् । प्रथमपक्षेऽसत्त्व्यातिप्रसङ्गः । द्वितीये विपरीतत्व्यातिस्वीकृतिः । तृतीये तु किमिदम् अनिर्वाच्यत्वम् । निःस्वभावत्वं चेत् निसः प्रतिषेधार्थत्वे स्वभावशब्दस्यापि भावाभावयोरन्यतरार्थत्वेऽसत्त्व्यातिसत्त्व्यात्यभ्युपगमप्रसङ्गः । भावप्रतिषेधेऽसत्त्व्यातिरभावप्रतिषेधे सत्त्व्यातिरिति ।

सो यह वेदान्तियोंका कहना असत्य है । अब वेदान्तियोंका कथन असत्य क्यों है सो ही दिखलते हैं ।—उन वेदान्तवादियोंने मिथ्यारूपत्वको कैसा कहना चाहा है अर्थात् क्या जो अत्यंत असत्रूप है उसको मिथ्यारूप कहना चाहते हैं, अथवा अन्य पदार्थकी अन्य आकारतासे जो प्रतीति होती है उसको मिथ्यारूप कहना चाहते हैं । वा जो अनिर्वाच्य (कहने योग्य नहीं) है उसको मिथ्यारूप कहना चाहते हैं । प्रथम पक्षमें अर्थात् यदि वे अत्यंत असत् (अविद्यमान) रूप पदार्थको मिथ्यारूप कहें तब तो उनको असत् र्व्यातिका प्रसंग होगा अर्थात् असत् पदार्थको मिथ्यारूप कहनेसे उनको असत्पदार्थके कथन करनेका दोष आवेगा । और दूसरे पक्षमें अर्थात् यदि वे अन्यपदार्थकी अन्य आकारसे जो प्रतीति होती है अर्थात् रज्जुमें जो सर्पका ज्ञान होता

है; उसको मिथ्यारूप कहेंगे; तो उनको विपरीत ख्याति स्वीकार करनी पड़ेगी और अनिर्वाच्यरूप तीसरे पक्षमें अर्थात् यदि वे जो कहने योग्य नहीं है; उसको मिथ्यारूप कहें तो हम प्रश्न करते हैं कि—यह अनिर्वाच्य क्या है ? यदि वे उत्तर दें कि जो निःस्वभावता (स्वभावरहितपणा) है वह अनिर्वाच्य है तो निःस्वभाव इस शब्दमें “ निम्” इस अव्ययका प्रतिषेधरूप अर्थ करनेपर और स्वभाव शब्दके जो भाव, और अभावरूप दो अर्थ हैं; उनमेंसे किसी एक अर्थको स्वीकार करनेपर उनको असत्-ख्याति और सत्ख्यातिको स्वीकार करनेका प्रसंग होगा । भावार्थ— स्वभाव दो प्रकारका है एक भावरूप और दूसरा अभावरूप, इसलिये उन वादियोंके निःस्वभाव इस शब्दसे भावका निराकरण करनेपर असत्ख्यातिको और अभावका निराकरण करनेपर सत्ख्यातिको स्वीकार करना पड़ेगा और यह उनको अभीष्ट नहीं है ।

प्रतीत्यगोचरत्वं निःस्वभावत्वमिति चेत् अत्र विरोधः । न प्रपञ्चो हि न प्रतीयते चेत्कथं धर्मितयोपात्तः । कथं च प्रतीयमानत्वं हेतुतयोपात्तम् । तथोपादाने वा कथं न प्रतीयते । यथा प्रतीयते न तथेति चेत्साहिं विपरीतख्यातिरियमभ्युपगता स्यात् । किञ्चैवमनिर्वाच्यता प्रपञ्चस्य प्रत्यक्षबाधिता । षटोऽयमित्याद्याकारं हि प्रत्यक्षं प्रपञ्चस्य सत्यतामेव व्याख्याति । षटादिप्रतिनियतपदार्थपरिच्छेदात्मनस्तस्योत्पादात् । इतरेतरविविक्तवरतूनामेव च प्रपञ्चशब्दवाच्यत्वात् ।

यदि वादी यह कहें कि हम ‘ निम् ’ का प्रतिषेधरूप अर्थ करके स्वभाव शब्दसे भाव—अभावका ग्रहण नहीं करते हैं किन्तु जो प्रतीतिके अगोचर है उसको निःस्वभाव कहते हैं, तो ऐसा माननेपर उनको इस प्रकृत अनुमानके प्रयोगमें विरोध आता है । क्योंकि, जब प्रपंच है ही नहीं और उसकी प्रतीति ही नहीं होती है तब ‘ प्रपंच मिथ्यारूप है, प्रतीयमान होनेसे ’ इस अनुमानमें उन्होंने प्रपंचको धर्मरूपपनसे कैसे ग्रहण किया है ? और प्रतीयमानत्वको हेतुरूपतासे कैसे ग्रहण किया है ? । और जो उन्होंने प्रपंचको धर्मरूपसे तथा प्रतीयमानत्वको हेतुरूपसे ग्रहणकर लिया है तो फिर प्रपंच कैसे प्रतीत नहीं होता है ? अर्थात् प्रपंचके प्रतीतिगोचरता सिद्ध होती ही है । यदि वादी कहें कि— प्रपंच जिसप्रकारसे प्रतीत होता है उस प्रकारसे वास्तवमें नहीं है इसलिये हम उसको प्रतीतिके अगोचर कहते हैं तो ऐसा कहनेपर उनको विपरीत ख्याति स्वीकार करनी पड़ेगी । और यह भी विशेष है कि,— यह जो प्रपंचकी अनिर्वाच्यता है; वह प्रत्यक्षसे बाधित है । क्योंकि; ‘ यह षट है ’ इस आकारका धारक जो प्रत्यक्ष है वह

द्वैतापत्तिः । ततश्च सुव्यवस्थितः प्रपञ्चः । तदभी वादिनोऽविद्याविवेकेन सन्मानं प्रत्यक्षत्प्रतीयन्तोऽपि न नि-
पेधकं तदिति श्रुवाणाः कथं नोन्मत्ताः । इति सिद्धं प्रत्यक्षवाधितः पक्षः । इति ।

और भी विशेष वक्तव्य यह है कि,—यदि वे ' प्रत्यक्ष विधायक ही है ' ऐसा स्वीकार करें तो जैसे प्रत्यक्षसे विद्याका विधान होता है, अर्थात् प्रत्यक्ष विद्याको ग्रहण करता है उसी प्रकार प्रत्यक्ष अविद्याको भी क्यों नहीं ग्रहण करता है । और जो प्रत्यक्ष अविद्याको ग्रहण करेगा तो द्वैत (दो पने) की आपत्ति होगी अर्थात् विद्या और अविद्यारूप दो पदार्थोंके होनेसे उनके अद्वैत-वादका खंडन हो जावेगा और ऐसा होनेसे प्रपञ्च भी सुव्यवस्थित हो जावेगा अर्थात् मिथ्यारूप न रहेगा । इस कारण वे वेदान्ती अविद्याके निषेध पूर्वक सन्मात्रको प्रत्यक्षसे जानते हैं तो भी वह प्रत्यक्ष निषेधक नहीं है ऐसा कहते हुए उन्मत्त कैसे नहीं है ? अर्थात् है ही । इस प्रकार उक्त कथनसे यह सिद्ध हुआ कि प्रकृत अनुमानके प्रयोगमें ' प्रपञ्च मिथ्यारूप है ' यह जो पक्ष है वह प्रत्यक्षसे वाधित है ।

अनुमानवाधितश्च । प्रपञ्चो मिथ्या न भवति असिद्धिलक्षणत्वात् । आत्मवत् । प्रतीयमानत्वं च हेतुर्ब्रह्मात्मना व्यभिचारी । स हि प्रतीयते न च मिथ्या । अप्रतीयमानत्वे त्वस्य तद्विषयवचसामप्रवृत्तेर्मूकतैव तेषां श्रेयसी । साध्यविकलश्च दृष्टान्तः । श्रुतिक्रिकलकलधौतेऽपि प्रपञ्चान्तर्गतत्वेन अनिर्वचनीयतायाः साध्यमानत्वात् ।

और ' प्रपञ्च मिथ्यारूप है ' यह वेदान्तियोंका पक्ष अनुमान प्रमाणसे भी वाधित है । सो ही प्रत्यनुमानका प्रयोग है कि,— प्रपञ्च मिथ्या नहीं है क्योंकि; असत्से विलक्षण (भिन्न) अर्थात् सत् रूप है, आत्माके समान । भावार्थ—जैसे आत्मा असत्से विलक्षण है इस कारण मिथ्या नहीं है उसी प्रकार प्रपञ्च भी असत्से विलक्षण है, अतः मिथ्या नहीं है । और ' प्रपञ्च मिथ्यारूप है प्रतीयमान होनेसे ' यहांपर प्रतीयमानत्व रूप जो हेतु है वह ब्रह्मात्माके साथ व्यभिचारको धारण करता है । क्योंकि; ब्रह्मात्मा प्रतीत होता है परंतु मिथ्या नहीं है । और जो कदाचित् वेदान्ती प्रपञ्चको अप्रतीयमान कहें तो अप्रतीय-मान (जाननेमें नहीं आते हुए) प्रपञ्चके विषयमें वचनोंकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । अर्थात् जो पदार्थ जाननेमें आता है; उसीके विषयमें कुछ कहा जा सकता है, न कि नहीं जाने हुए पदार्थके विषयमें । इस कारण प्रपञ्चके विषयमें उन वेदान्तियोंको

प्रपंचकी सत्यताको ही निश्चय कराता है । कारण कि; 'यह घट है' इस आकारका जो प्रत्यक्ष है वह घट आदि प्रतिनियत (वास सुकरर किये हुए) पदार्थोंके ज्ञानरूप ही उत्पन्न होता है और एक दूसरेसे भिन्न हुए ऐसे पदार्थ ही प्रपंच इस शब्दसे वाच्य (कहे जाने योग्य) है । भावार्थ—प्रत्येक भिन्न २ पदार्थको तुमने प्रपंच माना है; और प्रत्यक्ष भी घट आदि पदार्थको दूसरे पदार्थोंसे भिन्न करके ही जनाता है ।

अथ प्रत्यक्षस्य विधायकत्वात्कथं प्रतिषेधे सामर्थ्यम् । प्रत्यक्षं हि-इदमिति वस्तुस्वरूपं गृह्णाति । नान्यत्स्वरूपं प्रतिषेधति । “ आहुर्विधात् प्रत्यक्षं न निषेद्धं विपश्चितः । नैकत्व आगमस्तेन प्रत्यक्षेण प्रवाध्यते ॥ १ ॥ ” इति वचनात् । इति चेत्-न । अन्यरूपनिषेधमन्तरेण तत्स्वरूपपरिच्छेदस्याप्यसंपत्तेः । पीतादिव्यवच्छिन्नं हि नीलं नीलमिति गृहीतं भवति । नान्यथा । केवलवस्तुस्वरूपप्रतिपत्तेरेवान्यप्रतिषेधप्रतिपत्तिरूपत्वात् । मुण्डभूतलग्रहणे घटाभावग्रहणवत् । तस्माद्यथा प्रत्यक्षं विधायकं प्रतिषेधं, तथा निषेधकमपि प्रतिपत्तव्यम् ।

यदि वादी कहे कि,— “ विद्वानोंने प्रत्यक्षको विधायक (पदार्थोंके स्वरूपको ग्रहण करनेवाला) कहा है और निषेधक (पदार्थोंके स्वरूपको निराकरण करनेवाला) नहीं कहा है; इस कारण उस प्रत्यक्षसे एकत्व आगमका अर्थात् केवल एक ब्रह्मको ही माननेवाले वेदान्तियोंके सिद्धान्तका बाध (खंडन) नहीं होता है ॥१॥ ” इस वचनके अनुसार प्रत्यक्ष विधायक अर्थात् वस्तुके स्वरूपको ग्रहण करनेवाला है, इस कारण वस्तुके स्वरूपका प्रतिषेध करनेमें उस प्रत्यक्षका सामर्थ्य कैसे हो सकता है ? । सो यह उनका कहना ठीक नहीं है । क्योंकि; पदादि दूसरे पदार्थोंका निषेध किये विना उस एक घटादि पदार्थोंके स्वरूपका ज्ञान ही नहीं हो सकता है । क्योंकि, पीत (पीले) आदि वर्णोंसे भिन्न हुआ ऐसा जो नीलवर्ण है उसीका ' यह नील है ' इस प्रकार ग्रहण होता है । अन्य प्रकारसे नहीं । कारण कि; जैसे केवल भूतलका ग्रहण होनेसे उस भूतल (जमीन) में घटके अभावका ग्रहण हो जाता है उसी प्रकार केवल पदार्थोंके स्वरूपका जो ग्रहण है वही अन्य पदार्थोंके निषेधको ग्रहण करने रूप है । इस कारण जैसे उन वादियोंने प्रत्यक्षको विधायक माना है; उसी प्रकार उन्हें प्रत्यक्षको निषेधक भी स्वीकार करना चाहिये ।

अपि च विधायकमेव प्रत्यक्षमित्यङ्गीकृते यथा प्रत्यक्षेण विद्या विधीयते, तथा किं नाविद्यापीति । तथा च

है; उसको मिथ्यारूप कहेंगे; तो उनको विपरीत ल्याति स्वीकार करनी पड़ेगी और अनिर्वाच्यरूप तीसरे पक्षमें अर्थात् यदि वे जो कहने योग्य नहीं है, उसको मिथ्यारूप कहें तो हम प्रश्न करते हैं कि—यह अनिर्वाच्य क्या है ? यदि वे उत्तर दें कि जो निःस्भावता (स्वभावरहितपणा) है वह अनिर्वाच्य है तो निःस्भाव इस शब्दमें “ निम्” इस अव्ययका प्रतिषेधरूप अर्थ करनेपर और स्वभाव शब्दके जो भाव, और अभावरूप दो अर्थ हैं, उनमेंसे किसी एक अर्थको स्वीकार करनेपर उनको असत्-ल्याति और सत्ल्यातिको स्वीकार करनेका प्रसंग होगा । भावार्थ—स्वभाव दो प्रकारका है एक भावरूप और दूसरा अभावरूप, इसलिये उन वादियोंके निःस्वभाव इस शब्दसे भावका निराकरण करनेपर असत्ल्यातिको और अभावका निराकरण करनेपर सत्ल्यातिको स्वीकार करना पड़ेगा और यह उनको अभीष्ट नहीं है ।

प्रतीत्यगोचरत्वं निःस्वभावत्वमिति चेत् अत्र विरोधः । न प्रपञ्चो हि न प्रतीयते चेत्कथं धर्मितयोपात्तः । कथं च प्रतीयमानत्वं हेतुतयोपात्तम् । तथोपादाने वा कथं न प्रतीयते । यथा प्रतीयते न तथेति चेत्तर्हि विपरीतल्यातिरियमभ्युपगता स्यात् । किञ्चेयमनिर्वाच्यता प्रपञ्चस्य प्रत्यक्षवाधिता । घटोऽयमित्याद्याकारं हि प्रत्यक्षं प्रपञ्चस्य सत्यतामेव व्यवस्यति । घटादिप्रतिनियतपदार्थपरिच्छेदात्मनस्तस्योपात्तात् । इतरेतरविविक्तवस्तूनामेव च प्रपञ्चशब्दान्वयत्वात् ।

यदि वादी यह कहें कि हम ‘ निम् ’ का प्रतिषेधरूप अर्थ करके स्वभाव शब्दसे भाव—अभावका ग्रहण नहीं करते हैं किन्तु जो प्रतीतिके अगोचर है उसको निःस्वभाव कहते हैं, तो ऐसा माननेपर उनको इस प्रकृत अनुमानके प्रयोगमें विरोध आता है । क्योंकि, जब प्रपंच है ही नहीं और उसकी प्रतीति ही नहीं होती है तब ‘ प्रपंच मिथ्यारूप है, प्रतीयमान होनेसे ’ इस अनुमानमें उन्होंने प्रपंचको धर्मरूपपनेसे कैसे ग्रहण किया है ? और प्रतीयमानत्वको हेतुरूपतासे कैसे ग्रहण किया है ? और जो उन्होंने प्रपंचको धर्मरूपसे तथा प्रतीयमानत्वको हेतुरूपसे ग्रहणकर लिया है तो फिर प्रपंच कैसे प्रतीत नहीं होता है ? अर्थात् प्रपंचके प्रतीतिगोचरता सिद्ध होती ही है । यदि वादी कहें कि— प्रपंच जिसप्रकारसे प्रतीत होता है उस प्रकारसे वास्तवमें नहीं है इसलिये हम उसको प्रतीतिके अगोचर कहते हैं तो ऐसा कहनेपर उनको विपरीत ल्याति स्वीकार करनी पड़ेगी । और यह भी विशेष है कि,— यह जो प्रपंचकी अनिर्वाच्यता है; वह प्रत्यक्षसे वाधित है । क्योंकि; ‘ यह घट है ’ इस आकारका धारक जो प्रत्यक्ष है वह

सिद्ध कियेविना वे वेदान्ती केवल परम ब्रह्मको ही तत्त्व मानकर उससे भिन्न अन्य सब ससारके पदार्थोंको अतत्त्व वा असद्रूप नहीं कह सकते हैं ।

अथवा प्रकारान्तरेण सन्मात्रलक्षणस्य परमब्रह्मणः साधनं दूषणं चोपन्यस्यते । ननु परमब्रह्मण एवैकस्य परमार्थसतो विधिरूपस्य विद्यमानत्वात् प्रमाणविषयत्वम् । अपरस्य द्वितीयस्य कस्यचिदप्यभावात् । तथा हि प्रत्यक्षं तदावेदकमस्ति । प्रत्यक्षं द्विधा भिद्यते—निर्विकल्पकसविकल्पकभेदात् । ततश्च निर्विकल्पकप्रत्यक्षात्सन्मात्रविषयात्तस्यैकस्यैव सिद्धिः । तथाचोक्तम् । “ अस्ति ह्यालोचनाज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम् । बालमूकादिविज्ञानसदृशं शुद्धवस्तुजम् ॥ १ ॥ ”

अथवा अब अन्यप्रकारसे सन्मात्रलक्षणके धारक परमब्रह्मके साधनका और दूषणका कथन करते हैं, अर्थात् वेदांती जिस अनुमानसे प्रपंचको मिथ्यारूप सिद्ध करके एक परमब्रह्मको ही तात्त्विक सिद्ध करना चाहते थे; उस अनुमानका तो पूर्वोक्त प्रकारसे खंडन कर ही चुके हैं, अब हम परम ब्रह्मको सिद्ध करनेवाला जो वेदांतियोंका दूसरा अनुमान है, उसको दिखलाकर फिर उनके उस अनुमानमें दूषण देते हैं । वेदान्ती कहते हैं कि,—परमार्थसत् (परमार्थमें सत् रूप) ऐसा विधिरूप एक परमब्रह्म ही विद्यमान है, इसकारण वह परमब्रह्म ही प्रमाणका विषय है । क्योंकि, उस परमब्रह्मके सिवाय दूसरा जो कोई है, उसीका अभाव है । सो ही दिखलते हैं कि,—उस परमब्रह्मका ज्ञान करनेवाला प्रत्यक्ष प्रमाण है और वह प्रत्यक्ष निर्विकल्पक तथा सविकल्पक, इन भेदोंसे दो प्रकारका है और इस कारण केवल सत् पदार्थको ही विषय करनेवाला जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है, उस निर्विकल्पक प्रत्यक्षसे वह एक परमब्रह्म ही सिद्ध होता है । सो ही कहा है—कि,—“ आलोचनाज्ञान जो है वह बालक वा गूंगे पुरुषोंके ज्ञानके समान है, शुद्ध वस्तुसे उत्पन्न हुआ है, निर्विकल्पक है और प्रथम अर्थात् अन्यज्ञानोंसे पहले उत्पन्न होनेवाला है । १ । ”

न च विधिवत्परस्परव्यावृत्तिरप्यध्यक्षत एव प्रतीयत इति द्वैतसिद्धिः । तस्य निषेधाविषयत्वात् । “आहुर्विधात् प्रत्यक्षं न निषेद्धु ” इत्यादिवचनात् । यच्च सविकल्पकप्रत्यक्षं घटपटादिभेदसाधकं तदपि सत्त्वारूपेणान्वितानामेव

तेषां प्रकाशकत्वात् सत्ताद्वैतस्यैव साधकम् । सत्तायाश्च परमब्रह्मरूपत्वात् । तदुक्तं “ यदद्वैतं तद्ब्रह्मणो रूपम् ” इति ।

और जैसे प्रत्यक्षसे विधिकी प्रतीति होती है, उसीप्रकार परस्पर व्यावृत्तिका अर्थात् एक पदार्थकी दूसरे पदार्थके साथ आप-समें भिन्नताकी प्रतीति भी प्रत्यक्षसे ही होती है, इसकारण द्वैतकी सिद्धि होती है, ऐसा कोई कहे तो वह ठीक नहीं है । क्योंकि, निषेध करना यह प्रत्यक्षका विषय नहीं है । कारण कि, “ विद्वानोंने प्रत्यक्षको विश्रायक माना है, निषेधक नहीं माना ” इत्यादि आगमका वचन है । और जो घट-पट आदिके भेदको सिद्ध करनेवाला सविकल्पक प्रत्यक्ष है वह भी सत्ता-रूपसे परस्पर संबंधको प्राप्त हुए ही जो घट पट आदि पदार्थ है उनका प्रकाशक है; इसकारण सत्ताके अद्वैतकी ही सिद्ध करने-वाला है । और जो सत्ता है, वह परमब्रह्मरूप है । सोही कहा है कि,— “जो अद्वैत (एकता) है वही ब्रह्मका रूप है ” ।

अनुमानादपि तत्सद्भावो विभाव्यत एव । तथा हि विधिरेव तत्त्वं प्रमेयत्वात् । यतः प्रमाणविषयभूतोऽर्थः प्रमेयः । प्रमाणानां च प्रत्यक्षानुमानागमोपमानार्थापत्तिसंज्ञकानां भावविषयत्वेनैव प्रवृत्तेः । तथाचोक्तम् । “ प्र-त्यक्षाद्यवतारः स्याद्भावांशो गृह्यते यदा । व्यापारस्तदनुत्पत्तेरभावांशे जिघृक्षिते ॥१॥ ” यच्चाभावाख्यं प्रमाणं तस्य प्रामाण्याभावाच्च तत्प्रमाणम् । तद्विषयस्य कस्यचिदप्यभावात् । यस्तु प्रमाणपञ्चकविषयः स विधिरेव । तेनैव च प्रमेयत्वस्य व्याप्तत्वात् । सिद्धं प्रमेयत्वेन विधिरेव तत्त्वं, यत्तु न विधिरूपं, तन्न प्रमेयम् । यथा खरविषाणम् । प्रमेयं चेदं निखिलं वस्तुतत्त्वम् । तस्माद्विधिरूपमेव ।

और अनुमान प्रमाणसे भी उस एक परमब्रह्मका सद्भाव जाननेमें आता ही है । सोही अनुमानका प्रयोग दिखलाते हैं कि,— विधि ही तत्त्व है प्रमेय होनेसे । क्योंकि प्रमाणका विषयभूत जो पदार्थ है वह प्रमेय कहलाता है । और प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान तथा अर्थापत्ति नामक जो पांच प्रमाण हैं वे सब भाव (अस्तित्व) को ग्रहण करके ही प्रवृत्त होते हैं । सो ही कहा है कि “ जब भावांशको ग्रहण किया जाता है अर्थात् पदार्थकी सत्ताका ज्ञान करनेमें आता है तब प्रत्यक्ष आदि पांचो प्रमाणोंका अवतार होता है अर्थात् प्रत्यक्षादि प्रमाणोंकी उत्पत्ति होती है, और जब पदार्थके अभावांश (अविद्यमानत्व) का ग्रहण करने-की इच्छा होती है, तब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंकी अनुत्पत्तिका व्यापार होता है अर्थात् अभावांशके ग्रहण करनेमें प्रत्यक्ष आदि

प्रमाण उत्पन्न नहीं होते है । १ । ” और जो अभावनामक छठा प्रमाण है; उसको प्रमाणता नहीं है इस कारण वह अभाव नामक प्रमाण ही नहीं है । और जो प्रत्यक्ष आदि पांचों प्रमाणोंका विषय है; वह तो विधिरूप ही है और उस विधिसे ही प्रमेय व्याप्त है अर्थात् जो विधिरूप है वह सब प्रमेय है । इस कारण सिद्ध हुआ कि,— प्रमेयपनेसे विधि ही तत्त्व है और जो विधिरूप नहीं है, वह प्रमेय नहीं है । जैसे कि, गधेका सींग विधि (भाव) रूप नहीं है इस कारण प्रमेय मी नहीं है । तथा यह जो समस्त पदार्थोंका स्वरूप है सो प्रमेय है; इसकारण विधिरूप ही है ।

अतो वा तत्सिद्धिः । ग्रामारामादयः पदार्थाः प्रतिभासान्तःप्रविष्टाः । प्रतिभासमानत्वात् । यत्प्रतिभासते तत्प्रतिभासान्तःप्रविष्टम् । यथा प्रतिभासन्ते च ग्रामारामादयः पदार्थास्तस्मात्प्रतिभासान्तःप्रविष्टाः ।

अथवा इस अनुमानसे उस अद्वैतकी सिद्धि होती है । ग्राम और आराम (बाण) आदि जो पदार्थ है; वे प्रतिभासके मध्यमें गर्भित है क्योंकि; प्रतिभासमान है । भावार्थ—ग्राम आदि सभी पदार्थ जाननेमें आते है अतः ज्ञानके अन्तर्गत है । सोही अनुमान है कि जो प्रतिभासता है (जाननेमें आता है) वह प्रतिभासके अन्तर्गत है जैसे कि—प्रतिभासका स्वरूप प्रतिभासता है इसकारण वह प्रतिभासान्तर्गत है । और ग्राम आराम आदि पदार्थ प्रतिभासते है अतः प्रतिभासान्तर्गत है ।

आगमोऽपि परमब्रह्मण एव प्रतिपादकः समुपलभ्यते । “पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति । यदेजति यन्नैजति यद्दूरे यदन्तिके यदन्तरस्य सर्वस्य यदुत सर्वस्यास्य ब्राह्मणतः” इत्यादिः । श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्योऽनुमन्तव्य इत्यादि वेदव्याक्यैरपि तत्सिद्धेः । कृत्रिमेणापि आगमेन तस्यैव प्रतिपादनात् । उक्तं च—“ सर्वं वै खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन । आरामं तस्य पश्यन्ति न तत्पश्यति कश्चन ॥ १ ॥ ” इति ।

आगम भी परमब्रह्मका ही प्रतिपादक मिलता है । क्योंकि “ जो हुआ, जो होगा, जो मोक्षका स्वामी है, जो आहारसे अतिशय करके वृद्धिको प्राप्त होता है, जो चलता है, जो स्थिर है, जो दूर है, जो समीप है, जो सबके बीचमें है, जो सबके बाहर है, सो यह सब पुरुष ही है ” इत्यादि । तथा “ इस आत्माको सुनना चाहिये, ध्यानमें धारण करना चाहिये और मानना चाहिये ”

इत्यादि जो वेदवाक्य है, उनसे भी परमब्रह्मकी सिद्धि होती है। और कृत्रिम (पुरुषप्रणीत) आगमने भी उसी परमब्रह्मका प्रतिपादन किया है। सो ही कहा है कि,—“ यह सब ब्रह्म है, यहा नानारूपका धारक कोई नहीं है, उसके प्रपंचको सब देखते हैं, परंतु उसको कोई नहीं देखता है। १। ”

प्रमाणतस्तस्यैव सिद्धेः परमपुरुष एक एव तत्त्वम्, सकलभेदानां तद्विवर्त्तत्वात्। तथा हि—सर्वे भावा ब्रह्मविवर्त्ताः सत्वैकरूपेणान्वितत्वात्। यद्यद्रूपेणान्वितं तत्तदात्मकमेव। यथा घटघटीशरावोदञ्चनादयो मृद्भूषणैकेनान्विता मृद्विवर्त्ताः। सत्वैकरूपेणान्वितं च सकलं वस्तु। इति सिद्धं ब्रह्मविवर्त्तित्वं निखिलभेदानामिति।

इस पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष अनुमान तथा आगम प्रमाणद्वारा वह परमब्रह्म ही सिद्ध होता है, इसकारण एक परमब्रह्म ही तत्त्व है, क्योंकि; सब भेद उसीके विवर्त्त पर्याय है अर्थात् ब्रह्मरूप है। सो ही अनुमानका प्रयोग है कि,— सब पदार्थ ब्रह्मके विवर्त्त हैं, क्योंकि सत्वरूपी एकरूपसे अन्वित (संबंधको प्राप्त) है। जो जिस रूपसे अन्वित होता है वह उसीरूप होता है। जैसे—घट, गागर, सकोरा, ढकना इत्यादि पदार्थ एक मृत्तिकारूपसे अन्वित है; इसकारण मृत्तिकोके विवर्त्त (पर्याय) है अर्थात् मृत्तिकारूप है। और जगतके समस्त भेद (पदार्थ) सत्वरूपी एकरूपसे अन्वित है। इस पूर्वोक्त प्रकारसे सब पदार्थोका ब्रह्मविवर्त्तित्व (ब्रह्मका पर्यायपना) सिद्ध हो चुका।

तदेतत्सर्वं मदिरारसास्वादगद्गदोद्भूदितमिवाभासते विचारसहत्वात्। सर्वं हि वस्तु प्रमाणसिद्धं न तु वाञ्छानेत्रे। अद्वैतमते च प्रमाणमेव नास्ति तत्सद्भावे द्वैतप्रसङ्गात्। अद्वैतसाधकस्य प्रमाणस्य द्वितीयस्य सद्भावात्। अथ मतं—लोकप्रत्यायनाय तदपेक्षया प्रमाणमप्यभ्युपगम्यते। तदसत् तन्मते लोकस्यैवासम्भवात्। एकस्यैव नित्यनिरंशस्य परब्रह्मण एव सत्त्वात्।

सो यह वेदातियोंका उपर्युक्त सब कथन मदिराके रसका आस्वादन करके गद्गद हुए पुरुषके प्रलाप करनेके समान जान पड़ता है, क्योंकि, उक्त कथन हमारे विचारोंको नहीं सह सकता है। क्योंकि, समस्त ही पदार्थ जब प्रमाणद्वारा सिद्ध होजाते हैं तभी वे सिद्ध अर्थात् पदार्थरूप समझे जाते हैं और केवल उनका कथन करनेसे वे पदार्थ सिद्ध नहीं होते हैं। और अद्वैत मतमें तो प्रमाण ही नहीं है क्योंकि; यदि अद्वैतमतमें प्रमाणका अस्तित्व मान लिया जावे तो अद्वैतको सिद्ध करनेवाले प्रमाणरूप दूसरे पदार्थका

सद्भाव होनेसे अद्वैतमतमें द्वैतका प्रसंग होता है। यदि कदाचित् वादी कहें कि, हम लोकको प्रतीति करानेके लिये उस लोककी अपेक्षासे प्रमाणको भी मानते हैं; तो यह उनका कथन मिथ्या है। क्योंकि; उनके मतमें लोक ही नहीं है। कारण कि;—उन्होंने नित्य तथा निरंश ऐसे एक परम ब्रह्मको ही सत् रूप माना है।

अथास्तु यथाकथंचित्प्रमाणमपि। तत्किं प्रत्यक्षमनुमानमागमौ वा तत्साधकं प्रमाणमुरीक्रियते। न तावत्प्रत्यक्षम्। तस्य समस्तवस्तुजातगतभेदस्यैव प्रकाशकत्वात्। आवाल्लगोपालं तथैव प्रतिभासनात्। यच्च 'निर्विकल्पकं प्रत्यक्षं तदावेदकम्' इत्युक्तं तदपि न सम्यक्। तस्य प्रामाण्यानभ्युपगमात्। सर्वस्यापि प्रमाणतत्त्वस्य व्यवसायात्मकस्यैवाविसंवादात्त्वेन प्रामाण्योपपत्तेः। सविकल्पकेन तु प्रत्यक्षेण प्रमाणभूतैकस्यैव विधिरूपस्य परब्रह्मणः स्वमेऽव्यप्रतिभासनात्।

अथवा चाहे जिस अपेक्षासे उनके मतमें प्रमाण भी रहो। परंतु प्रत्यक्ष, अनुमान अथवा आगम; इन तीनोंमेंसे वे कौनसे प्रमाणको उसका साधक मानते हैं। यदि वे प्रत्यक्षप्रमाणको उस एक पर ब्रह्मका साधक मानें, तो यह ठीक नहीं है। क्योंकि; वह प्रत्यक्ष तो समस्त पदार्थोंमें प्राप्त जो भेद है; उसीका प्रकाशक है। कारण कि; बालकसे लेकर गोपाल पर्यन्त पुरुषोंको वह प्रत्यक्ष भेदका प्रकाशक ही जान पड़ता है। और जो उन्होंने पहले कहा है कि;—'निर्विकल्पक प्रत्यक्ष उस पर ब्रह्मको विदित करनेवाला है' सो भी ठीक नहीं है। क्योंकि उस निर्विकल्पक प्रत्यक्षका प्रमाणपना नहीं माना गया है। कारण कि व्यवसायात्मक (निश्चय करानेवाले) के ही समस्त प्रमाणतत्त्वके अविसंवादीपनेसे संशय, विपर्यय और अनध्यवसायकी रहिततासे प्रमाणता सिद्ध होती है। भावार्थ—जो प्रमाण पदार्थस्वरूपका निश्चयरूपसे ज्ञान करता है वही प्रमाणभूत माना जाता है, अतः व्यवसायात्मक न होनेसे निर्विकल्पक प्रत्यक्षको प्रमाणता नहीं है। और प्रमाणभूत जो सविकल्पक प्रत्यक्ष है उससे तो विधिरूप एक ही परमब्रह्मका स्वप्नमें भी प्रतिभास (ज्ञान) नहीं हो सकता है।

यदप्युक्तं "आहुर्विधातु प्रत्यक्षम्" इत्यादि। तदपि न पेशलम्। प्रत्यक्षेण ह्यनुवृत्तव्यावृत्ताकारात्मकवस्तुन एव प्रकाशनात्। एतच्च प्रागेव ध्रुणम्। न ह्यनुस्यूतमेकमखण्डं सत्तामात्रं विशेषनिरपेक्षं सामान्यं प्रतिभासते।

येन यदद्वैतं तद्ब्रह्मणो रूपमित्याद्युक्तं शोभेत । विशेषनिरपेक्षसामान्यस्य खरविषाणावदप्रतिभासनात् । तदुक्तम्
“ निर्विशेषं हि सामान्यं भवेत्खरविषाणवत् । सामान्यरहितत्वेन विशेषास्तद्भेदेव हि ॥ १ ॥ ”

और जो उन्होंने “ प्रत्यक्ष विधायक है, निषेधक नहीं है ” इत्यादि आगम प्रमाणका कथन किया है; वह भी मनोहर नहीं है । क्योंकि, प्रत्यक्षद्वारा तो अनुवृत्त तथा व्यावृत्त आकारको धारण करनेवाले पदार्थका ज्ञान होता है अर्थात् सामान्य विशेषात्मक वस्तु ही प्रत्यक्षसे गृहीत होता है, और इस विषयका खंडन पहले ही कर चुके हैं । क्योंकि; अनुस्यूत (दूसरेमें नहीं मिला हुआ) एक, अखंड, सत्त्वरूप और विशेषकी अपेक्षासे रहित ऐसा सामान्य नहीं प्रतिभासता है, जिससे कि जो अद्वैत है; वह ब्रह्मका रूप है इत्यादि उनका कहा हुआ सिद्धान्त शोभाको प्राप्त होवे । भावार्थ—अनुस्यूत, एक, अखंड, सत्त्वरूप और विशेष निरपेक्ष ऐसे सामान्यका प्रतिभास होवे तो जो अद्वैत है, वह ब्रह्मका रूप है ऐसा कहना ठीक हो सकता है; और सामान्य ऐसा है नहीं, इसकारण वादियोंका उक्त कथन मिथ्या है । क्योंकि; जो विशेषकी अपेक्षासे रहित सामान्य है उसका गंधके सींगके समान प्रतिभास नहीं होता है, अर्थात् जैसे गंधके सींगका प्रतिभास नहीं होता है वैसे ही विशेषकी अपेक्षारहित सामान्यका प्रतिभास भी नहीं होता है । सो ही कहा है कि,—“ विशेषकी अपेक्षारहित जो सामान्य है; वह गंधके सींगके समान असत् रूप है और सामान्यकी अपेक्षा न रखनेवाले जो विशेष है, वे भी गर्दमके सींगके समान असत् रूप ही हैं । १ । ” इसकारण सामान्य विशेषात्मक जो पदार्थ है; वही प्रमाणका विषय है । यह हमारा सिद्धान्त सिद्ध होगया और इसके सिद्ध होनेपर उन वादियोंके माने हुए एक परमब्रह्मके प्रमाणका विषयपना कहासे हो सकता है अर्थात् एक परमब्रह्म प्रमाणका विषय नहीं हो सकता है ।

ततः सिद्धे सामान्यविशेषात्मन्यर्थे प्रमाणविषये कुत एवैकस्य परमब्रह्मणः प्रमाणविषयत्वम् । यच्च प्रमेयत्वादित्यनुमानमुक्तम् । तदप्येतैनैवापास्तं बोद्धव्यम् । पक्षस्य प्रत्यक्षवाधितत्वेन हेतोः कालालयापदिष्टत्वात् । यच्च तत्सिद्धौ प्रतिभासमानत्वसाधनमुक्तम् । तदपि साधनाभासत्वेन न प्रकृतसाध्यसाधनायालम् । प्रतिभासमानत्वं हि निखिलभावानां स्वतः परतो वा । न तावत्स्वतो, घटपटमुकुटशकटादीनां स्वतः प्रतिभासमानत्वेनासिद्धेः । परतः प्रतिभासमानत्वं च परं विना नोपपद्यते । इति ।

और जो उन्होंने ‘ विधि ही तत्त्व है प्रमेय होनेसे ऐसा अनुमान कहा है, उसका भी इस उक्त कथनसे ही खंडन होगया;

क्योंकि; विधि ही तत्त्व है यह पक्ष प्रत्यक्षप्रमाणसे बाधित है, अतः हेतु कालात्ययापदिष्ट है। और जो उन्होंने परमब्रह्मकी सिद्धिके लिये प्रतिभासमानत्वरूपी साधनको कहा है अर्थात् 'श्राम आराम आदि पदार्थ प्रतिभासके अन्तर्गत हैं, प्रतिभासमान होनेसे' इस अनुमानमें प्रतिभासमानत्वको हेतु बनाया है, वह भी हेत्वाभास होनेके कारण प्रकृत साध्यको सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं है। क्योंकि, समस्त पदार्थोंके जो प्रतिभासमानत्व है; वह स्वतः (अपने आपहीसे) है^१ अथवा पर पदार्थसे है^२ अर्थात् पदार्थ स्वयं प्रतिभासते है अथवा परसे ? यदि वे कहें कि, पदार्थ स्वतः प्रतिभासते है, सो तो ठीक नहीं; क्योंकि घट, पट, और मुकुट आदि पदार्थोंके स्वतः प्रतिभासमानता सिद्ध नहीं है। और यदि वे पदार्थोंके परसे प्रतिभासमानत्व कहें तो वह परसे प्रतिभासमानत्व पर पदार्थोंके विना सिद्ध नहीं हो सकता है।

यच्च परमब्रह्मविवर्तित्वमखिलभेदानामित्युक्तम् । तदप्यत्र स्थलेऽन्वीयमानद्वयाविनाभावित्वेन पुरुषाद्वैतं प्रतिबध्नात्येव । न च घटादीनां चैतन्यान्वयोऽप्यस्ति मृदाद्यन्वयस्यैव तत्र दर्शनात् । ततो न किञ्चिदेतदपि । अतोऽनुमानादपि न तत्सिद्धिः ।

और जो समस्त भेदोंके परमब्रह्मविवर्तित्व कहा है, वह भी इस स्थलमें अन्वीयमान (संबंधको प्राप्त होते हुए) द्वयके साथ व्याप्तिको धारण करता है अर्थात् ' सब पदार्थ ब्रह्मविवर्त है सत्त्वरूप एकरूपसे संबद्ध होनेके कारण' इस अनुमानमें दोके विना संबंध ही नहीं हो सकता है, क्योंकि, जब भिन्न २ दो पदार्थ होते हैं तभी उनके परस्पर संबंध होता है। अतः यह अनुमान एक परमब्रह्मही तत्त्व है इसरूप पुरुषाद्वैतको खंडित करता ही है। और घटादि पदार्थोंके मध्यमें चैतन्यका अन्वय (ज्ञानका संबंध) भी नहीं है, क्योंकि; घटादि पदार्थोंमें मृत्तिका आदिका ही अन्वय देखा जाता है इसकारण अनुमानसे भी एकपरमब्रह्मात्मक तत्त्व सिद्ध नहीं होता है।

किञ्च पक्षहेतुदृष्टान्ता अनुमानोपायभूताः परस्परं भिन्ना अभिन्ना वा । भेदे द्वैतसिद्धिरभेदे त्वेकरूपतापत्तिः । तत्कथमेतेभ्योऽनुमानमात्मानमासादयति । यदि च हेतुमन्तरेणापि साध्यसिद्धिः स्यात्तर्हि द्वैतस्यापि वाज्जात्रतः कथं न सिद्धिः । तदुक्तम् " हेतोरद्वैतसिद्धिश्चैद् द्वैतं स्याद्धेतुसाध्ययोः ॥ हेतुना चेद्विना सिद्धिद्वैतं वाज्जात्रतो न किम् ॥ १ "

इस विषयमें और भी विशेष प्रष्टव्य यह है कि,— अनुमानके उपायभूत जो पक्ष, हेतु और दृष्टान्त है, वे परस्पर भिन्न है वा अभिन्न है ? । यदि वादी कहें कि,—पक्ष, हेतु तथा दृष्टान्त परस्पर भिन्न है; तब तो द्वैत सिद्ध होता है और यदि कहें कि,—पक्ष, हेतु, दृष्टान्त परस्पर अभिन्न है तो इन सबके एक रूपताकी प्राप्ति होती है, और जब पक्ष-हेतु-दृष्टान्त परस्पर एकरूप होंगे तो इन पक्ष-हेतु-दृष्टान्तोंसे अनुमान अपने स्वरूपको कैसे प्राप्त होगा अर्थात् अनुमानकी उत्पत्ति ही न होगी । और यदि कहें कि; हेतुके विना भी साध्यकी सिद्धि होती है, तो आगमसे वा कहने मात्रसे ही द्वैतकी सिद्धि भी कैसे न होगी ? अर्थात् जैसे वे हेतुके विना पुरुषद्वैतको मानते हैं, उसीप्रकार द्वैतको भी क्यों नहीं मानते है ? सो ही कहा है, कि,—“ हेतुसे अद्वैतको सिद्ध किया जावे तब तो हेतु और साध्य इन दोनोंका द्वैत सिद्ध होगा ? और यदि हेतुके विना ही अद्वैतको सिद्ध करें तो केवल वचनमात्रसे द्वैतकी सिद्धि क्यों न होगी । ? । ” अथवा यदि यहां वाङ्मात्रशब्दसे आगम अर्थका ग्रहण किया जावे तो यह अर्थ होता है कि यदि हेतुके विना केवल आगमसे ही एक परमब्रह्मको सिद्ध करें तो एक तो परमब्रह्मतत्त्व है ही और दूसरा आगमतत्त्व हो जायगा, इसकारण आगमसे भी द्वैतकी सिद्धि होती है ।

“ पुरुष एवेदं सर्वम् ” इत्यादेः, “ सर्वं वै खल्विदं ब्रह्म ” इत्यादेश्चागमादपि न तत्सिद्धिः । तस्यापि द्वैताविनाभावित्वेन अद्वैतं प्रति प्रामाण्यासम्भवात् । वाच्यवाचकभावलक्षणस्य द्वैतस्यैव तत्रापि दर्शनात् । तदुक्तम् । ‘ कर्मद्वैतं फलद्वैतं लोकद्वैतं विरुध्यते । विद्याविद्याद्वयं न स्याद्वन्धमोक्षद्वयं तथा ॥ १ ॥ ” ततः कथमागमादपि तत्सिद्धिः । ततो न पुरुषाद्वैतलक्षणेकमेव प्रमाणस्य विषयः । इति सुव्यवस्थितः प्रपञ्चः । इति काव्यार्थः ॥१३॥

और ‘यह सब पुरुष ही है’ ‘यह सब ब्रह्म ही है’ इत्यादि जो आगमप्रमाण है, उससे भी उस एक ही परम ब्रह्मकी सिद्धि नहीं होती है। क्योंकि; वह आगम भी द्वैतके विना नहीं हो सकता है, इसकारण अद्वैतको सिद्ध करनेके अर्थ उसको प्रमाणता नहीं हो सकती है। क्योंकि, उस आगममें भी वाच्यवाचकभावरूप (शब्द अर्थरूप) द्वैत ही देखा जाता है । सो ही कहा है कि— ‘कर्मद्वैत, फलद्वैत, लोकद्वैत, विद्या और अविद्याका द्वय तथा बंध और मोक्षका द्वय ये सब विरुद्ध होते है ॥ १ ॥’ भावार्थ— यदि अद्वैतहीको माना जावे तो पुण्य-पापरूपी कर्मोंका द्वैत न होगा, उसके न होनेपर उसका फलरूप सुख-दुःखरूपी द्वैत न होगा। उसके न होनेपर इसलोक तथा परलोकरूप द्वैत न होगा। यदि अविद्याके उदयसे पुण्य-पापादिका द्वैत मानें तो पुण्य-पापके

विना विद्या अविद्याका द्वैत न होगा और विद्या अविद्याके द्वैतके विना बंधमोक्षका द्वैत न होगा । अर्थात् आगमके न माननेपर सर्व व्यवस्था लुप्त हो जायगी इसकारण आगमसे भी उस एक परम ब्रह्मकी सिद्धि नहीं होती है । और जब ऐसा हुआ तो एकपरमब्रह्मरूप तत्त्वही प्रमाणका विषय न रहा, किन्तु अन्य पदार्थ भी प्रमाणके विषय हुए और इसप्रकारसे प्रपंच सुव्यवस्थित हो गया अर्थात् वेदान्ती जो एक परमब्रह्मको ही सत्स्वरूप मानते थे और प्रपंचको मिथ्यारूप मानते थे उसका खंडन हुआ और जिस प्रकार ब्रह्म तत्त्व है, उसी प्रकार संसारके सभी पदार्थ तत्त्व हैं यह सिद्ध होगया; इस प्रकार काव्यका अर्थ है ॥ १३ ॥

अथ स्वाभिमतसामान्यविशेषोभयात्मकवाच्यवाचकभावसमर्थनपुरस्सरं तीर्थान्तरीयप्रकल्पिततदेकान्तगोचराच्यवाचकभावनिरासद्वारेण तेषां प्रतिभावैभवाऽभावमाहः—

अत्र आचार्य अपने अभीष्ट ऐसे सामान्य तथा विशेष इन दोनों स्वरूपोंके धारक वाच्यवाचकभावका पहिले समर्थन करके तत्पश्चात् अन्यमतावलंबियोंका माना हुआ जो केवल सामान्य तथा केवल विशेषके गोचर ऐसा वाच्य और वाचकभाव है, उसका खंडन करके उसके द्वारा उन अन्यमतियोंके उत्तमबुद्धिरूप संपदाका अभाव कहते हैं, अर्थात् वे वादी बुद्धिरहित है; यह सूचित करते हैंः—

अनेकमेकात्मकमेव वाच्यं द्वयात्मकं वाचकमप्यवश्यम् ।

अतोऽन्यथा वाचकवाच्यकृतावतावकानां प्रतिभाप्रमादः ॥ १४ ॥

सूत्रभावार्थः—वाच्य (कहेयोग्य पदार्थ) सामान्यकी अपेक्षासे एकस्वरूप है, तौभी विशेषकी अपेक्षासे अनेकरूप ही है । और वाचक (उन पदार्थोंको कहेनेवाला शब्द) भी निश्चयकरके सामान्यकी अपेक्षासे एकस्वरूप है और विशेषकी अपेक्षासे अनेकरूप ही है । इसकारण हे नाथ ! जो अन्यमतावलम्बी इस उक्त सिद्धांतके विरुद्ध वाच्यवाचकभावकी कल्पना करते हैं; उनके उत्तम बुद्धिका नाश हो रहा है ॥ १४ ॥

व्याख्या—वाच्यमभिधेयं चेतनमचेतनं च वस्तु (एवकारस्थान्थार्थत्वात्) सामान्यरूपतया एकात्मकमपि व्यक्तिभेदेनाऽनेकमनेकरूपम् । अथवाऽनेकरूपमपि एकात्मकमन्योऽन्यसंवलितत्वादित्थमपि व्याख्याने न दोषः । तथा

च वाचकभेदायकं शब्दरूपं तदप्यवश्यं निश्चितं द्वयात्मकं सामान्यविशेषोभयात्मकत्वादेकानेकात्मकमित्यर्थः । (उभयत्र वाच्यलिङ्गत्वेऽप्यव्यक्तत्वाच्चानुसक्तत्वम् । अवश्यमितिपदं वाच्यवाचकयोरुभयोरप्येकानेकात्मकत्वं निश्चि-
न्वत्तदेकान्तं व्यवाच्छिनत्ति) । अत उपदर्शितप्रकारादन्यथा सामान्यविशेषैकान्तरूपेण प्रकारेण वाचकवाच्यद्वयौ
वाच्यवाचकभावकल्पनायामतावकानामत्वदीयानामन्ययूथ्यानां प्रतिभाप्रमादः प्रज्ञास्वलितमित्यक्षरार्थः । (अत्र
चाल्पस्वरत्वेन वाच्यपदस्य प्राप्तिपाते प्राप्तेऽपि यदादौ वाचकग्रहणं तस्मायोऽर्थप्रतिपादनस्य शब्दाधीनत्वेन वाच-
कस्यार्थत्वज्ञापनार्थम्) तथा च शाब्दिकाः । “न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादहते । अनुविद्धमिव
ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते । १ ।” इति ।

व्याख्यार्थः—“वाच्यम्” कथन करने योग्य चेतन तथा अचेतन पदार्थ “एकात्मकम् अपि” सामान्यरूपतासे एक
स्वरूप है, तौभी “अनेकम्” व्यक्तियोंके भेदसे अनेक रूप है । [‘एकात्मकमेव’ यहाँपर जो एवकार है; वह अपिके अर्थमें
है ।] अथवा मूलमें अर्थात् “अनेकमेकात्मकमेव” यहाँपर अनेक और एक ये दोनों शब्द परस्पर मिले हुए हैं; इस लिये
वाच्य अनेक है, तौभी एकरूप हैं; ऐसा व्याख्यान किया जावे तो उसमें भी कोई दोष नहीं है । और “वाचकम्” पदार्थोका
कथन करनेवाला शब्दरूप वाचक “अपि” भी “अवश्यम्” निश्चय करके “द्वयात्मकम्” सामान्य तथा विशेष; इन दोनों
स्वरूपोंका धारक होनेसे एक और अनेकरूप है । [वाच्य और वाचक ये दोनों शब्द यद्यपि वाच्यलिङ्गके धारक हैं तथापि
अव्यक्ततासे यहाँपर नपुंसकलिङ्गका प्रयोग किया गया है । और मूलमें जो अवश्य यह पद दिया गया है; वह वाच्य और
वाचक इन दोनोंमें ही एक तथा अनेकपनेका निश्चय करता हुआ वाच्य और वाचकके उस एक तथा अनेकपनेके एकात्मको
दूर करता है ।] “अतः” इस ऊपर दिखाये हुए प्रकारसे “अन्यथा” सामान्य और विशेषके एकांतरूप प्रकारसे “वा-
चकवाच्यद्वयौ” वाचक और वाच्यभावकी कल्पना करनेमें “अतावकानाम्” हे जिनेंद्र ! आपसे सम्बन्ध न रखनेवालोंके
अर्थात् अन्य मतावलम्बियोंके “प्रतिभाप्रमादः” बुद्धिका नाश है, इस प्रकार अक्षरोंका अर्थ है । “वाचकवाच्यद्वयौ”
यहाँपर यद्यपि अल्पस्वरूपनेसे वाच्यपदका पूर्वनिपात प्राप्त होता था तौभी जो पहिले वाच्यका ग्रहण न करके वाचकका ग्रहण किया
गया है, वह इस बातको विदित करनेके लिये है कि, प्रायः अर्थका प्रतिपादन करना शब्दके अधीन है, इसलिये वाचक अर्थात्

शब्द वाच्यकी अपेक्षा पूज्य है। सो ही वैयाकरण कहते हैं कि, “लोकमें ऐसा कोई प्रत्यय नहीं है, जो शब्दके अनुगम (संबंध)के बिना होवे। सब ही ज्ञान शब्दके साथ जुड़ा हुआ ही मानो भासता है” ॥ १ ॥

भावार्थस्त्वेवम् । एके तीर्थिकाः सामान्यरूपमेव वाच्यतया अभ्युपगच्छन्ति । ते च द्रव्यास्तिकनयानुपातिनो मीमेसांकभदाऽद्वैतवादिनः सांख्याश्च । केचिच्च विशेषरूपमेवं वाच्यं निर्वचन्ति । ते च पर्यायास्तिकनयानुसारिणः सौगताः । अपरे च परस्परनिरपेक्षपदार्थपृथग्भूतसामान्यविशेषयुक्तं वस्तु वाच्यत्वेन निश्चिन्वते । ते च नैगमनयानुरोधिनः काणादा आक्षपादाश्च ।

भावार्थ तो इस प्रकार है। कि, एक मतवाले सामान्यरूपको ही वाच्यरूपतासे स्वीकार करते हैं। वे द्रव्यास्तिकनयका अनुसरण करनेवाले मीमांसकमतके एक भेदरूप अद्वैतवादी अर्थात् वेदांती, और सांख्यमतवाले हैं। और कितने ही वादी विशेषरूपको ही वाच्य कहते हैं और वे पर्यायास्तिकनयानुसारी सौगत (बौद्ध) हैं। और दूसरे वादी परस्परकी अपेक्षासे रहित तथा पदार्थसे भिन्नरूप जो सामान्य विशेष हैं, उन करके सहित ऐसे पदार्थको वाच्यरूपतासे निश्चित करते हैं। वे नैगमनयका अनुसरण करनेवाले वैशेषिक तथा नैयायिक हैं।

एतच्च पक्षत्रयमपि किञ्चिच्चर्च्यते। तथाहि—संग्रहनयावलम्बिनो वादिनः प्रतिपादयन्ति। सामान्यमेव तत्त्वं ततः पृथग्भूतानां विशेषाणामदर्शनात्। तथा सर्वमेकमविशेषेण सदितिज्ञानाभिधानाऽनुवृत्तौ लिङ्गानुमितसत्ताकत्वात्। तथा द्रव्यत्वमेव तत्त्वं ततोऽर्थान्तरभूतानां धर्माऽधर्माकाशकालपुद्गलजीवद्रव्याणामनुपलब्धेः। किञ्च ये सामान्यात् पृथग्भूता अन्योऽन्यव्यावृत्त्यात्मका विशेषाः कल्पन्ते, तेषु विशेषत्वं विद्यते न वा?। नो चेन्निःस्वभावताप्रसङ्गः। स्वरूपस्यैवाऽभावात्। अस्ति चेत्तर्हि तदेव सामान्यम्। यतः समानानां भावः सामान्यम्। विशेषरूपतया च सर्वेषां तेषामविशेषेण प्रतीतिः सिद्धैव।

अब इन पूर्वोक्त तीनों ही पक्षोंका कुछ खण्डन करते हैं। सो ही दिखलते हैं:—संग्रहनयको धारण करनेवाले वादी अर्थात्

१ शब्दार्थतया इत्यधिकम् । २ नैगमनयाऽनुगामिनः । इति द्वितीयपुस्तकपाठः । ३ सर्वपदार्थेषु सदितिज्ञानाभिधाने तयोरनुवृत्तिरेव यल्लिङ्गतेनाऽनुमिता सत्ता यस्य तत्तथा ॥

वेदांती और सांख्य कहते हैं कि, सामान्य ही सत्त्व है; क्योंकि उस सामान्यसे भिन्नरूप ऐसे विशेष नहीं देखे जाते हैं। तथा सब एक है; क्योंकि विशेषरहितपनेसे सत् इसप्रकारके ज्ञाननामक जो अतुष्टिरूप लिङ्ग है उसके द्वारा उसकी सत्ताका अनुमान किया जाता है। तथा द्रव्यत्व ही तत्त्व है; क्योंकि उस द्रव्यत्वसे भिन्न पदार्थरूप ऐसे धर्म, अघर्म, आकाश, काल, पुद्गल, और जीव द्रव्य नहीं देखे जाते हैं। और भी विशेष यह है कि, जो सामान्यसे भिन्न ऐसे एक दूसरेकी परस्पर व्यावृत्ति करनेरूप विशेषोंकी कल्पना की जाती है, उन विशेषोंमें विशेषत्व धर्म रहता है वा नहीं रहता है? यदि इस प्रश्नके उत्तरमें कहा जावे कि, विशेषोंमें विशेषत्व नहीं रहता है। तो विशेषोंके स्वभावरहितताका प्रसंग होता है। क्योंकि उन विशेषोंमें विशेषत्वरूप निज-स्वरूपका ही अभाव है। यदि कहा जावे कि, विशेषोंमें विशेषत्व है तो वह विशेषत्व ही सामान्य है। क्योंकि समानोंका जो भाव है; वही सामान्य कहलाता है और विशेषरूपतासे उन सब सामान्योंके समानरूपतासे प्रतीति सिद्ध ही है।

अपि च विशेषाणां व्यावृत्तिप्रत्ययहेतुत्वं लक्षणम्। व्यावृत्तिप्रत्यय एव च विचार्यमाणो न घटते। व्यावृत्तिर्हि विवक्षितपदार्थ इतरपदार्थप्रतिषेधः। विवक्षितपदार्थश्च स्वस्वरूपव्यवस्थापनमात्रपर्यवसायी कथं पदार्थान्तरप्रतिषेधे प्रगल्भते?। न च स्वरूपसत्त्वादन्यत्तत्र किमपि येन तन्निषेधः प्रवर्तते। तत्र च व्यावृत्तौ क्रियमाणायाम् स्वात्मव्यतिरिक्ता विश्वत्रयवर्त्तिनोऽतीतवर्त्तमानाऽनागताः पदार्थास्तस्माद् व्यावर्त्तनीयाः। ते च नाज्ञातस्वरूपा व्यावर्त्तयितुं शक्याः। ततश्चैकस्यापि विशेषस्य परिज्ञाने प्रमातुः सर्वज्ञत्वं स्यात्। न चैतल्यातीतिकं यौक्तिकं वा। व्यावृत्तिस्तु निषेधः। स चाऽभावरूपत्वाच्चुच्छः कथं प्रतीतिगोचरमश्नति खपुष्पवत्।

और विशेषोंका व्यावृत्ति प्रत्ययका हेतुरूप लक्षण है। और जब विचार करते हैं तो विशेषोंमें व्यावृत्ति प्रत्यय ही सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि, किसी विवक्षित पदार्थमें अन्यपदार्थका जो निषेध है, उसको व्यावृत्ति कहते हैं। और निजस्वरूपके स्थापन (सिद्ध करने) मात्रों ही समाप्त हो जानेवाला विवक्षित पदार्थ अन्य पदार्थोंके निषेध करनेमें कैसे प्रवृत्ति कर सकता है?। और स्वरूपसत्त्वके अर्थात् निजरूपमें विद्यमानताके सिवाय उस पदार्थमें अन्य कुछ भी नहीं है, जिससे कि, अन्यपदार्थोंके निषेधकी प्रवृत्ति होवे। और उसमें यदि व्यावृत्ति की जावे, तो उस पदार्थके निजस्वरूपसे भिन्न ऐसे जो तीनलोकमें रहनेवाले भूत, भविष्यत् और वर्तमानकाल सम्बन्धी सभी पदार्थ वे उस पदार्थसे भिन्न करने योग्य होवेंगे। और नहीं जाना गया है स्वरूप

जिनका ऐसे वे पदार्थ उस पदार्थके निज स्वरूपसे भिन्न नहीं किये जा सकते है। और फिर इसलिये एक पदार्थका विशेष स्वरूप जाननेपर सब पदार्थके स्वरूपका ज्ञान होजानेसे प्रमाता (जाननेवाले) के सर्वज्ञपना सिद्ध होने लगेगा। और यह अर्थात् एक विशेषके जाननेसे सर्वज्ञताका होना प्रतीति करनेयोग्य अथवा युक्तिसंगत नहीं है। व्यावृत्तिका अर्थ निषेध है। और वह निषेध अभावरूप होनेसे तुच्छ है, इस कारण जैसे आकाशका पुष्प अभावरूप होनेसे प्रतीतिके गोचर नहीं होता है, उसी प्रकार यह व्यावृत्ति भी प्रतीतिके विषयपनेको कैसे प्राप्त हो सकती है ?।

तथा येभ्यो व्यावृत्तिसे सद्रूपा असद्रूपा वा ? असद्रूपाश्चेत्तर्हि खरविषाणात् किं न व्यावृत्तिः ? सद्रूपाश्चेत्सामान्यमेव । या चेयं व्यावृत्तिविशेषः क्रियते सा सर्वासु विशेषव्यक्तियेका अनेका वा ? अनेका चेत्तस्या अपि विशेषत्व्यापत्तिरेकरूपत्वैकजीवितत्वाद्विशेषाणाम् । ततश्च तस्या अपि विशेषत्वान्यथानुपपत्तेर्व्यावृत्त्या भाव्यम् । व्यावृत्तेरपि च व्यावृत्तौ विशेषाणामभाव एव स्यात्; तत्स्वरूपभूताया व्यावृत्तेः प्रतिपिद्धत्वादनवस्थापाताच्च । एका चेत्सामान्यमेव संज्ञान्तरेण प्रतिपन्नं स्यादनुवृत्तिप्रत्ययलक्षणाऽव्यभिचारात् । किं चामी विशेषाः सामान्याऽन्निन्ना अभिन्ना वा ? भिन्नाश्चेन्मण्डूकजटाभाराजकाराः । अभिन्नाश्चेत्तदेव तत्स्वरूपवत् । इति सामान्यैकान्तवादाः ।

तथा जिन पदार्थसे व्यावृत्ति की जाती है वे पदार्थ सत्स्वरूप हैं वा असत्स्वरूप हैं ? यदि कहे कि; वे पदार्थ असत्स्वरूप है तो अभावरूप गेधके सीगसे भी व्यावृत्ति क्यों नहीं होती है ? यदि कहे कि, वे पदार्थ सत्स्वरूप हैं; तो वे पदार्थ सामान्यरूप ही हुए। और विशेष पदार्थ जिस व्यावृत्तिको करते है, वह व्यावृत्ति सत्र विशेष व्यक्तियोंमें एक ही है ? अथवा अनेक है ? यदि कहे कि, अनेक है, तो वह व्यावृत्ति भी विशेषरूप ही हुई। क्योंकि; विशेषोंके अनेकरूपपना ही एक जीवित है अर्थात् अनेकरूपता ही विशेषोंका स्वरूप है। और तब उस व्यावृत्तिकी भी विशेषरूपताके सिवाय अन्यप्रकार सिद्धि न होनेसे अर्थात् व्यावृत्ति विशेषरूपा सिद्ध होनेसे व्यावृत्तिसे भी अन्य व्यावृत्ति होनी चाहिये। और यदि व्यावृत्तिकी भी व्यावृत्ति हो तो विशेषोंका अभाव ही होजायगा। क्योंकि; विशेषस्वरूप जो व्यावृत्ति है उसका प्रतिषेध ही विशेषोंका अभाव है। और अनवस्था दोषकी भी प्राप्ति होती है। यदि कहे कि व्यावृत्ति एक है तो दूसरे नाममात्रसे तुमने सामान्यको ही स्वीकार किया। क्योंकि; अनुवृत्तिप्रत्ययरूप जो सामान्यका लक्षण है वह यहां घट जाता है, व्यभिचार नहीं है। यहांपर और भी विशेष कथन यह है कि, ये विशेष सामान्यसे भिन्न है ? कि अभिन्न है ? यदि कहे

कि भिन्न हैं तो मेंडकके जटाभारके समान है। यदि कहो कि अभिन्न है तो जैसे सामान्यसे अभिन्न होनेके कारण सामान्यका स्वरूप सामान्यरूप है उसी प्रकार वे विशेष भी सामान्यरूप ही होंगे। इस प्रकार सामान्यका एकांतविषयक वाद है।

प्रत्यक्षे स्वरूप सामान्यरूप है उसी प्रकार वे विशेष भी सामान्यरूप ही होंगे। इस प्रकार सामान्यका एकांतविषयक वाद है।
 प्रत्यायनयान्वयिनस्तु भाषन्ते।-विविक्ताः क्षणक्षयिणो विशेषा एव परमार्थः; ततो विव्वग्भूतस्य सामान्यस्याऽप्रती-
 य मानत्वात् । न हि गवादिव्यक्त्यनुभवकाले वर्णसंस्थानात्मकं व्यक्तिरूपमपहायाऽन्यत्किंचिदेकमनुयायि प्रत्यक्षे-
 प्रतिभासते; तादृशस्थानुभवाभावात् । तथा च पठन्ति । “एतासु पञ्चस्ववर्णसिनीषु प्रत्यक्षबोधे स्फुटमङ्गुलीषु व्य-
 साधारणं रूपमवेक्षते यः शृङ्गं शिरस्यात्मन ईक्षते सः । १ ।” एकाकारपरामर्शप्रत्ययस्तु स्वहेतुदत्तशक्तिभ्यो व्य-

क्तिभ्य एवोत्पद्यते । इति न तेन सामान्यसाधनं न्याय्यम् ।
 अव पर्यायस्तिक नयके अनुयायी बौद्ध कहते हैं कि, भिन्न और क्षण क्षणमें नष्ट होनेवाले जो विशेष है वे ही परमार्थ-
 रूप है। क्योंकि; उन विशेषोंसे भिन्नरूप किसी सामान्यकी प्रतीति नहीं होती है। कारण कि गौआदि व्यक्तियोंका जिस समय
 अनुभव होता है उस समय वर्ण (रंग) तथा संस्थानस्वरूप जो व्यक्तिका आकार है, उसको छोड़कर अन्य कुछ भी एक तथा सब
 व्यक्तियोंमें चले आते हुए पदार्थका अर्थात् सामान्यका प्रत्यक्षमें प्रतिभास नहीं होता है, क्योंकि ऐसे किसी पदार्थका अनुभव ही नहीं
 होता है। सो ही विद्वानोंने कहा है कि “ प्रत्यक्ष ज्ञानमें प्रकटरूपसे दीखती हुई इन पांचों अंगुलियोंमें जो साधारण रूपको
 अर्थात् सामान्यको देखता है वह पुरुष अपने मत्तकपर सींगको देखता है। ” और एक आकारके विचारकी प्रतीति तो
 अपने कारणोंसे उत्पन्न हुई है शक्ति जिनमें ऐसी व्यक्तियोंसे ही उत्पन्न होती है। इस कारण उस अनुवृत्तिप्रत्ययसे जो सामान्यको
 सिद्ध किया जाता है वह न्यायसंगत नहीं है।

किं च यदिदं सामान्यं परिकल्प्यते तदेकमेकं वा ? एकमपि सर्वगतमसर्वगतं वा ? सर्वगतं चेत्किं न व्य-
 क्त्यन्तरालेषूपलभ्यते ? । सर्वगतैकत्वाऽभ्युपगमे च तस्य यथा गोत्वसामान्यं गोव्यक्तीः कोडीकरोति एवं किं

न घटपटादिव्यक्तीरपि; अविशेषात् ? । असर्वगतं चेद्विशेषरूपापत्तिरभ्युपगमबाधश्च ।
 और भी अधिक वक्तव्य यह है, कि जो यह सामान्य कल्पित किया जाता है, वह सामान्य एकरूप है ? अथवा अनेकरूप है ?
 यदि कहो कि एक है तो भी प्रश्न होता है कि वह सामान्य सर्वगत है वा असर्वगत है ? यदि कहो कि सर्वगत है तो वह

व्यक्तियोंके व्यवधानमें क्यों नहीं मिलता है? और सामान्यको सर्वगत तथा एक माननेपर जैसे गोत्व(गौओंमें रहनेवाला)सामान्य सम्पूर्ण गोव्यक्तियोंमें व्यापकर रहता है; उसी प्रकार घट पट आदि व्यक्तियोंको भी क्यों नहीं ग्रहण करता है। क्योंकि; अविशेष है अर्थात् वह सामान्य सर्वगत तथा एक है इस कारण उसके समक्षमें जैसी गौ है उसी प्रकार अन्य व्यक्तिये भी है। यदि कहो कि, वह सामान्य एक तथा असर्वगत है तो उस सामान्य विशेषरूप ठहरता है और तुम्हारे मतका भी खंडन होता है।

अथाऽनेकं गोत्वाऽश्वत्वघटत्वपटत्वादिभेदभिन्नत्वात्ते तर्हि विशेषा एव स्वीकृताः; अन्योऽन्यं व्यावृत्तिहेतुत्वात् । न हि यद्गोत्वं तदश्वत्वात्मकमिति । अर्थक्रियाकारित्वं च वस्तुनो लक्षणम् । तच्च विशेषेष्वेव स्फुटं प्रतीयते । न हि सामान्येन काचिदर्थक्रिया क्रियते; तस्य निष्क्रियत्वात्; बाहदोहादिकास्वर्थक्रियासु विशेषाणामेवोपयोगात् । तथेदं सामान्यं विशेषेभ्यो भिन्नमभिन्नं वा ? । भिन्नं चेदवस्तु; विशेषविश्लेषेणाऽर्थक्रियाकारित्वाऽभावात् । अभिन्नं चेद्विशेषा एव तत्स्वरूपवत् । इति विशेषैकान्तवादः ।

यदि कहो कि गोत्व अश्वत्व (घोडापना) घटत्व पटत्व आदि भेदोंसे भिन्न होनेके कारण वह सामान्य अनेकरूप है तो तुमने परस्परकी व्यावृत्ति करनेमें कारण ऐसे विशेष ही स्वीकार किये। क्योंकि; जो गोत्व है वह अश्वपनेरूप नहीं हो सकता है। तथा पदार्थका लक्षण अर्थक्रियाकारित्व है। और वह अर्थक्रियाकारीपना विशेषोंमें ही प्रकटरूपसे प्रतीत होता है। कारण कि, सामान्यसे कोई भी अर्थक्रिया नहीं कीजाती है। क्योंकि; वह क्रियारहित है। और वाहना, दूध दोहना इत्यादिरूप जो अर्थक्रिया है उनमें विशेषोंका ही उपयोग होता है। तथा यह सामान्य विशेषोंसे भिन्न है? वा अभिन्न है? यदि कहो कि भिन्न है तो तुम्हारा माना हुआ सामान्य कोई पदार्थ ही नहीं है। क्योंकि; विशेषसे भिन्न होनेके कारण इसमें अर्थक्रियाकारित्वका अभाव है। यदि कहो कि अभिन्न है तो विशेषोंके स्वरूपके समान वह सामान्य भी विशेष ही हुआ। विशेषको ही सर्वथा माननेवालोका इस प्रकार कहना है ॥

नैगमनयाऽनुगामिनस्त्वाहुः ।—स्वतन्त्रौ सामान्यविशेषौ; तथैव प्रमाणेन प्रतीतत्वात् । तथाहि । सामान्यविशेषावयन्तभिन्नौ; विरुद्धधर्माध्यासितत्वात् । यावेवं तावेवं यथा पाथःपावकौ । तथा चैतौ । तस्मात्तथा । सामान्यं हि गोत्वादि सर्वगतम् । तद्विपरीताश्च शबलशाबलैयादयो विशेषाः । ततः कथमेपामैक्यं युक्तम् ?

नैगमनयका अनुसरण करनेवाले ऐसे जो वैशेषिक और नैयायिक हैं वे कहते हैं कि, सामान्य तथा विशेष ये दोनों स्वतंत्र (स्वाधीन अर्थात् परस्पर निरपेक्ष) है। क्योंकि, प्रमाणद्वारा ऐसे ही प्रतीत होते हैं। सो ही दिखलाते हैं। सामान्य और विशेष ये दोनों अत्यंत भिन्न है। क्योंकि, विरुद्ध धर्मका धारण करनेवाले है। जो विरुद्ध धर्मके धारक होते हैं वे एक दूसरेसे अत्यंत भिन्न होते हैं। जैसे कि जल और अग्नि। ये दोनों परस्पर विरुद्ध धर्मके धारक होनेसे अत्यंत भिन्न है। उसी प्रकार ये दोनों सामान्य विशेष भी विरुद्ध धर्मके धारक है इस कारण अत्यत भिन्न है। क्योंकि गोत्व (गौपना) आदि जो सामान्य है वह भिन्न होते हैं। जैसे कि जल और अग्नि। ये दोनों परस्पर विरुद्ध धर्मके धारक होनेसे विपरीत अर्थात् असर्वगत सामान्य विशेष और गौव्यक्तिके प्राप्त जो कर्तुरवर्ण तथा चित्रवर्ण आदि रूपविशेष है, वे सामान्यसे विपरीत अर्थात् असर्वगत तो सर्वव्यापी है और सामान्य और विशेष इन दोनोंकी एकता कैसे ठीक हो सकती है? अर्थात् सामान्य और विशेष ये दोनों एक नहीं है। इस कारण सामान्य और विशेष इति चेत् कथं तर्हि तस्योपलम्भ इति वाच्यम्? सामान्यव्याप्तस्येति चेन्न न सामान्यात्पृथग्विशेषस्योपलम्भ इति चेत् कथं तर्हि तस्योपलम्भ इति वाच्यम्? सामान्यव्याप्तस्येति चेन्न तर्हि स विशेषोपलम्भः सामान्यस्यापि तेन ग्रहणात्। ततश्च तेन बोधेन विविक्तविशेषग्रहणाऽभावात् तद्वाचकं ध्वनिं तत्साध्यं च व्यवहारं न प्रवर्तयेत्प्रमाता। न चैतदस्ति; विशेषाभिधानव्यवहारयोः प्रवृत्तिदर्शनात्। तस्माद्विशेषमभिलषता तत्र च व्यवहारं प्रवर्तयता तद्ग्राहको बोधो विविक्तोऽभ्युपगन्तव्यः।

यदि कही कि, सामान्यसे जुदा विशेष कहीं नहीं मिलता है, तो उस विशेषकी प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि, उसके द्वारा चाहिये। यदि कही कि, सामान्यके साथ मिले हुए विशेषकी प्राप्ति होती है; तो वह विशेषकी प्राप्ति नहीं हुई। प्रमाण (ज्ञान कर-सामान्यका भी ग्रहण होता है। और इस कारण उस ज्ञानद्वारा सामान्यसे भिन्न शुद्ध विशेषका ग्रहण न होनेसे प्रमाता (ज्ञान कर-नेवाला) उस विशेषके कहनेवाली ध्वनि (शब्द) को और उस शब्दसे साध्य ऐसे व्यवहारको नहीं प्रवर्तव्य। परंतु ऐसा है नहीं। क्योंकि, विशेषके वाचक शब्द की तथा विशेषजन्य व्यवहारकी प्रवृत्ति देखी जाती है। इस कारण विशेषको चाहनेवाले और उसमें व्यवहारके प्रवर्तवनेवाले पुरुषको उस विशेषका ग्रहण करनेवाला भिन्न ज्ञान स्वीकार करना चाहिये।

एवं सामान्यस्थाने विशेषशब्दं विशेषस्थाने च सामान्यशब्दं प्रयुञ्जानेन सामान्येऽपि तद्ग्राहको बोधो विविक्तोऽङ्गीकर्तव्यः। तस्मात्स्वस्वग्राहिणि ज्ञाने पृथक् प्रतिभासमानत्वाद् द्वावपीतेतरविशकलितौ। ततो न सामान्यविशेषात्मकत्वं वस्तुनो घटते। इति स्वतन्त्रसामान्यविशेषवादः।

इस प्रकार सामान्यके स्थानमें विशेषशब्दका और विशेषके स्थानमें सामान्यशब्दका प्रयोग करनेवाले पुरुषको सामान्यमें भी उसको ग्रहण करनेवाला शुद्ध ज्ञान स्वीकार करना चाहिये। इस कारण निज निजको ग्रहण करनेवाले ज्ञानमें जुड़े जुड़े प्रतिभासित होनेसे सामान्य और विशेष ये दोनों ही परस्पर एक दूसरेसे भिन्न है। और इस कारण पदार्थका सामान्यविशेषात्मकपना सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार स्वतंत्र सामान्य तथा विशेषका मंडनरूप कथन है।

तदेतत्पक्षत्रयमपि न क्षमते क्षोदं; प्रमाणबाधितत्वात् सामान्यविशेषोभयात्मकस्यैव च वस्तुनो निर्विगानमनुभूयमानत्वात्। वस्तुनो हि लक्षणमर्थक्रियाकारित्वम्। तच्चाऽनेकान्तवादे एवाऽविकलं कलयन्ति परीक्षकाः। तथा हि। यथा गौरित्युक्ते खुरककुद्सात्त्वालाङ्गुलविषाणाद्यवयवसंपन्नं वस्तुस्वरूपं सर्वव्यक्त्यनुयायि प्रतीयते तथा महिष्यादिव्यावृत्तिरपि प्रतीयते।

वे ये तीनों ही पक्ष विचारनेपर नहीं ठहरते हैं। क्योंकि, प्रमाणसे बाधित है। कारण कि, सामान्य तथा विशेष इन दोनों-स्वरूप जो पदार्थ है, उसीका निर्दोषरूपसे अनुभव होता है। क्योंकि; वस्तुका लक्षण अर्थक्रियाकारित्व है। और परीक्षको को वह लक्षण अनेकांतवाद (जैनमत) में ही परिपूर्णरूपसे दीखता है। सो ही दिखलते है कि, जैसे गौ ऐसा कहनेपर खुर थूवा गलकन्धूल पूंछ और सींग आदि अवयवों (शरीरके भागों) सहित ऐसा गौका स्वरूप समस्त गोव्यक्तियोंमें रहनेवाला प्रतीत होता है उसी प्रकार भैस आदि पशुओंसे भिन्नता भी प्रतीत होती है।

यत्रापि च शबला गौरित्युच्यते तत्रापि यथा विशेषप्रतिभासस्तथा गोत्वप्रतिभासोऽपि स्फुट एव। शबलेति केवलविशेषणोच्चारणेऽपि अर्थाल्पकरणाद्वा गोत्वमनुवर्तते। अपि च शबलत्वमपि नानारूपं; तथा दर्शनात्। ततो वक्त्वा शबलेत्युक्ते क्रीडीकृतसकलशबलसामान्यं विवक्षितगोव्यक्तिगतमेव शबलत्वं व्यवस्थाप्यते। तदेवमात्राल-गोपालं प्रतीतिप्रसिद्धेऽपि वस्तुनः सामान्यविशेषात्मकत्वे तदुभयैकान्तवादः प्रलापमात्रम्। न हि क्वचित्कदाचि-त्केनचित्सामान्यं विशेषविनाकृतमनुभूयते। विशेषा वा तद्विनाकृताः। केवलं दुर्णयप्रभावितमतिव्यामोहं वशादे-कमपलप्याऽन्यतरह्यवस्थापयन्ति वालिशाः। सोऽयमन्धजन्त्यायः।

और भी-यह गौ शबल (काबुरी) है ऐसा जहां कहते है वहां भी जैसे विशेषका प्रतिभास होता है उसी प्रकार गोत्व

सामान्यका भी प्रतिभास स्पष्ट रीतिसे होता ही है। और यदि शबल ऐसे केवल विशेषणकाही उच्चारण किया जाय तो भी वहां अर्थसे वा प्रकरणसे गोल्व सामान्यकी अनुवृत्ति होती ही है। और विशेष कहना यह है कि-शबलपना भी अनेक प्रकारका देखा जाता है। इस कारण शबल है, ऐसा मुखसे कहनेपर समस्त शबलत्व सामान्यको ग्रहण करके विवक्षित गो व्यक्तिके प्राप्त हुआ ही शबलपना सिद्ध किया जाता है। सो इस प्रकार बालकसे लेकर गोपालपर्यंत प्रतीतिद्वारा प्रसिद्ध ऐसे भी पदार्थके सामान्यविशेषात्मक स्वरूपमें परस्पर स्वतंत्र सामान्य विशेषका कथन करना प्रलापमात्र ही है। क्योंकि, विशेषके विना किये हुए सामान्यका अथवा सामान्यके विना किए हुए विशेषका किसी स्थलमें और किसी समयमें किसीने भी अनुभव नहीं किया है। केवल एकांत पक्षरूपी दुर्नयकी वासनाको प्राप्त हुई अर्थात् एकांतपक्षकी धारक बुद्धिके व्यामोहवश होकर मूर्ख जन एकको छिपाकर दूसरेका स्थापन करते हैं। परंतु यह अध्याजन्याय है। भावार्थ—जैसे जन्मांध पुरुष हाथीके एक एक अवयवको ग्रहण करके हाथीका स्वरूप जुड़े जुड़े प्रकारसे सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार एकांतपक्षसे अंधी हुई बुद्धिके धारक पुरुष भी सामान्य विशेष इन दोनोंमेंसे एकको छिपाकर दूसरेको सिद्ध करते हैं।

येपि च तदेकान्तपक्षोपनिपातिनः प्रागुक्ता दोषास्तेष्यनेकान्तवादप्रचण्डमुद्गरप्रहारजर्जरितत्वाशोन्वृत्तिसितुमपि श्रमाः।

और जो उन एकान्त पक्षोंके माननेमें संभवते दोष दिखाये थे वे भी अनेकान्तवादरूपी प्रचण्ड मूसलके प्रहारकर जर्जरित होनेसे श्रम भी नहीं लेसकते हैं। अर्थात् अनेकांतवादसे खंडित होजानेके कारण निष्फल है। स्वतंत्रसामान्यविशेषवादिनस्त्वेवं प्रतिक्षेप्याः।—सामान्यं प्रतिव्यक्ति कथंचिदभिन्नं; कथंचित्तात्मकत्वाद्द्विसदृशपरिणामवत्। यथैव हि काचिद्व्यक्तिरुपलभ्यमाना व्यत्यन्तराद्विशिष्टा विसदृशपरिणामदर्शनादवतिष्ठते तथा सदृशपरिणामात्मकसामान्यदर्शनात् समानेति; तेन समानो गौरयं सोनेन समान इति प्रतीतेः। न चास्य व्यक्ति-स्वरूपादभिन्नत्वात्सामान्यरूपताव्याघातः। यतो रूपदीनामपि व्यक्तिस्वरूपादभिन्नत्वमस्ति; न च तेषां गुणरूपता-अव सामान्य तथा विशेष पदार्थोंको सर्वथा स्वतंत्र माननेवालोंका निराकरण इस प्रकार करना चाहिये।—सामान्य भी कथंचि-

द्विशेषरूप ही होनेके कारण व्यक्तिसे किसी प्रकार (कथंचित्) अभिन्न ही है। जैसे विशेष परिणाम। क्योंकि, जैसे दीखती हुई कोई वस्तु, अन्य वस्तुओंसे विशेषरूप भिन्न दिखनेसे प्रतिविशेषाकाररूप प्रतिभासती है तैसे ही समान परिणामस्वरूप सामान्य धर्मके दीखनेसे यह उसके समान है इस प्रकार भी वह प्रतिभासित होती है। क्योंकि, यह गौ उसके समान है अथवा वह इसके समान है ऐसी प्रतीति सर्वजनोंमें प्रसिद्ध है। और यह सामान्यरूप वस्तुके स्वरूपसे अभिन्न है इतने मात्रसे वस्तुमें सामान्यपनेका अभाव हो जाय ऐसा नहीं है। क्योंकि, रूपादिक भी वस्तुसे अभिन्न है परंतु इसलिये रूपादिकोंमें गुणपना न रहे ऐसा नहीं है। व्यक्ति तथा सामान्यके नामादिक भिन्न होनेकी अपेक्षा व्यक्ति तथा सामान्यमें कथंचित् भेद भी है परंतु ऐसा भेद रूपादिक तथा व्यक्तिमें भी है ही। विशेषा अपि नैकान्तेन सामान्यात्पृथग्भविष्यतीतिः यतो यदि सामान्यं सर्वगतं सिद्धं भवेत्तदा तेषामसर्वगतत्वेन ततो विरुद्धधर्माध्यासः स्यात्। न च तस्य तत्सिद्धं; प्रागुक्त्युक्त्या निराकृतत्वात्; सामान्यस्य विशेषाणां च कथंचित्परस्परव्यतिरेकैकानेकरूपतया व्यवस्थितत्वात्। विशेषेभ्योऽव्यतिरिक्तत्वाद्धि सामान्यमभ्यनेकमिष्यते। सामान्यास्तु विशेषाणामव्यतिरेकेण तेषामभ्येकरूपता इति।

अनेकांतवादके कथनानुसार विशेष भी सामान्यसे जुड़े नहीं रह सकते हैं। क्योंकि, यदि सामान्य सर्वगत सिद्ध हो तो विशेष पदार्थ सर्वगत न होनेसे सामान्यकी अपेक्षा विरुद्धधर्मवाले माने जाय, परंतु सामान्यमें सर्वगतपना ही सिद्ध नहीं है। सामान्यमें सर्वगतपनेका निराकरण पंहेले ही युक्तिपूर्वक कर चुके हैं। यहां भी कुछ कहते हैं। सामान्य तथा विशेषोंमें कथंचित् अभेद सिद्ध होनेसे कथंचित् एकपना तथा कथंचित् अनेकपना भी सिद्ध होता है। सामान्य स्वयं समानपनेसे एकरूप होनेपर भी विशेषरूपोंसे अभिन्न होनेके कारण अनेकरूप भी माना जाता है। ऐसे ही विशेषाकार स्वयं भिन्न होनेपर भी सामान्यसे अभिन्न होनेके कारण एकरूप भी है।

एकत्वं च सामान्यस्य संग्रहनयार्पणात्सर्वत्र विज्ञेयं; प्रमाणार्पणात्तस्य सदृशपरिणामरूपस्य विसदृशपरिणामवत् कथंचित्प्रतिव्यक्ति भेदात्। एवं चासिद्धं सामान्यविशेषयोः सर्वथा विरुद्धधर्माध्यासितत्वम्। कथंचिद्विरुद्धधर्माध्यासितत्वं चेद्विवाक्षितं तदासत्कक्षाप्रवेशः; कथंचिद्विरुद्धधर्माध्यासस्य कथंचिद्धेदाविनाभूतत्वात्। पाथः-पावकदृष्टान्तोपि साध्यसाधनविकलः; तयोरपि कथंचिदेव विरुद्धधर्माध्यासितत्वेन भिन्नत्वेन च स्वीकरणात्।

पयस्त्वपावकत्वादिना भेदश्च, द्रव्यत्वादिना पुनस्तद्विपरीतमिति । तथा च कश्च न सामान्यविशेषात्मकत्वं वस्तुनो घटते? इति । ततः सुष्टूक्तं “वाच्यमेकमनेकरूपम्” इति ।

हि तयोर्विरुद्धधर्माध्यासो भेदश्च, द्रव्यत्वादिना पुनस्तद्विपरीतमिति । तथा च कश्च न सामान्यविशेषात्मकत्वं वस्तुनो घटते? इति । ततः सुष्टूक्तं “वाच्यमेकमनेकरूपम्” इति । सामान्यमें एकता सदा संग्रहनयकी अपेक्षासे ही सर्वत्र जाननी चाहिये । क्योंकि, प्रमाणत्मक ज्ञानकी अपेक्षा तो प्रत्येक व्यक्तिमें जैसे विसदृश परिणाम भिन्न भिन्न है तैसे उस समान परिणामसय सामान्यमें भी प्रतियक्ति कश्चित् भेद ही है । इस प्रकार सामान्य तथा विशेषमें सर्वथा विरुद्धधर्मपेना निराकरण होता है । यदि कश्चित् विरुद्धधर्मपना इष्ट हो तो हमारा इस प्रकार सामान्य तथा विशेषमें सर्वथा विरुद्धधर्म तमी हो सकता है जब भेद भी कश्चित् ही हो, न कि सर्वथा भेद माननेपर । मानना भी गही है । क्योंकि; कश्चित् विरुद्ध धर्म नहीं कर सकता है । क्योंकि; जल तथा अग्निमें भी विरुद्धधर्मपना जल तथा अग्निका दृष्टान्त भी परस्परका भेद सर्वथा सिद्ध नहीं कर सकता है । क्योंकि; जल तथा अग्निमें विरुद्ध धर्म तथा भेद है; द्रव्यत्वादिक तथा भेद कश्चित् ही माना गया है । जैसे जलपने तथा अग्निपनेसे ही जल तथा अग्निमें विरुद्ध धर्म तथा भेद है; इसलिये यह ठीक कहा जाय कि “वाच्यमेकमनेकरूपम्” अर्थात् वस्तु एकरूप भी है तथा अनेकरूप भी है ।

एवं वाचकमपि शब्दाल्यं द्वयात्मकम् (सामान्यविशेषात्मकम्) शब्दस्य हि सामान्यविशेषात्मकत्वं पौद्गलिकत्वा-
शाश्वार्द्धतीव्रमन्दोदात्तादुदात्तस्वरितादिविशेषभेदादनेकम् । शब्दस्य हि सामान्यविशेषात्मकत्वं पौद्गलिकत्वा-
व्याकमेव । तथा हि । पौद्गलिकः शब्दः; इन्द्रियार्थत्वाद्गुणादिवत् ।

इसी प्रकार वस्तुका वाचक शब्द भी एक तथा अनेकरूप अर्थात् सामान्यविशेषात्मक है । वाचकपनेसे सर्व व्यक्तिमें अनुदात्त शब्द तथा स्वरित शब्द इत्यादि अतर्गत भेदोंकी अपेक्षा अनेकरूप भी है । पुद्गलकी पर्यायरूप होनेसे सामान्यविशेषात्मक पना भी शब्दमें नष्ट है । अब पुद्गलपना कैसे है यह दिखाते है । इन्द्रियोंके गोचर होनेसे जैसे रूपरसादिक पुद्गलके अनुदात्त शब्द हैं तैसे शब्द भी पुद्गलका अवस्थाविशेष है ।

वाच्यमेकमनेकरूपम्” अर्थात् वस्तु एकरूप भी है तथा अनेकरूप भी है । सामान्यविशेषात्मकत्वं पौद्गलिकत्वा-
व्याकमेव । तथा हि । पौद्गलिकः शब्दः; इन्द्रियार्थत्वाद्गुणादिवत् ।
इसी प्रकार वस्तुका वाचक शब्द भी एक तथा अनेकरूप अर्थात् सामान्यविशेषात्मक है । वाचकपनेसे सर्व व्यक्तिमें अनुदात्त शब्द तथा स्वरित शब्द इत्यादि अतर्गत भेदोंकी अपेक्षा अनेकरूप भी है । पुद्गलकी पर्यायरूप होनेसे सामान्यविशेषात्मक पना भी शब्दमें नष्ट है । अब पुद्गलपना कैसे है यह दिखाते है । इन्द्रियोंके गोचर होनेसे जैसे रूपरसादिक पुद्गलके अनुदात्त शब्द हैं तैसे शब्द भी पुद्गलका अवस्थाविशेष है ।
वाच्यमेकमनेकरूपम्” अर्थात् वस्तु एकरूप भी है तथा अनेकरूप भी है । सामान्यविशेषात्मकत्वं पौद्गलिकत्वा-
व्याकमेव । तथा हि । पौद्गलिकः शब्दः; इन्द्रियार्थत्वाद्गुणादिवत् ।

शब्दमें पुद्गलपनेका खण्डन करनेके अभिप्रायसे यौगमतवालोंने पांच हेतु दिखाये हैं। (१) शब्द पुद्गलमयी नहीं है। क्योंकि; स्पर्शयुगलरहित है। (२) शब्द पुद्गलमयी नहीं है। क्योंकि; अत्यंत सघन पदार्थोंमेंसे भी प्रवेश करते तथा निकलते हुए रुकता नहीं है। (३) शब्द पुद्गलरूप नहीं है। क्योंकि; शब्दरूप पर्यायके पूर्वोत्तर पर्यायरूप अवयव नहीं दीखते है (४)। शब्द पौद्गलिक नहीं है। क्योंकि; अन्य छोटे छोटे मूर्तिक द्रव्योंको कंपा नहीं सकता है। (५) शब्द पुद्गलका विकार नहीं है। क्योंकि, शब्द आकाशका गुण है। जो पौद्गलिक होता है वह स्पर्शसहित होता है, अति सघन वस्तुमें प्रवेश नहीं कर सकता है तथा उसमेंसे निकल भी नहीं सकता है, आगे पीछेकी अवस्थाके अवयव भी उसके दीखते है, अन्य छोटे छोटे मूर्तिक द्रव्योंको वह कंपाता भी है और जो पुद्गलमयी होता है वह आकाशका गुण नहीं होता है। यौगमतवालोंने के ये पांचो ही हेतु हेत्वाभास है। किस प्रकार हेत्वाभास है सो दिखाते हैं।

शब्दपर्यायस्याश्रयो भाषावर्गणा, न पुनराकाशम्। तत्र च स्पर्शो निर्णीयते एव। यथा-शब्दाश्रयः स्पर्शवान्; अनुवातप्रतिवातयोर्विप्रकृष्टनिकटशरीरिणोपलभ्यमानानुपलभ्यमानान्द्रियार्थत्वात्, तथाविधगन्धाधारद्रव्यपरमाणुवत्। इत्यसिद्धः प्रथमः। द्वितीयस्तु गन्धद्रव्येण व्यभिचारादनैकान्तिकः। वर्तमानजात्यकस्तूरिकादि गन्धद्रव्यं हि पिहितद्वारापवरकस्यान्तर्विशति वहिश्च निर्याति, न चापौद्गलिकम्।

शब्दरूप पर्यायका उपादान कारण भाषावर्गणारूप पुद्गल है; आकाश नहीं है। और उसमें स्पर्शका निर्णय भी होता ही है। कैसे? शब्दका आश्रय (उपादान कारण) स्पर्शसहित ही है। क्योंकि; यदि वायु अनुकूल (मुखके आगेसे मुखकी तरफ आनेवाला) हो तथा सुननेवाला प्राणी जहां शब्द होता हो उससे दूर हो तो भी शब्द सुनाई पडता है नहीं तो (वायु प्रतिकूल होनेपर सुननेवाला शब्दकी उत्पत्तिके स्थानके पास हो तो भी) नहीं। जैसे-यदि वायु अनुकूल (आगेसे आनेवाला) हो तो सुननेवाला प्राणी गन्धके स्थानसे दूर रहे तो भी वह गन्ध जानी जाती है नहीं तो नहीं (इसलिये जैसे गन्धद्रव्य पौद्गलिक है तैसे शब्द भी पौद्गलिक ही होना चाहिये)। इस प्रकार यौगमतवालिका प्रथम हेतु असिद्ध हुआ। दूसरा हेतु भी गन्धद्रव्यसे ही

१ जो हेतु साध्य सिद्ध करनेके अभिप्रायसे बोला जाता है वह यदि झूठा (सदोष) हो तो उसको हेत्वाभास कहते हैं। २ पुद्गलके एकसे खण्डोंके समूहको वर्गणा कहते हैं। पुद्गलकी वर्गणा सर्व वाईस हैं। इन्हींमेंसे एकका नाम भाषावर्गणा है। जिनसे शब्द वनसके उनको भाषावर्गणा कहते हैं।

व्यभिचारी होनेसे अनेकान्तिकनामक हेत्वाभास है । अर्थात्—जैसे गन्धद्रव्य अत्यंत सघन पदार्थमें प्रवेशकरते तथा उनमेंसे निकलते हुए नहीं रुकनेपर भी पौद्गलिक है तैसे ही शब्दके भी अत्यंत सघन पदार्थमें प्रवेश करते तथा निकलते हुए नहीं रुक-नेसे पौद्गलिकपनेमें बाधा नहीं आसकती है । क्योंकि; उत्तम कस्तूरीआदिक गन्धद्रव्य किवाइआदिक वंद करदेनेपर भी बाहरसे भीतर घुस जाता है तथा भीतरसे निकल भी आता है परंतु पौद्गलिक ही है; अपौद्गलिक नहीं है ।

स्याद्वादमं-

॥११३॥

अथ तत्र सूक्ष्मरन्ध्रसंभवात्नातिनिविडत्वम् । अतस्तत्र तत्प्रवेशनिष्क्रमौ । कथमन्यथोद्घाटितद्वारावस्थायायामिव न तदेकार्णवत्वम् ? सर्वथा नीरन्ध्रे तु प्रदेशे न तयोः संभवः । इति चेत्तर्हि शब्देव्येतत्समानम् । इत्यसिद्धो हेतुः । तृतीयस्तु विद्युल्लोकादिभिरनैकान्तिकः । चतुर्थोपि तथैव; गन्धद्रव्यविशेषसूक्ष्मरजोधूसमादिभिर्व्यभिचारात् । तथा हि गन्धद्रव्यादिकमपि नासायां निविशमानं तद्विवरद्वारादेशोद्भिन्नशमश्रुपेरकं दृश्यते । पञ्चमः पुनरसिद्धः । तथा हि । न गगनगुणः शब्दः; असदादिप्रत्यक्षत्वाद्द्रुपादिवत् । इति सिद्धः पौद्गलिकत्वात्सामान्याविशेषात्मकः शब्द इति ।

यदि कहो कि “ किवाड आदिकमें छोटे छोटे छिद्र रहनेसे अत्यंत सघनता नहीं है इसलिये उनमें प्रवेशकरना तथा निकलना होसकता है । यदि ऐसा न हो तो किवाड खुले रहनेपर जैसा गन्ध निकलता है तैसा वंद होनेपर भी क्यों नहीं? और जो सर्वथा छिद्ररहित हो उसमें न तो प्रवेश ही करसकता है और न निकल ही सकता है ” तो हम भी शब्दमें ऐसा ही स्वभाव मानते है । अर्थात् जिसमें सूक्ष्म छिद्र हों उसीमें शब्दका घुसना निकलना होसकता है; अन्यत्र नहीं । इस प्रकार दूसरा हेतु भी असिद्ध हुआ । यद्यपि उल्कापात अथवा विजलीआदिकोंके भी पहले पीछेके अवयव जिनसे वह वनै या नाश होनेके अनन्तर जो रहै, नहीं दीखते है परंतु तो भी ये सब पौद्गलिक ही है । इसलिये तीसरा हेतु सदोष (अनैकतिक) है । चौथा भी इसी प्रकार सदोष (अनैकतिक या व्यभिचारी) है । क्योंकि; अनेक प्रकारके गन्धद्रव्य या सूक्ष्म (वारीक) धूली अथवा धूमादिक भी मूर्तिक द्रव्यकी प्रेरणा नहीं करते है इसलिये यहां चौथा हेतु तो विद्यमान है परंतु पुद्गलपनेका अभाव अथवा व्यभिचारी अथवा अनेका-

१-२ जिस साध्यके साधनेकेलिये जो हेतु बोला जाय वह हेतु यदि उस साध्यके स्थानसे अन्यत्र भी रहै तो वह हेतु व्यभिचारी अथवा अनेका-न्तिक कहा जाता है । यह हेत्वाभासका एक भेद है ।

साध्य नहीं है इसलिये साध्यके अभावमें भी हेतु रहनेसे व्यभिचार अथवा अनेकान्तनामक दोष आता है। क्योंकि; गन्धद्रव्य भी नासिकामें घुसते अथवा निकलते पासकी मूँछोको कंपाता नहीं है। पांचवा हेतु असिद्ध है। कैसे सो कहते है। हमलोगोंके भी गोचर होनेसे शब्द आकाशका गुण नहीं होसकता है। जो पौद्गलिक होता है वही हमलोगोंकी इंद्रियोंके गोचर होसकता है। जैसे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श। इस प्रकार शब्द पौद्गलिक सिद्ध होनेसे सामान्यविशेषात्मक है।

न च वाच्यम् “ आत्मन्यपौद्गलिकेपि कथं सामान्यविशेषात्मकत्वं निर्विवादमनुभूयते ” इति; यतः संसार्यात्मनः प्रतिप्रदेशमनन्तान्तकर्मपरमाणुभिः सह वह्नितापितघनकुट्टितनिर्विभागपिण्डीभूतसूचीकलापवह्नीलीभावमापन्नस्य कथंचित्पौद्गलिकत्वाभ्यनुजानादिति । यद्यपि स्याद्वादवादिनां पौद्गलिकमपौद्गलिकं च सर्वं वस्तु सामान्यविशेषात्मकं तथाप्यपौद्गलिकेषु धर्माधर्माकाशकालेषु तदात्मत्वसर्वागृह्णां न तथा प्रतीतिविषयमायाति । पौद्गलिकेषु पुनस्तत्साध्यमानं तेषां सुश्रद्धानम् । इत्यप्रस्तुतमपि शब्दस्य पौद्गलिकत्वं सामान्यविशेषात्मकत्वसाधनायोपन्यस्तमिति ।

“ यदि पुद्गलमें ही सामान्यविशेषात्मकपना है तो पुद्गलरूप न होनेपर भी आत्मामें सामान्यविशेषात्मकपना क्यों निर्विवाद झलकता है? ” यह प्रश्न करना ठीक नहीं है। क्योंकि, जैसे अग्निसे तपाने तथा घनोसे कूटनेपर अनेक सूइयोंका समूह एक पिंडरूप होजाता है तैसे संसारी आत्माके प्रत्येक प्रदेशमें योग, कषायोंके वश प्रत्येक समयमें जो अनंतानंत कर्मपरमाणु बंधको प्राप्त होते हैं उनके साथ एकपना होनेसे वह आत्मा भी कथंचित् पौद्गलिक ही गिना जाता है। यद्यपि स्याद्वादी पौद्गलिक पृथ्वी जलादिक तथा अपौद्गलिक धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन दोनों ही प्रकारके द्रव्योंको सामान्यविशेषात्मक मानते है तो भी अल्पज्ञानी जीव अपौद्गलिक पदार्थोंमें सामान्यविशेषात्मकपना भलेप्रकार नहीं समझ सकते है। पौद्गलिक पदार्थोंमें तो यदि सामान्यविशेषका विचार किया जाय तो भलेप्रकार समझ सकते है। इसलिये शब्दको सामान्यविशेषात्मक सिद्ध करनेके अभिप्रायसे ही शब्दमें पुद्गलपना विना प्रकर्ण भी सिद्ध किया है।

अत्रापि नित्यशब्दवादिंसमतः शब्दैकत्वैकान्तोऽनित्यशब्दवाद्यऽभिमतः शब्दानेकत्वैकान्तश्च प्राग्दर्शितदिशा

१ जो हेतु दूसरे अनुमानसे बाधित होसकै वह असिद्ध है।

प्रतिक्षेप्यः । अथ वा वाच्यस्य घटादेरर्थस्य सामान्यविशेषात्मकत्वे तद्वाचकस्य ध्वनेरपि तत्त्वं; शब्दार्थयोः कथंचि-
माने हुए अनित्य माननेवालोकर

तादात्म्याभ्युपगमात् । यदाहुर्भद्रबाहुस्वामिपादाः ।—
एकपनेका तथा शब्दको

यहांपर शब्दको नित्य कहनेवालोकर माने गये शब्दके सर्वथा एकपनेका तथा शब्दको माने हुए
शब्दके सर्वथा अनेकपनेका निराकरण प्रथम दिखाये हुए ढंगसे करना चाहिये ।
यही बात पूज्य भद्रबाहु

अथवा वाच्यरूप घटादिक पदार्थ सामान्यविशेषात्मक सिद्ध होनेसे ही उन पदार्थके वाचक शब्दोंमें भी सामान्यविशेषात्मक-
पना सिद्ध हो सकता है । क्योंकि, शब्द तथा अर्थका संबन्ध कथंचित् तादात्म्यरूप माना गया है । यही बात पूज्य भद्रबाहु
स्वामीने कही है ।—

अभिहाणं अभिहेयाड होइ भिण्णं अभिण्णं च । खुरअग्गिमोयगुच्चारणमिह जग्हा दु वयणसवणणं । णवि छेउ
णावि दाहो ण पूरणं तेण भिण्णं तु ॥ जग्हा उ मोयगुच्चारणमिह तत्थेव पच्चओ होइ । ण य होइ स अण्णत्थे
तेण अभिण्णं तदत्थाड ॥

छाया-अभिधानम् अभिधेयाद् भवति भिन्नम् अभिन्नं च । धुरअग्गिमोदकोच्चारणे यस्मात् तु वचनश्रवणानाम् । नापि छेदो
नापि दाहो न पूरणं तेन भिन्नं तु । यस्मात्तु मोदकोच्चारणे तत्रैव प्रत्ययो भवति । न च भवति स अन्यार्थे तेन अभिन्नं तदर्थत् ॥
अभिधान (वाचक=शब्द) अभिधेय (वाच्य=पदार्थ) से भिन्न भी है तथा अभिन्न भी है । बोलनेवालोके मुख तथा
सुननेवालोके कान “ छुरा ” शब्दसे छिदते नहीं है, “ अग्गि ” शब्दसे जलते नहीं है, “ मोदक ” (लड्डू) शब्दसे पूरित
नहीं हो जाते है इसलिये तो पदार्थसे शब्द भिन्न है । और जिस मोदकादिक अर्थके कहनेवाला शब्द बोला जाता है उस शब्दसे

उसी पदार्थका ज्ञान होता है अन्यका नहीं इसलिये अर्थसे शब्द अभिन्न भी है ।
प्रत्युक्तम् । शब्दस्य ह्येतदेव तत्त्वं यदभिधेयं याथात्म्येनासौ प्रतिपादयति । स च ततथा प्रतिपादयन् वाच्यस्व-
रूपपरिणामपरिणत एव वक्तुं शक्नो नान्यथा अतिप्रसङ्गात्, घटाभिधानकाले पटाद्यविधानस्यापि प्राप्तेरिति ।

एतत् “ विकल्पयोनयः शब्दा विकल्पाः शब्दयोनयः । कार्यकारणता तेषां नार्थ शब्दाः स्पृशन्त्यपि ” इति
प्रत्युक्तम् । शब्दस्य ह्येतदेव तत्त्वं यदभिधेयं याथात्म्येनासौ प्रतिपादयति । स च ततथा प्रतिपादयन् वाच्यस्व-
रूपपरिणामपरिणत एव वक्तुं शक्नो नान्यथा अतिप्रसङ्गात्, घटाभिधानकाले पटाद्यविधानस्यापि प्राप्तेरिति ।
इस कथनसे “ शब्दकी विकल्पसे उत्पत्ति है तथा विकल्पकी शब्दसे । इस प्रकार शब्द तथा अर्थमें प्रत्येक कार्यकारणरूप

तो है परंतु शब्द अपने वाच्य अर्थका स्पर्शमात्र भी नहीं करते है।” यह कथन भी खण्डित होता है, क्योंकि; “पदार्थ, शब्द (उस पदार्थका वाचक) तथा ज्ञान ये तीनों ही समानसंज्ञावाले होते है” ऐसा पूर्वाचार्योंका वचन है। शब्दका यही तत्त्व (प्रयोजन= शब्दपना) है कि अपने वाच्य अर्थका यथार्थरूपसे प्रतिपादन करे। और वह (शब्द) अपने वाच्यका यथार्थपनेसे प्रतिपादन करता हुआ अपने वाच्यस्वरूपमय होकर ही प्रतिपादन करसकता है, अन्य प्रकार नहीं। यदि अन्यथा प्रकार भी करसकै तो अमुक शब्दका यही अर्थ है ऐसा कोई निश्चायक न होनेसे “घट” शब्दसे “पट” पदार्थका भी ज्ञान क्यों न हो? (क्योंकि ऐसा होनेपर इस दोषका कोई व्यावर्तिक नहीं है)।

अथ वा भङ्गयन्तरेण सकलं काव्यमिदं व्याख्यायते। वाच्यं वस्तु घटादिकमेकात्मकमेव (एकरूपमपि) सदनैकम् (अनेकस्वरूपम्)। अयमर्थः।—प्रमाता तावत् प्रमेयस्वरूपं लक्षणेन निश्चिनोति। तच्च सजातीयविजातीयव्यवच्छेदादात्मलाभं लभते। यथा घटस्य सजातीया मृन्मयपदार्था विजातीयाश्च पटादयः। तेषां व्यवच्छेदस्तल्लक्षणम्। पृथुबुधोदराद्याकारः कम्बुग्रीवो जलधारणाहरणादिक्रियासमर्थः पदार्थविशेषो घट इत्युच्यते। तेषां च सजातीयविजातीयानां स्वरूपं तत्र बुद्ध्या आरोप्य व्यवच्छिद्यते; अन्यथा प्रतिनियततत्स्वरूपपरिच्छेदानुपपत्तेः।

अथवा इस समग्र काव्यका व्याख्यान दूसरे प्रकारसे करते है। वाच्य अर्थात् घटादिक पदार्थ एकात्मक भी अर्थात् एकरूप होकर भी अनेक सत्तावाले अर्थात् अनेकरूप है। इसका यह (नीचे लिखे अनुसार) अभिप्राय है कि प्रमाता (निश्चयकर्ता) लक्षणसे प्रमेयका स्वरूप निश्चित करता है। और यह निश्चय सजातीय तथा विजातीय वस्तुओंका निराकरण (व्यावृत्ति) करनेपर ही होसकता है। जैसे मट्टीसे बने हुए पदार्थ बड़ेके समानजातीय हैं और बरखादिक विजातीय है। इन सबको जुदे करनेका नाम ही उस पदार्थका लक्षण है। स्थूल तथा मोटे पेटवाला शंखसमान ग्रीवावाला जल धरने तथा लाने आदिक प्रयोजनमें समर्थ जो कोई वस्तु उसको घड़ा कहते हैं। इस घड़ामें इसके सजातीय मट्टीके पदार्थ तथा विजातीय बरखादिक पदार्थोंके स्वरूपका कल्पनामात्रसे आरोपण कर निराकरण किया जाता है। यदि घड़ासे भिन्न सजातीय तथा विजातीय वस्तुओंका निराकरण न किया जाय तो प्रत्येक पदार्थकी “यह यही है अन्य नहीं” ऐसी नियमित व्यवस्था ही न होसकै।

सर्वभावानां हि भावाभावात्मकं स्वरूपम् । एकान्तभावात्मकत्वे वस्तुनो वैश्वरूप्यं स्यात् । एकान्तभावात्मकत्वे च निःस्वभावता स्यात् । तस्मात् स्वरूपेण सत्त्वात्पररूपेण चासत्त्वाद्भावाभावात्मकं वस्तु । यदाह “ सर्वमस्ति स्वरूपेण पररूपेण नास्ति च” । अन्यथा सर्वसत्त्वं स्यात् स्वरूपस्याप्यसंभवः” । ततश्चैकस्मिन् घटे सर्वेषां घटव्यतिरिक्तपदार्थानामभावरूपेण वृत्तेनेकात्मकत्वं घटस्य सुपपादम् । एवं चैकस्मिन्नर्थे ज्ञाते सर्वेषामर्थानां ज्ञानं; सर्वपदार्थपरिच्छेदमन्तरेण तन्निषेधात्मन एकस्य वस्तुनो विविकृततया परिच्छेदासंभवात् । आगमोप्येवमेव व्यञ्ज्यतः “ जे एगं जाणइ से सब्बं जाणइ” । जे सब्बं जाणइ से एगं जाणइ (संस्कृतच्छाया-य एकं जानाति स सर्वं जानाति । यः सर्वं जानाति स एकं जानाति) ॥ ” तथा— “ एको भावः सर्वथा येन दृष्टः सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टाः । सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टा एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः” ॥

सभी पदार्थोंका स्वरूप भावाभावात्मक है । यदि किसी पदार्थका स्वरूप सदा भावात्मक ही मानलिया जाय तो वस्तु संपूर्ण जगत् स्वरूप होजाय । यदि सर्वथा अभावरूप ही माना जाय तो वस्तुका कोई स्वरूप ही न ठहरे । इसलिये निज स्वरूपकी अपेक्षा भावात्मक तथा अन्य रूपकी अपेक्षा अभावात्मक समव होनेसे वस्तुका पूर्ण स्वरूप भावाभावात्मक ही संभवता है । यही कहा भी है “सभी वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा सत् रूप है तथा अन्य स्वरूपकी अपेक्षा नास्तिरूप है । यदि ऐसा न हो-अर्थात् यदि सर्वथा भावस्वभाव ही माना जाय तो एक वस्तुकी उपस्थितिमें सभी वस्तुओंकी सत्ता (मोजूदगी) उपस्थित होनेलगे तथा (यदि अभावस्वरूप ही माना जाय तो) निज स्वरूपका भी अभाव हो जाय ।” इस प्रकार एक घडामें उस घडाके अतिरिक्त सभी पदार्थ अभावरूपसे रहनेसे यह सिद्ध हुआ कि एक भी घडा अनेकस्वरूप है । ऐसा सिद्ध होनेसे यह भी सिद्ध होता है कि जहां एक पदार्थका ज्ञान हो वहां सभी पदार्थोंका ज्ञान होना चाहिये । यदि ऐसा न हो तो किसी भी इष्ट पदार्थका स्वरूप तो यही है कि अपने सिवाय अन्य सभीका निषेध करे । सो यह स्वरूप बिना अन्य सर्व पदार्थोंके जाने कैसे जाना जासकता है? आगममें भी यही कहा है “ जो एक वस्तु जानलेता है वह सभी जानलेता है । जो सर्व जानता है वही एक भी जानता है ॥” तथा दूसरा प्रमाण—“ जिसने एक पदार्थ पूर्णतया देखा है उसने सभी पदार्थ पूर्णतया देखे है । जिसने सर्व पदार्थ पूर्णतया देखे है एक पदार्थ भी पूर्णतया उसीने देखा है ।

ये तु सौगताः परासत्त्वं नाङ्गीकुर्वते तेषां घटादेः सर्वात्मकत्वप्रसङ्गः । तथा हि । यथा घटस्य स्वरूपादिना

सत्त्वं तथा यदि पररूपादिनापि स्यात् तथा च सति स्वरूपादित्ववत्पररूपरूपादित्वप्रसक्तेः कथं न सर्वात्मकत्वं भवेत्? परासत्त्वेन तु प्रतिनियतोसौ सिध्यति । अथ न नाम नास्ति परासत्त्वं किन्तु स्वसत्त्वमेव तदिति चेदहो वैदग्धी ! न खलु यदेव सत्त्वं तदेवासत्त्वं भवितुमर्हति । विधिप्रतिषेधरूपतया विरुद्धधर्माध्यासेनानयोरैक्यायोगात् ।

अब जो बौद्धलोग पदार्थमें परकी अपेक्षा असत्त्व (अभाव) नहीं मानते है उनके मतमें घटादि पदार्थ सर्वजगन्मय होने लजेंगे । कैसे सो कहते है ।—जैसे घट स्वरूपादिकी अपेक्षासे सत् है तैसे यदि पररूपादिकी अपेक्षा भी सत् ही हो तो स्वरूपादिकी अपेक्षा सत् होनेके समान पररूपादिकी अपेक्षा भी सत् माननेसे सर्वात्मकपना क्यों न हो ? अन्यकी अपेक्षा असत् माननेपर तो ऐसा सिद्ध होसकता है कि यह यही है अन्य नहीं । “घटादिकमें अन्य पदार्थोंका असत्त्व न हो ऐसा नहीं है किन्तु अपनी सत्ता ही परकी असत्ता है” यदि बौद्धोका ऐसा कहना हो तो धन्य है बौद्धोकी बुद्धिमत्ता ! क्योंकि जो सत्त्व वही असत्त्व कैसे हो सकता है ? क्योंकि; विधि तथा प्रतिषेध, ये परस्पर विरोधी दो धर्म जिनमें हों उनमें एकता कैसी ?

अथ युष्मत्क्षेप्येवं विरोधस्तदवस्थ एवेति चेदहो वाचाटता देवानां प्रियस्य । न हि वयं येनैव प्रकारेण सत्त्वं तेनैवासत्त्वं येनैव चासत्त्वं तेनैव सत्त्वमभ्युपेयम किं तु स्वरूपद्रव्यक्षेत्रकालभावैः सत्त्वं पररूपद्रव्यक्षेत्रकालभावैः स्वसत्त्वम् । तदा क्व विरोधावकाशः ?

बौद्ध जैनोसे कहते है कि “तुम्हारे माननेमें भी यह विरोध है ही” परंतु यह कहना बौद्धोकी बडी घृष्टता है । हम जिस प्रकारसे सत्त्वरूप मानते है उसी प्रकारसे असत्त्वरूप भी मानते हों ऐसा नहीं है तथा जिस अपेक्षासे पदार्थका स्वरूप असत् मानते है उसी अपेक्षासे सत् भी मानते हों ऐसा भी नहीं है । किन्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षासे तो प्रत्येक पदार्थको सत् मानते हैं तथा अपनेसे भिन्न पदार्थोंके द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षासे उसी एक पदार्थको असत् भी मानते है । अब कहिये ! विरोध कहां है ?

चौगास्तु प्रगल्भन्ते “सर्वथा पृथग्भूतपरस्परभावाभ्युपगममात्रेणैव पदार्थप्रतिनियमसिद्धेः किं तेषामसत्त्वात्मकत्वकल्पनया” इति तदसत् । यदा हि पटाद्यभावरूपो घटो न भवति तदा घटः पटादिरेव स्यात् । यथा च घटाभावाद्भिन्नत्वाद्धटस्य घटरूपता तथा पटादेरपि स्यात् घटाभावाद्भिन्नत्वादेव । इत्यलं विस्तरेण ।

योगमतवाले ऐसा कहते हैं कि अभावको पदार्थसे सर्वथा जुदा माननेसे ही यदि प्रत्येक पदार्थकी जुदाई सिद्ध होती है तो उस पदार्थको ही असत्स्वरूप कल्पना करनेसे क्या प्रयोजन है? परंतु यह कहना सर्वथा दूषित है। क्योंकि; जब प्रत्येक पदार्थका अभाव तो जुदा और पदार्थ जुदा ही है इसलिये कोई भी पदार्थ अपनेसे भिन्न वस्तुओंके अभावरूप तो है ही नहीं तो फिर घड़ा भी वस्त्रादिक अन्य वस्तुरूप हो जाना चाहिये। और जैसे घटाभावासे घट भिन्न है इसलिये घट घटस्वरूप है तैसे वस्त्रादिक भी घटाभावासे भिन्न हैं इसलिये वे भी घटस्वरूप क्यों न हों? भावार्थ—योगमतमें प्रत्येक पदार्थकी स्थिति उसके अभावासे जुदे होनेकी अपेक्षा मानी है। जैसे घड़ाका अभाव एक जुदा पदार्थ है। वह जहां नहीं होता है वहां ही घड़ा है ऐसा निश्चय योगमतमें माना गया है। परंतु इसमें दोष इस प्रकार आता है कि वस्त्रादिक पदार्थ भी घड़के अभावरूप नहीं है इसलिये वस्त्रादिक भी घड़के अभावासे भिन्न होनेसे घड़ारूप क्यों नहीं होजाते है? क्योंकि, वस्त्रादिकोंमें ऐसा कोई भी प्रबल रोकनेवाला धर्म नहीं है जो घड़ारूप होनेसे रोक सकै। हमारे यहां तो घड़के अतिरिक्त सभी पदार्थोंके अभावरूप उस घड़को माना है। इसलिये हमारे यहां तो वह घड़ा जब वस्त्रादिकोंके अभावरूप है तो वस्त्रादिस्वरूप कैसे हो सकता है? क्योंकि, जो जिसके अभावरूप है वह उसके आकाररूप नहीं हो सकता है। इतना स्पष्ट ही वश है।

एवं वाचकमपि शब्दरूपं द्वयात्मकम् । एकात्मकमपि सदानेकमित्यर्थः; अर्थोक्तन्यायेन शब्दस्यापि भावाभावात्मकत्वाद्ऽथ वा एकविषयस्यापि वाचकस्यानेकविषयत्वोपपत्तेः । यथा किल घटशब्दः संकेतवशात् पृथु-भ्रोरदराद्याकारवति पदार्थे प्रवर्तते वाचकतया तथा देशकालाद्यपेक्षया तद्वशादेव पदार्थान्तरेष्वपि तथा वर्तमानः केन वार्यते? भवन्ति हि वक्तारो योगिनः शरीरं प्रति घट इति; संकेतानां पुरुषेच्छाधीनतयाऽनियतत्वात् । यथा चौरशब्दोऽन्यत्र तस्करे रूढोपि दाक्षिणात्यानामोदने प्रसिद्धः । यथा च कुमारशब्दः पूर्वदेशेऽश्विनमासे रूढः । एवं कर्कटीशब्दादयोपि तत्तद्देशापेक्षया योन्यादिवाचका ज्ञेयाः ।

इसी प्रकार पदार्थोंके अर्थका कहेनेवाला शब्द भी दोनो प्रकार है। अर्थात्—कथञ्चित् एकस्वरूप है, कथञ्चित् अनेकस्वरूप है। क्योंकि, जैसे पदार्थ भावाभावात्मक सिद्ध किया है तैसे ही शब्द भी भावाभावात्मक है। अथवा एक विषयका वाचक भी शब्द अनेक विषयका वाचक होसकता है इसलिये भी शब्द भावाभावात्मक है। जैसे एक घड़ा संकेतके वशसे स्थूल तथा लवे

पेटवाले घटनामक पदार्थमें जैसे वाचकपनेसे रहता है तैसे ही यदि किसी देश कालमें किसी दूसरे पदार्थमें इसका संकेत निश्चित किया जाय तो कौन रोक्ता है? योगीजन शरीरको ही षडा कहते हैं। क्योंकि; जो शब्दके संकेत होते है वे पुरुषोंकी इच्छापर निर्भर होनेसे एकरूप ही निश्चित नहीं है। अर्थात्-पुरुष जैसा चाहते है वैसा ही शब्दका अर्थ करने लगते है। जैसे चौर शब्दका अर्थ अन्य स्थानोंमें तो चोर ही है परंतु दक्षिण देशमें चौर शब्दका अर्थ ओदन है। और भी-जैसे कुमार शब्दका अर्थ पूर्व देशमें आश्विन मास है। इसी प्रकार कर्कटी शब्दका अर्थ भी किसी देशमें ककड़ी होता है; किसी देशमें योनि होता है। इत्यादि एक एक शब्दके अनेक अर्थ होते है।

कालापेक्षया पुनर्यथा जैनानां प्रायश्चित्तविधौ धृतिश्रद्धासंहननादिमति प्राचीनकाले षड्गुरुशब्देन शतमशी-त्यधिकमुपवासानामुच्यते स्म सांप्रतकाले तु तद्विपरीते तैनेव षड्गुरुशब्देनोपवासत्रयमेव संकेत्यते जीतकल्पव्य-वहारानुसारात्। शास्त्रापेक्षया तु यथा पुराणेषु द्वादशीशब्देनैकादशी, त्रिपुराणिवे चाऽलिशब्देन मदिराभिपत्तान्ने च, मैथुनशब्देन मधुसर्पिर्षोर्ग्रहणम्। इत्यादि। न चैवं संकेतस्यैवार्थप्रत्यायने प्राधान्यं; स्वाभाविकसामर्थ्यसा-चिव्यादेव तत्र तस्य प्रवृत्तेः सर्वशब्दानां सर्वार्थप्रत्यायनशक्तियुक्तत्वात्। यत्र च देशकालादौ यदर्थप्रतिपादन-शक्तिसहकारी संकेतस्तत्र तमर्थं प्रतिपादयति।

तथा कालकी अपेक्षा जैसे जैन आम्नायके प्रायश्चित्तग्रन्थोंमेंसे जीतकल्प व्यवहार नामक ग्रन्थके अनुसार प्राचीन कालमें तो, जब कि धृति, श्रद्धा, संहनन (बल) आदिक विशेष थे “ षड्गुरु ” शब्दका अर्थ एकसो अस्सी उपवास समझा जाता था; परंतु अब उसी “ षड्गुरु” शब्दका अर्थ तीन उपवास समझा जाता है। शास्त्रोंकी अपेक्षा पुराणोंमें “ द्वादशी ” शब्दका अर्थ एकादशी तथा त्रिपुराणव ग्रन्थमें “अलि” शब्दका अर्थ मदिरा तथा अभिषिक्त अन्न होता है। ऐसे ही “ मैथुन ” शब्दसे मधु तथा घी समझा जाता है। इत्यादि अनेक प्रकार पुरुषकी इच्छानुसार संकेत बदल जाते है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि शब्द तो कुछ भी कार्य करता नहीं हो; केवल संकेत ही अर्थके जतानेवाला हो। क्योंकि, अर्थ तो शब्दका ही होता है; संकेत तो केवल देशकालादिकके अनुसार अर्थ प्रकाश करनेमें सहायकमात्र है। प्रत्येक शब्द सभी अर्थोंको जता सकता है परंतु जिस देशकालादिकमें जिस अर्थके जतानेमें संकेत सहकारी होता है उस देशकालादिकमें उसी अर्थको शब्द जताता है।

तथा च निर्जितदुर्जयपरप्रवादाः श्रीदेवसूरिपादाः “स्वाभाविकसामर्थ्यसमयाभ्यामर्थबोधनिबन्धनं शब्दः ।” अत्र शक्तिपदार्थसमर्थनं ग्रन्थान्तरादवसेयम् । अतोऽन्यथेत्यादि उत्तरार्द्धं पूर्ववत् । प्रतिभाप्रमादस्तु तेषां सदसदेकान्ते वाच्यस्य प्रतिनियतार्थविषयत्वे च वाचकस्योक्तयुक्त्या दोषसद्भावाद्भवहारानुपपत्तेः । तदयं समुदायार्थः—सामान्यविशेषात्मकस्य भावाभावात्मकस्य च वस्तुनः सामान्यविशेषात्मको भावाभावात्मकश्च ध्वनिर्वाचक इति । अन्यथा प्रकारान्तरेः पुनर्वाच्यवाचकभावव्यवस्थामातिष्ठमानानां वादिनां प्रतिभैव प्रमाद्यति न तु तद्गणितयो युक्तिस्पर्शमात्रमपि सहन्ते ।

ऐसा ही बड़े बड़े दुर्जय परवादियोंको जीतनेवाले श्रीदेवसूरि आचार्यने कहा है “स्वभावसे ही उत्पन्न हुई सामर्थ्य तथा सकेतके वश होकर शब्द अर्थका बोध कराता है अर्थात् अर्थबोधका कारण है । शब्दमें सामर्थ्य किस प्रकारकी तथा कौन कौनसी होती है इस विषयका प्रतिपादन अन्य ग्रन्थोंसे समझ लैना चाहिये । इस प्रकार पहिले आधे श्लोकका यह अर्थ है । अतोऽन्यथा इत्यादि उत्तरार्द्धका अर्थ तो पहिले ही कह चुके है । पदार्थको सर्वथा सत् रूप अथवा असत् रूप माननेमें तथा शब्दको अपना अपना निश्चित अर्थ जतानेमें वादियोंका कहना अनेक प्रकार दूषित होनेसे कार्यकारी नहीं है इस बातको प्रथम ही लिख चुके है इसलिये उन वादियोंकी बुद्धि उन्मादसहित समझनी चाहिये । इस सपूर्ण कारिकाका संक्षेपसे अर्थ इस प्रकार है कि सामान्यविशेषस्वरूप तथा भावअभावस्वरूप शब्द ही सामान्यविशेषस्वरूप तथा भावअभावस्वरूप वस्तुका वाचक हो सकता है । जो वादी ऐसा न मानकर दूसरे प्रकारसे ही शब्दार्थमें वाच्यवाचकपनेकी व्यवस्था ठहराते हैं उनका कहना किंचित् भी युक्तिपूर्वक नहीं है किन्तु उनकी बुद्धि ही प्रमादको प्राप्त होरही है जो पूरा विचार नहीं करसकते है ।

कानि तानि वाच्यवाचकभावप्रकारान्तराणि परवादिनामिति चेदेते ब्रूमः । अपोह एव शब्दार्थ इत्येके “अपोहः शब्दलिङ्गाभ्यां न वस्तुविधिनोच्यते” इति वचनात् । अपरे सामान्यमात्रमेव शब्दानां गोचरः, तस्य क्वचित्प्रतिपन्नस्यैकरूपतया सर्वत्र संकेतविषयतोपपत्तेः, न पुनर्विशेषाः, तेषामानन्त्यतः कात्स्न्येनोपलब्धुमशक्यतया तद्विषयतानुपपत्तेः । विधिवादिनस्तु विधिरेव वाक्यार्थोऽप्रवृत्तप्रवर्तनस्वभावत्वात्तस्येत्याचक्षते । विधिरपि तत्तद्वादिविप्रतिपत्त्याऽनेकप्रकारः । तथा हि । वाक्यरूपः शब्द एव प्रवर्तकत्वाद्विधिरित्येके । तद्व्यापादो भावनाऽपरपर्यायो

विधिरित्यन्ये । नियोग इत्यपरे । प्रैषादय इत्येके । तिरस्कृततदुपाधिप्रवर्तनामात्रमित्यन्ये । एवं फलतदभिलाषक-
मादयोपि वाच्याः । एतेषां निराकरणं सपूर्वोत्तरपक्षं न्यायकुमुदचन्द्रादवसेयमिति । इति काव्यार्थः ।

परवादीलोग किस प्रकारसे शब्दार्थमें वाच्यवाचकपनेकी व्यवस्था करते हैं इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं।—कोई ऐसा मानते है कि सर्व शब्दोका अर्थ अपोह [इतरनिषेध] ही है । “शब्द तथा लिङ्गसे अपोह कहा जाता है, न कि वस्तुके प्रवर्तनसे” ऐसा वचन भी है । किसीका कहना है कि वस्तुका केवल सामान्य स्वरूप ही शब्दका अर्थ है । क्योंकि, सामान्य स्वरूप किसी एक स्थानमें निश्चित होनेपर दूसरे स्थानोंमें भी सुगमतासे शब्दद्वारा प्रतीतिगोचर होसकता है । क्योंकि, सभी स्थानोंमें उसका दिखाव समान है । शब्दका अर्थ प्रत्येक पदार्थोका विशेष विशेष आकार नहीं होसकता है । क्योंकि; विशेष आकार अनंतो है इसलिये सबकी एक साथ प्रतीति न होनेसे शब्दके गोचर ही नहीं होसकते है । वेदोंमें कही हुई विधिको माननेवाले कहते है कि कर्मोंमें नही प्रवर्तते हुए मनुष्योको प्रवर्तनिवाली होनेसे विधि ही वाक्यका अर्थ है । इस विधिको भी अनेक वादी अनेक प्रकारसे मानते है । सोई दिखाते है । कोई वादी वाक्यरूप शब्दको ही कर्मोंमें प्रवर्तन करानेवाला होनेसे विधिरूप मानते है । कोई मानते है कि वाक्यसे उत्पन्न हुआ व्यापार ही विधि है । इस व्यापारका दूसरा नाम भावना भी है । कोई मानते है कि नियोग ही विधि है । कोई प्रैषादिक[प्रैषादिको] ही विधि मानते है । किसीका मानना है कि तिरस्कारपूर्वक प्रेरणा करनेका नाम ही विधि है । इसी प्रकार इस विधिका फल तथा अभिलाषा तथा कर्मादिक भी प्रत्येकने जुदे जुदे माने है । न्यायकुमुदचन्द्रनामक ग्रन्थमें इन सबोका निरूपणपूर्वक खण्डन लिखा है सो उसमेंसे समझ लेना चाहिये । इस प्रकार इस कारिकाका अर्थ पूर्ण हुआ ।

इदानीं सांख्याभिमतप्रकृतिपुरुषादितत्त्वानां विरोधावरुद्धत्वं ख्यापयन् तद्द्वालिशताविलसितानामपरिमितत्वं दर्शयति ।

अब जो सांख्यमतीने प्रकृतिपुरुषादिक पचीस तत्त्व माने है उनमें परस्पर विरोध दिखाते हुए यह भी दिखाते हैं कि उसने अपनी मूर्खतासे कितनी कितनी खोटी कल्पना की है ।

चिदर्थशून्या च जडा च बुद्धिः शब्दादितन्मात्रजमम्बरादि ।
न बन्धमोक्षौ पुरुषस्य चेति कियज्जडैर्न ग्रथितं विरोधि ॥ १५ ॥

मूलार्थ-चेतना तो पदार्थको स्वयं जानती नहीं है तथा बुद्धि स्वयं जड़स्वरूप है । आकाश शब्दसे उत्पन्न है । गन्धसे पृथिवी उत्पन्न है । रससे जल, रूपसे अग्नि तथा स्पर्शसे वायु उत्पन्न है । जीव न वैधता है और न मुक्त होता है । इस प्रकार मूर्खोंने विरोधसे भरा हुआ क्या क्या नहीं लिखा है ।

स्याद्वाद्भं-

॥११८॥

व्याख्या—चित्-चेतनशक्तिरालम्बस्वरूपभूता, अर्थशून्या-विषयपरिच्छेदविरहिता; अर्थाध्यवसायस्य बुद्धि-व्यापारत्वादित्येका कल्पना । बुद्धिश्च महत्तत्त्वाख्या जडा-अनवबोधस्वरूपा इति द्वितीया । अम्बरादि-व्योमप्र-भृति भूतपञ्चकं शब्दादितन्मात्रजं, शब्दादीनि यानि पञ्च तन्मात्राणि सूक्ष्मसंज्ञानि तेभ्यो जातमुत्पन्नं शब्दादि-तन्मात्रजमिति तृतीया । अत्र “च” शब्दो गन्धः । पुरुषस्य च प्रकृतिविकृत्यनात्मकस्यात्मनो न बन्धमोक्षौ; किं तु प्रकृतेरेव । तथा च कापिलाः “तस्मान्न बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्चित् । संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ।” तत्र बन्धः प्राकृतिकादिः । मोक्षः पञ्चविंशतितत्त्वज्ञानपूर्वकोऽपवर्गः । इति चतुर्थी । इति शब्दस्य प्रकारार्थत्वादेवं प्रकारमन्यदपि विरोधीति विरुद्धं पूर्वापरविरोधादिदोषाघ्रातं जडैः-मूर्खैस्तत्त्वावबोध-विधुरधीभिः कापिलैः कियन्न ग्रथितं-कियन्न स्वशास्त्रेषूपनिबद्धम् । कियदित्यसूयागर्भैः तत्स्वरूपितविरुद्धार्थानामा-नन्त्येनेयत्तानवधारणात् । इति संक्षेपार्थः ।

व्याख्यार्थ—“ चित् ” अर्थात् आत्मस्वरूपमय चेतनशक्ति “ अर्थशून्या ” अर्थात् किसी पदार्थको जान नहीं सकती है । क्योंकि, पदार्थका जो निश्चय होता है वह बुद्धिके संबन्धसे होता है । यह प्रथम कल्पना है । महत्तत्त्व है नाम जिसका ऐसी जो “बुद्धिः” बुद्धि है वह स्वयं “जडा” जड़स्वरूप है अर्थात् स्वयं ज्ञानरूप नहीं है; चेतनाका जाननेमें केवल सहाय करती है । यह द्वितीय कल्पना है । “ अम्बरादि ” आकाश आदिक पांच भूततत्त्व “ शब्दादितन्मात्रजम् ” अर्थात् सूक्ष्मभूतरूप शब्दादि पांच तन्मात्राओंसे जात नाम उत्पन्न है । यह तीसरी कल्पना है । इस श्लोकके वाक्यमें “ और ” इस अर्थका वाचक एक “ च ” शब्द ऊपरसे लगाकर अर्थ करना चाहिये । और “ पुरुषस्य ” अर्थात् जो प्रकृति तथा विकृतिमय पदार्थोंसे

“ यह अर्थ १ इसके लगानेसे ऊपरका संबन्ध ठीक होता है । अर्थात् “ और आकाशादिक पांच भूततत्त्व शब्दादि पांच तन्मात्राओंसे उत्पन्न है ” यह अर्थ संबन्धसहित होसकता है । च शब्द यदि न लगाया जाय तो “ और ” ऐसा दो वाक्योंको जोड़ना कैसे बनसकेगा ?

भिन्न है ऐसे आत्माका “ न बन्धमोक्षौ ” न बंध है और न मोक्ष । किंतु जितना बंध मोक्ष है वह सब प्रकृतिका ही है । सांख्यमतके प्रवर्तक कपिलगुरुके अनुयायी जनोने भी ऐसा ही कहा है “इसलिये न तो कोई जीव बंधता है, न छूटता है और न संसारमें परिभ्रमण करता है। जो परिभ्रमण करता है, छूटता है तथा बंधता है वह अनेकोका आश्रयरूप प्रकृति है” । यहां बन्ध प्राकृतिक आदि समझना चाहिये । और प्रकृति आदिक पच्चीस तत्त्वोंके ज्ञानपूर्वक अपवर्ग अर्थात् अनन्त सुखको मोक्ष समझना चाहिये । यह चौथी कल्पना है । श्लोकमें “ इति ” शब्द जो पड़ा है उसका अर्थ और भी अनेक प्रकारके भेदोंको ग्रहण करना है । इसलिये यह समझना चाहिये कि इस प्रकारकी अन्य भी “ विरोधि ” अर्थात् परस्पर विरुद्ध ऐसी कल्पनाएँ इन “जडैः” मूलैनि “ कियन्न ग्रथितं ” कितनी कितनी नहीं गूंथी है? अर्थात् अनेक प्रकार लिखी है । यहांपर यथार्थ तत्त्वार्थके बोधसे रहित ऐसे कपिलमतानुयायी ही “जड ” शब्दका अर्थ है । इन कपिलमतवालोंने अपने शास्त्रोंमें इसी प्रकारकी अनेक खोटी कल्पनाएँ की हैं । “ कियत् ” शब्द जो श्लोकमें पड़ा है उससे तिरस्कार सूचित होता है । “ कियत् ” शब्दका अर्थ अनिश्चित बहुतसा है । उनके प्ररूपे हुए परस्पर विरुद्ध अर्थ भी अनंतो है इसलिये इस प्रकरणमें निश्चित संख्या न लिखकर “ कियत् ” शब्द रक्खा है । श्लोकका यह अर्थ संक्षेपसे कहा ।

व्यासार्थस्त्वयम् । सांख्यमते किल दुःखत्रयाभिहतस्य पुरुषस्य तदपघातहेतुतत्त्वजिज्ञासा उत्पद्यते । आध्यात्मिकमाधिदैविकमाधिभौतिकं चेति दुःखत्रयम् । तत्राध्यात्मिकं द्विविधं शारीरं मानसं च । शारीरं वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यनिमित्तम् । मानसं कामक्रोधलोभमोहेर्ब्याविषयादर्शननिबन्धनम् । सर्वं चैतदान्तरोपायसाध्यत्वादाध्यात्मिकं दुःखम् । बाह्योपाधिसाध्यं दुःखं द्वेधा आधिभौतिकमाधिदैविकं चेति । तत्राधिभौतिकं मानुषपशुपक्षिमृगसरीसृपस्थावरनिमित्तम् । आधिदैविकं यक्षराक्षसग्रहाद्यावेशहेतुकम् । अनेन दुःखत्रयेण रजःपरिणामभेदेन बुद्धिवर्तिना चेतनाशक्तेः प्रतिकूलतया अभिसंबन्धोऽभिघातः ।

अब इसका अर्थ विस्तारसे लिखते है । तीन प्रकारके दुःखोंसे दुःखित हुआ जीव इन दुःखोंके नाश करनेकी इच्छासे नाशके उपायमूल पदार्थोंको तलासता है । आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक ऐसे तीन प्रकारके दुःख है । इनमेंसे आध्यात्मिक दुःख दोप्रकार हैं; पहिले शारीरिक तथा दूसरे मानसिक । शारीरिक दुःख तो वात, पित्त, कफके विगड़नेसे (विषम होनेसे)

होते है । और मानसिक दुःख काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्याके उत्पन्न होनेसे तथा विषयभोगोंके न मिलनेसे होते है । ये सर्व दुःख अंतरंग कारणरूप मनके चिन्तनमत्रसे होते हैं इसलिये इनको आध्यात्मिक दुःख कहते है । बाह्य कारणोंकी सहायतासे उत्पन्न होनेवाले दुःख दोषप्रकार है पहिले आधिभौतिक तथा दूसरे आधिदैविक । इनमेंसे आधिभौतिक तो वे दुःख है जिनकी उत्पत्ति मनुष्य, पशु, पक्षिओंसे तथा स्यावर पदार्थोंसे हो । आधिदैविक वे हैं जो यक्ष, राक्षस, नवग्रह देवता आदिकोंके कोपादिकसे उत्पन्न हों । ये तीनों प्रकारके दुःख बुद्धिमें रजोधर्मसे उत्पन्न होते है । जब इन दुःखोंका चेतना शक्तिके साथ अनिच्छित-रूपसे संबंध होता है तब चेतना शक्तिका अभिघात माना जाता है ।

तत्त्वानि पञ्चविंशतिः । तद्यथा । अव्यक्तमेकम् । महदहङ्कारपञ्चतन्मात्रैकादेशेन्द्रियपञ्चमहाभूतभेदात् त्रयो विंशतिविधं व्यक्तम् । पुरुषश्च चिद्रूप इति । तथा चेश्वरकृष्णः “ मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ” ॥ प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकानां लाघवोपपट्टम्भगौरवधर्माणां परस्सरोपकारिणां त्रयाणां गुणानां सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः । प्रधानमव्यक्तमित्यनर्थान्तरम् । तच्चानादिमध्यान्तमनवयवं साधारणमशब्दमस्यशर्मरूपमगन्धमव्ययम् । प्रधानाद्बुद्धिर्महदित्यपरपर्यायोत्पद्यते । योयमध्यवसायो गवादिषु प्रतिपत्तिरेवमेतन्नान्यथा, गौरेवायं नाश्वः, स्थाणुरेष नायं पुरुष इत्येया बुद्धिः । तस्यास्त्वष्टौ रूपाणि । धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यरूपाणि चत्वारि सात्त्विकानि । अधर्मादीनि तु तत्प्रतिपक्षभूतानि चत्वारि तामसगानि ।

तत्त्वं पचीस है । इनमेंसे एक तो अव्यक्तनामक है । दूसरा महात्, तीसरा अहंकार, पांच तन्मात्रा, ग्यारह इन्द्रिय, पांच महाभूत (पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) ये तेईस व्यक्तरूप है । पचीसवां चेतनास्वरूप पुरुष है । ईश्वरकृष्णनामक एक ग्रन्थकारने भी कहा है “ सवका मूल कारण प्रकृति है और वह स्वयं किसीका विकाररूप अर्थात् किसीसे उत्पन्न हुई नहीं है । महादिक सात तत्त्व प्रकृतिसे उत्पन्न हुए प्रकृतिके विकाररूप है । ग्यारह इन्द्रिय तथा पांच महाभूत ये सोलह तत्त्व विकाररूप ही है । पचीसवां पुरुषतत्त्व न तो प्रकृति ही है और न विकृतिरूप ” ॥ सत्त्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुणकी साम्यरूप (अनेक विकारोंसे रहित) अवस्थाका नाम प्रकृति है । जब इनमें विकार होता है तब सत्त्वगुण तो प्रीतिरूप होता है, रजोगुण अप्रीतिरूप होता है और तमोगुण विषादमय होता है । सत्त्वगुणमें लाघवरूप तथा रजोगुणमें उपपट्टम्भरूप तथा

तमोगुणमें गौरवरूप धर्म रहते है । ये तीनो ही गुण एक दूसरेके उपकारी है । जो अव्यक्तनामक प्रथम तत्त्व है उसीका दूसरा नाम प्रधान है । इस प्रधानका न तो आदि (उत्पत्ति) है, न मध्यअवस्था है और न अंतावस्था (नाश) है । यह अवयवरहित अखंड एकरूप है, साधारण है, शब्द स्पर्श रूप गंध रहित है, अविनाशी है । इस प्रधानसे महान है दूसरा नाम जिसका ऐसा बुद्धितत्त्व उत्पन्न होता है । जो इस अमुक वस्तुका निश्चयरूप ज्ञान हुआ है वह ऐसा ही है; अन्यथा नहीं है ऐसे ज्ञानरूप परिणामको बुद्धि कहते है । जैसे यह गौ ही है, घोड़ा नहीं है । अथवा जैसे यह ट्रंट ही है; पुरुष नहीं है । इस बुद्धिके आठ आकार है । धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य ये चार तो सात्त्विक (सत्त्वगुणसे उत्पन्न हुए) आकार है और अधर्मादिक चार इनसे उलटे तामसरूप (तमोगुणसे उत्पन्न हुए) आकार है ।

बुद्धेरहङ्कारः । स चाभिमानात्मकः—अहं शब्देहं स्पर्शेहं रूपेहं गन्धेहं रसेहं स्वामी, अहमीश्वरः, असौ मया हतः, ससत्त्वोहममुं हनिष्यामीत्यादिप्रत्ययरूपः । तस्मात् पञ्च तन्मात्राणि शब्दतन्मात्रादीनि अविशेषाणि सूक्ष्मपर्यायवाच्यानि । शब्दतन्मात्राद्धि शब्द एवोपलभ्यते न पुनरुदात्तानुदात्तस्वरितकम्पितपङ्जादिभेदाः । षड्जादयः शब्दविशेषादुपलभ्यन्ते । एवं स्पर्शरूपरसगन्धतन्मात्रेष्वपि योजनीयमिति । तत एव चाहङ्कारादेकादशेन्द्रियाणि च । तत्र चक्षुः, श्रोत्रं, घ्राणं, रसनं, त्वगिति पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि । वाक्पाणिपादपायूपस्थाः पञ्च कर्मेन्द्रियाणि । एकादशं मन इति ।

बुद्धिसे अहंकार उपजता है । मैं शब्द सुनता हू, मैं स्पर्श करता हू, मैं रूप देखता हू, मैं गन्ध सूँघता हू; मैं रस चाखता हू; मैं स्वामी हूँ, मैं ईश्वर हूँ, यह मैंने मारा है; मैं बलाढ्य हू, मैं इसको मारूँगा इत्यादि रागद्वेषादिरूप अभिमानका ही नाम अहंकार है । इस अहंकारसे शब्दतन्मात्रा आदिक पांच तन्मात्रा उपजती है । ये पाँचों तन्मात्रा सामान्यरूप और सूक्ष्म पर्यायरूप है । शब्द तन्मात्रासे केवल शब्दका ही ज्ञान होता है, उसके उदात्त, स्वरित, कंपित तथा तन्त्री आदिकोंके विशेष स्वरूप नहीं जानपड़ते है । यह तन्त्रीकी ध्वनि है तथा यह तीव्र शब्द है इत्यादि विशेष स्वरूप तो विशेष शब्दोंसे जानपड़ते है । इसी प्रकार स्पर्श, रूप, रस, गन्ध तन्मात्राओंसे भी सामान्य ही स्पर्श, रूप, रस, गंध उत्पन्न होते है । विशेष स्पर्शादि तो पीछेसे विशेष स्पर्शादिकोंसे उपजते हैं । जिस अहंकारसे पांच तन्मात्रा उपजती है उसीसे ग्यारह इंद्रिय भी उपजती है । इन ग्यारहमेंसे चक्षुः,

कान, नांक, जिह्वा, स्पर्शन ये पांच तो ज्ञानेन्द्रिय है । वचन, हाथ, पाँव, गुदा (विश्रानिकलनेका द्वार) और लिङ्ग (मूतनेका द्वार) ये पांच कर्मेन्द्रिय हैं । ग्राहवां मन इन्द्रिय है ।

पञ्चतन्मात्रेभ्यश्च पञ्च महाभूतानि उत्पद्यन्ते । शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दगुणम् । शब्दतन्मात्रसहितात् सर्शतन्मात्राद्वायुः शब्दस्पर्शगुणः । शब्दस्पर्शतन्मात्रसहिताद्द्रुपतन्मात्रात्तेजः शब्दस्पर्शरूपगुणम् । शब्दस्पर्शरूपतन्मात्रात् सहिताद्रसतन्मात्रादापः शब्दस्पर्शरूपरसगुणाः । शब्दस्पर्शरूपरसतन्मात्रसहिताद्गन्धतन्मात्रात् गन्धगुणा पृथिवी जायते इति । पुरुषस्त्वमूर्तश्चेतनो भोगी नित्यः सर्वगतोऽक्रियोऽकर्ता निर्गुणः सूक्ष्म आत्मा कपिलदर्शने इति ।

पांच तन्मात्राओंसे पांच महाभूत उपजते हैं । शब्दतन्मात्रासे शब्दगुणवाला आकाश उपजता है । शब्द स्पर्श तन्मात्राओंसे मिलकर शब्द तथा स्पर्शगुणवाला वायु उपजता है । शब्द, स्पर्श, रूप इन तीन तन्मात्राओंसे मिलकर शब्द, स्पर्श, रूप गुणवाला अम्रितत्व उत्पन्न होता है । जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस ये चार गुण पाये जाते हैं ऐसा जलतत्व शब्द, स्पर्श, रूप, रस इन चार तन्मात्राओंसे मिलकर उत्पन्न होता है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांच गुणोंवाली पृथिवी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांच तन्मात्राओंसे मिलकर उत्पन्न होती है । पचीसवां पुरुषतत्व अमूर्तिक है, चेतना गुण सहित है, सुख दुःखोंका भोगनेवाला है, नित्य (अविनाशी) है, सर्वगत है, कियारहित है, बुरे भले कर्मोंका कर्ता सय नहीं है; सय निर्गुण है, सूक्ष्म है तथा आत्मस्वरूप है । कपिल(सांख्य)दर्शनमें ऐसा पचीस तत्वोंका स्वरूप निरूपण किया है ।

अन्धपद्भुवत् प्रकृतिपुरुषयोः संयोगः । चिच्छक्तिश्च विषयपरिच्छेदशून्या; यत इन्द्रियद्वारेण सुखदुःखादयो विषया बुद्धौ प्रतिसंक्रामन्ति । बुद्धिश्चोभयमुखदर्पणाकारा । ततस्तस्यां चैतन्यशक्तिः प्रतिविम्बते । ततः सुख्यहं दुःख्यहमित्युपचारः । आत्मा हि स्वं बुद्धेरव्यतिरिक्तमभिमन्यते । आह च पतञ्जलिः “शुद्धोपि पुरुषः प्रत्ययबुद्धमनुपश्यति । तमनुपश्यन्नतदात्मापि तदात्मक इव प्रतिभासते” इति । मुख्यतस्तु बुद्धेरैव विषयपरिच्छेदः । तथा च वाचस्पतिः “सर्वो व्यवहर्ता आलोक्य नन्वहमत्राधिकृत इत्यभिमत्य कर्तव्यमेतन्मध्येत्यध्यवस्यति । ततश्च प्रवर्तते इति लोकतः सिद्धम् । तत्र कर्तव्यमिति येषं निश्चयश्चित्तिसन्निधानापन्नचैतन्याया बुद्धेः सोध्यवसायो बुद्धेरसाधारणो व्यापार” इति ।

अंधे और पंगे (लंगडे) के समान प्रकृति और पुरुषका संयोग है । चेतनाशक्ति स्वयं विषयका निश्चय नहीं कर सकती है । क्योंकि; सुखदुःखारूप विषय नालीके समान इन्द्रियद्वारा बुद्धिमें जाकर झलकते हैं । अर्थात् इन्द्रियोंके मार्गसे दर्पणके सदृश निर्मल बुद्धिमें प्रतिबिम्बित होते हैं । बुद्धिका आकार दोनो ही बाजूसे (पीछे आगेसे) दर्पणके समान है । अर्थात् बुद्धि दर्पणके सदृश निर्मल है । इसीलिये उस बुद्धिमें चैतन्यशक्ति प्रतिबिम्बित होती है (प्रकाशती है) । चेतनाशक्तिका बुद्धिमें प्रतिबिम्ब पडनेसे इन्द्रियोंद्वारा बुद्धिमें प्रतिभासते हुए सुखदुःखादि विषयोंका यह अम होने लगता है कि, सुखदुःखादिक चेतनामें झलकते हैं । यह अम होनेसे ही पुरुष (आत्मा) आपेको सुखी दुःखी मानने लगता है और आपेको बुद्धिसे अभिन्न समझता है । पंतजलिने भी कहा है कि “ पुरुष यद्यपि स्वयं तो शुद्ध है परंतु बुद्धिके प्रतिबिम्बको चेतनाके द्वारा देखता है । और यद्यपि उससे भिन्न है तो भी उसको देखता हुआ आपेको उससे अभिन्न समझता है । ” यथार्थमें तो वह ज्ञान बुद्धिका ही है । वाचस्पतिने भी यही कहा है “ लोकके कार्योंमें प्रवर्तनेवाले सभी मनुष्य विचारपूर्वक यह मानने लगते हैं कि इसमें हमारा अधिकार है, और ऐसा समझकर ही ऐसा निश्चय भी करलेते हैं कि यह हमको करना चाहिये । निश्चय करनेके अनंतर प्रवर्तने लगते हैं । यह परिपाटी लोगोंके अनुभवसे सिद्ध है ” । यहांपर “ करना चाहिये ” ऐसा जो बुद्धिका निश्चय है वह निश्चय बुद्धिका असाधारण व्यापार है । अर्थात् “ऐसा” यह निश्चय बुद्धिमें ही होता है; अन्यमें नहीं । परंतु करना चाहिये ऐसा जो बुद्धिका निश्चय है वह होता तभी है जब चेतनाका प्रतिबिम्ब बुद्धिमें पड़ता है । और उसके अनंतर चेतनाका प्रतिबिम्बद्वारा संबंध होनेसे बुद्धिमें चेतनार्थका अम होने लगता है ।

चिच्छक्तिसन्निधानाच्चाचेतनापि बुद्धिश्चेतनावतीवाभासते । वादमहार्णवोप्याह “ बुद्धिदर्पणसंक्रान्तमर्थप्रतिबिम्बकं द्वितीयदर्पणकल्पे पुंस्यऽध्यारोहति । तदेव भोक्तृत्वमस्य न त्वात्मनो विकारापत्तिः ” इति । तथा चासुरिः “ विविकेहृक्परिणतौ बुद्धौ भोगोस्य कथ्यते । प्रतिबिम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽभसि । १ । ” विन्ध्यवासी त्वेवं भोगमाचष्टे “ पुरुषोऽविकृतात्मैव स्वनिर्भासमचेतनम् । मनः करोति सान्निध्यादुपाधिः स्फटिकं यथा । १ । ” बुद्धि स्वयं अचेतन होकर भी चेतनाशक्तिका संबंध होनेसे ऐसी जान पड़ती है जैसे चैतन्यशक्तिसहित हो । वादमहार्णवने भी इस विषयमें ऐसा कहा है कि “ दर्पणके समान इस बुद्धिमें अर्थ प्रतिबिम्बित होता हुआ आत्मरूपी दूसरे दर्पणमें प्रतिबिम्बित

होने लगता है। अर्थात् जो प्रतिबिम्ब बुद्धिमें पड़ता है उस प्रतिबिम्बका प्रतिबिम्ब पीछेसे पुरुषरूपी दर्पणमें पड़ने लगता है। इस बुद्धिके प्रतिबिम्बका पुरुषमें झलकना ही पुरुषका भोग है; इसीसे पुरुष भोक्ता कहाता है। अन्य कुछ भी भोगरूप विकार पुरुषमें नहीं होता है”। यही आसुरिने कहा है कि “बुद्धिमें भिन्न रहनेवाले पदार्थोंका प्रतिबिम्ब पड़नेपर आत्मामें भोक्तापना कहा जाता है। दर्पणके समान निर्मल पुरुषमें यह भोग केवल प्रतिबिम्ब पड़नेमात्र है। जैसे निर्मल जलमें पड़ा हुआ चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब जलका ही विकार समझा जाता है”। इस भोगके विषयमें विध्यवासीनामक ग्रन्थकार ऐसा कहता है कि “यह आत्मा स्वयं अविकारी होते हुए भी समीपमें रहनेवाले अचेतन मनको अपने समान चेतन बना देता है जैसे समीपमें लगाया हुआ रंग सफेद स्फटिकको रंगीनसा बना देता है (यह विकार यद्यपि निजी नहीं है तो भी जो निजीसा मालुम पड़ना है वही आत्माका भोग है)।”

न च वक्तव्यं पुरुषश्चेदगुणोऽपरिणामी; कथमस्य मोक्षः? मुचेर्वन्धनविश्लेशार्थत्वात् सवासनक्लेशकर्माशयानां च बन्धनसमाम्नातानां पुरुषेऽपरिणामिन्यसंभवात्। अत एव नास्य प्रेत्यभावापरनामा संसारोस्ति; निष्क्रियत्वादिति। यतः प्रकृतिरेव नानापुरुषाश्रया सती बध्यते संसरति मुच्यते च न पुरुष इति बन्धमोक्षसंसाराः पुरुषे उपचर्यन्ते। यथा जयपराजयौ भृत्यगतावपि स्वामिन्युपचर्येते तत्फलस्य कोशलाभादेः स्वामिनि संबन्धात् तथा भोगापवर्गयोः प्रकृतिगतयोरपि विवेकाग्रहात् पुरुषे संबन्ध इति।

“यदि पुरुष स्वयं निर्गुण तथा निर्विकार (अपरिणामी) है तो इसका मोक्ष कैसे? क्योंकि मुच धातुका अर्थ बंधनका छूटना है (इसी धातुसे मोक्ष शब्द बनता है)। और आत्मामें जब वासना क्लेश कर्मोंके संबंधसे होनेवाले नानाप्रकारके बंधन ही संभव नहीं है तो मोक्ष किसका? इसीलिये जिसका दूसरा नाम प्रेत्यभाव या परलोक है ऐसा जो संसार वह भी इस आत्माका नहीं है। क्योंकि, संसार नाम परिभ्रमणका है सो क्रियारहित इस आत्मामें परिभ्रमण कैसे हो सकता है?” यह शंका नहीं हो सकती है। क्योंकि, प्रकृति ही नानापुरुषोंके आश्रय रहकर बंधती है और फिर संसारमें परिभ्रमण करती है और फिर वह प्रकृति ही भ्रम दूर होनेपर मुक्त होती है, न कि पुरुष। परंतु प्रकृतिकी बंधन, संसार तथा मोक्षरूप अवस्था आत्मासे संबध रहनेके कारण आत्मामें आरोपित की जाती है। जैसे जय अथवा पराजय सेनाका होता है परंतु वह जय, पराजय उस सेनाके स्वामीका समझा जाता है। क्योंकि, खजानेआदिकका जय होनेपर लाभ अथवा पराजय होनेपर हानि इत्यादि जयपराजयका हानि-

लाभरूप फल स्वामीको ही होता है। इसी प्रकार यद्यपि भोग तथा मोक्ष है प्रकृतिके ही तो भी यह भेदभाव न होनेके कारण पुरुषके ही माने जाते है। (यह सांख्यमतका सारांश है)।

तदेतदखिलमालजालम् । चिच्छक्तिश्च विषयपरिच्छेदशून्या चेति परस्परविरुद्धं वचः । चिति संज्ञाने; चेतनं चित्यते वाऽनयेति चित् । सा चेतस्वपरपरिच्छेदात्मिका नेष्यते तदा चिच्छक्तिरेव सा न स्याद् घटवत् । न चा-
मूर्तायाश्चिच्छक्तेर्बुद्धौ प्रतिबिम्बोदयो युक्तः; तस्य मूर्तधर्मत्वात् । न च तथा परिणाममन्तरेण प्रतिसंक्रमोपि युक्तः-
कथंचित्सक्रियात्मकताव्यतिरेकेण प्रकृत्युपधानेष्यन्यथात्वानुपपत्तेः, अप्रच्युतप्राचीनरूपस्य च सुखदुःखादि-
भोगव्यपदेशानर्हत्वात् । तत्प्रच्यवे च प्राक्तनरूपत्यागेनोत्तररूपाध्यासिततया सक्रियत्वापत्तिः; स्फटिकादावपि
तथा परिणामेनैव प्रतिबिम्बोदयसमर्थनात् । अन्यथा कथमन्धोपलादौ न प्रतिबिम्बः ? तथा परिणामाभ्युपगमे
च वलादायातं चिच्छक्तेः कर्तृत्वं साक्षाद्भोक्तृत्वं च ।

(अब सांख्यमतका खण्डन करते है) । सांख्यमतीकी ये कल्पना केवल जाल है । कैसे ? चेतना शक्ति है तो भी विषयोंके ज्ञानसे शून्य है ये दोनों वचन परस्पर विरुद्ध है । क्योंकि, ज्ञान कराना अथवा चेताना है अर्थ जिसका ऐसे “चिति” धातुसे चेताना-
मात्र अथवा जिससे चेतना हो ऐसे अर्थमें चेतना अथवा चित् शब्द सिद्ध होता है । ऐसी यह चेतना यदि अपना तथा पर-
का ज्ञान करानेवाली न मानी जाय तो घटादिके समान ही यह भी चेतनाशक्ति नहीं है ऐसा कहना पड़ेगा (क्योंकि चेतना शब्दका अर्थ यही सिद्ध होता है कि अपना तथा परका ज्ञान करवै) । और अमूर्तिक चेतनाशक्तिका जो बुद्धिमें प्रति-
बिंब पड़ना कहा सो भी योग्य नहीं है । क्योंकि, प्रतिबिंब किसी मूर्तिक पदार्थका ही पड़सकता है, अमूर्तिकका प्रतिबिम्ब पड़ना संभव नहीं है । मूर्तिक पदार्थके सिवाय अमूर्तिक चेतनाका बुद्धिमें परिवर्तन होना भी संभव नहीं है । क्योंकि, कुछ नकुछ क्रिया उत्पन्न हुए बिना प्रकृतिका भी परिवर्तन (पलटना=फेरफार) संभव नहीं है । यह भी क्योंकि, सुखदुःखादिकी उत्पत्ति तभी कही जासकती है जब पूर्वमें वे सुखादिक नहीं थे ऐसा माना जाय । क्योंकि, सुखादिकी उत्पत्ति पूर्वकी एक अवस्थाको छोड़कर नवीन अवस्थाका उत्पन्न होना है । इसलिये यह नवीन उत्पत्ति तबतक कैसे संभव होगी जबतक पूर्व स्वरूपका त्याग न किया जायगा ? और यदि पूर्व अवस्थाका छूटना माना जाय तो पूर्व अवस्थाका छूटना तथा आगेकी नवीन अवस्थाका उपजना इसीका

नाम क्रिया है। परंतु यह क्रिया मानना सांख्यमतके विरुद्ध है। क्योंकि; सांख्यमती प्रकृतिको निष्क्रिय मानता है। और जो स्फटिकादिकका दृष्टान्त भी इस विषयमें लिखा कि जैसे स्फटिक सयं क्रियारहित होनेपर भी लाल पुष्पादिक उपाधिका संवध होनेसे स्फटिकमें रंग अपूर्व दीखता है परंतु वह यह दृष्टान्त भी ठीक नहीं क्योंकि; स्फटिकादिकमें लालपुष्पादिकका प्रतिबिंब तभी पडसकता है जब थोड़ी बहुत क्रिया मानी जाय। यदि पर्यायपलटनके विना भी स्फटिकादिमें प्रतिबिंब पडता हो तो प्रत्येक साधारण पत्थरोंमें भी क्यों न पड़े? और कोई दूसरा उत्तर न होनेसे ऐसी क्रिया यदि चेतनामें मान ही लीजाय तो न चाहते हुए भी चेतनाशक्तिमें कर्तापना तथा भोक्तापना आ उपस्थित होता है।

अथापरिणामिनी भोक्तृशक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्ते च तद्वृत्तिमनुभवतीति पतञ्जलिवचनादौपचारिक एवायं प्रतिसंक्रम इति चेत्तर्हि “ उपचारस्तत्त्वचिन्तायामनुपयोगी ” इति प्रेक्षावतामनुपादेय एवायम्। तथा च प्रतिप्राणि प्रतीतं सुखदुःखादिसंवेदनं निराश्रयमेव स्यात्। न चेदं बुद्धेरुपपन्नं; तस्या जडत्वेनाभ्युपगमात्। अत एव “ जडा च बुद्धिः ” इत्यपि विरुद्धम्। न हि जडस्वरूपायां बुद्धौ विषयाध्यवसायः साध्यमानः साधीयस्तां दधाति।

सांख्यमती कहता है कि “ भोक्ता जो पुरुष उसकी चेतना शक्तिमें न तो परिणमन (पलटन) होता है और न विषयकी तरफ सक्रमण (गमन)। वह चेतना केवल विषयके परिणमनका तथा बुद्धिके प्रति संक्रमण होनेका अनुभव करती है ” ऐसा पतञ्जलिनै कहा है। इस पतञ्जलिके वचनसे चेतनाका सक्रमण केवल उपचारसे ही सिद्ध होसकता है। यह सांख्यमतीका कहना ठीक नहीं है। क्योंकि, यदि इस चेतनाके परिवर्तनका होना उपचारसे ही माना जाय तो “यथार्थ तत्त्वोंके निर्णयमें उपचारसे वस्तुका स्वरूप मानना निष्प्ययोजन है (इसलिये न मानना चाहिये)” इस वचनके अनुसार यह उपचारसे माना हुआ चेतनाका परिवर्तन बुद्धिमानोंको ग्राह्य न होगा। और जब यह मानना झूठा ठहरा तो प्रत्येक प्राणीमें होनेवाला सुखदुःखका ज्ञान भी निराधार ही हुआ समझना चाहिये। कदाचित् कहो कि सुखदुःखका ज्ञान तो बुद्धिमें उपज सकता है परंतु यह कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि, बुद्धि तो सांख्यमतीने जड़ मानी है। इन अनेक दोषोंके कारण ही बुद्धिको जड़ मानना भी विरुद्ध प्रतीत होता है। क्योंकि, बुद्धि भी यदि जड़रूप मानी जाय तो उसमें विषयोंका निश्चय होना सिद्ध न होसकेगा।

ननूक्तमचेतनापि बुद्धिश्चिच्छक्तिसाध्निध्याच्चेतनावतीवावभासते इति । सत्यमुक्तम् । अयुक्तं तूक्तम् । न हि चैतन्यवति पुरुषादौ प्रतिसंक्रान्ते दर्पणस्य चैतन्यापत्तिः; चैतन्याचैतन्ययोरपरावर्तिस्वभावत्वेन शक्रेणाप्यन्यथाकर्तुमशक्यत्वात् । किं चाचेतनापि चेतनावतीव प्रतिभासते इति इवशब्देनारोपो ध्वन्यते । न चारोपोर्थक्रियासमर्थः । न खल्वतिकोपनत्वादिना समारोपिताश्रित्वो माणवकः कदाचिदपि मुख्यश्रिसाध्यां दाहपाकाद्यर्थक्रियां कर्तुमीश्वरः । इति चिच्छक्रेरेव विषयाध्यवसायो घटते; न जडरूपाया बुद्धेरिति । अत एव धर्माद्यष्टरूपतापि तस्या वाङ्मात्रमेव धर्मादीनामात्मधर्मत्वात् । अत एव चाहङ्कारो न बुद्धिजन्यो युज्यते; तस्याभिमानात्मकत्वेनात्मधर्मस्याचेतनादुत्पादायोगात् । अम्बरादीनां च शब्दादितन्मात्रजत्वं प्रतीतिपराहृतत्वेनैव विहितोत्तरम् ।

शङ्का ।—यह तो हम प्रथम ही कह चुके हैं कि “बुद्धि अचेतन है तो भी चेतनाके पास होनेसे चेतनाशक्तिसहितसी भासती है ।” उत्तर ।—यह बात आपने कही तो अवश्य है परंतु यह कहना अनुचित है । चेतनपुरूपके प्रतिविंब पड़नेसे दर्पण कुछ चेतन नहीं हो सकता है । जो चेतन अथवा अचेतन है वह वेसा ही रहैगा । चेतनो तथा अचेतनोका स्वभाव अनादि तथा अविनाशी है । इन स्वभावोंका परिवर्तन अर्थात् चेतनको किसी प्रकार अचेतन अथवा अचेतनको चेतन कर देना इन्द्रकी सामर्थ्यके भी अगोचर है । और भी एक दूसरा दोष यह है कि “अचेतनरूप बुद्धि चेतनासहितसी प्रतिभासती है” इस वाक्यमें चेतनासहितसी ऐसी समानपनेकी कल्पना मात्र है परंतु जो जो प्रयोजन असली वस्तुसे सधता है वह वह प्रयोजन कल्पित माने हुए वस्तुसे नहीं सध सकता है । इसीलिये कल्पनामात्रके माननेसे भी प्रयोजन क्या ? किसी बालकमें अत्यंत क्रोधादिक देखकर उसका यदि अग्नि नाम ही रख दिया जाय तो भी क्या उसके सपर्कसे कोई जल सकता है ? जो जलना पकानाआदि कार्य मुख्य अग्निसे हो सकते हैं वे कार्य नाममात्रकी नकली अग्निसे कदापि नहीं हो सकते हैं । इसी प्रकार जो खास चेतनाशक्तिसे विषयोंका ज्ञान होने योग्य है वह क्या संबंधके वश चेतना ऐसे नकली नाममात्रको धारण करनेवाली बुद्धिसे हो सकता है ? कदापि नहीं । इसी प्रकार बुद्धिमें धर्मादिक आठ भेद मानना भी संभव नहीं है । क्योंकि, धर्मादिक जो हैं सो आत्माके ही स्वभाव हैं । इसी प्रकार अहंकारका भी अचेतन बुद्धिसे उत्पन्न होना असंभव है । क्योंकि; अभिमानका नाम अहंकार है और वह अभिमान अथवा अहंकार अहंकार चैतन्यसे मिला हुआ है इसलिये चैतनरूप आत्मासे ही उत्पन्न हो सकता है । चैतनरूप पदार्थकी

उत्पत्ति जह वस्तुसे होना संभव नहीं है । आकाशादिकका शब्दादिक पांच तन्मात्राओंसे उत्पन्न होना तो सर्वथा ही प्रतीतिबाधित है । इसलिये इसका अधिक विचार क्या लिये ?

अपि च सर्ववादिभिस्तावदविगानेन गगनस्य नित्यत्वमङ्गीक्रियते । अयं च शब्दतन्मात्रात्तस्याप्याविर्भावमुद्भावयन्नित्यैकान्तवादिनां च धुरि आसनं न्यासयन्नसंगतप्रलापीव प्रतिभाति । न च परिणामिकारणं स्वकार्यस्य गुणो भवितुमर्हतीति शब्दगुणमाकाशमित्यादि वाज्जात्रम् । वागादीनां चेन्द्रियत्वमेव न युज्यते इतरासाध्यकार्य कारित्वाभावात् ; परप्रतिपादनग्रहणविहरणमलोत्सर्गादिकार्याणामितरावयवैरपि साध्यत्वोपलब्धेः । तथापि तत्कल्पने इन्द्रियसंख्या न व्यवतिष्ठते अन्याङ्गोपाङ्गादीनामपीन्द्रियत्वप्रसङ्गात् ।

और भी दूसरा दोष यह है कि सर्व वादियोने आकाशको निर्विवाद नित्य माना है और यह (सांख्यमती) शब्दतन्मात्रासे उसकी उत्पत्ति भी मानता हुआ सर्वथा नित्यमाननेवालोंमें सबके आगे अपना आसन जमाता है । ऐसा भी सांख्य क्या असंगत भाषी नहीं है ? और भी तीसरा दोष यह है कि जो किसी वस्तुका पर्याय पलटानेमें कारण होता है वही स्वयं उस पलटे हुए पर्यायका गुण नहीं हो सकता है । इसलिये आकाशको शब्दसे ही उत्पन्न कहकर शब्दगुणवाला मानना तथा ऐसे ही और भी कथन कहनेमात्र ही है । वचन, हाथ, पैर, गुदा तथा लिंगको (पुरुषचिह्नको) इन्द्रिय मानना भी सर्वथा अयोग्य है । क्योंकि, इन्द्रिय वही होसकता है जिसके द्वारा ऐसा कार्य हो जो अन्यसे न होसकै । वचनसे दूसरोंको समझाना, हाथसे किसी वस्तुको उठाना, पैरोंसे चलना, गुदाके द्वारा विद्याका त्यागना तथा पुरुषचिह्नसे मृतना इत्यादि कार्य जो वचनादि इन्द्रियोंसे किये जाते हैं वे तो अन्य प्रकार भी किये जा सकते हैं । यदि तो भी इनको इन्द्रिय माना जाय तो इन्द्रिय ग्यारह ही है ऐसा नियम ही न होसकै । क्योंकि, ऐसे और भी बहुतसे शरीरके अवयव हैं जो हाथ पैर आदिके समान इन्द्रिय मानेजासकते हैं ।

यच्चोक्तं “ नानाश्रयायाः प्रकृतेरेव बन्धमोक्षौ संसारश्च; न पुरुषस्य ” इति तदप्यसारम्; अनादिभ्रवपरम्परानुबद्धया प्रकृत्या सह यः पुरुषस्य विवेको ग्रहणलक्षणोऽविष्वग्भावः स एव चेन्न बन्धस्तदा को नामान्यो बन्धः स्यात् ? प्रकृतिः सर्वोत्पत्तिमतां निमित्तमिति च प्रतिपद्यमानेनायुष्मता संज्ञान्तरेण कर्मैव प्रतिपन्नं; तस्यैवंस्वरूपत्वाद्चेतनत्वाच्च ।

और जो यह कहा कि “अनेक पुरुषोंके आश्रय रहनेवाली प्रकृतिका ही बंधमोक्ष तथा संसारमें परिश्रमण होता है; पुरुषका नहीं” वह सब असत्य है। क्योंकि; अनादिकालकी संसारपरिपाटीसे साथ बंधी हुई प्रकृतिमें जो पुरुषका ऐसा गाढ ममत्वरूप प्रवल मिथ्याज्ञान जिसकी जुदाई आजपर्यंत न हुई वह भी यदि जीवका बंधन नहीं है तो और कोनसा बंधन है? भावार्थ—बंधन वही होता है जिसके होनेसे परतंत्रता रहे। इसलिये यहांपर भी पुरुषका प्रकृतिके साथ ऐसा ममत्वरूप मिथ्याज्ञानही बंधन होना चाहिये। क्योंकि; इस प्रकृतिके साथ एकताका जबतक ज्ञान है तभीतक जीव संसारमें है। जब यह ज्ञान नष्ट हो जाता है अर्थात् पुरुष प्रकृतिसे अपनेको जुदा समझने लगता है तभी संसारसे छूटकर मुक्त हुआ समझाजाता है। यही साल्यका भी मंतव्य है। इस कथनसे यही सिद्ध होता है प्रकृति तो कर्मरूप है और उसमें जो एकताका ज्ञान रहना वही पुरुषका बंधन है। इसलिये पुरुष ही जबतक प्रकृतिमें एकताका मिथ्याज्ञान है तबतक बंधा है और संसारमें परिश्रमण करता है और जब यह मिथ्याज्ञान नष्ट हो जाता है तभी इसकी मुक्ति हो जाती है। बंध, मोक्ष तथा ससाररूप अवस्था पुरुषकी न मानकर जो प्रकृतिकी ही मानना है वह सर्वथा मिथ्या है। क्योंकि; प्रकृति तो कर्मरूप है और बंधका कारण है इसलिये वह स्वयं अपनेसे ही बद्ध तथा मुक्त कैसे कही जासकती है? बंधके कारणके अतिरिक्त कोई दूसरा ही बंधनेवाला तथा छूटनेवाला होना चाहिये। जैसे वेदी तो बांधनेवाली है और बंधने तथा उससे छूटनेवाला कोई और जीव ही होता है। वेदी स्वयं बंधती तथा छूटती नहीं है। प्रकृति सभी उत्पत्ति-मान् पदार्थोंकी उत्पत्तिका निमित्त कारण है ऐसा आपने (सांख्यने) माना भी है। हम भी कर्मका स्वरूप ऐसा ही मानते हैं तथा कर्मको जड़ भी मानते हैं। इसलिये आपकी प्रकृति और हमारे कर्ममें कुछ अंतर नहीं है; केवल नाममात्र भिन्न है। अर्थात् आप प्रकृति कहते हैं और हम कर्म कहते हैं।

यस्तु प्राकृतिकवैकारिकदाक्षिणभेदान्निविधो बन्धः । तद्यथा । प्रकृतावात्मज्ञानाद्ये प्रकृतिमुपासते तेषां प्राकृतिको बन्धः । ये विकारानेव भूतेन्द्रियाहङ्कारबुद्धीः पुरुषबुद्ध्योपासते तेषां वैकारिकः । इष्टापूर्ते दाक्षिणः । पुरुषतत्त्वानभिज्ञो हीष्टापूर्तकारी कामोपहतमना बध्यते इति । इष्टापूर्ते मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेभिनन्दन्ति मूढाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा इमं लोकं वा हीनतरं विशन्ति इति वचनात् ।

स त्रिविधोपि कल्पनामात्रं कथंचिन्मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगेभ्योऽभिन्नस्वरूपत्वेन कर्मबन्धहेतुष्वे

वान्तर्भावात् । बन्धसिद्धौ च सिद्धस्तस्यैव निर्वाधः संसारः । बन्धमोक्षयोश्चैकाधिकरणत्वाद्य एव बद्धः स एव मुच्यते इति पुरुषस्यैव मोक्षः; आबालगोपालं तथैव प्रतीतेः ।

प्राकृतिक (प्रकृतिमें एकत्वबुद्धि होनेसे उत्पन्न होनेवाला), वैकारिक (इंद्रिय अहंकारादिक विकारोंसे उत्पन्न होनेवाला) और दाक्षिण (शुभकर्मोंसे होनेवाला पुण्यबंध) ऐसे बंध तीन प्रकार हैं । जो प्रकृतिमें आत्माका अग्र होनेसे प्रकृतिकी ही आत्मा समझकर उपासना करते हैं उनके प्राकृतिक बंध होता है । पृथिव्यादि पांच भूत, इंद्रिय, अहंकार तथा बुद्धिरूप विकारोंकी पुरुष समझकर जो उपासना करते हैं उनके वैकारिक बंध होता है । यज्ञादिक (इष्ट) और दानादिक (आपूर्त) शुभ कर्म करनेसे दाक्षिण (पुण्य) बंध होता है । सांसारिक इच्छाओंसे जिसका मन मलिन होरहा है और जो आत्मतत्वको नहीं समझता है ऐसा जीव भी यज्ञदानादिक शुभकर्म करनेसे बंधको प्राप्त होता ही है । ऐसा कहा भी है कि; जो मूढ मनुष्य यज्ञदानादि कर्मोंको ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, यज्ञदानादिके अतिरिक्त किसी भी शुभ कर्मकी प्रशंसा नहीं करते हैं वे इस यज्ञदानादिके पुण्यसे प्रथम तो स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं परंतु अंतमें फिर भी इसी मनुष्यलोकमें अथवा इससे भी हीन स्थानोंमें आकर जन्म लेते हैं ।

इस प्रकार जो ऊपर तीन प्रकारका बंध सांख्यमतीने कहा है वह कहनेमात्र ही है । क्योंकि; हमने जो मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योगोंको कर्मबंधका कारण कहा है उन्हींमें इस तीन प्रकारके बंधका भी किसीप्रकार अंतर्भाव हो जाता है, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है । इस प्रकार जब जीवका बंध सिद्ध है तो इस कर्मबंधके कारणसे जो संसारमें परिभ्रमण होता है वह भी उस जीवका ही होना चाहिये । और जो बंधता है वही कभी छूटता है । क्योंकि, जो बंधा ही नहीं है वह छूटे किससे ? बंध तथा मोक्ष (छूटने) का स्वामी (आधार) एक ही होता है । इस प्रकार मोक्ष होना भी पुरुषका ही निश्चित है । जो बंधता है वही छूटने योग्य है यह बात इतनी प्रसिद्ध है कि वचोसे लेकर सभी जानते हैं ।

प्रकृतिपुरुषविवेकदर्शनात् प्रवृत्तेरुपरतायां प्रकृतौ पुरुषस्य स्वरूपेणावस्थानं मोक्ष इति चेन्न; प्रवृत्तिस्वभावायाः प्रकृतेरौदासीन्यायोगात् । अथ पुरुषार्थनिबन्धना तस्याः प्रवृत्तिः विवेकव्यातिश्च पुरुषार्थः । तस्यां जातायां निवर्तते; कृतकार्यत्वात् । “ रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते

प्रकृतिः” इति वचनात् । इति चैत्रैवं; तस्या अचेतनाया विमृश्यकारित्वाभावात् । यथेयं कृतेपि शब्दाद्युपलम्भे पुनस्तदर्थं प्रवर्तते तथा विवेकख्यातौ कृतायामपि पुनस्तदर्थं प्रवर्तिष्यते; प्रवृत्तिलक्षणस्य स्वभावस्थानपेतत्वात् । नर्तकीदृष्टान्तस्तु स्वेष्टविघातकारी । यथा हि नर्तकी नृत्यं पारिषदेभ्यो दर्शयित्वा निवृत्तापि पुनस्तत्कुतूहलात् प्रवर्तते तथा प्रकृतिरपि पुरुषायात्मानं दर्शयित्वा निवृत्तापि पुनः कथं न प्रवर्ततामिति । तस्मात् कृत्स्नकर्मक्षये पुरुषस्यैव मोक्ष इति प्रतिपत्तव्यम् ।

यदि कहो कि “ प्रकृति और पुरुषमें जो अंतर है उसको दिखाकर जब प्रकृति प्रवृत्ति करनेसे रुक जाती है तब जो पुरुषका अपने स्वरूपमें लीन होना है वही मोक्ष है ” सो यह कहना मिथ्या है । क्योंकि; जब प्रकृतिका स्वभाव ही प्रवृत्तिकरना कहा है तो प्रवृत्तिसे रुकना कैसे होसकता है? क्योंकि; पदार्थका स्वभाव नष्ट होनेपर तो पदार्थका नाश ही होजाता है । “प्रकृतिकी प्रवृत्ति केवल पुरुषार्थ उत्पन्न करनेकेलिये ही होती है और प्रकृति तथा पुरुषमें भेददृष्टिका होजाना ही पुरुषार्थ है । इसलिये भेददृष्टिरूप पुरुषार्थ [कार्य] उत्पन्न होनेपर कारणरूप प्रकृति कृतकृत्य होनेसे विश्रामको प्राप्त होती है । जैसे नदी रंगभूमिको अपना नृत्य दिखाकर बंद होती है तैसे ही प्रकृति पुरुषको अपना स्वरूप दिखाकर निवृत्त होती है” ऐसा दृष्टांत भी कहा है । यह कहना सर्वथा असत्य है । क्योंकि; अचेतन होनेसे प्रकृतिमें विचारपूर्वक कार्य करना ही असंभव है । और भी दूसरा दोष यह है कि प्रकृति जैसे शब्दादिकोंका ज्ञान एकवार होजानेपर भी फिरसे शब्दादिकोंके ज्ञान करनेमें प्रवर्तती है तैसे प्रकृति तथा पुरुषमें भेददृष्टिरूप ज्ञान होनेपर भी फिरसे क्यों न प्रवर्तै? क्योंकि; प्रवर्तनस्वभाव तो उस प्रकृतिने अभी छोड़ा ही नहीं है । इस विषयमें नर्तकीका दृष्टांत भी उल्टा लुट्टारे ही सिद्धांतका घात करता है । किस प्रकार? जैसे नदी दर्शकोंको अपना नृत्य दिखाकर निवृत्त होजानेपर भी अच्छा नृत्य होनेके कारण यदि दर्शकजन फिर भी आग्रह करै तो फिरसे भी नृत्य करने लगती है तैसे ही प्रकृति भी पुरुषको अपना स्वरूप दिखाकर निवृत्त होनेके अनंतर फिरसे क्यों न प्रवृत्त हो? और यदि फिरसे प्रवृत्त होना मानलिया जाय तो प्रकृतिका मोक्ष कभी हो ही नहीं सकैगा । इसलिये संपूर्ण कर्मोंका सर्वथा नाश होजानेपर पुरुष (आत्मा) का ही मोक्ष होता है ऐसा मानना चाहिये ।

एवमन्यासामपि तत्कल्पनानां “तमोमोहमहामोहतामिस्रान्धतामिस्त्रभेदात् पञ्चधा अविद्यासितारागद्वेषाभिनि-

वेशरूपो विपर्ययः । ब्राह्मप्राजापत्यसौम्यैन्द्रगान्धर्वयक्षराक्षसपैशाचभेदादष्टविधो देवः सर्गः । पशुमृगपक्षिसरीसृप-
 स्थावरभेदात् पञ्चविधस्तैर्यग्योनः । ब्राह्मणत्वाद्यवान्तरभेदाविवक्षया चैकविधो मानुषः । इति चतुर्दशधा भूतसर्गः ।
 ऋष्यष्टकविपर्ययलक्षणसप्तदशबुद्धिवधभेदादष्टाविंशतिविधा शक्तिः । प्रकृत्युपादानकालभोगाख्या अम्भःसलि-
 न्मानः पञ्च बाह्यास्तुष्टयः । ताश्च पारसुपारपारानुत्तमाम्भजत्तमाम्भःशब्दव्यपदेश्याः । इति नवधा तुष्टिः ।
 त्रयो दुःखविधाता इति मुख्यास्त्रिभुवः सिद्धयः प्रमोदमुदितमोदमानाख्याः । तथाध्ययनं शब्द ऊहः सुहृत्साहि-
 दानमिति दुःखविधातोपायतया गौण्यः पञ्च तारसुतारतारारम्यकसदामुदिताख्याः । इत्येवमष्टधा सिद्धिः । धृ-
 तिश्चासुखविदिषाविज्ञप्तिभेदात् पञ्च कर्मयोग्यः । इत्यादीनां ” संवरप्रतिसंवरादीनां च तत्त्वकौमुदीगौडपाद-
 भाष्यादिप्रसिद्धानां विरुद्धत्वमुद्भावनीयम् । इति काव्यार्थः ।

इसी प्रकार सांख्यमतियोंकी और भी नीचे दिखाई गई कल्पनाओंमें तथा तत्त्वकौमुदीके गौडपाद भाष्य आदिक ग्रन्थोंमें
 प्रसिद्ध संवर प्रतिसंवरादिक कल्पनाओंमें अनेक प्रकारका विरोध विचारलेना चाहिये । वे नीचे लिखी हुई कल्पनाएँ ये है ।—
 तम, मोह, महामोह, तामिस्र तथा अघतामिस्र ऐसे पांच प्रकारका अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश (आग्रह) नामक
 विपर्यय है । ब्रह्मलोकमें उत्पन्न होने, प्रजापतिलोकमें उत्पन्न होने तथा सौम्यलोकमें, इन्द्रलोकमें, गन्धर्वके लोकमें तथा यक्ष,
 राक्षस, पिशाचोंके लोकमें उत्पन्न होनेकी अपेक्षा देवताओंकी सृष्टि आठ प्रकार है । पशु, मृग, पक्षी, सर्प तथा वृक्षादिक स्थावर
 ऐसी पांच प्रकार तिर्यचोंकी सृष्टि है । ब्राह्मणादिक अंतर्गत भेदोंकी अपेक्षा न करनेसे मनुष्य एक प्रकार ही गिने है । इस प्रकार
 प्राणियोंकी उत्पत्ति सर्व चौदह प्रकारसे है । बहिरापन (श्रोत्रका), कुठता (वचनकी), अधापन (नेत्रोंका), जड़पना (स्पर्शने-
 न्द्रियका), गंधका ज्ञान न होना (नासिकाका), तोतलापन (जिह्वाका), छलपन (हाथका) लंगडापन (पैरोंका), नयुस-
 कपना (लिंगका), कब्जियात (गुदासंबंधी) तथा उन्मत्तता (मनकी) यह ग्यारह प्रकारका इंद्रियोंका बध तथा नौ बुद्धियोंके
 नौ प्रकार विपर्यय तथा आठ सिद्धियोंके आठ प्रकार विपर्यय ऐसे सत्रह प्रकारका बुद्धिका बध यह सर्व अष्टाईस प्रकारकी शक्ति

है। प्रकृति, उपादान, काल तथा भोग इन नामोंवाली अथवा अंभः, सलिल, ओघ तथा वृष्टि ये दूसरे नाम है जिनके ऐसी चार आध्यात्मिक वृष्टि है। शब्दस्पर्शादिक विषयोंसे उदासीनरूप तथा अप्राप्त वस्तुका उपार्जन, विद्यमान वस्तुकी रक्षा, विद्यमानका ही नाश, भोग, तथा हिंसारूप दोषोंसे उत्पन्न हुई ऐसी पांच बाह्य वृष्टि है। इनके नाम पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमान तथा उत्तमांभ है। इस प्रकार सर्व वृष्टि नौ है। दुःखका नाश करनेवाली तीन तो मुख्य सिद्धि है। प्रमोद, मुदितमोद तथा मान ये इनके तीन नाम है। और अध्ययन, शब्द, जह (तर्क), सच्चे मित्रोंकी प्राप्ति तथा दान ये पांच अप्रधान सिद्धि है। तार, सुतार, तारतार, रम्यक तथा सदासुदित ये इन पाचोंके नाम है। इस प्रकार सर्व मिलकर आठ सिद्धि है। वृत्ति, श्रद्धा, सुख, जाननेकी इच्छा तथा ज्ञानका होना ये पांच प्रत्येक कर्म करनेमें मूलकारण होते है। इत्यादिक तथा और भी संवर प्रतिसंवरादिक तत्त्वकौमुदीनामक ग्रन्थके गौड़पादभाष्यादिकोंमें दिखाई हुई सांख्यमतीकी कल्पनाओंमें परस्परका विरोध विचारलेना चाहिये। इस प्रकार इस काव्यका अर्थ पूर्ण हुआ।

इदानीं ये प्रमाणादेकान्तेनाभिन्नं प्रमाणफलमाहुर्ये च बाह्यार्थप्रतिक्षेपेण ज्ञानाद्वैतमेवास्तीति ब्रुवते तन्मतस्य विचार्यमाणत्वे विशरारुतासाहुः।

अब यह दिखाते है कि जो प्रमाणका फल प्रमाणसे सर्वथा अभिन्न अर्थात् एकरूप ही मानते है और जो बाह्य पदार्थोंका निषेध कर सर्व ज्ञानरूप ही है ऐसा ज्ञानाद्वैत ही मानते है उनके मत विचारनेपर विशीर्ण होजाते है अर्थात् ठहरते नहीं है।

**न तुल्यकालः फलहेतुभावो हेतौ विलीने न फलस्य भावः।
न संविद्वैतपथेथसंविद्विलूनशीर्णं सुगतेन्द्रजालम् ॥ १६ ॥**

मूलार्थ—उपादान कारण तथा उसका कार्य ये दोनो एक समयमें नहीं रहसकते है और उपादान कारणका सर्वथा नाश हो-जानेपर भी कार्यकी उत्पत्ति नहीं होसकती है। यदि केवल ज्ञानस्वरूप ही जगत् माना जाय तो बाह्य अनेक पदार्थोंका ज्ञान नहीं होसकैगा। इस प्रकार विचारनेपर बुद्धका फेलाया हुआ इंद्रजाल फटजाता है।

व्याख्या—बौद्धाः किल प्रमाणात्फलमेकान्तेनाऽभिन्नं मन्यन्ते। तथा च तत्सिद्धान्तः “ उभयत्र तदेव ज्ञानं

प्रमाणफलमधिगमरूपत्वात्” । उभयत्रेति प्रत्यक्षेऽनुमाने च, तदेव ज्ञानं प्रत्यक्षानुमानलक्षणं फलं कार्यम् । कुतोऽधिगमरूपत्वादिति परिच्छेदरूपत्वात् । तथा हि । परिच्छेदरूपमेव ज्ञानमुत्पद्यते । न च परिच्छेदादृतेऽन्यत्र ज्ञानफलम्; अभिन्नाधिकरणत्वात् । इति सर्वथा न प्रत्यक्षानुमानाभ्यां भिन्नं फलमस्तीति । एतच्च न समीचीनं यतो यद्यस्मादेकान्तेनाऽभिन्नं तत्तेन सहैवोत्पद्यते । यथा घटेन घटत्वम् । तैश्च प्रमाणफलयोः कार्यकारणभावोऽभ्युपगम्यते । प्रमाणं कारणं फलं कार्यमिति । स चैकान्ताऽभेदे न घटते । न हि युगपदुत्पद्यमानयोस्तयोः सव्येतरगो-विषाणयोरिव कार्यकारणभावो युक्तः; नियतप्राक्कालभावित्वात्कारणस्य; नियतोत्तरकालभावित्वात्कार्यस्य । एतदेवाह “न तुल्यकालः फलहेतुभावः” इति । फलं कार्यं हेतुः कारणम् । तयोर्भावः स्वरूपं कार्यकारणभावः । स तुल्यकालः समानकालो न युज्यत इत्यर्थः ।

व्याख्यार्थ—बुद्धमतावलम्बी प्रमाणसे उत्पन्न हुए फलरूप ज्ञानको प्रमाणरूप ज्ञानसे सर्वथा अभिन्न मानते है । ऐसा ही उनके सिद्धान्तमें कहा है “दोनो प्रकारके (प्रत्यक्ष तथा अनुमानरूप) प्रमाणज्ञानमें ही फलरूप (कार्यरूप) प्रत्यक्ष तथा अनुमानज्ञान भी गर्भित है । क्योंकि, ज्ञान जितना होता है वह सर्व अधिगम (परिच्छेदरूप) अर्थात् फलरूप ही होता है” । इसी अभिप्रायको अनुमानद्वारा दिखाते है । ज्ञान जितना उपजता है वह सर्व परिच्छेदरूप अर्थात् फलरूप ही उपजता है । परिच्छेदरूपके सिवाय दूसरा कोई ज्ञानका फल है ही नहीं । क्योंकि, दूसरा जो कुछ फलरूप कल्पना किया जायगा वह सभी प्रमाणसे भिन्न स्थानमें रहनेवाला सिद्ध होगा । किंतु कारण तथा कार्यका आधार होना एक ही चाहिये । इस प्रकार प्रमाणरूप प्रत्यक्ष तथा अनुमान ज्ञानोसे इसके फलरूप (कार्यरूप) प्रत्यक्ष तथा अनुमान ज्ञान किसी प्रकार भिन्न सिद्ध नहीं होते । इस प्रकार प्रमाणके फलरूप ज्ञानको प्रमाणज्ञानसे सर्वथा अभेदरूप मानना बौद्धोंका मत है सो ठीक नहीं है । क्योंकि, जो जिससे सर्वथा अभिन्न होता है वह उसके साथ ही उत्पन्न होता है । जैसे घट और घटपना अर्थात् घटमें रहनेवाले धर्म । ये दोनो एक ही है इसलिये साथ ही उपजते है । और बौद्धोंने प्रमाण और प्रमाणके फलमें कार्यकारणरूप संबंध भी माना है । प्रमाण कारण है और प्रमाणका फल कार्य । यह कार्यकारणभाव संबंध भी प्रमाण तथा प्रमाणके फलको सर्वथा एकरूप माननेपर सिद्ध नहीं होसकता है । क्योंकि, दक्षिण (सीधे) और वाम (बांये) सीगके समान एकसाथ उपजनेवाले प्रमाण और प्रमाणके फलमें कार्यकारणपना किस

प्रकार होसकता है ? क्योंकि; कार्यकी उत्पत्तिसे पहिले क्षणमें नियमसे कारण रह सकता है और कार्य नियमसे कारणके अनंतर-वाले दूसरे क्षणमें ही व्यवधान रहित रह सकता है। यही अन्यत्र भी कहा है “ एक ही कालमें फल (कार्य) तथा हेतु (कारण) नहीं रह सकते है।” फल अर्थात् कार्यके और हेतु अर्थात् कारणके स्वरूपको ही कार्यकारणभाव कहते है। सो यह कार्यकारणभाव समानकालमें संभव नहीं है।

अथ क्षणान्तरितत्वात्तयोः क्रमभावित्वं भविष्यतीत्याशङ्क्याह “हेतौ विलीने न फलस्य भावः” इति। हेतौ कारणे प्रमाणलक्षणे विलीने क्षणिकत्वादुत्पत्त्यनन्तरमेव निरन्वयं विनष्टे फलस्य प्रमाणकार्यस्य न भावः सत्ता; निर्मूलत्वात्। विद्यमाने हि फलहेतावस्येदं फलमिति प्रतीयते। नान्यथाऽतिप्रसङ्गात्।

अब कार्यकारणोंमें क्षणमात्रका अन्तर पडनेसे क्रमवर्त्तिपना होसकेगा ऐसी क्षणिकवादीकी आशंकाका “ हेतौ विलीने न फलस्य भावः ” ऐसा उत्तर देते है। अर्थात् क्षणिक होनेसे उत्पत्तिके बाद ही प्रमाणरूप हेतु (कारण) निरन्वय (सर्वथा) नष्ट होजानेपर प्रमाणके कार्यरूप फलकी निर्मूल अर्थात् कारणके विना ही उत्पत्ति होना असभव है। क्योंकि; किसी भी कार्यरूप वस्तुका कारण विद्यमान रहनेपर ही यह इसका कार्य है ऐसी प्रतीति होसकती है। यदि कारणके विना भी कार्यकी उत्पत्ति मानलीजाय तो विना माताके भी पुत्रकी उत्पत्ति होना इत्यादि अनेक अतिव्याप्तिरूप दोष उपस्थित होने लगेंगे। किं च हेतुफलभावः संबन्धः। स च द्विष्ट एव स्यात्। न चानयोः क्षणक्षयैकदीक्षितो भवान् संबन्धं क्षमते। ततः कथमयं हेतुरिदं फलमिति प्रतिनियता प्रतीतिः? एकस्य ग्रहणेऽप्यन्यस्याऽग्रहणे तदसंभवात् “द्विष्टसंबन्धसं-वित्तिर्नैकरूपप्रवेदनात्। द्वयोः स्वरूपग्रहणे सति संबन्धवेदनम्” इति वचनात्।

तथा कार्यकारणभाव एक प्रकारका संबन्ध है। संबन्ध दो वस्तुओंमें ही रहता है। और आपको सर्वथा क्षणक्षयकी वासनासे वासित होनेके कारण इन दोनोका (प्रमाण और फलका) संबन्ध सहन नहीं हो सकता है इसीलिये किसी विवक्षित (निश्चित) पदार्थमें यह हेतु है, यह फल है ऐसी नियमित प्रतीति होना भी असंभव है। क्योंकि; जब प्रत्येक पदार्थ क्षणध्वंसी ही माना जायगा तो कार्यकारणोंमेंसे एक समयमें एक ही उपस्थित रहसकता है और इसीलिये किसी एक समयमें कार्यकारणोंमेंसे उस एकका ज्ञान होनेपर भी दूसरेका ज्ञान न होनेसे यह हेतु है, यह इसका फल है ऐसी प्रतीति होना असंभव है। “दो वस्तुओंमें रहनेवाले संबन्धका

शान उन दोनू वस्तुओंका प्रथम शान होनेपर ही होसकता है, यदि उनमेंसे एक वस्तुका ही शान हो तो उस संबधका शान कदापि नहीं हो सकता” ऐसा पूर्वाचार्यका वचन है ।

यदपि धर्मेत्तरेण “ अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणं तद्वशादर्थप्रतीतिसिद्धेः ” इति न्यायविन्दुसूत्रं विवृण्वता भणितं “नीलनिर्भासं हि विज्ञानं यतस्तस्मान्नीलस्य प्रतीतिरवसीयते । येभ्यो हि चक्षुरादिभ्यो ज्ञानमुत्पद्यते न तद्वशात्तज्ज्ञानं नीलस्य संवेदनं शक्यतेवस्थापयितुं नीलसदृशं त्वनुभूयमानं नीलस्य संवेदनमवस्थाप्यते । न चात्र जन्यजनकभावनिवन्धनः साध्यसाधनभावो येनैकस्मिन्वस्तुनि विरोधः स्यात् । अपि तु व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावेन । तत एकस्य वस्तुनः किंचिद्रूपं प्रमाणं किंचिल्लमाणफलं न विरुध्यते । व्यवस्थापनहेतुहिं सारूप्यं तस्य ज्ञानस्य व्यवस्थाप्यं च नीलसंवेदनरूपम्” इत्यादि तदप्यसारम्; एकस्य निरंशस्य ज्ञानक्षणस्य व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकत्वलक्षणस्वभावद्वयाऽयोगात् व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावस्यापि च सम्बन्धत्वेन द्विष्टत्वादेकस्मिन्नसंभवात् ।

और भी-धर्मोत्तर नामक बौद्ध आचार्यने “ज्ञानके आकारके साथ अर्थकी समानता होनेसे ही ज्ञानमें प्रमाणता होती है । क्योंकि ज्ञानमें अर्थकी समानता होनेपर ही अर्थकी प्रतीति होती है” ऐसे अभिप्रायवाले न्यायविन्दु ग्रन्थके सूत्रका विवरण करते हुए “जिसमें नीलरूपका प्रतिभास हो ऐसा विज्ञान जिससे उत्पन्न होताहो उसीसे नीलरूपकी प्रतीतिका निश्चय होता है । और जिन चक्षुरादि इन्द्रियोंके द्वारा नीलादिका ज्ञान उत्पन्न होता है केवल उन इन्द्रियोंके ही वश वह ज्ञान नीलादि संवेदनका निश्चय नहीं करासकता है । और नीलके सदृश अनुभव किया हुआ नीलादिज्ञान (अर्थके द्वारा) तो नीलका संवेदन कराता है । भावार्थ-पदार्थकी समानता रखनेवाला ही ज्ञान पदार्थकी सहायतासे प्रमाण समझा जाता है और इन्द्रियादिककी सहायतासे उत्पन्न होनेपर भी वह ज्ञान इन्द्रियादिकके वशसे प्रमाणरूप नहीं होता । यहांपर जन्यजनकभावका आश्रय लेकर साध्यसाधनपना नहीं मानागया है जिससे कि एक वस्तुमें (एक समयमें) परस्पर विरोध संभव हो । भावार्थ-यदि जन्यजनकभावकी अपेक्षा लेकर साध्यसाधनपना यहां मानाजाता तो एक वस्तुमें साध्यसाधनपनेका विरोध आता । क्योंकि; एक समयमें एक वस्तु या तो साध्यरूप ही हो सकती है या साधनरूप ही । दोनोंरूप नहीं होसकती । इसीलिये हमने जन्यजनकभावकी अपेक्षा साध्यसाधनभाव यहां नहीं माना

१ बौद्धोंके एक न्यायग्रन्थका नाम न्यायविन्दु है । २ “ अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणं तद्वशादर्थप्रतीतिसिद्धेः ” ऐसा न्यायविन्दुका सूत्र है ।

है। और इसीलिये यहां परस्पर विरोधरूप दोष भी संभव नहीं है। किंतु व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकपदनेकी अपेक्षामात्रसे साध्यसाधनपना है। इससे एक ही वस्तुका कुछ स्वरूप प्रमाणरूप तथा कुछ प्रमाणके फलरूप माननेमें विरोध नहीं आसकता है। यहांपर ऐसी व्यवस्था करनेका हेतु समानपना (ज्ञान तथा वस्तुका) ही है और इस ज्ञानसे नीलादिसंवेदनकी व्यवस्था कीजाती है।” इत्यादि विवरण (व्याख्यान) किया है परंतु वह भी असत्य है। क्योंकि; ज्ञानस्वरूप एक निरंश भावमें व्यवस्था होने योग्य (व्यवस्थाप्य) तथा व्यवस्था करनेयोग्य (व्यवस्थापक) ऐसे दो स्वभावोंका समावेश किस प्रकार होसकता है? क्योंकि; व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभाव भी एक प्रकारका संबंध होनेसे दो पदार्थोंमें ही रहसकता है। इसीलिये एकस्वभावमें दो स्वभावोंका होना असंभव है।

किं चाऽर्थसारूप्यमर्थाकारता । तच्च निश्चयरूपमनिश्चयरूपं वा ? निश्चयरूपं चेत्तदेव व्यवस्थापकमस्तु । किमुभयकल्पनया ? अनिश्चितं चेत्स्वयमव्यवस्थितं कथं नीलादिसंवेदनव्यवस्थापने समर्थम् ? अपि च केयमर्थाकारता ? किमर्थग्रहणपरिणाम आहोस्विदर्थाकारधरित्वम् ? नाद्यः सिद्धसाधनात् । द्वितीयस्तु ज्ञानस्य प्रमेयाकारानुकरणाज्जडत्वापत्त्यादिदोषाघातः । तन्न प्रमाणादेकान्तेन फलस्याऽभेदः साधीयान् । सर्वथा तादात्म्ये हि प्रमाणफलयोर्न व्यवस्था तद्भावविरोधात् । न हि सारूप्यमस्य प्रमाणमधिगतिः फलमिति सर्वथा तादात्म्ये सिद्ध्यत्यतिप्रसङ्गात् ।

थोड़े समयके लिये यह पूर्वोक्त विचार छोड़ भी दिया जाय तो भी अर्थसारूप्यशब्दका अर्थ ज्ञानका पदार्थके आकार होजाना है। सो यह अर्थसारूप्य भी निश्चयरूप है अथवा अनिश्चयरूप? यदि निश्चयरूप मानाजाय तो इस निश्चयरूपको ही व्यवस्थापक कहसकते है; फिर व्यवस्थाप्य व्यवस्थापक इस प्रकार दो भाव माननेकी क्या आवश्यकता है? और यदि अर्थसारूप्यको अनिश्चयरूप माना जाय तो जो स्वयं अव्यवस्थित (अनिश्चित) है वह नीलादिसंवेदनकी निश्चय करनेकी व्यवस्था कैसे करसकता है? अर्थात् नीलादिसंवेदनका व्यवस्थापक कैसे होसकता है? और भी—अर्थसारूप्यका अर्थ जो अर्थाकारता किया सो वह अर्थाकारता क्या चीज है? क्या पदार्थको ग्रहण करनेका परिणाम है अथवा उस ज्ञेय पदार्थके आकाररूप होजाना है? आदिका पक्ष तो ठीक नहीं। क्योंकि, पदार्थको ग्रहणकरनेरूप परिणाम तो पूर्वसे ही सिद्ध है इसलिये सिद्धको साधनेसे सिद्धसाधननामक दोष उपस्थित होजाता है। यदि द्वितीय पक्ष अर्थात् पदार्थके आकाररूप ज्ञानका होजाना माना जाय तो ज्ञानमें प्रमेयाकारका परिणमन होनेसे

जड़त्वादिक अनेक दोष आते हैं। इसलिये सर्वथा प्रमाणसे उसके फलका अभेद सिद्ध नहीं होसकता है। प्रमाण और उसके फलका सर्वथा तादात्म्य संबंध माननेसे भी प्रमाण और फलकी व्यवस्था (विभाग) नहीं होसकती है। क्योंकि, एक स्वरूपमें परस्पर विरुद्ध दो स्वभावोंका होना असंभव है। सर्वथा तादात्म्य माननेपर ज्ञानमें पदार्थके समानपनेका होना तो प्रमाण और उसका निश्चय होना अथवा संवेदन होना फल, ये दो भाव नहीं होसकते हैं; नहीं तो एक जलादि पदार्थमें शीत तथा उष्ण भाव होना इत्यादि अनेकप्रकार अतिव्याप्ति दोष आनेकी संभावना होने लगेगी।

ननु प्रमाणस्याऽसारूप्यव्यावृत्तिः सारूप्यमनधिगतिव्यावृत्तिरधिगतिरिति व्यावृत्तिभेदादेकस्यापि प्रमाणफल-
व्यवस्थेति चेन्नैवं; स्वभावभेदमन्तरेणाऽन्यव्यावृत्तिभेदस्याप्यनुपपत्तेः। कथं च प्रमाणस्य फलस्य चाऽप्रमाणाऽफ-
लव्यावृत्त्याः प्रमाणफलव्यवस्थावत्प्रमाणान्तरफलान्तरव्यावृत्त्याप्यप्रमाणत्वस्याऽफलत्वस्य च व्यवस्था न स्यात् ?
विजातीयादिव सजातीयादपि व्यावृत्तत्वाद्द्वस्तुनः। तस्मात्प्रमाणात्फलं कथंचिद्भिन्नमवैष्टव्यं; साध्यसाधनभावेन
प्रतीयमानत्वात्।

कदाचित् बौद्ध कहै कि प्रमाणमें असमानपनेका निषेध ही सारूप्य अर्थात् समानपना है और अज्ञानके अभावका ही नाम अधिगति अथवा प्रमाणका फलरूप ज्ञान है। इस प्रकार व्यावृत्ति (निषेध) का भेद होनेसे एक तथा निरंश ज्ञानमें भी प्रमाण तथा फलकी व्यवस्था होसकती है। परंतु बौद्धका यह कथन भी उचित नहीं है। क्योंकि; यथार्थमें स्वभावभेदके विना अन्य पदार्थोंसे व्यावृत्ति करनेमें भेद किस प्रकार होसकता है? और प्रमाण तथा फलकी व्यवस्था जैसे अप्रमाण तथा अफल अथवा फलभावकी व्यावृत्तिसे होती है तैसे ही प्रमाणान्तर अर्थात् अन्य प्रमाण तथा अन्यफल (विवक्षित प्रमाणफलके अतिरिक्त दूसरे) की व्यावृत्तिसे (निषेधसे) अप्रमाणता तथा फलभावकी व्यवस्था भी क्यों न हो? क्योंकि, जैसे विजातीयसे वस्तुकी व्यावृत्ति होती है तैसे ही सजातीय वस्तुओंमें भी एकसे दूसरेकी व्यावृत्ति होसकती है। इसलिये प्रमाणसे प्रमाणके फलको कथंचित् जुदा ही मानना चाहिये। क्योंकि, यह साध्य है, यह साधन है ऐसी जो जुदी २ प्रतीति होती है वह निष्कारण नहीं है।

१ एक वस्तुमें जो गुणगुणी, स्वभावस्वभाववान्, पर्यायपर्यायी आदिक अनेक अवस्था होती हैं उन अवस्थाओंके साथ जो वस्तुका सबध हो वह तादात्म्य है।

ये हि साध्यसाधनभावेन प्रतीयेते ते परस्परं भिद्येते । यथा कुठारच्छिदिक्रिये इति । एवं यौगाभिप्रेतः प्रमाणात्फलस्यैकान्तभेदोऽपि निराकर्तव्यः; तस्यैकप्रमाणात्तादात्म्येन प्रमाणात्कर्तव्यभेदव्यवस्थितेः; प्रमाणतया परिणतस्यैवात्मनः फलतया परिणतिप्रतीतेः; यः प्रमिमीते स एवोपादत्ते परित्यजत्युपेक्षते चेति सर्वव्यवहारिभिरस्खलितमनुभवात् । इतरथा स्वपरयोः प्रमाणफलव्यवस्थाविप्लवः प्रसज्यत इत्यलम् ।

जो साध्यसाधनरूपसे प्रतीत होते है वे सर्वथा परस्पर भिन्न ही होते है । जैसे-कुल्हाड़ी और उसके द्वारा किसीका काटना (छेदनकर्म) ये दोनो जुड़े जुड़े है । इस प्रकार नैयायिक (योगमती) ने जो प्रमाण और प्रमाणके फलमें सर्वथा भेद कहा है वह भी मानना उचित नहीं है । क्योकि; निश्चय करनेवाले प्रमाता पुरुषके साथ एकरूप होकर ही प्रमाण तथा प्रमाणके फलकी प्रवृत्ति होती है । इसलिये प्रमाणसे प्रमाणका फल किसीअपेक्षा एकरूपरूप भी सिद्ध होता है । यह भी क्योकि; प्रमाणपनेसे परिणत हुए आत्माकी परिणति ही फलरूप प्रतीत होती है । आत्माके सिवाय दूसरी जगह फलकी परिणति नहीं होसकती है । यह भी क्योकि; जो आत्मा किसी पदार्थका निश्चय (प्रमिति) करता है वही आत्मा ग्राह्य होनेपर उस पदार्थको ग्रहण करता है; हेय होनेपर छोड़देता है अथवा उदासीन होनेपर उपेक्षा करदेता है; ऐसी अवाधित प्रतीति सर्व संसारको है । ऐसी प्रतीति यदि न हो तो अपने तथा परके प्रमाण फलकी व्यवस्थाका नाश होजाय । यहांपर इतना खंडन ही बहुत है ।

अथ वा पूर्वार्द्धमिदमन्यथा व्याख्येयम् । सौगताः किलेत्थं प्रमाणयन्ति । सर्वे सत् क्षणिकं; यतः सर्वं तावद् घटादिकं वस्तु मुहुरादिसंनिधौ नाशं गच्छद् दृश्यते । तत्र येन स्वरूपेणान्त्यावस्थायां घटादिकं विनश्यति तच्चेत्स्वरूपमुत्पन्नमात्रस्य विद्यते तदानीमुत्पादानन्तरमेव तेन नष्टव्यमिति व्यक्तमस्य क्षणिकत्वम् । अथेदृश एव स्वभावस्तस्य हेतुतो जातो यत्कियन्तमपि कालं स्थित्वा विनश्यति । एवं तर्हि मुहुरादिसंनिधानेऽपि एष एव तस्य स्वभाव इति पुनरप्यनेन तावन्तमेव कालं स्थातव्यम् । इति नैव विनश्येदिति । सोऽयमदित्सोर्वणिजः प्रतिदिनं पत्रलिखितश्वस्तनदिनभणनन्यायः । तस्मात् क्षणद्वयस्थायित्वेनाप्युत्पत्तौ प्रथमक्षणवद्वितीयेऽपि क्षणे क्षणद्वयस्थायित्वात्पुनरपरक्षणद्वयमवतिष्ठेत । एवं तृतीयेऽपि क्षणे तत्स्वभावत्वाच्चैव विनश्येदिति ।

अथवा इस ऊपर कहे हुए श्लोकके पहिले आधे भागका व्याख्यान दूसरी रीतिसे करते है ।—सौगतलोग इस प्रकारसे

निश्चय करते है कि संपूर्ण सत्वपदार्थ क्षणिक है। क्योंकि; सर्व ही घटादि वस्तु मूसल आदिक ऊपर गिरपड़नेपर नष्ट होते हुए दीखते है। जिस स्वरूपसे अंतअवस्थामें घटादि वस्तु नष्ट होते है वही स्वरूप उत्पन्न होते समय भी पदार्थमें विद्यमान है इसलिये उत्पन्न होनेके अनंतर ही प्रत्येक पदार्थ नष्ट होजाना चाहिये। इस प्रकार सभी वस्तुओंमें क्षणञ्चसीपना सिद्ध होता है। शक्ता—यदि अपनी उत्पत्तिके कारणभूत सहायकोंके द्वारा प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न ही ऐसा होता हो जो उत्पत्तिके अनंतर कुछ काल ठहरकर नष्ट होजाता हो तो क्षणञ्चसीपना स्वभाव क्यों माने? ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि; यदि वस्तुका स्वभाव क्षणञ्चसी न मानाजायगा तो मुद्गरादिक (मूसल) पड़नेपर भी उस पदार्थका विद्यमान रहनेका स्वभाव बदल न सकैगा और इसीलिये उसको मूसल वगैरह ऊपर गिरपड़नेपर भी जैसाका तैसा ही विद्यमान रहना चाहिये; नष्ट न होना चाहिये। इस प्रकार यह सब नहीं देनेकी इच्छा रखनेवाले वनियेका पत्रमें लिखे हुए ऋणको प्रत्येक दिवस आगामी कलदिन देनेका वायदा करना जैसा ही न्याय (कहावत) है। अर्थात् जिस समय किसी पदार्थका किसी कारणसे नाश होगा तभी हम पूछ सकते है कि यह पदार्थ नाशके कारण मिलनेपर भी अभी नष्ट क्यों हुआ? क्योंकि; अभी इसके नष्ट होनेका समय नहीं था इसलिये जैसाका तैसा ही ठहराहना चाहिये था। इस दोपके भयसे यदि दो क्षण ठहरनेका स्वभाव भी माना जाय तो भी उत्पत्तिके बाद प्रथम समयके समान दूसरे समयमें भी दो क्षण ठहरनेका स्वभाव विद्यमान रहनेसे और भी आगे दो क्षणतक ठहरना चाहिये। इसीप्रकार फिर तीसरे आदिक क्षणोंमें भी दो क्षण ठहरनेका स्वभाव विद्यमान रहनेसे कभी नष्ट न होना चाहिये।

स्यादेतत् “स्यावरमेव तत् स्वहेतोर्जातं परं बलेन विरोधकेन मुद्गरादिना विनाश्यते” इति तदसत्। कथं पुनरेतद् घटिष्यते “न च तद्धिनश्यति स्थावरत्वाद्विनाशश्च तस्य विरोधिना बलेन क्रियत” इति? न हेतत्संभवति जीवति च देवदत्तो मरणं चास्य भवतीति। अथ विनश्यति तर्हि कथमविनश्यं तद्वस्तु हेतोर्जातमिति? न हि म्रियते चाऽमरणधर्मा चेति युज्यते वक्तुम्। तस्मादविनश्यत्वे कदाचिदपि नाशाऽद्योगाद् दृष्टत्वाच्च नाशस्य नश्यरमेव तद्वस्तु स्वहेतोरुपजातमङ्गीकर्तव्यम्। तस्मादुत्पन्नमात्रमेव तद्धिनश्यति। तथा च क्षणक्षयित्वं सिद्धं भवति।

यदि कदाचित् ऐसा कहों कि पदार्थ तो अपने उत्पत्तिके कारणसे ठहरनेका स्वभाव लेकर ही उत्पन्न होता है परंतु उसके विरोधी मूसल आदिकसे बलात्कार नष्ट किया जाता है परंतु यह भी असत्य है। क्योंकि; ऐसा कहनेसे परस्पर विरुद्ध ये दो वचन

नहीं घटसकैने कि “वह नष्ट तो होता नहीं है क्योंकि वह स्थावर है परंतु बलवान् विरोधीसे उसका नाश होजाता है” । यह कथन सर्वथा झूठ है कि देवदत्त तो जीरहा है परंतु किसी कारणवश उसका मरण होरहा है । यदि नष्ट होता है तो वह वस्तु अपने कारणो द्वारा नवीन उत्पन्न होता हुआ भी अविनाशी कैसा ? मरता भी हो और अमर भी हो यह कहना नहीं वन-सकता है । इसलिये यदि अविनाशी है तो कभी भी नाश न होना चाहिये परंतु नाश दीखता तो है इसलिये अपनी उत्पत्ति-के कारणो द्वारा उत्पन्न होते समय ही वस्तु नश्वर मानना चाहिये । इस कहनेसे उत्पन्न होते ही वस्तुका नाश सिद्ध होता है । और इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थमें क्षणध्वंसीपना सिद्ध होता है ।

प्रयोगस्त्वेवं “यद्दिनश्वरस्वरूपं तदुत्पत्तेरनन्तराऽनवस्थायि । यथान्त्यक्षणवर्ति घटस्य स्वरूपम् । विनश्वरस्वरूपं च रूपादिकमुदयकाले” । इति स्वभावहेतुः । यदि क्षणक्षयिणो भावाः कथं तर्हि स एवायमिति प्रत्यभिज्ञा स्यात् ? उच्यते—निरन्तरसदृशाऽपरापरोत्पादादविद्याबुब्ध्याच्च पूर्वक्षणविनाशकाल एव तत्सदृशं क्षणान्तरमुदयते । तेनाकारविलक्षणत्वाऽभावादव्यवधानाच्चात्यन्तोच्छेदेऽपि स एवायमित्यभेदाऽध्यवसायी प्रत्ययः प्रसूयते । अत्यन्तभिन्नेष्वपि लूनपुनरुत्पन्नकुशकेशादिषु दृष्ट एवायं स एवायमिति प्रत्ययः । तथेहापि किं न संभाव्यते ? तस्मात्सर्वं सत् क्षणिकमिति सिद्धम् । अत्र च पूर्वक्षण उपादानकारणमुत्तरक्षण उपादेयम् । इति पराभिप्रायमङ्गी-कृत्याह “न तुल्यकालः” इत्यादि ।

इस प्रकरणमें अनुमान भी इस प्रकार बोला जासकता है । “जो विनश्वर है वह उत्पत्तिके अनंतर भी ठहर नहीं सकता है । जैसे अंतसमयमें नष्ट होते हुए घड़ेका स्वरूप ठहर नहीं सकता है । इसी प्रकार अन्य भी रूपादिमय सर्व पदार्थ उदयके समय ही विनाशीक है इसलिये उत्पत्तिके अनंतर भी क्षणध्वंसी है अर्थात् ठहर नहीं सकते है” । इस प्रकार यह स्वभावहेतुवाला अनुमान है । यदि समग्र पदार्थ क्षणध्वंसी ही है तो यह वही है ऐसा प्रत्यभिज्ञान कैसे होता है ? (क्योंकि; पूर्वकालमें देखे हुए पदार्थको ही दूसरी बार देखनेपर प्रत्यभिज्ञान होता है) । इस शंकाका समाधान यह है कि निरंतर एकसमान अनेक पर्यायोंकी उत्तरोत्तर उत्पत्ति होनेसे तथा

1 अनुमानके साधनेवाले हेतु तीन प्रकार होते हैं एक कार्य हेतु, दूसरा स्वभाव हेतु और तीसरा सामान्यतो दृष्ट । जिस हेतुका साध्यके साथ कार्यकारणभावादिक कोई भी संबंध-संभव नहीं हो किंतु स्वभावमात्र ही अविनाभावनियमका साधक हो वह स्वभावहेतु है ।

अधिके वश होनेसे ऐसा प्रत्यभिज्ञान होता है कि यह वही है। पूर्व क्षणके नष्ट होते ही उसके समान दूसरा क्षण उत्पन्न हो-
जाता है इस प्रकार कभी भी पूर्वाकारका नाश न दीखनेसे और पूर्व क्षणके नाश तथा उत्तर क्षणकी उत्पत्तिमें अंतर (व्यवधान)
न पड़नेसे पूर्व पर्यायका सर्वथा नाश होनेपर भी वह ही यह है ऐसी अभेदबुद्धि उत्पन्न होसकती है। पहिलेकाटडाले हुए तथा फिरसे
उत्पन्न हुए कुआ (त्रणविशेष), केशादिकोंकी पूर्वापर अवस्थाओंमें अत्यन्त भेद होनेपर भी यह वही है ऐसा सिद्ध हुआ।
हुआ-जैसे दीखता है तैसे ही यहांपर (प्रकरणमें) भी क्यों संभव न हो? इस प्रकार संपूर्ण सत्पदार्थ क्षणिक ही हैं ऐसा सिद्ध हुआ।
यहांपर (क्षणध्वंसी स्वभावमें) पूर्वक्षण तो उपादान कारण है और उत्तरक्षण उसका कार्य (उपादेय) है। इस प्रकार जो नौद्धोंका
अभिप्राय है उसका निराकरण करनेके अभिप्रायसे ही आचार्यने उपरि के श्लोकमें “न तुल्यकालः” इत्यादि कहा है।

ते विशकलितमुक्तावलीकल्पा निरन्वयविनाशिनः पूर्वक्षणा उत्तरक्षणान् जनयन्तः किं स्वोत्पत्तिकाले एव जन-
यन्ति उत क्षणान्तरे? न तावदाद्यः समकालभाविनोर्युवतिकुचयोरियोपादानोपादेयभावाऽभावात् । अतः साधू-
कं: “न तुल्यकालः फलहेतुभावः” इति । न च द्वितीयः । तदानीं निरन्वयविनाशेन पूर्वक्षणस्य नष्टत्वादुत्तरक्षणजनने
कुतः संभावनापि? न चानुपादानस्योत्पत्तिर्दृष्टा; अतिप्रसङ्गात् । इति सुष्ठु व्याहृतं “हेतौ चिलीने न फलस्य भावः”
इति । पदार्थस्त्वनयोः पादयोः प्रागेवोक्तः । केवलमत्र फलमुपादेयं हेतुरुपादानं तद्भाव उपादानोपादेयभाव
इत्यर्थः ।

वे सर्वथा स्वतंत्र दृष्टी हुई मोतियोंकी मालाके समान उत्तरपर्यायको विना उत्पन्न किये ही सर्वथा नष्ट होते हुए पूर्वक्षणवर्ती
पर्याय क्या अपने उत्पत्तिके समय ही उत्तरक्षणवर्ती पर्यायको उत्पन्न करदेते हैं अथवा उत्पत्तिसमयके बाद? अपने उत्पत्तिसमयमें तो
वे उत्तरक्षणवर्ती पर्यायको उत्पन्न कर नहीं सकते। क्योंकि; युवतिके दोनो कुचोंके समान एक ही कालमें होनेवाले दो पदार्थोंमें
उपादान तथा उपादेयपना अर्थात् कारणकार्यपना नहीं होसकता है। इसीलिये यह ठीक कहा है “न तुल्यकालः फलहेतुभावः।”
अर्थात् एक ही समयमें कार्यको उत्पन्न करनेवाला उपादान तथा उसका कार्य संभव नहीं होसकते है। दूसरे पक्षसे भी अर्थात्
स्वय उत्पन्न होनेके बाद भी उत्तरक्षणवर्ती पर्यायको उत्पन्न करना संभव नहीं है। क्योंकि; उस दूसरेही क्षणमें उपादान कारणरूप
3 जो असल संसारको सत्वरूप अनुभव करावे वह भविष्य है। 2 किसी भी उत्पन्न हुए पर्यायकी पूर्व अवस्थाको उसका उपादान कारण कहते हैं।

पूर्वपर्यायका सर्वथा सम्बंधरहित नाश होचुक्ता है इसलिये अपनी उत्पत्तिके दूसरे समयमें जब स्रयं आप ही नहीं है तब उत्तरक्षणवर्ती पर्यायकी उत्पत्ति करना किस प्रकार संभव हो? और उपादानके विना किसीकी उत्पत्ति होती भी नहीं है। यदि होने लगे तो अतिव्याप्ति दोष आजायगा। अर्थात् विना उपादान कारणके भी यदि कार्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो विना माताके पुत्रकी उत्पत्ति होना इत्यादि प्रकारसे कार्यकारणादि नियमोका भंग होजायगा। इसीलिये यह ठीक कहा है “हेतौ विलीने न फलस्य भावः”। अर्थात् उपादान कारणका सर्वथा (निरन्वय) नाश होनेपर कार्यकी उत्पत्ति नहीं होसकती है। इस आधे श्लोकका शब्दार्थ तो पहिले ही कहदिया था। यहां तो केवल फलरूप उपादेय अर्थात् कार्य और हेतुरूप उपादान कारणका कार्यकारणभाव (उपादानोपादेयभाव) संबंधमात्र दिखाया है।

यच्च क्षणिकत्वस्थापनाय मोक्षाकरगुप्तेनानन्तरमेव प्रलपितं तत् स्याद्वादवादे निरवकाशमेव निरन्वयनाशवर्जं; कथंचित्सिद्धसाधनात् प्रतिक्षणं पर्यायनाशस्थानेकान्तवादिभिरभ्युपगमात्। यदस्यभिहितं न ह्येतत् संभवति जीवति च देवदत्तो मरणं चास्य भवतीति तदपि संभवादेव न स्याद्वादिनां क्षतिमावहति। यतो जीवनं प्राणधारणं मरणं चायुर्दलिकक्षयः। ततो जीवतोऽपि देवदत्तस्य प्रतिसमयमायुर्दलिकानामुदीर्णानां क्षयादुपपन्नमेव मरणम्। न च वाच्यमन्त्यावस्थायामेव कृत्स्नायुर्दलिकक्षयात् तत्रैव मरणव्यपदेशो युक्त इति; तस्यामप्यवस्थायां न्यक्षेण तत्क्षयाऽभावात्। तत्रापि ह्यवशिष्टानामेव तेषां क्षयो न पुनस्तक्षण एव युगपत्सर्वेषाम्। इति सिद्धं गर्भद्वारभ्य प्रतिक्षणं मरणमित्यलं प्रसङ्गेन।

अब क्षणिकपना सिद्ध करनेके अभिप्रायसे मोक्षाकरगुप्तेने अभी हालमें जो कुछ प्रलप किया है वह (नाश) भी स्याद्वादमय कथनमें अवकाशरहित निरन्वय नाश छोड़कर पर्यायकी अपेक्षा सिद्ध होता है इसलिये किसी अपेक्षासे सिद्ध हुएका ही सिद्ध करना है। क्योंकि; पर्यायका नाश अनेकान्तवादियोने भी माना ही है। और भी जो “यह नहीं संभव है कि देवदत्त जीरहा है और मरण भी उसका होता है” ऐसा दोष अभी पूर्वमें कहा गया है सो वह भी स्याद्वादियोकेलिये हानिकारक नहीं है। क्योंकि; जीवन नाम प्राणधारणका है और मरण आयुके अंशके नाश होनेका नाम है इसलिये प्राणधारण रहनेसे जीते हुए भी देवदत्तका प्रतिसमय उदय आनेवाले आयुके निषेकोका अर्थात् आयुकर्मके हिस्सोका फलदेनेके अनंतर क्षय होते रहनेसे प्रत्येक

समय मरण होना संभव है। आयुके अंतसमय ही संपूर्ण आयुक्रमके दलों (हिस्से) का क्षय होनेसे उसी समय मरण कहना चाहिये यह कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि; उस अतव्यस्थाके समय भी उनका नाश प्रत्यक्ष तो है नहीं; और उस समय क्षय भी आयुके उन्ही हिस्सोंका होता है जो प्रतिसमय क्षय होते होते उस समयतक अवशिष्ट रहजाते हैं; न कि उसी समय संपूर्ण आयुके भागोंका। इस कथनके द्वारा गर्भसे लेकर प्रत्येक समय मरण होना भी सिद्ध होता है। इसलिये अधिक कहना व्यर्थ है।

अथवाऽपरथा व्याख्या। सौगतानां क्लियर्थेन ज्ञानं जन्यते। तच्च ज्ञानं तमेव स्वोत्पादकमर्थं गृह्णातीति “ना-ऽकारणं विषयः” इति वचनात्। ततश्चार्थः कारणं ज्ञानं च कार्यमिति। एतच्च न चारु यतो यस्मिन् क्षणेऽर्थस्य स्वरूपसत्ता तस्मिन्नद्यापि ज्ञानं नोत्पद्यते; तस्य तदा स्वोत्पत्तिमात्रव्यग्रत्वात्। यत्र च क्षणे ज्ञानं समुत्पन्नं तत्रार्थोऽस्तीतः। पूर्वापरकालभावनियतश्च कार्यकारणभावः। क्षणातिरिक्तं चावस्थानं नास्ति। ततः कथं ज्ञानस्योत्पत्तिः? कारणस्य विलीनत्वात्। तद्विलये च ज्ञानस्य निर्विषयताऽनुपप्यते; कारणस्यैव युग्मन्मते तद्विषयत्वात्। निर्विषयं च ज्ञानमप्रमाणमेवाकाशकेशज्ञानवत्। ज्ञानसहभाविनश्चार्थक्षणस्य न ग्राह्यत्वं; तस्याऽकारणत्वात्। अत आह “न तुल्यकालः” इत्यादि। ज्ञानार्थयोः फलहेतुभावः कार्यकारणभावस्तुल्यकालो न घटते; ज्ञानसहभावि-नोऽर्थक्षणस्य ज्ञानाऽनुत्पादकत्वात्; युगपद्भाविनोः कार्यकारणभावाऽयोगात्। अथ प्राचोऽर्थक्षणस्य ज्ञानोत्पाद-कत्वं भविष्यति तन्न; यत आह “हेतौ” इत्यादि। हेतावर्थरूपे ज्ञानकारणे विलीने क्षणिकत्वान्निर्वच्यं विनष्टे न फलस्य ज्ञानलक्षणकार्यस्य भाव आत्मलाभः स्यात्। जनकस्थार्थक्षणस्यातीतत्वान्निर्मूलमेव ज्ञानोत्थानं स्यात्।

अब दूसरे प्रकारसे इसकी व्याख्या करते हैं।—बुद्धमतावलंबियोंने पदार्थसे ज्ञानकी उत्पत्ति मानी है और वह ज्ञान अपने उत्पन्न करनेवाले पदार्थकी ही जान सकता है ऐसा माना है। क्योंकि “ज्ञानको उत्पन्न करनेवाला ही ज्ञानका विषय होता है” ऐसा उनके शालका वचन है। इसलिये पदार्थ तो कारण और ज्ञान कार्य हुआ। परंतु यह मानना अच्छा नहीं है। क्योंकि; जिस समय पदार्थका स्वरूप विद्यमान है उस समयके अंततक भी ज्ञान नहीं उपजता है। सो भी क्योंकि; उस समय वह पदार्थ अपनी उत्पत्ति होनेमें ही लगा रहता है। और जिस (दूसरे) समय ज्ञान उत्पन्न होता है तब पदार्थ नष्ट होजाता है (क्योंकि; प्रत्येक पदार्थ क्षणध्वंसी है)। क्योंकि, कार्यकारणभावका यही नियम है कि क्रमसे पूर्वोत्तर कालमें हों। और बौद्धमतमें

पदार्थकी स्थिति क्षणमात्रसे अधिक है ही नहीं। इसलिये ज्ञानकी उत्पत्ति कैसे हो? क्योंकि; कारणका तो नाश होचुका है। और जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है उसके नाश होनेपर ज्ञान निर्विषय रहजाता है। क्योंकि; तुम्हारे (बौद्धोंके) मतमें ज्ञानका कारण ही ज्ञानका विषय मानागया है। और निर्विषय ज्ञान आकाशमें दीखते हुए बालोंके ज्ञानके समान अप्रमाण ही होता है। और उस ज्ञानके साथवाले क्षणमें उत्पन्न होनेवाला पदार्थ उस ज्ञानका विषय हो नहीं सकता है। क्योंकि; वह उस ज्ञानका कारण ही नहीं है। (बौद्धमतमें कारणरूप पदार्थ ही ज्ञानका विषय मानागया है)। इसलिये मूलग्रन्थकार कहते हैं कि “न तुल्यकालः” इत्यादि। अर्थात् ज्ञान और पदार्थमें फल (कार्य) और हेतुपना अर्थात् कार्यकारणपना समान कालमें नहीं होसकता है। क्योंकि; ज्ञानके साथ साथ उत्पन्न होनेवाला पदार्थ उस ज्ञानको उत्पन्न नहीं करता है। सो भी क्योंकि; एक साथ उत्पन्न होनेवाले दो पदार्थमें (गायके दोनो सींगोंके समान) एकदूसरेका कार्यकारणपना संभव नहीं है। यदि कहा जाय कि उस ज्ञानसे पहिले उत्पन्न हुआ पदार्थ उस ज्ञानको उत्पन्न करदेगा सो भी ठीक नहीं है। क्योंकि “हेतौ विलीने न फलस्य भावः” ऐसा पहिले कहचुके है। भावार्थ—हेतुका अर्थात् जो पदार्थ ज्ञानका कारण माना जाय उसका निरन्वय नाश होनेपर उस नष्ट हुए पदार्थसे फलकी (ज्ञानरूप कार्यकी) उत्पत्ति नहीं होसकती है किंतु उस ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले पदार्थके नष्ट होनेपर विनाकारण ही होगी।

जनकस्यैव च ग्राह्यत्वे इन्द्रियाणामपि ग्राह्यत्वापत्तिः; तेषामपि ज्ञानजनकत्वात् । न चाऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामर्थस्य ज्ञानहेतुत्वं दृष्टं; मृगतृष्णादौ जलाभावेपि जलज्ञानोत्पादादऽन्वया तत्प्रवृत्तेरसंभवात् । भ्रान्तं तज्ज्ञानमिति चेन्ननु भ्रान्ताभ्रान्तविचारः स्थिरीभूय क्रियतां त्वया । सांप्रतं प्रतिपद्यस्व तावदनर्थजमपि ज्ञानम् । अन्वयेनार्थस्य ज्ञानहेतुत्वं दृष्टमेवेति चेन्न हि तन्नाथे भावलक्षणोऽन्वय एव हेतुफलभावनिश्रयनिमित्तमपि तु तदभावेऽभावलक्षणो व्यतिरेकोपि । स चोक्तयुक्त्या नास्त्येव ।

और उत्पन्न करनेवाले पदार्थको ही यदि प्रत्येक ज्ञान जान सकता हो तो जिस इंद्रियसे उत्पन्न होता है उसको भी क्यों न जानै? क्योंकि; वह इंद्रिय भी उस ज्ञानको उत्पन्न करनेवालोंमेंसे एक है। दूसरा दोष यह है कि जहां ज्ञान हो वहां उसको उपजाने वाला नियसे हो तथा जहां पदार्थ न हो वहां ज्ञान भी न उपजता हो ऐसा अन्वयव्यतिरेकरूप नियम भी ज्ञानके प्रति पदार्थमें नहीं है। क्योंकि, ऊसर भूमिमें मरीचिका दीखनेपर उसमें जल समझकर प्रवृत्ति होनेलगी है इसलिये वहां जलज्ञान हुआ तो नि-

श्रित है परंतु उस जलज्ञानको पैदा करनेवाला जल है ही नहीं। यदि कहाजाय कि वह ज्ञान अमरूप है तो अमात्मक है या सच्चा है ऐसा विचार तो पीछेसे स्थिर होकर करलेना। सबसे प्रथम तो यह स्वीकार करना चाहिये कि ज्ञान पदार्थके विना भी होसकता है। यदि कहो कि जहां ज्ञान होता है वहां कुछ पदार्थ रहता ही है इसलिये ज्ञानका जनक पदार्थ ही है परंतु यह कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि; जहां ज्ञान होता है वहां कुछ नकुछ पदार्थ रहता ही है इतने मात्रसे यह सिद्ध नहीं होसकता है कि पदार्थ ही ज्ञानका जनक है। किंतु जहां पदार्थ न हो वहां ज्ञान भी न हो ऐसा नियम यदि मिले तो यह स्वीकार र सकते है कि ज्ञानका जनक पदार्थ ही है। परंतु यह (व्यतिरेकरूप) नियम तो सिद्ध ही नहीं होता है ऐसा युक्तिपूर्वक अभी कहसुके हैं।

योगिनां चाऽतीताऽनागतार्थग्रहणे किमर्थस्य निमित्तत्वं? तयोरसत्त्वात् “ ण णिहाणगया भग्गा पुंजो णत्थि अणागए । णिव्बुया णेव चिद्धंति आरगे सरिसोवमा (संस्कृतच्छाया-न निधानगता भग्नाः पुञ्जो नास्ति अनागतस्य । निर्वृताः नैव तिष्ठन्ति आराग्रे सर्षपोपमाः)” इति वचनात् । निमित्तत्वे चार्थक्रियाकारित्वेन सत्त्वा-दतीतानागतत्वक्षतिः । न च प्रकाश्यादात्मलाभ एव प्रकाशकस्य प्रकाशकत्वं; प्रदीपादेर्घटादिभ्योऽनुत्पन्नस्यापि तत्प्रकाशकत्वात् । जनकस्यैव च ग्राह्यत्वाऽभ्युपगमे स्मृत्यादेः प्रमाणस्याऽप्रमाण्यप्रसङ्गस्तस्यार्थाऽजन्यत्वात् । न च स्मृतिर्न प्रमाणम्; अनुमानप्रमाणप्राणभूतत्वात्; साध्यसाधनसम्बन्धस्मरणपूर्वकत्वात्तस्य ।

योगियोंके ज्ञानमें अतीत और आगामी पदार्थ भी झलकते है परंतु उस समय वे पदार्थ ही यदि नहीं है तो उस ज्ञानमें निमित्तरूप कैसे होसकते है ? क्योंकि, ऐसा कहा भी है “ जो पदार्थ नष्ट होगये वे किसी भंडारमें जमा नहीं है तथा जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुए ऐसे आगामी होनेवाले पदार्थोंका भी कहीं ढेर नहीं लगा है। जो उत्पन्न होते हैं वे सूईकी अनीपर रक्वी हुई सरसोंके समान चिरकालकेलिये ठहर नहीं सकते है” । और यदि अतीत तथा आगामी पदार्थ भी ज्ञानके जनक माने जाय तो आवश्यककीय क्रियाके जनक होनेसे वे भी विद्यमान ही है ऐसा मानना चाहिये; न कि अतीत तथा आगामी। क्योंकि; जब कारण

१ कारणके न रहनेपर कार्यका न उपजना इस नियमको व्यतिरेक कहते हैं। कार्यके होते हुए कारणका लियमसे उपस्थित रहना इस नियमको अन्वय कहते हैं।

विद्यमान हो तभी अपने कार्यको जनसकता है, जो खुद अपने शरीरसे ही विद्यमान नहीं है वह किसी कार्यको पैदा क्या करेगा? इस लिये यदि पदार्थको ज्ञानका कारण माने तो वे पदार्थ अतीत हों वा आगामी, परंतु सभी विद्यमान मानने पड़ेंगे; कोई भी अतीत तथा आगामी न रहसकैगा। यदि कहें कि प्रकाश होने योग्य पदार्थोंसे उपजना ही ज्ञानका (प्रकाशकका) प्रकाशकपना है परंतु यह कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि; दीपक पदार्थोंसे उत्पन्न नहीं होकर भी उनका प्रकाश करता है। ज्ञान उसीको प्रकाशता है जो उसको पैदा करे ऐसा माननेसे और भी एक दोष आता है। वह यह है कि स्मृति अथवा व्याप्तिज्ञान किसी पदार्थसे उत्पन्न नहीं होते तो भी वे प्रमाण हैं परंतु जनकको प्रकाश करनेवाले ज्ञानको ही प्रमाण माननेवालोंके लिये वे अप्रमाण ही रहेंगे। स्मृति-ज्ञान तो प्रमाण ही नहीं है ऐसा भी नहीं कहसकते हैं। क्योंकि; स्मृति ही अनुमानप्रमाणका प्राण है; जब साध्यसाधनके अविनाभाव संबंधका स्मरण होजाता है तभी अनुमान होता है; प्रथम नहीं।

जनकमेव च चेद् ग्राह्यं तदा स्वसंवेदनस्य कथं ग्राहकत्वम्? तस्य हि ग्राह्यं स्वरूपमेव। न च तेन तज्जन्यते स्वात्मनि क्रियाविरोधात्। तस्मात्स्वस्वसामग्रीप्रभवयोर्घटप्रदीपयोरिवाथज्ञानयोः प्रकाश्यप्रकाशकभावसंभवाच्च ज्ञाननिमित्तत्वमर्थस्य। नन्वर्थाऽजन्यत्वे ज्ञानस्य कथं प्रतिनियतकर्मव्यवस्था? तदुत्पत्तितदाकारताभ्यां हि सोपपद्यते। तस्मादनुत्पन्नस्याऽतदाकारस्य च ज्ञानस्य सर्वार्थान् प्रत्यविशेषात्सर्वग्रहणं प्रसज्येत। नैवं; तदुत्पत्तिमन्तरेणाप्यावरणक्षयोपशमलक्षणया योग्यतयैव प्रतिनियतार्थप्रकाशकत्वोपपत्तेः। तदुत्पत्तावपि च योग्यताऽवश्यमेष्टव्या। अन्यथाऽशेषार्थसांनिध्ये तत्तदार्थाऽसांनिध्येपि कुतश्चिदेवार्थात् कस्यचिदेव ज्ञानस्य जन्मेति कौतस्तुतोऽयं विभागः ?

यदि जनक पदार्थ ही ज्ञानका विषय होसकता है ऐसा माना जाय तो खानुभवनरूप ज्ञानका विषय कोनसा होगा? यदि उस ज्ञानका स्वरूप ही उस ज्ञानका विषय माना जाय तो यह नियम दूटता है कि प्रत्येक ज्ञान अपने जनकको ही विषय करता है। क्योंकि; अपनेसे ही अपनी उत्पत्ति होना संभव नहीं है। सो भी क्योंकि; जब आप स्वयं होचुंके तब अपने उत्पन्न करनेको अपनेमें क्रिया पैदा करसकै और जब वह क्रिया होजाय तब अपनी उत्पत्ति होसकै। इस प्रकार एककी उत्पत्ति दूसरेकी उत्पत्ति होनेके आश्रित होनेसे तथा दूसरेकी उत्पत्ति एक पहिलेकी उत्पत्तिके आधीन होनेसे कोई भी क्रिया नहीं होसकती है। और जबतक उत्पन्न

करनेकी क्रिया ही न होगी तबतक अपनेसे अपनेकी उत्पत्ति कैसी ? इसलिये जैसे दीपक अपनी भिन्न सामग्रीसे पैदा होकर भी घटादिक पदार्थोंको प्रकाशता है तैसे ज्ञान भी प्रकाशनेयोग्य पदार्थोंसे उत्पन्न न होकर ही पदार्थोंको प्रकाशता है; ज्ञान तथा पदार्थोंमें कार्यकारणरूप संबंध नहीं है। पदार्थोंसे न उपजकर ही ज्ञान पदार्थोंको प्रकाशता है यह माननेसे घड़ेका ज्ञान घड़ेको ही प्रकाशता है अन्यको नहीं ऐसा नियम कैसे होसकैगा ? “ जिस पदार्थको ज्ञान प्रकाशता है उसीसे उस ज्ञानकी उत्पत्ति तथा उसी पदार्थकासा उस ज्ञानका आकार जब हम मानते है तब तो यह नियम होसकता है कि घड़ेका ज्ञान घड़ेको ही प्रकाश सकता है अन्यको नहीं। परंतु यदि ज्ञानकी उत्पत्ति नियत पदार्थसे न मानीजाय तथा उस ज्ञानका आकार भी जिसको वह प्रकाशता है उसके समान न मानाजाय तो एक ज्ञान सभी पदार्थोंको प्रकाशित क्यों नहीं करने लगे”। इस प्रकारकी जो शंका है वह सर्वथा असत्य है। क्योंकि; पदार्थोंसे उत्पन्न हुआ न मानै तो भी योग्यताके अनुसार ज्ञानसे नियमित पदार्थका प्रकाश होना संभव है। जिस समय जिस विषयके ज्ञानको रोकनेवाला कर्म नष्ट होजाता है उस समय उसी विषयका ज्ञान प्रकाशित होसकता है अन्य नहीं। यही ज्ञानकी योग्यता है। पदार्थसे ही ज्ञानकी उत्पत्ति माननेवालोको भी योग्यता अवश्य माननी पड़ती है। यदि न मानै तो संपूर्ण पदार्थ समीपमें रहेपर भी अथवा कोई कोई पदार्थ समीपमें न रहै तो भी किसी एक पदार्थसे किसीके आत्मामें तो ज्ञान उत्पन्न होता है और किसीके आत्मामें नहीं यह नियम कैसे बनसकैगा ?

तदाकारता त्वर्थकारसंक्रान्त्या तावदनुपपन्ना; अर्थस्य निराकारत्वप्रसङ्गात् ज्ञानस्य साकारत्वप्रसङ्गाच्च । अर्थेन च मूर्तेनामूर्तस्य ज्ञानस्य कीदृशं सादृश्यमित्यर्थविशेषग्रहणपरिणाम एव साऽभ्युपेया । ततः “ अर्थेन घटयत्येनां न हि मुक्त्वार्थरूपताम् । तस्मात्प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ” इति यत्किञ्चिदेतत् ।

ज्ञानको पदार्थकार मानना तो पदार्थके आकारका फेरफार होते रहनेसे असिद्ध ही है। यदि ज्ञानको पदार्थके आकार ही माना जाय तो पदार्थका आकार ज्ञानमें आजानेसे पदार्थ तो निराकार होजाना चाहिये और ज्ञान साकार (रूपी) होजाना चाहिये। परंतु ऐसा दीखता नहीं है। और मूर्तिमान् पदार्थके साथ अमूर्तिक ज्ञानकी समानता भी कैसी ? इसलिये किसी एक पदार्थको ग्रहण करना, सबको नहीं ग्रहण करना यही ज्ञानकी पदार्थके साथ समानता माननी चाहिये। ऐसा सिद्ध होनेसे ही यह कहना भी किसी प्रकार सत्य होसकता है कि “ जिस पदार्थके ज्ञानको रोकनेवाले कर्मका नाश होगया हो वही पदार्थ ज्ञानमें झलक

सकता है अन्य नहीं ऐसी योग्यताके सिवाय अन्य कुछ भी पदार्थकी समानता ज्ञानमें नहीं है। इसीलिये निश्चय करने योग्य पदार्थका निश्चय होजानेसे ज्ञानमें पदार्थकासा आकार होना कहसकते हैं।”

अपि च व्यस्ते समस्ते वैते ग्रहणकारणं स्याताम् ? यदि व्यस्ते तदा कपालाद्यक्षणो घटाऽन्त्यक्षणस्य जलचन्द्रो वा नभश्चन्द्रस्य ग्राहकः प्राप्नोति; यथासंख्यं तदुत्पत्तेस्तदाकारत्वाच्च । अथ समस्ते तर्हि घटोत्तरक्षणः पूर्वघटक-णस्य ग्राहकः प्रसज्यते तयोरुभयोरपि सद्भावात् । ज्ञानरूपत्वे सत्येते ग्रहणकारणमिति चेत्तर्हि समानजातीयज्ञानस्य समनन्तरज्ञानग्राहकत्वं प्रसज्येत तयोर्जन्यजनकभावसद्भावात् । तन्न योग्यतामन्तरेणाऽन्यद् ग्रहणकारणं पश्याम इति ।

और भी एक दोष यह है कि ज्ञानकी पदार्थसे उत्पत्ति होना तथा ज्ञानमें पदार्थकासा आकार होना ये दोनों पदार्थका नियत ज्ञान होनेमें जुदे जुदे कारण माने है अथवा मिलकर ? यदि एक एक कारण हैं अर्थात् कहींपर तो पदार्थसे उत्पत्ति होना ही नियत पदार्थके प्रकाशनेमें कारण है और कहींपर पदार्थकासा आकार होना ही कारण है तो घटकी प्रथम पर्यायसे तो घटकी अंतिम पर्याय उत्पन्न होती है इसलिये घटकी प्रथम पर्याय घटकी अंतिम पर्यायमें प्रकाशित होनी चाहिये और जो जलमें चंद्रमाका प्रतिबिंब पड़ता है उस प्रतिबिंबको असली चंद्रमाका ज्ञान होना चाहिये । क्योंकि; जलका चंद्रमा असली चंद्रमाका आकार ही है । परंतु घटका प्रथम पर्यायका घटकी अंतिम पर्यायको तथा जलचंद्रमाको असली चंद्रमाका ज्ञान नहीं होता है इसलिये पदार्थाकार तथा पदार्थसे उत्पत्ति ये जुदे जुदे तो नियत पदार्थके ज्ञान होनेमें कारण नहीं होसकते हैं । यदि कहों कि ज्ञान नियमित पदार्थको ही जानता है अन्यको नहीं इस नियममें ज्ञान जिस पदार्थको विषय करता है उस पदार्थकासा ज्ञानका आकार तथा उसी पदार्थसे उस ज्ञानकी उत्पत्ति होना ये दोनों मिलकर निमित्त हैं सो यह कहना भी ठीक नहीं है । क्योंकि; घड़ा फूट-जानेपर उस घड़ेकी दूसरी अवस्थामें घड़ेका आकार तथा घड़ेसे उत्पत्ति ये दोनों कारण तो विद्यमान हैं परंतु तो भी वह दूसरी अवस्था उस घड़ेको जान नहीं सकती है । यदि ये दोनों ही पदार्थका निश्चित ज्ञान होनेमें कारण होते तो यहां भी निश्चित ज्ञान होना चाहिये था । यदि कहों कि “ यदि जो ज्ञान किसी पदार्थसे उत्पन्न हुआ हो तथा उस पदार्थके ही आकारकासा हो तो वह ज्ञान उसी पदार्थको जानेगा जिससे वह उत्पन्न हुआ है तथा जिसका आकार उसमें पड़ा है किंतु यह नियम नहीं है कि कोई भी

वस्तु जिससे उत्पन्न हुई हो तथा जिसकासा आकार रखती हो उसको वह वस्तु जानसकै ” सो यह कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि; पीछेसे उत्पन्न हुआ ज्ञान यद्यपि पहिले ज्ञानके सर्वथा सदृश है तथा उसीसे उत्पन्न हुआ है तथा स्वयं ज्ञानरूप भी है इसलिये सर्व कारण मिलते हैं तो भी प्रथम ज्ञानको जानता नहीं है परंतु बौद्धोंके कथनानुसार तो जानना ही चाहिये । इसलिये प्रत्येक ज्ञान अपने अपने विषयको ही जानता है अन्यको नहीं ऐसा नियम होनेमें निमित्त कारण योग्यता ही है; योग्यताके सिवाय अन्य कोई भी निश्चायक नहीं दीखता है ।

अथोत्तरार्द्धं व्याख्यातुमुपक्रम्यते । तत्र च बाह्यार्थनिरपेक्षं ज्ञानाद्वैतमेव ये बौद्धविशेषा मन्वते तेषां प्रतिक्षेपः । तन्मतं चेदम् । ग्राह्यग्राहकादिकल्काऽनङ्कितं निष्प्रपञ्चं ज्ञानमात्रं परमार्थसत् । बाह्यार्थस्तु विचारमेव न क्षमते । तथा हि । कोऽयं बाह्योर्थः ? किं परमाणुरूपः स्थूलावयविरूपो वा ? न तावत्परमाणुरूपः प्रमाणाऽभावात् । प्रमाणं हि प्रत्यक्षमनुमानं वा ? न तावत्प्रत्यक्षं तत्साधनवद्भ्रकक्षम् । तद्धि योगिनां स्यादस्मदादीनां वा ? नाद्यम्; अत्यन्त-विपकृष्टतया श्रद्धामात्रगम्यत्वात् । न हि द्वितीयमनुभववाधितत्वात् । न हि वयमयं परमाणुरयं परमाणुरिति स्वप्नेऽपि प्रतीमः स्रग्भोऽयं कुम्भोऽयमित्येवमेव नः सदैव संवेदनोदयात् । नाप्यनुमानेन तत्सिद्धिः; अणूना-मतीन्द्रियत्वेन तैः सह अविनाभावस्य कापि लिङ्गे ग्रहीतुमशक्यत्वात् ।

इस प्रकार चारू सूत्रमेंसे प्रथमके “ न तुल्यकालः फलहेतुभावो हेतौ विलीने न फलस्य भावः ” इन दो चरणोंका अर्थ तो लिखा अब आगेके “ न संविद्वैतपथेऽर्थसंविद्धिल्लनशीर्णं सुगतेन्द्रजालम् ” इन दो चरणोंका व्याख्यान लिखते है । इन दो चरणोंमें उन बौद्धोंका खंडन है जो बाह्य पदार्थको सर्वथा न मानकर ज्ञानाद्वैत ही मानते हैं । वे ऐसा कहते है कि यह जाननेका विषय है अथवा यह जाननेवाला है इत्यादि झगड़ेसे रहित, अनेक प्रकारके और भी प्रपंचोंसे रहित ज्ञानमात्र ही केवल यथार्थ वस्तु है । इसके सिवाय बाह्य वस्तु तो विचार करने पर ठहरता ही नहीं है अथवा सिद्ध ही नहीं होता है । कैसे नहीं सिद्ध होता है सो दिखाते हैं । बाह्य पदार्थ क्या वस्तु है ? क्या परमाणुरूप है अथवा स्थूल अवयवीरूप ? परमाणुरूप होनेमें तो कोई प्रमाण ही नहीं है । बौद्धलोग प्रमाण दो ही मानते हैं; एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान । यदि परमाणुरूप माननेमें कोई प्रमाण हो तो बौद्धोंके अनुसार इन्ही दोमेंसे कोई एक होसकता है । यदि प्रत्यक्ष माने तो प्रत्यक्ष भी दो प्रकार है प्रथम

योगिप्रत्यक्ष दूसरा हमलोगोंका साधारण प्रत्यक्ष । इन दोनोंमेंसे योगिप्रत्यक्ष तो परमाणु साधनेमें उपयोगी हो नहीं सकता है क्योंकि; योगिप्रत्यक्ष अत्यंत परोक्ष होनेसे हमलोगोंके गोचर ही नहीं है; केवल श्रद्धासे मानते आते हैं । अर्थात् जब श्रद्धामात्र ही गम्य है; अत्यंत परोक्ष होनेसे हमारे प्रयोजनमें ही नहीं आता है तो हम कैसे कहसकते हैं कि योगिप्रत्यक्षसे परमाणुरूप बाह्य पदार्थ भी जाना जासकता होगा? हमलोगोंका प्रत्यक्ष भी परमाणुरूप बाह्य पदार्थको जाननेवाला मानना ठीक नहीं है । क्योंकि, हमलोगोंके इस साधारण प्रत्यक्षकी ऐसी शक्ति नहीं है जो इतने सूक्ष्म पदार्थको अपने गोचर करसके। यह खंभ है यह घड़ा है इत्यादि स्थूल पदार्थोंको ही हमलोग प्रत्यक्षसे समझ सकते हैं । प्रत्यक्षसे हमलोगोंको यह परमाणु है यह परमाणु है इत्यादि निश्चय स्वप्नमें भी नहीं होसकता है । अनुमानज्ञान भी वहां ही प्रवर्तता है जहां उस अनुमानसे साधनेयोग्य विषयके नित्य ही साथ रहनेवाला हेतु किसी समय प्रत्यक्षसे निश्चित किया हो कि यह हेतु उस साध्यके साथ सर्वत्र और सदा रहता है । जो परमाणुरूप साध्य है वही यदि प्रत्यक्ष नहीं है तो उसके साथ किसी हेतुका रहना कैसे प्रत्यक्ष होसकता है? इसीलिये अनुमानसे भी परमाणुओंका सिद्ध होना दुर्लभ है ।

किं चामी नित्या अनित्या वा स्युः? नित्याश्चेत्क्रमेणाऽर्थक्रियाकारिणो युगपद्वा? न क्रमेण; स्वभावभेदेनाऽनित्यत्वापत्तेः । न युगपदेकक्षणे एव कृत्स्नार्थक्रियाकरणत्क्षणान्तरे तदभावादसत्त्वप्राप्तिः(सेः) । अनित्याश्चेत् क्षणिकाः कालान्तरस्थाधिनी वा? क्षणिकाश्चेत्सहेतुका निर्हेतुका वा? निर्हेतुकाश्चेन्नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा स्यान्निरपेक्षत्वात् । अपेक्षातो हि कादाचित्कत्वम् । सहेतुकाश्चेत्किं तेषां स्थूलं किंचित्कारणं परमाणवो वा? न स्थूलं; परमाणुरूपस्यैव बाह्यार्थस्याऽङ्गीकृतत्वात् । न च परमाणवः । ते हि सन्तोऽसन्तः सदसन्तो वा स्वकार्याणि कुर्युः? सन्तश्चेत्किमुत्पत्तिक्षण एव क्षणान्तरे वा? नोत्पत्तिक्षणे; तदानीमुत्पत्तिमात्रव्यग्रत्वात् तेषाम् ।

ये परमाणु किसी प्रमाणसे सिद्ध तो नहीं होते है परंतु फिर भी कुछ समयकेलिये मानलिये जाय तो भी इनका स्वरूप कैसा है? क्या ये नित्य हैं अथवा अनित्य? यदि नित्य हैं तो भी इनमेंसे एक एक की जो अनेक स्थूल पर्याय बनती हैं वे क्रम क्रमसे बनती हैं अथवा एकसाथ? इन परमाणुओंमें स्थूल पर्यायोंकी उत्पत्ति यदि क्रमसे मानी जाय तब तो अनेक समयोंमें अनेक प्रकारके स्वभाव बदलनेसे ये परमाणु अनित्य ठहरते है । क्योंकि; एक स्वभावका परिवर्तन होकर दूसरे स्वभावमें वस्तुका आज्ञाना ही अनित्यपना

है। कोई भी वस्तु सर्वथा तो नष्ट होती ही नहीं है। और यदि परमाणुओंसे जो पर्याय तीन कालमें परिणमनेवाली हैं उनका एकसाथ ही परिणमन होजाना माना जाय तो यह दोष आता है कि संपूर्ण पर्याय एक समयमें ही उत्पन्न होनी चाहिये। और इसीलिये दूसरे समयोंमें परिणमनेकेलिये कोई पर्याय अवशिष्ट न रहनेसे उन परमाणुओंका निरन्वय नाश ही होजाना चाहिये। और किस अवस्थापर? इसलिये एक समयके अनंतर नाश होना ही चाहिये पर्यायपर्यन्त होकर ही ठहरती है; जब पर्याय ही वाकी नहीं हैं तो ठहरे अनित्य मानाजाय तो भी क्या क्षण क्षणमें उनका नाश होता है अथवा कुछ समय ठहरकर? यदि क्षण क्षणमें नष्ट होनेवाले है तो क्या किसी हेतुके वश होकर अथवा हेतुके विना ही? यदि हेतुके विना ही क्षण क्षणमें नष्ट होते हैं तो या तो सदा सत्स्वरूप ही मानने चाहिये अथवा असत्स्वरूप ही। क्योंकि; अन्य निमित्तोंके विना जो निजका स्वभाव होता है वह सदा ही एकसा बनारहता है; एक समय जो सत्स्वरूप है उनका दूसरे समयमें असत्स्वरूप होजाना यह स्वभावमेद जो प्रत्येक समयमें बदलता रहता है वह किसी नकिसी भिन्न कारणसे ही बदल सकता है। इसीलिये यदि किसी कारणके वश होकर इनका नाश होना माना जाय तो भी इनका कारण कोई स्थूल पदार्थ होसकता है अथवा वे ही परमाणु? यदि स्थूल पदार्थ उस नाशका कारण माना जाय यदि सत्स्वरूप होकर नाशरूप अथवा असत्स्वरूप अथवा सत्त्वसत् दोनोरूप होकर नाशरूप अपने कार्यको करसकते हैं। यदि परमाणु ही हैं अथवा दूसरे क्षणमें? अपनी उत्पत्तिके समयमें तो वे उपजनेमें ही व्यग्र रहते हैं इसलिये उस समय तो दूसरोका नाश कर नहीं करसकती है? अर्थात् जो वस्तु जबतक सर्वथा पैदा ही नहीं होगई है किंतु उपज ही रही है तबतक वह किसी भी कार्यको क्या करसकती है? कोई भी वस्तु स्वयं उत्पन्न होबुक्नेके अनंतर ही किसी कार्यके करनेमें उद्यत होसकती है।

अथ “ भूतवैषां क्रिया सैव कारणं सैव चोच्यते ” इति वचनान्भवनेव तेषामपरोत्पत्तौ कारणमिति चेदे-
 वं तर्हि रूपानवो रसाणूनाम् । ते च तेषामुपादानं स्थुरुभयत्र भवनाऽविशेषात् । न च क्षणान्तरे; विनष्टत्वात् ।
 अथाऽऽन्तस्ते तदुत्पादकास्तर्हि एकं स्वसत्ताक्षणमपहाय सदा तदुत्पत्तिप्रसङ्गस्तदसत्त्वस्य सर्वदाऽविशेषात् । सद-

सत्पक्षस्तु “ प्रत्येकं यो भवेदोषो द्वयोर्भावे कथं न सः ” इति वचनाद्विरोधाघ्रात एव । तन्नाणवः क्षणिकाः । नापि कालान्तरस्थायिनः क्षणिकपक्षसदृक्षयोगक्षेप्तत्वात् ।

यदि “ जो इनका उत्पन्न होना है वही तो क्रिया है तथा वही कारणरूप है ” ऐसी किसीकी कहावत होनेसे उनकी उत्पत्ति होना ही दूसरीकी उत्पत्तिका कारण माना जाय तो जो रूपके परमाणु तथा रसके परमाणुओंको बौद्धोंने जुदा जुदा माना है वह मानना भी व्यर्थ है । क्योंकि; एकसाथ उत्पन्न होनेवालोंमें एक दूसरेका कार्यरूप तथा कारणरूप होजाना सर्वत्र समान है । अर्थात् जैसे एक परमाणु स्वयं उत्पन्न होते हुए भी दूसरे परमाणुकी उत्पत्तिमें सहकारी होसकता है तैसे रूपरसके परमाणु भी साथ उत्पन्न होते हुए एक दूसरेकी उत्पत्तिमें सहकारी होसकते हैं इसलिये रूपपरमाणु तथा रसपरमाणुओंको अपनी अपनी उत्पत्तिमें जुदे जुदे कारण मानना व्यर्थ ही है । परंतु बौद्धलोग मानते अवश्य है । इन दोषोंके भयसे अपनी उत्पत्तिके समयमें ही सहकारी होना न मानकर उत्पन्न होनेके अनंतर दूसरे समयमें सहकारी होना मानना भी ठीक नहीं है । क्योंकि, उत्पत्तिके अनंतर दूसरे समयमें वह स्वयं ठहरता ही नहीं है; वह तो प्रथम ही नष्ट हो जाता है इसलिये नष्ट होनेपर सहकारी होना संभव नहीं है । अब जिस दूसरे पक्षमें परमाणुओंको असत्रूप माना है उस पक्षके अनुसार यदि असत्रूप परमाणुओंको ही दूसरे परमाणुओंकी उत्पत्तिमें सहायक मानाजाय तो अपनी उत्पत्तिके समयको छोड़कर जब ये सहकारी परमाणु उत्पन्न होकर नष्ट होजाय तबसे सदा ही दूसरे परमाणुओंकी उत्पत्ति होती रहनी चाहिये । क्योंकि; असत्रूप परमाणु जो उत्पत्तिके समयमें सहायक माने है वे असत्पनेकी अपेक्षा सदा ही एक सरीखे बने रहते हैं । तीसरे पक्षमें जो सत्असत् इन दोनोस्वरूप परमाणुओंको दूसरीकी उत्पत्तिमें कारण मानागया है वह सर्वथा दूषित है । क्योंकि; ऐसा कहा है कि “जिस एक एक स्वभावके माननेमें जो दोष संभवते है वे दोष उन सब स्वभावोंके मिले हुए एक स्वभाव माननेमें भी क्यों न संभव होंगे ? किं तु अवश्य होंगे ।” इसलिये न तो उत्पत्तिके समय ही नष्ट होनेवाले परमाणु दूसरे परमाणुओंके उपजनेमें सहायक होसकते हैं और न उत्पन्न होनेके अनंतर चिरकाल तक ठहरनेवाले ही । क्योंकि; उत्पत्तिके समय ही नष्ट होनेवाले परमाणुओंको सहायक माननेमें जो दोष संभवते हैं वे ही दोष चिरकालतक ठहरनेवालोंमें भी संभवते है ।

किं चामी कियत्कालस्थायिनोऽपि किमर्थक्रियापराद्भुत्वास्तत्कारिणो वा ? आद्ये खपुष्पवदसत्त्वापत्तिः । उद-

ग्विकल्पे किमसद्गुणं सद्गुणमुभयरूपं वा ते कार्यं कुरुः? असद्गुणं चेच्छशविषाणादेरपि किं न करणम्? सद्गुणं चेत्सतोऽपि करणेऽनवस्था । तृतीयभेदस्तु प्रावहिरोगधदुर्गन्धः । तत्राणुरूपोऽर्थः सर्वथा घटते । विरथायी मानकर सहायक माननेमें और भी अधिक दोष ये आते हैं कि उत्पत्तिके अनंतर कितने ही कालतक ठहरते हुए भी परमाणु क्या प्रयोजनीयत क्रियाओंसे पराङ्मुख होकर ठहरते हैं अथवा कुछ आवश्यक मानना आकाशके पुष्पसमान है । अर्थात् सच्चा ठहरना वही है कुछ भी क्रिया न करते हुए ठहरे माने जाय तो यह ठहरना माना जाय तो भी क्या वह कार्य जिससे कुछ भी प्रयोजनरूप कार्य होता है अथवा कुछ आवश्यक मानना आकाशके पुष्पसमान है । अर्थात् सच्चा ठहरना वही है विद्यमान होता है वह अवश्य कुछ नकुछ किया ही करता है । यदि कुछ करते हुए ही स्थित माने जाय तो भी क्या वह कार्य असत्रूप है वा सत्रूप है अथवा सत्त्वसत् दोनोरूप है जिसको वे करते हैं? यदि वह कार्य असत्रूप है जिसको वे चिरस्थायी होकर करते हैं तो वे गधेके सींगोको भी क्यों नहीं बनाते? क्योंकि; गधेके सींग भी ठीक वैसे ही असत्रूप है । यदि सत्वरूपको करते हैं तो जो कार्य उत्पन्न होजाता है उसको भी क्यों नहीं बनाते? क्योंकि; असत्त्व है उसको वे करते हैं । इस प्रकार किये हुएको फिर भी करते करते विराम न मिलसकैगा । यदि सत्त्वसत् दोनोरूपके कार्यको करते हुए माने जाय तो जैसा दोष प्रथम दिवा बुके हैं उसी प्रकारका यहां भी संभव है । अर्थात्-जो सत्त्व तथा असत्त्व माननेमें दोष संभवते हैं वे सब यहां सत्त्वसत् दोनोरूप तीसरा पक्ष माननेमें भी संभवते हैं । इसलिये परमाणुरूप वाक्य पदार्थ किसी प्रकार भी संभव नहीं है ।

नापि स्थूलावयविरूपः । एकपरमाण्वसिद्धौ कथमनेकतत्सिद्धिः? तदभावे च तत्त्वचयरूपः स्थूलावयवी वाङ्मात्रम् । किं चायमनेकावयवाधार इष्यते । ते चावयवा यदि विरोधिनस्तर्हि नैकः स्थूलावयवी; विरुद्धधर्माध्यानासुपलब्धेः । एकस्मिन्नेव स्थूलावयवविनि चलाचलरकारकाऽऽवृत्तानावृत्तादिविरुद्धावयव-
अब जो स्थूल पदार्थोको ही वाक्य पदार्थ मानते हैं उनका विचार करते हैं । स्थूलरूप वाक्य पदार्थ मानना भी युक्ति-संगत नहीं है । क्योंकि; अनेक परमाणुओंके समूहका नाम स्थूल अवयवी है सो यदि परमाणु ही सिद्ध नहीं है तो उन अनेक

परमाणुओंके संचयरूप स्थूल पदार्थोंकी सिद्धि कहना केवल कहनेमात्र ही है। और भी दूसरा दोष यह है कि; स्थूल पदार्थ अनेक परमाणुरूप अवयवोंमें रहनेवाला माना है; परंतु वे अवयव यदि परस्पर विरोधी है तो विरुद्धधर्मवाले उन अनेक परमाणुओंसे मिलकर एक स्थूल अवयवी पदार्थ कैसे बन सकता है? क्योंकि उसके प्रत्येक अवयवोंमें तो परस्पर जुड़े जुड़े रहनेका स्वभाव विद्यमान है। उन अवयवोंको परस्पर अविरोधी कहना तो सर्वथा प्रतीतिवाधित है। क्योंकि; एक ही अवयवीमें कोई परमाणु बंचल है, कोई अचल है, कोई लाल है, कोई सफेद है, कोई डके हुए है और कोई खुले हुए है इत्यादि अनेक परस्पर विरोधी धर्मवाले एक दूसरेके स्वभावसे सर्वथा प्रतिकूल दीखते हैं इसलिये उन सबोंमें परस्पर विरोध ही प्रतीत होता है।

अपि चासौ तेषु वर्तमानः कात्स्न्यैकदेशेन वा वर्तते? कात्स्न्येन वृत्तवेकस्मिन्नेवावयवे परिसमाप्तत्वाद्नेकावयववृत्तित्वं न स्यात्; प्रत्यवयवं कात्स्न्येन वृत्तौ चावयविवहुत्वापत्तेः। एकदेशेन वृत्तौ च तस्य निरंशत्वाभ्युपगमबाधः। सांशत्वे वा तदशास्ततो भिन्ना अभिन्ना वा? भिन्नत्वे पुनरव्यनेकांशवृत्तेरेकस्य कात्स्न्यैकदेशविकल्पानतिक्रमादनवस्था। अभिन्नत्वे न केचिदंशः स्युः। इति नास्ति बाह्योर्थः कश्चित्। किन्तु ज्ञानमेवेदं सर्वं नीलाद्याकारेण प्रतिभाति।

स्थूल अवयवीरूप बाह्य पदार्थ माननेमें और भी दोष दिखाते हैं।—अवयवीरूप बाह्य पदार्थ माननेवालेसे बौद्ध पूछता है कि अवयवीरूप स्थूल पदार्थ जो परमाणुरूप अवयवोंमें ठहरता है वह क्या अपने एक एक अवयवमें पूर्ण आकारसे ठहरता है अथवा उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक एक अवयवमें ठहरता है? यदि एक एक अवयवमें समूचा वर्तता है तो समूचा आकार तो एक अवयवीका एक ही है इसलिये अपने एक ही अवयवमें रह सकैगा; सभी अवयवोंमें उसका रहना मानना असंभव है। और यदि थोड़े समयके लिये यह भी मानलिया जाय कि एक अवयवी भी अपने सभी अवयवोंमें समूचा समूचा रहता है तो वे सभी अवयव प्रत्येक अवयवीरूप ही मानने चाहिये। अर्थात् अवयव तो उसीको कह सकते हैं जो किसी पदार्थका छोटासा हिस्सा हो। जिसमें पूरा स्थूलकार वर्तता हो वह अवयव कैसा? वह तो अवयवी ही है। और अवयवी तथा छूटे छूटे समूहरूप परमाणुओंमें अंतर यही है कि अवयवी तो अनेक परमाणुओंका समूह होकर भी निरंश एक समझा जाता है परंतु छूटे परमाणुओंका ढेर एक होनेपर भी सब परमाणु जुड़े जुड़े रहते हैं। इसलिये यदि एक अवयवीका अपने एक एक अवयवमें रहना पूरा पूरा न मानकर एक एक हिस्सेका माना जाय तो उसमें अंशोंकी कल्पना होनेसे उसको निरंश एक अवयवी नहीं

कह सकते हैं। और यदि उसके भी अंश माने जाय तो वे अंश उस अवयवीसे कोई जुदी वस्तु है अथवा उस अवयवीरूप ही हैं? यदि वे अंश भी उस अवयवीसे जुदी वस्तु है तो वे अंश भी एक प्रकारके अवयवी ही हुए। क्योंकि, अवयवीके सिवाय कोई बाह्य पदार्थ है ही नहीं। इसलिये वे अंशरूप अवयवी भी प्रत्येक अपने अपने अवयवोंसे एक एक अवयवमें हिस्सेवार रहेंगे। क्योंकि; अवयवीका अपने अवयवोंमें रहना हिस्सेवार ही ऊपर मान चुके है। इस प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक अवयवके हिस्से करनेसे कहीं ठिकाना ही नहीं रहता है। यदि अवयवीके अवयवोंको अवयवरूप ही माना जाय; अवयवीसे भिन्न न माना जाय तो वे अवयव ही नहीं है। क्योंकि, अवयव तो एक एक हिस्सेका ही नाम है। भावार्थ—यदि अवयवीमें अवयवोंको ही माना जाय तो वह स्थूल अवयवी है ऐसा व्यवहार भी कैसे हो सकता है? क्योंकि; अनेक अवयव जिसमें हो उसीको स्थूल अवयवी कह सकते हैं। और यथार्थमें वही स्थूल हो सकता है जिसमें छोटे छोटे अनेक अवयव मिल गये हो। जो निरंश एक है वह स्थूल अवयवी कैसे कहा जा सकता है? इसप्रकार स्थूल अवयवीरूप अथवा परमाणुरूप कोई भी बाह्य पदार्थ सिद्ध नहीं होता है। इसलिये बाह्य कुछ है ही नहीं। किंतु जो कुछ बाह्यमें नीलपीतादिकरूप भासता है वह सब ज्ञानका परिवर्तन है।

बाह्यार्थस्य जडत्वेन प्रतिभासायोगात् । यथोक्तं “स्वाकारबुद्धिजनका दृश्या नेन्द्रियगोचराः” । अलङ्कारकारे-
णाप्युक्तं “ यदि संवेद्यते नीलं कथं बाह्यं तदुच्यते ? न चेत्संवेद्यते नीलं कथं बाह्यं तदुच्यते ? ” । यदि बाह्योऽ-
र्थो नास्ति किंविषयस्तर्ह्ययं घटपटादिप्रतिभास इति चेन्ननु निरालम्बन एवायमनादिवितथवासनाप्रवर्तितो निर्वि-
षयत्वादाकाशकेशज्ञानवत्स्वप्नज्ञानवद्भेति । अत एवोक्तं “ नान्योऽनुभाव्यो बुध्यास्ति तस्या नानुभवोऽपरः ।
ग्राह्यग्राहकवैधुर्यात्स्वयं सैव प्रकाशते । १ । बाह्यो न विद्यते ह्यर्थो यथा बालैर्विकल्प्यते । वासनालुठितं चित्त-
मर्थभासं प्रवर्तते । २ । ” इति ।

यदि जो प्रतिभासता है वही बाह्य पदार्थ माना जाय तो भी वह तो जड़ है इसलिये उसका प्रतिभासित होना ही संभव नहीं है। ऐसा ही कहा है कि “ दृश्यजातिवाले ज्ञानमय पदार्थ बुद्धिको पदार्थाकार उत्पन्न करते है ” । अर्थात्—बाह्य

१ बौद्धोंने पदार्थ दोषकार माने हैं प्रथम दृश्य दूसरे विकल्प्य । दृश्य पदार्थ सर्व ज्ञानमय हैं और विकल्प्य वे हैं जो लोकोंकर बाह्य पदार्थों-
रूप मिथ्या कल्पित किये जाते हैं ।

पदार्थ कोई भी नहीं है; केवल विज्ञान ही बुद्धिको अनेकाकार करता रहता है। अलंकार ग्रन्थके कर्ता बौद्धाचार्य घर्मकीर्तिने भी कहा है कि “जब नीलादिक आकार प्रतिभाससे ही जान पड़ता है तब उसको बाह्य पदार्थ क्यों कहना चाहिये? और जब वह प्रतिभासित नहीं होता है तब उसको बाह्य पदार्थ क्यों कहना चाहिये।” अर्थात्—जब प्रतिभासित होता है तब तो वह प्रतिभासरूप है इसलिये प्रतिभासको अंतरंग ज्ञानमय ही मानना चाहिये। तब तो बाह्य पदार्थके होनेमें कोई प्रमाण ही नहीं है। और जब कुछ प्रतिभासित ही नहीं होता है तब कुछ है या नहीं इसीमें शंका है तो वह बाह्य पदार्थ है ऐसा कैसे कह सकते हैं? बाह्य पदार्थ ही यदि नहीं है तो यह घड़ा है, यह पड़ा है इत्यादि ज्ञान क्यों होता है ऐसी शंका ठीक नहीं है। क्योंकि; जैसे विना किसी बाह्य विषयके निरालंबन ही आकाशमें केश आदिकोका ज्ञान हो जाता है अथवा जैसे स्वप्नमें जो ज्ञान होता है वह वस्तुके आलंबन विना ही होता है तैसे ही घटपटादिकका सर्वसामान्य ज्ञान भी बाह्य वस्तुके आलंबन विना अनादिकालसे साथ लगी हुई झूठी वासनाके कारण ही प्रवर्तता है। इसीलिये कहा है कि “जो बुद्धिमें प्रतिभासता है वह कोई बुद्धिसे अतिरिक्त पदार्थ नहीं है और न बुद्धिके अतिरिक्त अनुभव ही कोई वस्तु है। विषय विषयी भिन्न भिन्न न होनेसे स्वयं बुद्धि ही नाना-रूपसे प्रकाशित होती रहती है ॥ बाह्य कोई भी पदार्थ नहीं है जैसा कि मूर्ख लोगोने कल्पित कर रखा है। अनादिकालसे लगी हुई मिथ्या वासनासे वासित हुआ चित्त ही नानाप्रकारके पदार्थरूप परिणमता है।”

तदेतत्सर्वमवद्यम् । ज्ञानमिति हि क्रियाशब्दस्ततो ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं ज्ञप्तिर्वा ज्ञानमिति । अस्य च कर्मणा भाव्यं; निर्विषयाया ज्ञप्तेरघटनात् । न चाकाशकेशादौ निर्विषयमपि दृष्टं ज्ञानमिति वाच्यं; तस्याप्येकान्तेन निर्विषयत्वाऽभावात् । न हि सर्वथाऽगृहीतसत्यकेशज्ञानस्य तत्प्रतीतिः । स्वप्नज्ञानमप्यनुभूतदृष्टाद्यर्थविषयत्वाच्च निरालम्बनम् । तथा च महाभाष्यकारः “अणुह्यदिद्विचिंतियसुयपयइवियारदेवयाणूवा । सुमिणस्स निमिच्चाइं पुणं पावं च णाऽभावो (संस्कृतच्छाया—अनुभूतदृष्टचिन्तितश्रुतप्रकृतिविकारदैविकाऽनूपाः । स्वप्नस्य निमित्तानि पुण्यं पापं च नाऽभावः)” ॥ यश्च ज्ञानविषयः स च बाह्योऽर्थः । भ्रान्तिरियमिति चेच्चिरं जीव । भ्रान्तिर्हि मुख्येऽर्थे क्वचिद् दृष्टे सति करणाऽपाटवादिना अन्यत्र विपर्यस्तग्रहणे प्रसिद्धा । यथा शुक्तौ रजतभ्रान्तिः । अर्थ-क्रियासमर्थेऽपि वस्तुनि यदि भ्रान्तिरुच्यते तर्हि प्रलीना भ्रान्ताऽभ्रान्तव्यवस्था । तथा च सत्यमेतद्धचः “आशा-मोदकतृप्ता ये ये चास्वादितमोदकाः । रसवीर्यविपाकादि तुल्यं तेषां प्रसज्यते । १ ।”

यह सब जो बौद्धका कहना है वह झूठ है। कैसे? जाननेरूप क्रियाका नाम ज्ञान है। जिससे जाना जाय वह ज्ञान है अथवा जाननामात्र ही ज्ञान है। जिससे जाना जाय अथवा जाननामात्र ऐसा ज्ञानशब्दका अर्थ होनेसे इस ज्ञानका कर्म कोई न कोई अवश्य होना चाहिये। क्योंकि, बिना किसी विषयके जानना कैसे हो सकता है? यदि कहां कि जैसे आकाशमें केशोंका ज्ञान बिना किसी विषयके भी होजाना सर्व जनोंमें प्रसिद्ध है तैसे ही सर्वत्र भी बिना विषयके ज्ञान हो सकता है परंतु यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि; आकाशमें जो केशोंका ज्ञान होता है वह भी सर्वथा निर्विषय नहीं है। जिस मनुष्यने कभी भी सचमुचके केश देखे नहीं हों उसको आकाशमें भी केशोंकी प्रतीति होना संभव नहीं है। अर्थात्-इस कहनेसे यह सिद्ध होता है कि जिसने प्रथम सच्चे केश देखे है उसीको आकाशमें भरे हुए अपरिमित सूक्ष्म रजआदिक केशादिरूप दीख सकते है। इसमें विपर्यय होनेका कारण बहुत अंतरका (फासलेका) पडना है। इस प्रकार आकाशमें जो केशोंका दीखना है वह रज आदिक वस्तुओंमें विपरीत परिणया ज्ञान है, न कि निर्विषय। इसीप्रकार स्वप्नका ज्ञान भी जागृत अवस्थामें पहिले अनुभव किये पदार्थोंका ही होता है इसलिये निर्विषय नहीं है। यही महाभाष्यकारने कहा है “पहिले अनुभव किये, देखे, विचार किये तथा सुने हुए पदार्थ तथा वातपित्तादिजनित विकार तथा देवोत्तर विकारको प्राप्त किया मन तथा जलप्रधानदेश अथवा पापपुण्यके कारण ये सर्व स्वप्न आनेमें निमित्तकारण है। अर्थात् स्वप्नमें वही वस्तु दीखती है जो पहिले सुनी हो देखी हो चिंतवन की हो तथा अनुभव की हो। और वातपित्तादिके विगड़नेपर भी मनमें नाना प्रकारकी चिंता तथा विचार उत्पन्न होनेसे स्वप्न आता है। इत्यादि स्वप्न होनेके अनेक कारण मिलते है इसलिये स्वप्नकी उत्पत्ति बिना कारणके ही मानना भिन्न्या है।” और जो ज्ञानके विषय है वे सब ब्रह्म पदार्थ ही है। यदि ज्ञानमें जो पदार्थका दीखना है वह अमररूप माना जाय तो भी अम माननेवालेको हम चिरकाल जीता रहो ऐसा आशीर्वाद देते है। क्योंकि; अम माननेसे भी ब्रह्म पदार्थकी सिद्धि होती है। यदि किसीने एक समय किसी पदार्थको यथार्थ देखा हो और पीछे इंद्रियमें रोगादि उत्पन्न हो जाय अथवा पदार्थ अत्यंत दूर पड़ा हो अथवा उजाला न हो इत्यादि ज्ञानके किसी कारणकी कमी होनेसे किसी दूसरे पदार्थको पहिले देखा हुआ पदार्थ मान लिया हो तो उस ज्ञानको अम कहते है। जैसे जिसने पहिले सच्ची चांदी देखी हो वह पीछे किसी कारणवश शीपको चांदी समझने लगे तो उसका वह ज्ञान अमररूप है। परंतु यदि प्रत्येक सच्चे पदार्थके ज्ञानको भी अम मानलिया जाय तो यह ज्ञान सच्चा है और यह झूठा है ऐसा निश्चय ही कैसे

हो सकैगा ? और यदि बाह्य पदार्थ कुछ माना ही नहीं जाय तो यह वचन भी सत्य हो जाय कि “जिसने मनके संकल्पमात्र लहू खाये हैं और जिसने सबे लहू खाये है उन दोनोंका पेट भरना और बल बढ़ना इत्यादिक फल समान हैं” ।

न चामून्यर्थदूषणानि स्याद्वादिनां बाधां विदधते; परमाणुरूपस्य स्थूलावयविरूपस्य चार्थस्याङ्गीकृतत्वात् । यच्च परमाणुपक्षखण्डनेऽभिहितं प्रमाणाऽभावादिति तदसत् । तत्कार्याणां घटादीनां प्रत्यक्षत्वे तेषामपि कथंचित्प्रत्यक्षत्वं योगिप्रत्यक्षेण च साक्षात्प्रत्यक्षत्वमवसेयम् । अनुपलब्धिस्तु सौक्ष्म्यात् । अनुमानादपि तत्सिद्धिः । यथा—सन्ति परमाणवः स्थूलावयवविनिष्पत्त्यन्यथाऽनुपपत्तेरित्यन्तर्व्याप्तिः । न चाणुभ्यः स्थूलोत्पाद इत्येकान्तःस्थूलादपि सूत्रपटलादेः स्थूलस्य पटादेः प्रादुर्भावविभावनात्; आत्माकाशादेरुद्गलत्वकक्षीकाराच्च । यत्र पुनरणुभ्यस्तदुपपत्तिस्तत्र तत्तत्कालादिसामग्रीसव्यपेक्षक्रियावशात्प्रादुर्भूतं संयोगातिशयमपेक्ष्यमवितथैव ।

जो बाह्य पदार्थविषयके दोष बौद्ध मतमें दिखाये है वे दोष स्याद्वादियोंके मतमें भी संभव हो सकते हों ऐसा नहीं है । क्योंकि; स्याद्वादियोंने तो परमाणु तथा स्थूल अवयवी ऐसे दोनो प्रकारके बाह्य पदार्थ माने है । और जो परमाणुरूप बाह्य पदार्थके खंडनमें बौद्धने ऐसा कहा था कि “परमाणुको सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण न होनेसे परमाणुरूप कोई पदार्थ नहीं है” सो यह कहना असत्य है । परमाणुओंसे बने हुए घड़ा महल मकानादि अनेक स्थूल पदार्थोंके दीखनेसे कारणरूप परमाणुका भी एक प्रकारसे दीखना सिद्ध है । और योगीजन तो परमाणुको भी साक्षात् प्रत्यक्ष देखते है । हम लोगोंको जो परमाणुका साक्षात् प्रत्यक्ष नहीं है सो तो परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होनेसे नहीं है । अर्थात्—हम लोगोंको यद्यपि सूक्ष्म होनेसे परमाणुका साक्षात् प्रत्यक्ष नहीं है तो भी जो परमाणुओंके स्थूलकार्योंका प्रत्यक्ष होता है वह परमाणुओंका ही प्रत्यक्ष है । क्योंकि, जिसका प्रत्यक्ष होता है ऐसा स्थूल अवयवी क्या परमाणुरूप अवयवोंके विना ही उत्पन्न हो जाता है? यदि विना अवयवोंके नहीं उत्पन्न होता है तो जब वह पूर्ण अवयवी दीखता है तब उसके अवयव दीखनेसे कैसे वच सकते है? यदि अवयव न दीखते हों तो अवयवोंका समूहरूप अवयवी भी दीख न सकैगा । जिसके अवयव तो भिन्न भिन्न रहनेपर न भी दीख सकै परंतु उनका समूह होकर जब स्थूल एक पिंडरूप हो जाता है तब उसीको स्थूल अवयवी कहते है । अवयवी कोई भिन्न पदार्थ नहीं है । अनुमानसे भी परमाणु सिद्ध होता है । सोई दिखाते है । जबतक छोटे छोटे अवयवरूप पदार्थ न हों तबतक बड़े बड़े पदार्थ

है और अवयवोंसे अवयवी सर्वथा भिन्न नहीं है इस अपेक्षासे यदि अवयवी विचारा जाय तो अवयवीमें भी कथञ्चित् अनेक-पना सिद्ध है । और जो बौद्धने यह शंका की कि अवयवी जिन अवयवोंमें रहता है उनमेंसे प्रत्येकमें सर्वांगरूप वसता है अथवा एक एक अवयवमें एक एक अंशरूपसे वसता है सो इसका उत्तर यही है कि उसमें ऐसे दो विकल्प हम नहीं मानते हैं । क्योंकि; अपने अवयवोंमें वह ऐसे एक प्रकारके अभेदरूपसे वसता है कि जबतक अवयवी बना रहै तबतक अपने अवयवोंसे वह भिन्न नहीं होसकता है । अविष्वग्भावसंबंध भी ऐसे ही संबन्धको कहते हैं । अर्थात् गुणगुणी, पर्यायपर्यायी, अवयवअवयवीका परस्पर जो ऐसा संबंध होता है कि जबतक आधाररूप वस्तु (पर्याय या द्रव्य) नष्ट न हो तबतक गुणगुणी, पर्यायपर्यायी तथा अवयवअवयवी परस्परमें छूट नहीं सकते हैं उसीको अविष्वग्भावसंबंध कहते हैं ।

किं च यदि बाह्योऽर्थो नास्ति किमिदानीं नियताकारं प्रतीयते नीलमेतदिति । विज्ञानाकारोऽयमिति चेन्न ज्ञानाद्विर्भूतस्य संवेदनात् । ज्ञानाकारत्वे त्वहं नीलमिति प्रतीतिः स्यान्न त्विदं नीलमिति । ज्ञानानां प्रत्येकमाकारभेदात्कस्यचिदहमिति प्रतिभासः कस्यचिन्नीलमेतदिति चेन्न; नीलाद्याकारवदहमित्याकारस्य व्यवस्थितत्वाभावात् । तथा च यदेकेनाहमिति प्रतीयते तदेवाऽपरेण त्वमिति प्रतीयते । नीलाद्याकारस्तु व्यवस्थितत्वा-रथ्येकरूपतया ग्रहणात् । भक्षितहृत्पूरादिभिस्तु यद्यपि नीलादिकं पीतादितया गृह्यते तथापि तेन न व्यभिचार-सस्य भ्रान्तत्वात् । स्वयं स्वस्य संवेदनेऽहमिति प्रतिभासत इति चेन्ननु किं परस्यापि संवेदनमस्ति ? कथमन्यथा-स्वशब्दस्य प्रयोगः ? प्रतियोगिशब्दो ह्ययं परमपेक्ष्यमाण एव प्रवर्तते ।

और यदि बाह्य पदार्थ है ही नहीं तो ऐसा निश्चयरूप ज्ञान किसका होता है कि यह नील पदार्थ है ? यदि कहीं कि यह नील है ऐसा आकार विज्ञानका ही होता है तो यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि; ऐसा आकार तो अपने अंतःकरणके बाहिर जुदा पदार्थरूप दीखता है इसलिये विज्ञानरूप कैसा ? यदि विज्ञानाकार ही होता तो मैं नील पदार्थ हूं ऐसी प्रतीति होनी चाहिये थी परंतु ऐसी प्रतीति तो होती ही नहीं है । यदि कहीं कि ज्ञानोके प्रत्येक आकार जुदे जुदे होते हैं इसलिये किसी ज्ञानमें तो ऐसा प्रतिभासता है कि मैं हूं और किसी ज्ञानमें ऐसा प्रतिभासता है कि यह नील है सो यह कहना भी उचित नहीं है । क्योंकि; जिस प्रकार किसी एक नीलादिक बाह्य वस्तुका ज्ञान सर्वोको समान ही होता है कि यह नियमपूर्वक नील है उस प्रकार

कदाचित् कहो कि हम जो 'अपने आप' ऐसा भेदरूप शब्द बोलते हैं वह भी अमज्ञानके वश बोलते हैं तो हम पूछते हैं कि पदार्थ परस्पर भिन्नरूप जब प्रत्यक्षसे दीखते हैं तो परस्परका भेद झूठा क्यों है? यदि कहो कि भेद दिखाने-वाला प्रत्यक्ष अमात्मक है क्योंकि; अनुमानसे अभेद सिद्ध होता है तो हम पूछते हैं कि वह कौनसा अनुमान है? इस प्रश्नके उत्तरमें बौद्ध अभेद साधनेवाले अनुमानको दिखाता है कि—जो नियमसे सदा जिसके साथ ही मिलता है वह उससे भिन्न नहीं कहा जासकता है। जिस प्रकार असली आकाशगामी चंद्रमाके होते हुए ही जलमें पड़ा हुआ चंद्रमाका प्रतिबिंब दीखता है; जब असली चंद्रमा नहीं होता है तब जलमें उसका प्रतिबिंब भी नहीं दीखता है इसलिये असली चंद्रमाके अतिरिक्त वह प्रतिबिंब कोई भिन्न वस्तु नहीं है। इसी प्रकार जहां जिस समय जैसा पदार्थ दीखता है वहां उस समय ज्ञान भी तैसा ही प्रतीत होता है इसलिये पदार्थ भी ज्ञानके अतिरिक्त कोई भिन्न वस्तु नहीं है। यह अनुमान व्यापकानुपलब्धिनामक है। भावार्थ—जहां साध्यसे विपरीत धर्मके साथ जो कोई धर्म व्याप्त होसकै ऐसे धर्मकी जो उपलब्धि नहीं होना है उसीका नाम व्यापकानुपलब्धि है। जैसे यहां पर ज्ञान तथा विषयरूप पदार्थका अभेद साध्य है। ज्ञान तथा पदार्थका जो भेद मानना है वह साध्यसे विपरीत धर्म है। उस विपरीत धर्मकी सिद्धि तभी होसकती है जब अभेदका साधक 'ज्ञान तथा पदार्थका साथ साथ मिलना' ऐसा हेतु जो बौद्धने कहा है उससे विपरीत 'ज्ञान तथा पदार्थका साथ साथ न मिलना' ऐसा हेतु मिलसकै। परंतु ऐसा हेतु मिलता ही नहीं है। क्योंकि; जुदे जुदे रहनेवाले नीले पीले आदिक धर्मोंका एकसाथ मिलना संभव नहीं है। कभी नीलरूप ही मिलता है और कभी पीतादिरूप ही। अब यहांपर सिद्धान्ती कहते हैं कि इस अनुमानसे बौद्ध जो अभेद सिद्ध करता है वह सिद्ध करना सर्वथा अयुक्त है। क्योंकि; इस अनुमानका हेतु सच्चा हेतु नहीं है किंतु संदिग्धनैकान्तिकनामक हेत्वाभास है। भावार्थ—संदिग्धनैकान्तिकनामक हेत्वाभास उस हेतुको कहते हैं जिसका रहना साध्यसे विरुद्ध धर्मके साथ भी संभव होसकै। सो ही दिखाते हैं।—ज्ञान निजका तथा अन्य पदार्थोंका निश्चय कराता है सो अन्यका निश्चय कराना जो ज्ञानमें धर्म है उस धर्मके आश्रयसे तो ज्ञान अन्य बाह्य नीलादिकोका निश्चय कराता है और जो आत्मामें निजका निश्चय कराने रूप धर्म है उसकी अपेक्षासे उस नीलादि ज्ञानरूप परिणत हुई बुद्धिको अपने आपमें निश्चय कराता है। बुद्धि नीलादिज्ञानमय परिणत हुई तभी कही जाती है जब यह नीलादि है इस प्रकार बाह्य पदार्थका प्रथम ही ज्ञान हुआ हो। नीलादिज्ञानमय परिणत हुई बुद्धिको जो

में हं ऐसा ज्ञान किसी एक विषयमें सबको समान नहीं होता है। एक जीव अपनेको में हं ऐसा समझता है परंतु दूसरा उसीको में हं ऐसा नहीं समझता है। परंतु नीलादिक किसी एक वायु वस्तुका ज्ञान सबको एकना ही होता है। इसलिये वायु वस्तुका-ज्ञान अवश्य है। अर्थात् नीलादिक वायु वस्तुमें यदि एक गनुयको यह ज्ञान हो कि यह सामनेकी वस्तु नीलरूपी है तो और भी दूसरे लोगोंको उसका ऐसा ही ज्ञान होगा कि यह नीलरूपी है। अर्थात् किसी रोगादिके वश नीले पदार्थका पीतरूप भी ज्ञान हो तो भी वह ज्ञान अंतमें अमरूप सिद्ध हो जाता है परंतु निर्दिष्टार मनुष्योंको सदा एक विषयमें सभीको एकसा ही ज्ञान होता है। इसलिये वायु पदार्थ अवश्य गानना चाहिये। अर्थात् कहीं कि यह जीव स्वयं अपने आपका अनुभव करता है तब उसको में हं ऐसा भावता है सो यह कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा कहना तो तमी शोभित हो सकता है जब अपने विवाय औरका भी ज्ञान माना हो। यदि ऐसा माना ही नहीं है; किंतु जो कुछ है वह आप ही है ऐसा जब बौद्धोका मतव्य है तो 'अपने आपको ही अनुभवता है' ऐसा बोलना किमकार ठीक माना जाय? 'अपने आपको', ऐसा गब्ड प्रतियोगीशब्द कहा जाता है। प्रतियोगी गब्ड उभीको कहते हैं जिसके बोलनेपर उससे उलटे भिन्न पदार्थका भी प्रतिबोध हो जाय। 'अपने आप' ऐसा गब्ड भी तभी बोल्य जा सकता है जब अपने आपके विवाय अन्य भी पदार्थ माने जाय। क्योंकि 'अपने आप' गब्दका अर्थ यही हो सकता है कि दूसरा नहीं किंतु अपने आप। इसलिये जहां अपने आपके विवाय दूसरे पदार्थ माने ही नहीं हैं वहां 'अपने आप' ऐसा बोलना ठीक नहीं है।

स्वरूपस्यापि भ्रान्त्या भेदप्रतीतिरिति चेत् हन्त प्रत्यक्षेण प्रतीतो भेदः कथं न वास्तवः? भ्रान्तं प्रत्यक्षमिति चेन्ननु कुत एतत्? अनुमानेन ज्ञानार्थयोर्भेदसिद्धिरिति चेत् तदनुमानमिति पृच्छामः? यद्येन मह नियमेनोपलभ्यते तत्ततो न भिद्यते। यथा सच्चन्द्रादसच्चन्द्रः। नियमेनोपलभ्यते च ज्ञानेन सहायः। इति व्यापकाऽनुपलब्धिः। प्रतिषेधस्य ज्ञानार्थयोर्भेदस्य व्यापकः सहोपलम्भानियमस्तस्याऽनुपलब्धिर्भिनयोर्नोपलपीतयोर्गुणगुणपुलम्भनियमाभावात्। इत्यनुमानेन तयोर्भेदसिद्धिरिति चेन्न। संदिग्धानैकान्तिकत्वेनास्यानुमानाभासत्वात्। ज्ञानं गुणपदग्रहणात्सहोपलम्भनियमोऽस्ति। तत्परसंवेदनतामात्रेणैव नीलं गृह्णाति। स्वसंवेदनतामात्रेणैव च नीलबुद्धिम्। तदेवमनयोऽग्वत्वात् संदिग्धानैकान्तिकत्वम्। इति सहोपलम्भनियमरूपस्य हेतोर्विपक्षाद् व्यावृत्तेः संदि-

रा. नै. जा.

कदाचित् कहो कि हम जो 'अपने आप' ऐसा भेदरूप शब्द बोलते हैं वह भी अमज्ञानके वश बोलते हैं तो हम पूछते हैं कि पदार्थ परस्पर भिन्नरूप जब प्रत्यक्षसे दीखते हैं तो परस्परका भेद झूठा क्यों है? यदि कहो कि भेद दिखाने-वाला प्रत्यक्ष अंमात्मक है क्योंकि; अनुमानसे अभेद सिद्ध होता है तो हम पूछते हैं कि वह कोनसा अनुमान है? इस प्रश्नके उत्तरमें बौद्ध अभेद साधनेवाले अनुमानको दिखाता है कि—जो नियमसे सदा जिसके साथ ही मिलता है वह उससे भिन्न नहीं कहा जासकता है। जिस प्रकार असली आकाशगामी चंद्रमाके होते हुए ही जलमें पडा हुआ चंद्रमाका प्रतिबिंब दीखता है; जब असली चंद्रमा नहीं होता है तब जलमें उसका प्रतिबिंब भी नहीं दीखता है इसलिये असली चंद्रमाके अतिरिक्त वह प्रतिबिंब कोई भिन्न वस्तु नहीं है। इसी प्रकार जहां जिस समय जैसा पदार्थ दीखता है वहां उस समय ज्ञान भी तैसा ही प्रतीत होता है इसलिये पदार्थ भी ज्ञानके अतिरिक्त कोई भिन्न वस्तु नहीं है। यह अनुमान व्यापकानुपलब्धिनामक है। भावार्थ—जहां साध्यसे विपरीत धर्मके साथ जो कोई धर्म व्याप्त होसकै ऐसे धर्मकी जो उपलब्धि नहीं होना है उसीका नाम व्यापकानुपलब्धि है। जैसे यहां पर ज्ञान तथा विषयरूप पदार्थका अभेद साध्य है। ज्ञान तथा पदार्थका जो भेद मानना है वह साध्यसे विपरीत धर्म है। उस विपरीत धर्मकी सिद्धि तभी होसकती है जब अभेदका साधक 'ज्ञान तथा पदार्थका साथ साथ मिलना' ऐसा हेतु जो बौद्धने कहा है उससे विपरीत 'ज्ञान तथा पदार्थका साथ साथ न मिलना' ऐसा हेतु मिलसकै। परंतु ऐसा हेतु मिलता ही नहीं है। क्योंकि; जुदे जुदे रहनेवाले नीले पीले आदिक धर्मोंका एकसाथ मिलना संभव नहीं है। कभी नीलरूप ही मिलता है और कभी पीतारूप ही। अब यहांपर सिद्धान्ती कहते हैं कि इस अनुमानसे बौद्ध जो अभेद सिद्ध करता है वह सिद्ध करना सर्वथा अयुक्त है। क्योंकि; इस अनुमानका हेतु सच्चा हेतु नहीं है किंतु संदिग्धानैकान्तिकनामक हेत्वामास है। भावार्थ—संदिग्धानैकान्तिकनामक हेत्वामास उस हेतुको कहते हैं जिसका रहना साध्यसे विरुद्ध धर्मके साथ भी संभव होसकै। सो ही दिखाते हैं।—ज्ञान निजका तथा अन्य पदार्थोंका निश्चय करता है सो अन्यका निश्चय कराना जो ज्ञानमें धर्म है उस धर्मके आश्रयसे तो ज्ञान अन्य बाह्य नीलादिकोका निश्चय करता है और जो आत्मामें निजका निश्चय कराने रूप धर्म है उसकी अपेक्षासे उस नीलादि ज्ञानरूप परिणत हुई बुद्धिको अपने आपमें निश्चय कराता है। बुद्धि नीलादिज्ञानमय परिणत हुई तभी कही जाती है जब यह नीलादि है इस प्रकार बाह्य पदार्थका प्रथम ही ज्ञान हुआ हो। नीलादिज्ञानमय परिणत हुई बुद्धिको जो

ज्ञान स्वस्वप्नधर्म द्वारा जताता है उसका ऐसा उदाहरण कहा है कि नीलादि ज्ञान जिसको हुआ है वह मैं (ज्ञान) ही हूँ । इस प्रकार जो प्रथम ही बाह्य पदार्थको जतानेवाला ' यह नीलादिक बाह्य पदार्थ है ' ऐसा प्रथम ज्ञान तथा ' नीलादिकका ज्ञान जिसको हुआ है वह मैं ही हूँ ' ऐसा दूसरा ज्ञान एक साथ ही चेतनामें परिणमते है, इनकी उत्पत्तिमें कालका अंतर नहीं है। इसलिये एकसाथ ही मिलना जिनका होता है वे परस्पर भिन्न नहीं होते ऐसा जो बौद्धने कहा था वह असत्य प्रतीत होता है। क्योंकि, ऊपर-दिखाये हुए उदाहरणमें दोनो ज्ञानोका ग्रहण होना तो साथ ही है परंतु वे दोनो ज्ञान एक नहीं है किंतु जुदे जुदे है। इस प्रकार अभेद सिद्ध करनेमें बौद्धने जो 'एक साथ होना' ऐसा हेतु कहा था वह हेतु अभेदसे विपरीत भेदमें भी रहता हुआ प्रतीत होनेसे संदेहसहित है। और इसीलिये इसको संदिग्धानैकान्तिक कहा है।

असिद्धश्च सहोपलम्भनियमो; नीलमेतदिति बहिर्मुखतयाऽर्थेऽनुभूयमाने तदानीमेवान्तरस्य नीलानुभवस्याऽ-
ननुभवात् । इति कथं प्रत्यक्षस्यानुमानेन ज्ञानार्थयोरभेदसिद्ध्या भ्रान्तत्वम् ? अपि च प्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्वेनाऽ-
बाधितविषयत्वादनुमानस्यात्मलाभो, लब्धात्मके चानुमाने प्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्वमित्यन्योन्याश्रयदोषोपि दुर्निवारः।
अर्थाभावे च नियतदेशाधिकरणा प्रतीतिः कुतः ? न हि तत्र विवक्षितदेशेऽयमारोपयितव्यो नान्यत्रेत्यस्ति नियमहे-
तुः । वासनानियमात्तदारोपनियम इति चेन्न; तस्या अपि तद्देशनियमकारणाभावात् । सति ह्यर्थसम्भावे यद्देशो
ऽर्थस्तद्देशोऽनुभवस्तद्देशा च तत्पूर्विका वासना । बाह्यार्थाभावे तु तस्याः किंकृतो देशनियमः ? अथास्ति
तावदारोपनियमः । न च कारणविशेषमन्तरेण कार्यविशेषो घटते । बाह्यश्चार्थो नास्ति । तेन वासनानामेव वैचि-
त्र्यं तत्र हेतुरिति चेत्तद्वासनावैचित्र्यं बोधाकारादन्यदन्यद्वा ? अनन्यच्चेद्धोधाकारस्यैकत्वात्कस्तासां परस्परतो
विशेषः ? अन्यच्चेदर्थे कः प्रद्वेषो ? येन सर्वलोकप्रतीतिरपन्ह्यते । तदेवं सिद्धो ज्ञानार्थयोर्भेदः ।

' ज्ञान तथा पदार्थकी एक साथ उपलब्धि होना (मिलना) ' यह हेतु असिद्ध भी है । क्योंकि; जब यह नीलादि है ऐसा बाह्य पदार्थ मासता है तभी नीलादिकका जो अंतरंगमें ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसका अनुभव नहीं होता है । इन दोनों ज्ञानोकी उत्पत्तिमें कालका अंतर पड़ता है । इसलिये ज्ञान और पदार्थमें परस्परका भेद जो प्रत्यक्षसे सिद्ध है उसको यह ऊपर दिखाया हुआ बौद्धका अनुमान अमाल्मक नहीं ठहरा सकता है । और भी दूसरा दोष यह है कि भेददर्शक जो प्रत्यक्ष है वह जब अमाल्मक

सिद्ध हो तब अभेद सिद्ध करना सच्चा होनेसे अभेद साधक ऊपर कहा हुआ अनुमान सत्य कहा जासकै और जब अभेदसाधक यह अनुमान सत्य सिद्ध हो तब भेद जतानेवाला प्रत्यक्ष अमाल्यक कहा जासकै । इस प्रकार अनुमानका सच्चापना तभी सिद्ध हो सकता है जब यह प्रत्यक्ष झूठा होजाय और जब अनुमान सच्चा सिद्ध होजाय तब यह प्रत्यक्ष झूठा सिद्ध होसकै । ऐसे दोषको अन्योन्याश्रय दोष कहते है । यह दोष दुर्निवार है । क्योंकि; जो दोनोंमेंसे कोई भी एक दूसरेके विना सिद्ध नहीं होसकता है वह किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होसकता है । और भी तीसरा दोष यह है कि यदि बाह्य पदार्थ कुछ है नहीं तो स्थानकी ऐसी निश्चय प्रतीति क्यों होती है कि अमुक वस्तु अमुक स्थानपर ही है अन्यत्र नहीं है । यदि बाह्य वस्तु है ही नहीं तो किसी खास स्थानका ऐसा संकल्पमात्र भी नहीं होना चाहिये कि अमुक वस्तु अमुक स्थानपर ही है अन्यत्र नहीं है । अनादि कालसे प्रवृत्त हुई झूठी वासनाओंकी प्रवृत्तिसे किसी खास स्थानमें संकल्पमात्रका होजाना मानना भी ठीक नहीं है । क्योंकि; ज्ञानके अतिरिक्त वासना भी कोई सच्ची भिन्न वस्तु नहीं है इसलिये वासनासे भी स्थानका संकल्प निश्चय करना असंभव है । यदि ज्ञानके अतिरिक्त यथार्थमें कोई बाह्य पदार्थ हो तो जहांपर वह पदार्थ होगा वहां ही उस पदार्थकी वासना होना भी माना जासकता है । क्योंकि; वासना उत्पन्न करनेका हेतु वहां वहां विद्यमान है । परंतु जब ऐसा बाह्य पदार्थ ही कोई नहीं है जिसके कारण वासना उत्पन्न होसकती है तो वासना भी उस स्थानपर है जिस स्थानपर पदार्थ माना जाता है ऐसा निश्चय किस प्रकार हो ? अब यहांपर बौद्ध कहता है कि अमुक वस्तु अमुक स्थानपर ही है अन्यत्र नहीं है ऐसा संकल्प होनेका भी कोई कारण अवश्य है । कारणोंमें जबतक अंतर न हो तबतक कार्योमें परस्पर भेद नहीं होसकता है । और स्थानके नियम करनेका कोई बाह्य कारण तो है ही नहीं यह बात हम प्रथम ही कहचुके है इसलिये इसका कारण कोई दूसरा ही होना चाहिये । वह दूसरा कारण इस जीवके साथ लगी हुई नाना प्रकारकी वासना ही है । परंतु यह बौद्धका कहना

3 जो दो पदार्थोंकी सिद्धि परस्पर एक दूसरेके आश्रित हो उसको अन्योन्याश्रय दोष कहते हैं । इसका उदाहरण जैसे—एक ताला ऐसा होता है जो विना तालीके बंद तो होजाता है परंतु विना तालीके खुल नहीं सकता है । ऐसे तालेकी ताली तो कदाचित् भूलसे मकानके भीतर ही रहगई हो और वह ताला मकानके बाहरसे लगादिया हो तो फिर जब ताली मिलजाय तब ताला खुलै और प्रथम ताला खुलै तो ताली मिलसकै । ऐसे प्रसंगपर एक कार्य दूसरा कार्य हो जानेके आश्रित है इसलिये न तो ताला ही खुल सकता है और न ताली ही आसकती है ।

सर्वथा मिथ्या है। क्योंकि; वे नाना प्रकारकी वासना ज्ञानके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु है अथवा ज्ञानमय ही है ? यदि ज्ञानसे अभिन्न ज्ञानमय ही है तो ज्ञान तो एक प्रकार ही बौद्धोंने माना है फिर वासना ज्ञानसे अभिन्न होकर भी नाना प्रकारकी होजानेमें क्या कारण है ? यदि ज्ञान के अतिरिक्त वासना कोई अन्य पदार्थ है तो और भी बाह्य पदार्थ जो प्रत्यक्ष दीखतेहैं उनके माननेमें क्या बुराई है ? जिससे कि सर्व जनोंकी प्रतीतिको मिथ्या ठहरातेहो। इस प्रकार ज्ञान और बाह्य पदार्थोंमें परस्पर भेद सिद्ध हुआ।

तथा च प्रयोगः । विवादाध्यासितं नीलादि ज्ञानाद्ध्यतिरिक्तं विरुद्धधर्माध्यस्तत्वात् । विरुद्धधर्माध्यासश्च ज्ञानस्य शरीरान्तः अर्थस्य च बहिः; ज्ञानस्याऽपरकालेऽर्थस्य च पूर्वकाले वृत्तिमत्त्वात्; ज्ञानस्य आत्मनः सकाशादर्थस्य च स्वकारणेभ्य उत्पत्तेः; ज्ञानस्य प्रकाशरूपत्वादर्थस्य च जडरूपत्वादिति । अतो न ज्ञानाद्वैतेऽभ्युपगम्यमाने बहिरनुभूयमानार्थप्रतीतिः कथमपि संगतिमङ्गति । न च दृष्टमपह्नोतुं शक्यमिति । अत एवाह स्तुति-कारः “न संविदद्वैतपथेऽर्थसंवित्” इति । सम्यगवैपरीत्येन विद्यतेऽवगम्यते वस्तुस्वरूपमनयेति संवित् । स्वसंवेदन-पक्षे तु संवेदनं संवित् ज्ञानम् । तस्या अद्वैतम् । इयोर्भावो द्विधा । द्वितैव द्वैतं प्रज्ञादित्वात् स्वार्थिकेऽणि । न द्वैतमद्वैतं बाह्यार्थप्रतिक्षेपादेकत्वम् । संविदद्वैतं ज्ञानमेवैकं तात्त्विकं न बाह्योऽर्थ इत्यभ्युपगम्यते इत्यर्थः ।

अनुमानसे भी इसको इस प्रकार सिद्ध करते है कि विवादापन्न जो नीलादिक पदार्थ है वे अवश्य ज्ञानके अतिरिक्त कोई भिन्न वस्तु है । क्योंकि; ज्ञान तथा उन नीलादि पदार्थोंमें परस्पर विरुद्ध धर्म देखे जाते हैं । वे विरुद्ध धर्म कौनसे है ? ज्ञान तो शरीरके भीतर ही रहता है और ज्ञेय पदार्थ शरीरके बाहिर भी रहते है; ज्ञेय पदार्थ तो ज्ञानसे पहिले समय भी मिलता है परंतु ज्ञान केवल ज्ञेय पदार्थ उत्पन्न होचुकनेपर ही मिलता है; ज्ञान तो आत्मासे उत्पन्न होता है तथा ज्ञेय पदार्थ अपने अपने भिन्न भिन्न कारणोंसे उपजते है; इसी प्रकार ज्ञान तो सर्व पदार्थोंको प्रकाशनेवाला है तथा ज्ञेय पदार्थ स्वयं जड़स्वरूप है इत्यादि ज्ञान तथा ज्ञेय पदार्थोंमें परस्पर बहुतसे विरोधी धर्म है । इसलिये यदि ज्ञानके अतिरिक्त कुछ भी बाह्य पदार्थ न माने जायगे तो बाहिरके पदार्थोंकी जो स्वयं अपने अपने अनुभवसे प्रतीति होती है वह किसी प्रकार सिद्ध न होसकैगी । और प्रत्यक्ष दीखते हुए बाह्य पदार्थोंका “बाह्य पदार्थ है ही नहीं” ऐसा विनायुक्ति निषेध करना भी सहज नहीं है । इसीलिये स्तुति-कर्ता श्रीहेमचन्द्राचार्य कहते है कि “न संविदद्वैतपथेऽर्थसंवित्” । अर्थात्—केवल ज्ञानाद्वैत यदि माना जाय तो बाह्य

पदार्थोंका दीखना असंभव है। 'सं' अर्थात् जैसा पदार्थ है तैसा 'वित्' अर्थात् जिसके द्वारा वस्तुस्वभाव जानाजाय उसको संवित् कहते हैं। और जहांपर अपने आपेको जाननेका प्रकरण हो उस स्थानपर केवल जाननेमात्रका नाम संवित् अथवा ज्ञान है। ऐसी संवित्का अद्वैत क्या सो कहते हैं। दो पदार्थोंके रहनेका नाम द्विता है। द्विताको ही द्वैत भी कहते हैं। क्योंकि; द्विता शब्दका अर्थ द्वित्व है। यहांपर द्विताशब्दका जो कुछ अर्थ है उतनेही अर्थमात्रकी विवक्षामें द्विताशब्दके अनंतर व्याकरणके नियमानुसार "प्रज्ञादिभ्यः" सूत्रकर 'अण्' प्रत्यय हो जाता है। इस अण् प्रत्ययके होनेसे ही द्विताशब्दका 'द्वैत' वनजाता है। जो द्वैत अर्थात् परस्पर भेदरूप न हो उसका नाम अद्वैत है। बाह्य पदार्थोंको न मानकर सर्वको एक ज्ञानमय ही माननेका नाम अद्वैत है। पहिले कहचुके है कि संवित् नाम ज्ञानका है। इसलिये संवित् ही केवल सत्य है, अन्य कोई भी बाह्य पदार्थ यथार्थमें नहीं है ऐसे ही विचारका नाम संविदद्वैत है। भावार्थ—जो कुछ दीखता है वह सर्व ज्ञान ही है; ज्ञानके अतिरिक्त और कुछ भी बाह्य पदार्थ सच्चा नहीं है ऐसे विचारको संविदद्वैत कहते हैं।

तस्य पन्था मार्गः संविदद्वैतपथस्तस्मिन्। ज्ञानाद्वैतवादपक्ष इति यावत्। किमित्याह "नार्थसंवित्"। येयं वहिर्मुख-
तयाऽर्थप्रतीतिः साक्षादनुभूयते सा न घटते इत्युपस्कारः। एतच्चानन्तरमेव भावितम्। एवं च स्थिते सति
किमित्याह " विलूनशीर्णं सुगतेन्द्रजालम् " इति। सुगतो माथापुत्रस्तस्य सम्बन्धि तेन परिकल्पितं क्षणक्षया-
दि वस्तुजातमिन्द्रजालमिवेन्द्रजालं; मतिव्यामोहविधातृत्वात्। सुगतेन्द्रजालं सर्वमिदं विलूनशीर्णम्। पूर्वं विलूनं
पश्चात् शीर्णं विलूनशीर्णम्। यथा किंचित्चृणस्तम्बादि विलूनमेव शीर्यते विनश्यति एवं तत्कल्पितमिन्द्रजालं
तृणप्रायं धारालयुक्तिशस्त्रिकया छिन्नं सद्विशर्यत इति।

संविदद्वैतरूप विचारके अनुसार प्रवर्तनेको संविदद्वैतपथ कहते हैं। संविदद्वैतपथ अर्थात् ज्ञानद्वैतमत। इस संविदद्वैतपथके माननेमें कोनसा दोष आता है? पदार्थोंका ज्ञान नहीं होसकता है। अर्थात् जो यह बाह्य पदार्थोंकी प्रतीति साक्षात् अनुभव की जाती है वह प्रतीति केवल ज्ञानद्वैत माननेसे नहीं उत्पन्न होसकगी। इसका विचार भी अभी करचुके हैं। इस कथनसे यह सिद्ध हुआ कि बाह्य पदार्थ भी अवश्य कोई सत्य पदार्थ है और जो बौद्ध लोग बाह्य पदार्थोंको नहीं मानते है वह मानना झूठा है। यह सिद्ध होनेसे क्या हुआ? सुगत (बुद्ध) का बनाया हुआ इंद्रजाल फट गया। सुगत अर्थात् मायापुत्र। समस्त पदार्थ क्षण क्षणमें नष्ट

होते हैं, किसी प्रकार भी स्थिर नहीं है इत्यादि जो सुगतद्वारा झूठी कल्पना की गई है वह एक झूठे इंद्रजालके समान है। क्योंकि; वाजीरोंका बनाया हुआ अनेक प्रकारका इंद्रजाल अर्थात् मायामयी झूठा तमासा जिस प्रकार थोड़े समयतक तो भोले मनुष्योंकी बुद्धिको मोहित करता है परंतु अंतमें शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है उसी प्रकार बौद्धका रचाहुआ यह मायामयी झूठा तमासा भी भोले मनुष्योंके चित्तको कुछ समयपर्यंत तो मोहित करता है परंतु विचार करनेपर शीघ्र ही विघट जाता है। इसीलिये इसका नाम सुगतका इन्द्रजाल है। विचार करनेपर प्रथम तो इस इंद्रजालके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और पीछेसे सर्वथा नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार फूसका बनाहुआ स्तम्भ थोड़ासा छेदनेसे ही नष्ट हो जाता है उसी प्रकार यह सुगतका कल्पित किया हुआ इन्द्रजाल तृणोंके समान निस्सार होनेके कारण तीक्ष्ण युक्तिरूप छुरीसे थोड़ासा छेदनेपर ही विघट जाता है।

अथ वा यथा निपुणेन्द्रजालिककल्पितमिन्द्रजालमवास्तवतत्तद्रस्त्वद्भुतोपदर्शनेन तथाविधं बुद्धिदुर्विधं जनं विप्रतार्यं पश्चादिन्द्रधनुरिव निरवयवं विलूनशीर्णतां कलयति तथा सुगतपरिकल्पितं तत्तत्प्रमाणतत्तत्फलाऽभेदक्ष-
णक्षयज्ञानार्थहेतुकत्वज्ञानाऽद्वैताभ्युपगमादि सर्वं प्रमाणाऽनभिज्ञं लोकं व्याप्तोहयमानमपि युक्त्या विचार्यमाणं विशारुरुतामेव सेवत इति। अत्र च सुगतशब्द उपहासार्थः। सौगता हि शोभनं गतं ज्ञानमस्येति सुगत इत्युश-
न्ति। ततश्चाहो तस्य शोभनज्ञानता येनेत्थमयुक्तियुक्तमुक्तम्। इति काव्यार्थः।

अथवा जिस प्रकार चबुर वाजीगरने जो इन्द्रजाल बनाया हो वह यद्यपि झूठी वस्तुओंसे भरा हुआ है तो भी वह अद्भुत वस्तु-
ओंके दिखानेसे थोड़े समयतक भोले मनुष्योंके मनको मोहित करता है परंतु पीछे इंद्रधनुके समान विलीन होता हुआ दीखता है उसी प्रकार जिसमें प्रमाण तथा प्रमाणके फलको अभिन्न कहा है एवं क्षण क्षणमें सबका नाश बतलाया है तथा ज्ञानके अतिरिक्त कोई बाह्य पदार्थ नहीं है इस प्रकारका उपदेश किया है ऐसा जो सुगतका बनाया हुआ इन्द्रजाल वह प्रमाणके स्वरूपको न समझनेवाले भोले मनुष्योंके चित्तको मोहित करता हुआ भी युक्ति पूर्वक विचारनेपर विखर जाता है। इस श्लोकमें सुगत शब्द केवल इसी करनेके अभिप्रायसे लिखा गया है। क्योंकि, गत नाम ज्ञान। सु अर्थात् सच्चा जिसका ज्ञान हो वह सुगत है ऐसा सुगत शब्दका अर्थ सुगतके शिष्योने किया है। परंतु धन्य है उसके सुज्ञानको जिसने इस प्रकार असंगत युक्तिरूप उपदेश किया। इस प्रकार इस काव्यका अर्थ पूर्ण हुआ।

अथ तत्त्वव्यवस्थापकप्रमाणादिचतुष्टयव्यवहारापलापिनः शून्यवादिनः सौगतजातीयास्तत्कक्षीकृतपक्षसाधकस्य प्रमाणस्याङ्गीकाराऽनङ्गीकारलक्षणपक्षद्वयेऽपि तदभिमतार्थाऽसिद्धिप्रदर्शनपूर्वकमुपहसन्नाह ।

प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय तथा प्रमाता ये चारों पदार्थसिद्धि करनेके कारण है इसलिये इनके द्वारा ही व्यवहार प्रवर्तता है । कुछ भी न माननेवाले शून्यवादी अर्थात् एक प्रकारके बौद्ध इन चारोंका निषेध करते हैं । परंतु वे शून्यताका मंडन भी किसी अनुमानादि प्रमाण द्वारा ही करते होंगे । वह अनुमानादि प्रमाण यदि सच्चा है तो सर्वथा शून्यता सिद्ध होना असंभव है; और यदि वह अनुमानादि प्रमाण भी सर्वथा झूठ है तो झूठे अनुमानादिसे कुछ सिद्ध हो नहीं सकता है इसलिये भी शून्यताकी सिद्धि होना असंभव है । इस प्रकार अब शून्यवादीकी हसी करते हुए आचार्य कहते हैं ।—

**विना प्रमाणं परवन्न शून्यः स्वपक्षसिद्धेः पदमश्रुवीत ।
कुप्येत्कृतान्तः स्पृशते प्रमाणमहो सुदृष्टं त्वदसूयिदृष्टम् ॥ १७ ॥**

मूलार्थ—अन्य वादी तो प्रमाणादिको मानते हैं इसलिये अपने इष्ट सिद्धान्तोंको सिद्ध करसकते हैं परंतु यह शून्यवादी उन परवादियोंके समान अपने शून्यवादको सिद्ध नहीं करसकता है । क्योंकि; जिससे सिद्धि होसकती है ऐसे प्रमाणादिको यह झूठा मानता है । और यदि यह शून्यवादी प्रमाणका आश्रय लेकर अपने सिद्धांतको साधे तो इसका शून्यतामय सिद्धान्त कोप करने लगै । क्योंकि, प्रमाणका आश्रय लेनेसे प्रमाण पदार्थ सिद्ध होजाता है इसलिये शून्यता नहीं रहसकती है । हे भगवन् ! आपके मतके साथ ईर्ष्या रखकर अपने नये नये मतोंका निरूपण करनेवालोंने क्या अच्छा कहा है !!! अर्थात् ऐसा निरूपण किया है कि जिसका सिद्ध होना ही कठिन है ।

व्याख्या—शून्यः शून्यवादी प्रमाणं प्रत्यक्षादिकं विना अन्तरेण स्वपक्षसिद्धे स्वाभ्युपगतशून्यवादनिष्पत्तेः पदं प्रतिष्ठां नाश्रुवीत न प्राप्नुयात् । किंवात् ? परवत् इतरप्रामाणिकवत् । वैधर्म्येणायं दृष्टान्तः । यथा इतरे प्रामाणिकाः प्रमाणेन साधकतमेन स्वपक्षसिद्धिमश्रुवते एवं नायम्; अस्य मते प्रमाणप्रमेयादिव्यवहारस्याऽपारमार्थिकत्वात् “सर्व एवायमनुमानानुमेथव्यवहारो बुद्ध्यारूढेन धर्मधर्मिभावेन न बहिः सद-

सत्त्वमपेक्षते” इत्यादिवचनात् । अप्रमाणकश्च शून्यवादाभ्युपगमः कथमिव प्रेक्षावतामुपादेयो भविष्यति ? प्रेक्षा-
वत्त्वव्याहतिप्रसङ्गात् । अथ चेत्स्वपक्षसंसिद्धये किमपि प्रमाणमयमङ्गीकुरुते तत्रायमुपालम्भः—कुप्येदित्यादि ।
प्रमाणं प्रत्यक्षाद्यन्यतमत्स्पृशते आश्रयमाणाय प्रकरणादसौ शून्यवादिने कृतान्तः तत्सिद्धान्तः कुप्ये-
त्कोपं कुर्यात् । सिद्धान्तबाधः स्यादित्यर्थः । यथा किल सेवकस्य विरुद्धवृत्त्या कुपितो नृपतिः सर्वस्व-
मपहरति एवं तत्सिद्धान्तोऽपि शून्यवादविरुद्धं प्रमाणव्यवहारमङ्गीकुर्वाणस्य तस्य सर्वस्वभूतं सम्यग्वादि-
त्वमपहरति ।

व्याख्यार्थ—शून्यवादी प्रत्यक्षादि प्रमाणका आश्रय विना लिये अपने माने हुए शून्यवादकी सिद्धि करनेकी प्रशंसाको नहीं
पासकता है । किस प्रकार ? जिस प्रकार अन्यवादी अपने सिद्धांतोंका मंडन कर प्रशंसा पाते हैं । यह दृष्टान्त प्रतिष्ठा
न पानेवाले शून्यवादीकी अपेक्षा उलटा है । अर्थात्—अन्यवादी अपने सिद्धांतोंको प्रमाणद्वारा सिद्धकर जैसी प्रशंसा पासकते हैं
तैसी प्रशंसा यह शून्यवादी जबतक प्रमाणका आश्रय नहीं लैगा तबतक कभी नहीं पासकता है । क्योंकि, इसके मतमें प्रमाण
प्रमेयादिकका व्यवहार मानना ही जब झूठा बताया है तो शून्यवादकी सिद्धि कैसे होसकती है ? शून्यवादियोंके सिद्धान्तमें
ऐसा कहा भी है कि “केवल बुद्धिमें यह धर्म है, यह धर्म है इत्यादि कल्पना करनेमात्रसे ही यह संपूर्ण अनुमान अनुमेया-
दिका व्यवहार चलता है; किंतु किसी बाह्य पदार्थके होने न होनेकी अपेक्षा नहीं करता है” । इस कथनके अनुसार जिस शून्य-
वादकी सचाई किसी प्रमाणसे निश्चित ही नहीं होसकती है उस शून्यवादका आदर बुद्धिमानोंके पास किस प्रकार होसकता है ?
कदाचित् विना परीक्षा किये ही योग्य अयोग्यका विचार न करता हुआ जो कोई उसका ग्रहण करे तो वह मूर्ख समझना चाहिये ।
यदि कदाचित् शून्यवादी अपना शून्यवाद सिद्ध करनेके अभिप्रायसे किसी प्रमाणको स्वीकार करे तो उसके ऊपर आगे कहा
हुआ दोष आपड़ता है । वह दोष यह है कि प्रत्यक्षादि किसी प्रमाणका आश्रय लेते हुए शून्यवादीके ऊपर उसीका माना हुआ
सिद्धान्त कोप करने लगेगा । अर्थात् शून्यवादपनेमें बाधा आजायगी । जिस प्रकार सेवकके विरुद्ध आचरणसे कुपित हुआ राजा
सेवकका सर्वस्व हरलेता है उसी प्रकार शून्यवादरूपी सिद्धान्त शून्यवादके विरुद्ध प्रमाणादि आचरणको स्वीकार करते हुए
शून्यवादीको देखकर उस शून्यवादीका सर्वस्व हरलेगा । शून्यवादका भलेप्रकार निरूपण करना ही शून्यवादीका सर्वस्व है ।

किं च स्वागमोपदेशेनैव तेन वादिना शून्यवादः प्ररूप्यते इति स्वीकृतमागमस्य प्रामाण्यमिति कुतस्तस्य स्वपक्षसिद्धिः ? प्रमाणाङ्गीकरणात् । किं च प्रमाणं प्रमेयं विना न भवतीति प्रमाणाऽनङ्गीकरणे प्रमेयमपि विशीर्णम् । ततश्चास्य सूक्तैव युक्ता न पुनः शून्यवादोपन्यासाय तुण्डताण्डवाडम्बरं; शून्यवादस्यापि प्रमेयत्वात् । अत्र च स्पृशिशिधातुं कृतान्तशब्दं च प्रयुञ्जानस्य सूरेरयमभिप्रायः ।—यद्यसौ शून्यवादी दूरे प्रमाणस्य सर्वथाङ्गीकारो यावत्प्रमाणस्पर्शमात्रमपि विधत्ते तदा तस्मै कृतान्तो यमराजः कुन्थेत् । तत्कोपो हि मरणफलः । ततश्च स्वसिद्धान्तविरुद्धमसौ प्रमाणयन्निग्रहस्थानापन्नत्वान्मृत एवेति ।

और भी एक दोष यह है कि शून्यवादी जो शून्यवादका उपदेश करता है वह अपने आगमके कथनानुसार ही करता है इसलिये उसने अपने आगममें तो सत्यता स्वीकार कर ही ली; तो फिर सर्वथा शून्यपना किस प्रकार सिद्ध होसकता है? क्योंकि; एक आगमकी प्रमाणता तो वह स्वयं स्वीकार करचुका । और भी एक दूसरा दोष यह है कि प्रमाणकी सिद्धि प्रमेयके विना नहीं होसकती है इसलिये यदि शून्यवादी प्रमाणको नहीं माने तो प्रमेय पदार्थ भी सिद्ध नहीं हो सकते है । और यदि प्रमेय कुछ है ही नहीं तो शून्यवादकी सिद्धि करनेकेलिये अधिक प्रलाप करना भी वृथा है किंतु मौन ही धारण करना चाहिये । क्योंकि; शून्यवाद भी एक प्रकारका प्रमेय है । भावार्थ—जब शून्यवादी ऐसा कहचुका है कि प्रमेयमात्र कुछ वस्तु नहीं है तो शून्यवादकी सिद्धि भी क्यों करनी चाहिये ? । यहांपर 'स्पृश' धातुके तथा 'कृतान्त' (यमराज) शब्दके लिखनेसे आचार्यका यह अभिप्राय है कि प्रमाणका स्वीकार करना तो दूर ही रहा किंतु यदि यह शून्यवादी प्रमाणका स्पर्शमात्र भी करेगा तो इसके ऊपर यमराज कोप करने लगैगा । भावार्थ—कृतान्त शब्दके अर्थ दो हैं प्रथम यमराज दूसरा सिद्धान्त अथवा मत । ऐसे दो अर्थवाले शब्दके लिखनेसे कारिकाके अर्थकी दूसरी ध्वनि भी निकल सकती है । वह ध्वनि यही है कि जिस प्रकार यमराजका कोप होनेसे जीवकी मृत्यु हो जाती है उसी प्रकार यहां भी वह अपने शून्यवादसिद्धान्तके विरुद्ध जो प्रमाणोंको स्वीकार करता है उससे वह निग्रह स्थानमें पतित हुआ समझा जाता है । अर्थात् वह अपने शून्यवादमय मतके विरुद्ध प्रमाणरूप एक पदार्थकी सत्ताका स्वीकार करनेसे अपने सिद्धांतसे पतित समझा जाता है । अपने वचनपर स्थिर रहना ही तो प्रामाणिकका जीना है और उससे च्युत हो जाना ही उसका मरण समझना चाहिये ।

एवं सति (अहोइत्युपहासप्रशंसायां) तुभ्यमसूयन्ति गुणेषु दोषानाविष्कुर्वन्तीत्येवं शीलास्त्वदसूयिनस्तन्त्रान्तरियास्तैर्दृष्टं मत्यज्ञानचक्षुषा निरीक्षितं अहो सुदृष्टं साधु दृष्टम् ! विपरीतलक्षणयोपहासान्न सम्यग्दृष्टमित्यर्थः । अत्राऽसूयधातोस्ताच्छीलिकणकृप्राप्तावपि बाहुलकाणिन् । असूयाऽस्त्येषामित्यसूयिनस्त्वथ्यऽसूयिनस्त्वदसूयिन इति मत्वर्थीयान्तं वा । त्वदसूयुदृष्टमिति पाठेऽपि न किञ्चिदचारुः असूयुशब्दस्योदन्तस्योदयनाद्यैर्न्यायितात्पर्यपरिशुद्ध्यादौ मत्सरिणि प्रयोगादिति ।

इस प्रकार शून्यवादीका मत सदोष सिद्ध होनेपर 'अहो' शब्दसे उसकी हसी करते है । 'अहो' शब्दका अर्थ कहीपर तो हसी करना होता है और कहीपर प्रशंसा करना होता है । हे भगवन् ! तुम्हारे त्रिषयमें असूया करनेवाले अर्थात् तुम्हारे गुणोंमें दोष प्रकट करनेकी इच्छा रखनेवाले अन्यमतोंके धारक लोगोंने जो कुछ अपने खोटे मतिज्ञानरूपी नेत्रोंसे देखा है वह 'अहो' अर्थात् विचार करते हुए हमको हसी आती है कि कितना यथार्थ देखा है !!! यहांपर हसी इसलिये आती है कि उन्होने जो देखा है वह कुछ भी ठीक नहीं देखा है । यथार्थ देखा है ऐसा यहांपर कहना भी हसी आनेके कारण ही है । यहांपर 'त्वदसूयिदृष्टम्' इस पदमें जो 'असूयि' शब्द है वह असूय धातुसे असूया करना है सभाव जिसका ऐसे अर्थमें बनता है । और यद्यपि यहां 'णक्' प्रत्यय प्राप्त होनेसे 'असूयक' शब्द बनना चाहिये था परंतु उस णक्प्रत्ययके प्रकरणमें बहुलताके अर्थका आश्रय लियागया है इसलिये 'असूय' धातुसे णिन् प्रत्यय होजानेपर 'असूयि' शब्द भी बनजाता है । व्याकरणशास्त्रमें बहुलता उसीका नाम है जिसका आश्रय लेनेसे नियमविरुद्ध प्रत्यय भी प्रयोगपरिपाटीके अनुसार हो जाते है । अथवा जिनमें असूया रहती हो वे असूयी है इस प्रकार 'असूया' शब्दसे तद्धितके प्रकरणकी मत्वर्थीय 'इन्' प्रत्यय करनेसे भी 'असूयी' शब्द बनजाता है । जो तुम्हारे गुणोंमें असूया करते है उनको त्वदसूयी कहते है । त्वदसूयिर्योकर देखे हुए पदार्थको त्वदसूयिदृष्ट कहते है । पूर्वोक्त कारिकामें कोई 'त्वदसूयुदृष्टम्' ऐसा पाठ भी मानते है परंतु कुछ हानिकारक नहीं है । क्योंकि; ईर्ष्यासूचक उकारांत असूयु शब्दका उच्चारण उदयनादिक ग्रन्थकारोंने भी अपने बनाये हुए न्यायतात्पर्यपरिशुद्धि आदिक ग्रन्थोंमें किया है ।

इह शून्यवादिनामयमभिसंधिः—प्रमाता प्रमेयं प्रमाणं प्रमितिरिति तत्त्वचतुष्टयं परपरिकल्पितमवस्त्वेव विचारसहत्वाचुरङ्गशुद्धवत् । तत्र प्रमाता तावदात्मा । तस्य च प्रमाणग्राह्यत्वाऽभावादभावः । तथा हि । न प्रत्यक्षेण

तत्सिद्धिरिन्द्रियगोचराऽतिक्रान्तत्वात् । यत्तु अहङ्कारप्रत्ययेन तस्य मानसप्रत्यक्षत्वसाधनं तदप्यनैकान्तिकं; तस्याहं गौरः श्यामो वेत्यादौ शरीराश्रयतयाप्युपपत्तेः । किं च यद्यमहङ्कारप्रत्यय आत्मगोचरः स्यात्तदा न कादाचित्कः स्यादात्मनः सदा सन्निहितत्वात् । कादाचित्कं हि ज्ञानं कादाचित्कारणपूर्वकं दृष्टम् । यथा सौदा-मनीज्ञानमिति । नाप्यनुमानेन अव्यभिचारिलिङ्गाऽग्रहणात् । आगमानां च परस्परविरुद्धार्थवादिनां नास्त्येव प्रामाण्यम् । तथा हि । एकेन कथमपि कश्चिदर्थो व्यवस्थापितोऽभियुक्ततरेणाऽपरेण स एवान्यथा व्यवस्थाप्यते । स्वयमव्यवस्थितप्रामाण्यानां च तेषां कथमन्यव्यवस्थापने सामर्थ्यम् ? इति नास्ति प्रमाता ।

यहांपर शून्यवादी ऐसा कहते है कि प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण तथा प्रमिति ये चार तत्व जो अन्यवादियोंने कल्पित करलिये है वे सर्वथा झूठ है । क्योंकि; विचार करनेपर जिस प्रकार घोडेके सीग किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होते उसी प्रकार ये चारों तत्व भी सिद्ध नहीं होते है । इनमेंसे प्रमाता नाम आत्माका है । परंतु इस आत्माका किसी प्रमाणद्वारा ज्ञान न होनेसे यथार्थमें कुछ है ही नहीं । यही दिखाते है । प्रत्यक्षसे तो यह आत्मा जाना ही नहीं जासकता । क्योंकि; इंद्रिय केवल रूप, रस, गंध, स्पर्शवाले पदार्थोंको ही जान सकती है और इस आत्मामें रूप, रस, गंध, स्पर्श हैं नहीं किंतु यह अरूपी है इसलिये इसको नहीं जान सकती है । और इस आत्माके आश्रय होनेवाले अहंकारका मानसिक प्रत्यक्ष होनेसे आत्माका मानसिक प्रत्यक्ष मानना भी असत्य है । क्योंकि; मैं गौरवर्ण हूं अथवा काला हू इस प्रकार जो अहंकार होता है वह शरीरका आश्रय लेकर भी उत्पन्न हो सकता है । जिस धर्मका जिसके साथ संबन्ध माना जाता है उसके अतिरिक्त किसी दूसरे पदार्थके साथ भी उसका संबन्ध यदि रह सकता हो तो उस धर्मको हेतु मानना व्यभिचारी है । और यदि अहंकारका ज्ञान आत्मामें ही होता हो तो कदाचित् ही न होना चाहिये किंतु सदा ही होते रहना चाहिये । क्योंकि, जिस आत्मामें यह उत्पन्न होता है वह आत्मा सदा विद्यमान रहता है । जो ज्ञान कदाचित् ही होता है, सदा नहीं होता है वह ज्ञान कदाचित् उत्पन्न होनेवाले कारणोंसे ही उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है; जैसे बिजलीका ज्ञान । इस प्रकार प्रत्यक्षसे आत्माकी सिद्धि होना तो असंभव है ही परंतु अनुमानसे भी असंभव ही है । क्योंकि; जो आत्माके साथसे कभी बिछुड़ता न हो किंतु सदा साथ ही मिलता हो ऐसा कोई हेतु नहीं दीखता है । और आगम परस्पर विरुद्ध पदार्थोंको कहनेवाले है इसलिये उनकी तो प्रमाणता होना ही दुर्लभ है । यही दिखाते है । एक शास्त्र जिस

कठिन है। अर्थात् यह अमुक है अथवा अमुक नहीं है ऐसा निश्चय उसीसे होसकता है जिसका कुछ आकार विद्यमान हो। और यदि यह किसी आकार सहित है तो भी वह ज्ञानका आकार उस ज्ञानसे कोई भिन्न वस्तु है अथवा अभिन्न? यदि अभिन्न है तो वह ज्ञान ही है इसलिये ज्ञानके अतिरिक्त कोई भिन्नस्वरूप आकार न होनेसे ऊपर कहा हुआ निराकार पक्षका दोष यहां भी आसकता है। और यदि वह आकार ज्ञानके अतिरिक्त कोई भिन्न वस्तु है तो वह आकार चैतन्यस्वरूप है अथवा जडस्वरूप? यदि चैतन्यस्वरूप है तो जिस प्रकार ज्ञान जिस पदार्थको जानता है उसी प्रकार यह ज्ञानका आकार भी उस पदार्थको जानता होगा ऐसा मानना चाहिये। और जब ज्ञानका आकार भी पदार्थको जानता है ऐसा सिद्ध हुआ तब वह आकार भी स्वयं किसी दूसरे आकार सहित है अथवा निराकार है? यदि निराकार है तो पदार्थोंका निश्चय होना कठिन है। और यदि साकार है तो वह आकार चैतन्यस्वरूप है अथवा जडस्वरूप? यदि चैतन्यस्वरूप है तो जिस प्रकार ज्ञान तथा ज्ञानका प्रथम आकार पदार्थको जानते हैं उसी प्रकार वह आकारका आकार भी उस पदार्थको जानने लौगा। इत्यादि पूर्वोक्त विकल्प ही उत्तरोत्तर फिर संभव होनेसे अनवस्था दोष आवैगा। उत्तरोत्तर विचार करते करते भी अंत न मिलनेको अनवस्था कहते हैं। और यदि वह आकार जडस्वरूप है तो क्या वह आकार स्वयं अज्ञात रहकर ही ज्ञानद्वारा पदार्थके जाननेमें सहायक होता है अथवा स्वयं ज्ञात होनेपर? यदि स्वयं अज्ञात रहकर ही पदार्थके जाननेमें सहायक है तो जो पदार्थ किसी एक प्राणीको जान पड़ता है उसका ज्ञान दूसरेको भी होना चाहिये। क्योंकि; ज्ञानका आकार स्वयं अज्ञातपनेकी अपेक्षा उस दूसरे प्राणीमें भी विद्यमान है। और यदि ज्ञात होकर पदार्थके ज्ञान होनेमें सहायक मानाजाय तो उस जडस्वरूप आकारका ज्ञान किसी निराकार ज्ञानद्वारा हुआ है अथवा साकार ज्ञानद्वारा? यदि किसी निराकार ज्ञानसे उस आकारका ज्ञान मानाजाय तो उस आकारका निराकार ज्ञानद्वारा निश्चय होना दुर्लभ है। इत्यादि प्रकारसे वारंवार पूर्वोक्त विकल्पोंको ही लौटाते लौटाते कहींपर स्थिति नहीं रहसकती है इसलिये यहां भी अनवस्था दोष आता है।

इत्थं प्रमाणाऽभावे तत्फलरूपा प्रमितिः कुतस्तनी? इति सर्वशून्यतैव परं तत्त्वमिति। तथा च पठन्ति “यथा यथा विचार्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा। यदेतत्स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वचम्”। इति पूर्वपक्षः। विस्तरतस्तु प्रमाणखण्डनं तत्त्वोपप्लवसिंहादवलोकनीयम्।

इस प्रकार जब प्रमाण ही सिद्ध नहीं होता तो प्रमाणके फलरूप प्रामित्तिकी क्या कथा? इसलिये सर्वथा शून्यता मानना ही उचित सिद्धांत है। ऐसा ही कहा भी है 'जैसा जैसा विचार करते हैं तैसा तैसा ही पदार्थका विलय होता जाता है। यदि कोई पूछे कि तुम प्रत्यक्ष दीखते हुए पदार्थोंका अभाव कैसे कर सकते हो तो हम उत्तर देते हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं परंतु जब पदार्थोंका स्वरूप ही ऐसा है तो उसमें हमारा करना क्या है? इस प्रकार शून्यवादी अपने मतका मंडन करता है। यदि विस्तारसे इसका विवेचन देखना हो तो तत्त्वोपप्लवसिंहनामक ग्रन्थसे देखलेना चाहिये।

अत्र प्रतिविधीयते। ननु यदिदं शून्यवादव्यवस्थापनाय देवानांप्रियेण वचनमुपपत्सं तच्छून्यमशून्यं वा? शून्यं चेत्सर्वोपाख्याविरहितत्वात् खण्ड्येणैव नानेन किंचित्साध्यते निषिध्यते वा। ततश्च निष्प्रतिपक्षा प्रमाणादित्यचतुष्टयीव्यवस्था। अशून्यं चेत्यलीनस्तपस्वी शून्यवादः; भवद्भवनेनैव सर्वशून्यताया व्यभिचारात्। तत्रापि निष्कण्टकैव सौ भगवती। तथापि प्रामाणिकसमयपरिपालनार्थं किंचित्साधनं दृष्यते। तत्र यत्तावदुक्तं प्रमातुः प्रत्यक्षेण न सिद्धिरिन्द्रियगोचराऽतिक्रान्तत्वादिति तत्सिद्धसाधनम्। यत्पुनरहंप्रत्ययेन तस्य मानसप्रत्यक्षत्वमनैकान्तिकमित्युक्तं तदसिद्धम्; अहं सुख्यहं दुःखीत्यन्तमुखस्य प्रत्ययस्य आत्मात्मन्वन्ततैवोपपत्तेः। तथा चाहुः "सुखादि चेत्यमानं हि स्वतन्त्रं नानुभूयते। मतुवर्थानुवेयोर्योचु सिद्धं ग्रहणमात्मनः। १। इदं सुखमिति ज्ञानं दृश्यते न घटादिवत्। अहं सुखीति तु ज्ञप्तिरात्मनोऽपि प्रज्ञाशिका। २।" यत्पुनरहं गौरोहं श्याम इत्यादिवहिर्मुखः प्रत्ययः स खल्वात्मोपाकारकत्वेन लक्षणया शरीरे प्रयुज्यते। यथा प्रियभृत्येऽहमिति व्यपदेशः।

अत्र इस शून्यवादीके मतका खंडन करते हैं। हम पूछते हैं कि इस शून्यवादीने सर्वशून्यता सिद्ध करनेकेलिये जो वचन बोला है वह भी कुछ है अथवा शून्यरूप ही है? यदि कुछ नहीं है किंतु शून्य ही है तो जिस प्रकार गंधके रसग कुछ न होनेसे कुछ नहीं कर सकते हैं उसी प्रकार इसके वचनसे भी अमतरूप होनेके कारण न तो किसी शून्यवादादिककी सिद्धि होसकती है और न किसी विद्यमान पदार्थका निषेध होसकता है। इसलिये ऐसे शून्यवचनद्वारा निषेध न होसकनेसे ही प्रमा-

णादि चारों विषयोंका होना निष्कण्टक सिद्ध होता है। और यदि शून्यवादी अपने वचनको कुछ है ऐसा मानता हो तो विचारा उस शून्यवादीका खेदखिन्न शून्यवाद ही नष्ट होजायगा। क्योंकि; जब उसीका वचन कुछ विद्यमान सत्त्वरूप पदार्थ है तो सर्वशून्यता कहाँ रही ? इसलिये अब भी हमारी प्रमाणादि चतुष्टयरूप भगवती अर्थात् वाणी निष्कण्टक सिद्ध है। इस प्रकार यद्यपि हमारी वाणीका खण्डन शून्यवादीके वचनसे नहीं होसकता है तो भी युक्तिपूर्वक विचार करनेवाले विद्वानोंकी परिपटीके अनुसार शून्यवादीके वचनमें और भी दोष दिखाते हैं। शून्यवादीने सबसे प्रथम जो यह कहा कि प्रमाता जो आत्मा उसकी सिद्धि प्रत्यक्ष ज्ञानसे नहीं है क्योंकि; आत्मा इंद्रियगोचर नहीं है सो यह कहना हमको भी इष्ट है। अर्थात् हम भी यही मानते हैं कि आत्मा इंद्रियगोचर न होनेसे प्रत्यक्षसिद्ध नहीं है। परंतु जो यह कहा कि मैं सुखी हूँ मैं दुःखी हूँ इत्यादि अपने अंतरंगमें उत्पन्न हुए मानसिक प्रत्यक्षसे भी आत्मसिद्धि होना असंभव है क्योंकि, ऐसा ममत्वका ज्ञान शरीरको अपना निज स्वरूप माननेसे भी होसकता है। सो यह कहना असत्य है क्योंकि; मैं सुखी हूँ मैं दुःखी हूँ ऐसा अंतरंगको विषयकरनेवाला ज्ञान आत्मामें ही उत्पन्न हो सकता है। यही कहा भी है “ सुखादिकका जो अनुभव होता है वह आधारेके विना नहीं होसकता है इसलिये सुखादिकके ज्ञानद्वारा उसके आधारभूत आत्माका भी प्रत्यक्ष होना सिद्ध होता है। यह सुख है अथवा दुःख है ऐसा जो ज्ञान होता है वह ऐसा नहीं मालुम पड़ता है जैसा कि घटादि बाह्य पदार्थोंका ज्ञान मालुम पड़ता है। अर्थात् घटादिकोका ज्ञान तो बाहिरकी तरफको ऐसा होता है कि यह घड़ा अपनेसे भिन्न अमुक स्थानपर है परंतु मैं सुखी हूँ यह सुखज्ञान घड़ेके समान बाहिरकी तरफ होता हुआ अनुभवमें नहीं आता है किंतु भीतरकी तरफ खास आत्मके आलंबनपूर्वक ही होता है। इसलिये इस मानस प्रत्यक्षसे आत्मका प्रत्यक्ष सिद्ध होना अनुभवसे सिद्ध होता है”। और जो मैं काला हूँ मैं गौर हूँ इत्यादि शरीरको माननेवाला ज्ञान होता है वह प्रयोजनके वश होकर शरीरमें आरोपित किया है; न कि यथार्थमें शरीरादिक ही अहंकारके आधार है। आरोपित करनेका निमित्त भी यह है कि आत्मके सुख दुःख होनेमें शरीर सहकारी है तथा आत्मके अत्यंत निकट है। अर्थात्-यह निमित्त पाकर ही आत्मामें होनेवाले अहंकारको हमलोग शरीरके आश्रित समझते हैं। निमित्तके विना भी यदि एकका दूसरेमें आरोपण होसकता हो तो आरोपण करते करते कभी छुटकारा ही न मिलसकै। इस आत्मके अहंकाररूप धर्मका जिसका कि शरीरमें आरोपण होता है ठीक ऐसा ही मानना है जैसा प्यारे नोकरको मानना कि यह नोकर जुदा नहीं है किंतु मेरा ही शरीर है।

यच्चाहंप्रत्ययस्य कादाचित्कत्वं तत्रेयं वासना ।- आत्मा तावदुपयोगलक्षणः । स च साकाराऽनाकारोपयोग्यो-
रन्यतरस्मिन्नियमेनोपयुक्त एव भवति । अहंप्रत्ययोऽपि चोपयोगविशेष एव । तस्य च कर्मक्षयोपशमवैचित्र्यादि-
न्द्रियाऽनिन्द्रियालोकविषयादिनिमित्तसव्यपेक्षतया प्रवर्तमानस्य कादाचित्कत्वमुपपन्नमेव । यथा बीजं सत्याम-
प्यङ्कुरोपजननशक्तौ पृथिव्युदकादिसहकारिकारणकलापसमवहितमेवाङ्कुरं जनयति; नान्यथा । न चैतावता
तस्याङ्कुरोत्पादने कादाचित्केऽपि तदुत्पादनशक्तिरपि कादाचित्की; तस्याः कथंचिन्नित्यत्वात् । एवमात्मनः
सदा सन्नहितत्वेऽप्यहंप्रत्ययस्य कादाचित्कत्वम् । यदप्युक्तं तस्याऽव्यभिचारि लिङ्गं किमपि नोपलभ्यत इति
तदप्यसारं; साध्याऽविनाभाविनोऽनेकस्य लिङ्गस्य तत्रोपलब्धेः ।

अहंकारकी उत्पत्तिका कारण जो आत्मा है सो तो सदा ही विद्यमान है इसलिये यदि अहंकार आत्मामें होता हो तो
सदा ही होना चाहिये परंतु सदा नहीं होता है सो क्यों ? इस प्रश्नका उत्तर इस प्रकार है कि-उपयोग नाम चेतनाका है । वह
चेतना दोप्रकार है प्रथम निराकार दूसरी साकार । साकार चेतनाको ज्ञान कहते हैं और निराकारको दर्शन अथवा दर्शनोपयोग ।
ये ज्ञान दर्शन तो चेतनागुणके पर्याय हैं और चेतना सदा शाश्वता है और इन पर्यायोका मूल कारण है । पर्याय तो क्षणभंगुर
होते हैं परंतु गुण सदा विद्यमान रहता है तथा उसमें सदा कोई न कोई पर्याय उपजता तथा नष्ट होता ही रहता है ।
इसलिये चेतनाकी ज्ञान दर्शनरूप साकारनिराकार पर्यायोमेंसे कोई न कोई पर्याय आत्मामें सदा होता ही रहता है । अहंकार भी एक
प्रकारका ज्ञानरूप उपयोग है । आत्मामें बंधे हुए कर्मोंसे जिस समय जैसे ज्ञानावरण कर्मका क्षय तथा अनुदय होता है वैसा
ही इन्द्रिय, मन तथा प्रकाशादिकोंके सहारेसे इस आत्मामें ज्ञान उत्पन्न होता है । इस प्रकार आत्मामें ज्ञानोत्पत्तिकी शक्ति सदा
रहनेपर भी ज्ञानके उत्पन्न होनेमें अनेक कारणोंकी आवश्यकता होनेके कारण जब सर्व कारण मिलते हैं तभी ज्ञान प्रकट होसकता
है, सदा नहीं । जैसे बीजमें अंकुर उत्पन्न करनेकी शक्ति यद्यपि सदा विद्यमान है तो भी अंकुरकी उत्पत्ति तभी होसकती है जब
उत्पन्न होनेके योग्य मट्टी पानी आदिक संपूर्ण कारण एकत्रित होजाय । जबतक संपूर्ण कारण न मिलें तबतक अंकुरकी उत्पत्ति
होना यद्यपि असंभव है तो भी उत्पत्ति न होनेसे ही ऐसा नहीं कहसकते हैं कि अंकुर उत्पन्न करनेकी शक्ति भी बीजमें
कदाचित् ही होती है । क्योंकि, सभी शक्ति द्रव्यकी अपेक्षा सदा शाश्वती रहती है । इसी प्रकार यद्यपि आत्मा सदा सनिकट

विद्यमान रहता है तो भी ज्ञान तभी होसकता है जब संपूर्ण कारण एकत्रित होजाते है । और जो यह कहा कि इस आत्माको जतानेवाला एक भी ऐसा हेतु नहीं मिलता है जो आत्माके विना कही रह न सकता हो सो यह कहना भी मिथ्या है । क्योंकि, ऐसे अनेक हेतु मिलते है जो आत्माके अतिरिक्त कही रह ही नहीं सकते ।

तथा हि । रूपाद्युपलब्धिः सकर्तृका क्रियात्वात् । छिदिक्रियावत् । यश्चास्याः कर्त्ता स आत्मा । न चात्र चक्षु-
रादीनां कर्तृत्वं; तेषां कुठारादिवत् करणत्वेनाऽस्वतन्त्रत्वात् । करणत्वं चैषां पौद्गलिकत्वेनाऽचेतनत्वात् परम्ये-
त्वात् प्रयोक्तृव्यापारनिरपेक्षप्रवृत्त्यभावात् । यदीन्द्रियाणामेव कर्तृत्वं स्यात्तदा तेषु विनष्टेषु पूर्वोऽनुभूतार्थस्मृ-
तेर्मया दृष्टं स्पृष्टं घ्रातमास्वादितं श्रुतमिति प्रत्ययानामेककर्तृकत्वप्रतिपत्तेश्च कुतः संभवः? किं चेन्द्रियाणां स्वस्व-
विषयनियतत्वेन रूपरसयोः साहचर्यप्रतीतौ न सामर्थ्यम् । अस्ति च तथाविधफलोदे रूपग्रहणानन्तरं तत्सहचरि-
तरसानुस्मरणं दन्तोदकसंल्लवाऽन्यथानुपपत्तेः । तस्मादुभयोर्गोवाक्षयोरन्तर्गतः प्रेक्षक इव द्वाभ्यामिन्द्रियाभ्यां
रूपरसयोर्दर्शी कश्चिदेकोऽनुमीयते । तस्मात्करणान्येतानि । यश्चैषां व्यापारयिता स आत्मा ।

अब उन हेतुओंको दिखाते है । रूपादिक गुणोका जो नेत्रादि द्वारा प्रत्यक्ष होता है वह प्रत्यक्ष कर्ताके विना नहीं होसकता है । क्योंकि; वह प्रत्यक्ष एक प्रकारकी क्रिया है । जैसे कुल्हाडीसे काटनेरूप जो क्रिया है वह विना किसी कर्ताके नहीं होसकती है । जो इस देखने जानने आदिक क्रियाओंका कर्ता है उसीका नाम आत्मा है । और जिस प्रकार कुल्हाडीसे काटनेमे कुल्हाडी स्वय काटनेवाली नहीं है उसी प्रकार इंद्रियोंकी सहायतासे देखने जाननेमें भी इंद्रिय स्वयं देखने जाननेवाली नहीं होसकती किन्तु देखने जाननेवाला कोई और ही होना चाहिये । क्योंकि; इन्द्रिया जैसे काटनेमें कुल्हाडी करणरूप होनेसे किसीके परतन्त्र ही रहती है तैसे परतंत्र हैं । करण उसको कहते है जो स्वयं जडरूप होकर किसीकी प्रेरणासे ही कार्य करता हो किंतु जब प्रेरणा करनेवाला न हो तब स्वतंत्र कुछ नहीं करसकता हो । यह करणका स्वरूप इंद्रियोंमें भी घटता है इसलिये इंद्रियां भी करण ही है । कर्ता अपना कार्य करनेमें स्वतंत्र होता है; जब चाहता है तब प्रवर्तता है और जब नहीं चाहता है तब नहीं प्रवर्तता है । यह कर्ताका स्वरूप इंद्रियोंमें नहीं घटता है इसलिये इंद्रियां स्वयं कर्ता नहीं हैं । यदि इंद्रियां ही स्वयं कर्ता हों तो जिस इंद्रियसे जिस किसी वस्तुका अनुभव पहिले किया था उस वस्तुके अनुभवका स्मरण तभीतक होना चाहिये जबतक वह इंद्रिय बनी रही हो ।

क्योंकि, जो अनुभवका कर्ता होता है वही उसका स्मरण करसकता है। परंतु उस इंद्रियके नष्ट होजानेपर भी ऐसा स्मरण होता है कि मैंने सूंघा था, देखा था, सुना था इत्यादि; अथवा ऐसा ज्ञान भी होता है कि जिसने सूंघा था, देखा था, सुना था वह मैं ही हूँ। और भी एक दोष यह है कि इंद्रियोंमेंसे प्रत्येकका विषय नियत है जैसे नेत्र रूपको ही जान सकते हैं, कान शब्दको ही सुन सकते हैं इत्यादि। किसी भी इंद्रियकी ऐसी शक्ति नहीं है जो किसी एक ही इंद्रियसे रूपरसादिक सभी विषयोंका अनुभव होसकै। परंतु रूप रसादिक अनेक विषयोंका अनुभव कोई एक करता अवश्य है, नहीं तो आमका रूप देखनेके अनंतर ही जीभपर पानी क्यों आजाता है? अर्थात्—यदि अपने विषयको वे इंद्रिय ही जाननेवाली हों, दूसरा कोई एक सबको अनुभवकरता न हो तो जब जिन्हा रसको चाखचुकै तभी उसपर पानी आना चाहिये परंतु देखते हैं कि सुन्दर फलके देखनेमात्र ही जिन्हापर पानी आजाता है। इसलिये गवाक्षगत प्रेक्षकके समान सर्व इंद्रियोंमें तथा मनमें रहकर प्रेरणा करनेवाला इंद्रियोंके अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ भी है। इस प्रकार इंद्रिय तो परतत्र होनेसे कारण ही है किंतु इंद्रियोंको प्रेरणा करनेवाला आत्मा एक भिन्न वस्तु सिद्ध हुआ।

तथा साधनोपादानपरिवर्जनद्वारेण हिताऽहितप्राप्तिपरिहारसमर्था चेष्टा प्रयत्नपूर्विका विशिष्टक्रियात्वाद्वाद्रथ-क्रियावत्। शरीरं च प्रयत्नवदधिष्ठितं विशिष्टक्रियाश्रयत्वाद्द्रथवत्। यश्चास्याधिष्ठाता स आत्मा सारथिवत्। तथा-त्रैव पक्षे इच्छापूर्वकविकृतवाग्वाश्रयत्वाद् भस्त्रावत्। वायुश्च प्राणायानादिः। यश्चास्याधिष्ठाता स आत्मा भस्त्रा-धमापयितृवत्। तथाऽत्रैव पक्षे इच्छाधीननिषेधोन्मेषवदवयवयोगित्वाद्धारुयन्त्रवत्। तथा शरीरस्य वृद्धिक्षत-भग्नसंरोहणं च प्रयत्नवत्कृतं; वृद्धिक्षतभग्नसंरोहणत्वाद्गृहवृद्धिक्षतभग्नसंरोहणवत्। वृक्षादिगतेन वृक्ष्यादिना व्यभिचार इति चेन्न तेषामपि एकेन्द्रियजन्तुत्वेन सात्मकत्वात्। यश्चैषां कर्ता स आत्मा गृहपतिवत्। वृक्षा-दीनां च सात्मकत्वमाचाराद्ग्रादेरवसेयं किंचिद्धश्यते च।

तथा हितकी साधनरूप सामग्रीके ग्रहण करनेमें और अहितके उपजानेवाली सामग्रीके छोड़नेमें जो चेष्टा होती है वह किसी न किसी प्रयत्न द्वारा ही होसकती है। क्योंकि, वह चेष्टा भी एक प्रकारकी क्रिया है। क्रिया जितनी होती है वे सर्व किसी न किसी प्रयत्नसे ही होती है। जैसे रथके चलनेकी जो क्रिया है वह हाकनेवालेके प्रयत्नसे अथवा बैल घोड़ोंके खींचनेरूप प्रयत्नसे होती है। जबतक यह प्रयत्न न किया जाय तबतक यह क्रिया भी नहीं होसकती है। और जो शरीर है वह जैसे रथ रथके चलनेकी

क्रियाका आधार है जैसे आधार है। जो इस शरीरको हिताहितके लिये हलता चलाता है वह आत्मा ही है। जैसे रथके हांकनेवाला सारथी। और भी जैसे जब कोई चलनेवाला होता है तभी भातड़ीमेंसे जितना वायु चाहिये उतना निकलता है नहीं तो नहीं तैसे शरीरका प्राणपानादिक वायु इच्छानुकूल तभी चल सकता है जब कोई इस शरीररूप भस्त्राको हलाने-वाला हो। जिस प्रकार भातड़ीको हलानेवाला कोई प्राणी होता है उसी प्रकार प्राणपानादि वायुको इच्छानुकूल चलानेवाला आत्मा है। और भी इसी प्रसंगपर एक तीसरा अनुमान यह है कि इस शरीरके नेत्रादिक अंगोंमें सक्रोच विस्तार करनेकी अथवा खोलने बंदकरने की जो चेष्टा है वह किसी न किसी शरीरके अतिरिक्त कारण बिना नहीं होसकती है। जैसे लकड़ीके बने हुए बहुतसे खिलोने ऐसे होते है जो दवानेसे खुल जाते है तथा हाथ ढीला करदेनेपर फिर बंद होजाते है। इसलिये वे खिलोने जिस प्रकार हाथकी प्रेरणा बिना खुल नहीं सकते तथा बंद नहीं होसकते है उसी प्रकार आत्मके बिना शरीरके नेत्रादिक अंगोका खुलना बंदहोना असंभव है। और भी आत्माकी सिद्धि करनेमें एक अनुमान यह है कि शरीरकी वृद्धि हानि होनेपर तथा किसी अंगउपांगके मग्न होजानेपर भी फिरसे उसकी पूर्ति होना इत्यादिक जो कार्य है वे किसी न किसी प्रयत्नशील कारणके बिना नहीं होसकते है। क्योंकि; ये वृद्धिहानिरूप शरीरके कार्य भी एक प्रकार दूटेफूटेकी मरम्मत होजानेके समान है। जैसे घरका बनाना ढाइदेना तथा दूटनेफूटनेपर मरम्मत करना किसी प्राणीके बिना नहीं होसकता तैसे ही किसी विशेष कर्ताके बिना शरीरकी हानि वृद्धि तथा घावका पुरना इत्यादि कार्य नहीं होसकते है। वृक्षादिकोंमें भी जो कुछ वृद्धि हानि होती है वह किसी न किसी एकेन्द्रिय जीवके रहनेपर ही होती है। जब जीव नहीं रहता है तब वृक्षादिकोंका घटना बढना भी बंद हो जाता है। इसलिये वृक्षादिकोंकी हानिवृद्धिसे भी हमारे इस अनुमानमें बाधा नहीं है। जैसे घरका खामी घरके बनाने विगाडनेवाला होता है तैसे जो इस घटने बढनेकों करनेवाला है वही आत्मा है। वृक्षादिकोंमें जो जीव माने जाते है उनका निश्चय आचारांगादि शास्त्रोंसे करलेना चाहिये तथा हम भी कुछ कहेंगे।

तथा प्रेर्य मनः अभिमतविषयसम्बन्धनिमित्तक्रियाश्रयत्वादाकरहस्तगतगोलकवत् । यश्चास्य प्रेरकः स आत्मा इति । तथा आत्मचेतनक्षेत्रज्ञजीवपुरुषादयः पर्याया न निर्विषयाः पर्यायत्वाद् घटकुटकलशादिपर्यायवत् । व्यतिरेके षष्ठभूतादिः । यश्चैषां विषयः स आत्मा । तथाऽस्त्यात्मा असमस्तपर्यायवाच्यत्वात् । यो योऽसाङ्केतिकशु-

रूपर्यायवाच्यः स सोऽस्तित्वं न व्यभिचरति । यथा घटादिः । अतिरिक्तं तरत्रिगाणनभोऽम्भोरुहादयः । तथा सुखादीनि द्रव्याश्रितानि गुणत्वाद्भूयवत् । योऽसौ गुणी स आत्मा । इत्यादिलिङ्गानि । तस्मादनुमानतोऽप्यात्मा सिद्धः । आगमानां च येषां पूर्वापरविरुद्धार्थत्वं तेषामप्रामाण्यमेव । यस्त्वाप्तप्रणीत आगमः स प्रमाणमेव कपच्छे-
दतापलक्षणोपाधित्रयविशुद्धत्वात् । कयादीनां च स्वरूपं पुरस्ताद्द्रव्यामः ।

और भी इस विषयमें अनुमान दिखाते हैं । अभिमत कर्षोंकी तरफ जो मन दौड़ता है वह किसी न किसीकी प्रेरणासे ही दौड़ता है । क्योंकि; जब दौड़ता है तब किसी वाछित पदार्थपर ही पहुँचना है । ऐसा नहीं है कि दौड़ते दौड़ते अनिच्छित पदार्थ पर भी पहुँच जाता हो । जैसे बालकके हाथका गोला । वह गोला गिरा फेला जाय वाहा ही फेंकेंपर जापटना है । ऐसा नहीं है कि गोला फेला तो पूर्व दिशाकी तरफ जाय और पडना हो पश्चिम दिशामें । इसलिये चिन प्रकार गोलोंको फेंकनेवाला बालक है उसी प्रकार मनको चलावेवाला आत्मा है । और भी आत्मा, चैतन, क्षेत्रज्ञ, जीव तथा पुनः उव्यादिक जो पत्नी है वे किसी न किसी द्रव्यके विना उत्पन्न नहीं होसकते हैं । क्योंकि; पर्याय चिन्ते होते हैं वे किसी न किसी द्रव्यके ही होते हैं । जैसे पत्रा सरवा कलश इत्यादि पर्याय सृष्टिकाद्रव्यके हैं । तथा चिनका कोई आदिनारणरूप द्रव्य नहीं मिलना है वे नचसुच कुछ होते ही नहीं । जैसे छडा भूत । छडे भूतका कोई मूलकारण नहीं है इसलिये छडागत न्यल करनेमान है. मनसुच कोई वस्तु नहीं है । आत्मा चैतन पुरुष इत्यादि नामवाले पर्यायोंका जो मूलकारण है उमीका नाम आत्मा है । तथा और भी करते हैं । किसी विद्वत पर्यायका नाम न होकर शुद्ध निर्दिकार वस्तुका चानक होनेने आसगच्छका वाच्य अवयव कोई न कोई वस्तु है । जो जो शब्द चिनासकेत शुद्ध वस्तुके वाचक होते हैं वे वे अपनी अपनी वस्तुकी सत्तातो कभी नहीं छोडते । जैसे घडा आदिक । और जो शब्द किसी संकेतितमात्र वस्तुके वाचक होते हैं उन शब्दोंके वाच्यरूप पर्याय कुछ भी नहीं होते हैं । जैसे गोके सींग तथा आकाशके कमल । तथा जो युराहु.गाडिक है वे एक प्रकारके गुण अथवा तगाव है इसलिये उनका आप्त कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिये । क्योंकि; गुण अथवा सभावोन्ती स्थिति किसी द्रव्यके विना नहीं होती । जो उनका आप्त है वही आत्मा है । इत्यादि अनेक सामनेसे आत्मा सिद्ध होता है इसलिये वस्तुमानसे भी जीवद्रव्य सिद्ध है । और आगमोंमें जो परस्पर विरुद्धता कही वह कहना भी ठीक नहीं है । क्योंकि; सभी आगम तो परस्पर विरुद्ध पार्थको कहते ही नहीं हैं । चिन आगमोंमें

परस्पर विरुद्ध अर्थ दीखता हो वे अप्रमाण ही है। परंतु मोहके नाश होजानेसे जिनमें सत्य बोलना प्रकट हुआ है तथा ज्ञाना-
वरणीय कर्मका अत्यंत क्षय होजानेसे सर्वज्ञपना प्रकट हुआ है ऐसे आप्त भगवान् ने जो आगम कहे है वे प्रमाण है ।
क्योंकि; आप्तकथित शास्त्रोंमें कष (जीवोंकी हिंसा), छेद तथा ताप इत्यादिके द्वारा दुष्कर्मोंका सर्वथा निषेध किया है ।
जिन शास्त्रोंमें किसी स्थानपर तो हिंसादिकसे सर्वथा पापी ही कहा हो उन्हींमें परस्पर वचनविरोध संभव है ।
परंतु जिन शास्त्रोंमें हिंसादिक करनेवालेको सर्वथा पापी ही कहा हो वे शास्त्र किसी प्रकार अप्रमाण नहीं होसकते है ।
कष, छेद तथा तापका स्वरूप आगे चलकर ३२ वें श्लोकके अर्थमें कहेंगे ।

न च वाच्यमाप्तः क्षीणसर्वदोषस्तथाविधं चासत्वं कस्यापि नास्तीति; यतो रागादयः कस्यचिदत्यन्तमुच्छिद्य-
न्ते अस्मदादिषु तदुच्छेदप्रकर्षोऽपकर्षोपलम्भात् सूर्याद्यावरकजलदपटलवत् । तथा चाहुः “देशतो नाशिनो
भावा दृष्टा निखिलनश्वराः । मेघपङ्क्त्यादयो यद्देवं रागादयो मताः” इति । यस्य च निरवयवतयैते वि-
लीनाः स एवाप्तो भगवान् सर्वज्ञः । अथाऽनादित्वाद्रागादीनां कथं प्रक्षय इति चेन्न; उपायतस्तद्भावात्;
अनादेरपि सुवर्णमलस्य क्षारमृत्पुटपाकादिना विलयोपलम्भात् तद्देवानादीनामपि रागादिदोषाणां प्रतिपक्षभू-
तरत्नयाभ्यासेन विलयोपपत्तेः । क्षीणदोषस्य च केवलज्ञानाव्यभिचारात्सर्वज्ञत्वम् । तत्सिद्धिस्तु-ज्ञानतारतम्यं
क्वचिद्विश्रान्तं तारतम्यत्वादाकाशपरिमाणतारतम्यवत् । तथा सूक्ष्मान्तरितदूरार्थाः कस्यचित्सत्यक्षा अनुमेयत्वात्
क्षितिधरकन्धराधिकरणधूमध्वजवत् । एवं चन्द्रसूर्योपरागादिसूचकज्योतिर्ज्ञानात्रिसंवादान्यथाऽनुपपत्तिप्रभृतयो-
ऽपि हेतवो वाच्याः । तदेवमाप्तेन सर्वविदा प्रणीत आगमः प्रमाणमेव । तदप्रमाण्यं हि प्रणायकदोषनिबन्धनं;
“रागाद्वा द्वेषाद्वा मोहाद्वा वाक्यमुच्यते ह्यनृतम् । यस्य तु नैते दोषास्तस्याऽनृतकारणं किं स्यात्” इति
वचनात् । प्रणेतुश्च निर्दोषत्वमुपादितमेव । इति सिद्ध आगमादभ्यात्मा “एगे आया” इत्यादिवचनात् ।

रागादि संपूर्ण दोष जिसेके नष्ट होगये हों वह आप्त है । ऐसा आप्त होना असंभव नहीं है । रागादिक संपूर्ण दोष किसी
जीवमें अत्यंत नष्ट होसकते है । क्योंकि; उन रागादि भावोंकी हमलोगोंमें हीनाधिकता होती दीखती है । जिन विकारोंकी कभी
कहीपर हीनाधिकता दीखती है वे विकार कभी कहीपर सर्वथा नष्ट भी होजाते है । जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशको रोकनेवाले

मेघपटलोंकी कभी कहीं हीनाधिकता होती दीखती है इसलिये कभी कहींपर उनका सर्वथा नाश भी होजाता है। अन्यत्र भी यह कहा है "जिन विकारोंकी क्रमक्रमसे कभी हानि कभी वृद्धि होती है उनका कभी सर्वथा नाश भी होजाता है ऐसा नियम है। जिस प्रकार मेघपटल कभी बढ़ते कभी घटतेहुए दीखते हैं इसलिये कभी सर्वथा नाश भी होजाता है ऐसा रागादिकादिक दोष भी कभी किसी जीवमें बढ़ते हैं तथा कभी घटते हैं इसलिये इनका कभी सर्वनाश भी होसकता है। जिस जीवके अनादि कालसे संबंध है वे किसी प्रकार क्षीण नहीं हो सकते हैं परंतु यह कहना अयोग्य है। उपाय करनेसे उनका जीवके होसकता है। जबतक सुवर्ण मलिन सुवर्णको रत्नत्रयरूपी अग्निपुटमें रखकर शुद्ध किया जाता है तब रागादिक अनादि भिन्न भिन्न कालसे ही होरही है परंतु जब उसको सुहागे अग्नि आदिकोका पुट देकर शुद्ध करते है तब सुवर्ण तथा किट्टिमा भिन्न भिन्न होकर सुवर्ण सर्वथा शुद्ध होजाता है। इसी उदाहरणके अनुसार यद्यपि जीवके साथ रागादिक अनादि कालसे संसक्त होरहे है परंतु जब आत्मरूपी मलिन सुवर्णको रत्नत्रयरूपी अग्निपुटमें रखकर शुद्ध किया जाता है तब केवलज्ञान उपजता ही है। जिस स्वभावकी वृद्धि होकर आत्मद्रव्य सर्वथा निर्दोष होसकता है। और जब दोष क्षीण होजाते है तब रागादिक अनादि कालसे संसक्त होरहे है एकसे दूसरेमें अधिक होती है उसकी कहीं पूर्ण वृद्धि होजाना भी संभव है। इसी नियमके अनुसार ज्ञान गुणकी वृद्धि भी जो उत्तरोत्तर ही दीखता है परंतु इसकी भी वृद्धि कहींपर सर्वोत्कृष्ट है। केवलज्ञान होना इस अनुमानसे संभव है। तथा और भी कई अनुमानोंसे सर्वज्ञके ज्ञानकी सिद्धि होती है। कैसे? स्वभावसूक्ष्म जो दृष्टिसे प्रत्यक्ष न होसकै ऐसे परमाणु आदिक, जिनके बीचमें बहुतसा व्यवधान पड़ा हो ऐसे सुमेरु आदिक तथा जिनमें कालका बहुतसा अंतर पडगया हो ऐसे रामरावणादिक पदार्थ भी किसीको प्रत्यक्ष दीखने चाहिये। क्योंकि, अनुमानसे जब हम विचार करते है तब उनका होना सिद्ध होता है। जैसे यद्यपि पर्वतपर होनेवाली प्रत्यक्ष न होनेपर भी किसी न किसीको प्रत्यक्ष होसकती है उसी प्रकार यद्यपि परमाणु आदिक हमको प्रत्यक्ष नहीं है तो भी अनुमान द्वारा सिद्ध होनेसे किसी न किसीको प्रत्यक्ष भी अवश्य होने चाहिये। इसी प्रकार जो चंद्रसूर्यके ग्रहण आदिक

भविष्यत् विषयोंको सत्य जतानेवाले ज्योतिष्क शास्त्रको जानता है वह ग्रहण पड़नेके पहिले ही कह देता है कि अमुक समय ग्रहण पड़ेगा । और वह कहना सत्य होता है । ऐसे शास्त्रोंको वही बना सकता है जो स्वयं सर्वज्ञ हो । इत्यादि हेतुओंसे भी सर्वज्ञज्ञानका होना प्रमाणसिद्ध है । जिस जीवमें ऐसा केवलज्ञान होगया हो उसकर वनाये हुए शास्त्र किसी प्रकार भी अप्रमाण नहीं होसकते है । शास्त्र वे ही अप्रमाण होते है जिनके बनानेवाले स्वयं निर्दोष न हों । कहा भी है कि “रागके द्वेषके अथवा मोहके वश होजानेपर वचन झूठ बोला जाता है । जिसमें ये दोष ही नहीं रहे वह असत्य किस प्रकार बोल सकता है ?” । हमने यह तो पहिले ही कहा था कि हमारे शास्त्रोंके बनानेवालोंमें कर्मोंके नाश हो जानेसे दोष सर्वथा नष्ट हो चुके है । ऐसे निर्दोष हमारे शास्त्रोंमें “आत्मा अकेला है” इत्यादि वचनोंके मिलनेसे आगमप्रमाणसे भी जीवद्रव्य सिद्ध है ।

तदेवं प्रत्यक्षानुमानागमैः सिद्धः प्रमाता । प्रमेयं चानन्तरमेव बाह्यार्थसाधने साधितम् । तत्सिद्धौ च ‘प्रमाणं ज्ञानं तच्च प्रमेयाभावे कस्य ग्राहकमस्तु निर्धिष्यत्वात्’ इति प्रलापमात्रं; करणमन्तरेण क्रियासिद्धेरयोगाह्ववनादिषु तथा दर्शनात् । यच्चार्थसमकालमित्याद्युक्तं तत्र विकल्पद्वयमपि स्वीक्रियत एव । अस्मदादिप्रत्यक्षं हि सम्कालार्थाकलनकुशलं स्मरणमतीतार्थस्य ग्राहकं शब्दानुमाने च त्रैकालिकस्याप्यर्थस्य परिच्छेदके । निराकारं चैतद्द्वयमपि । न चातिप्रसङ्गः स्वज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमविशेषवशादेवास्य नैयत्येन प्रवृत्तेः । शेषविकल्पानामस्वीकार एव तिरस्कारः । प्रमितस्तु प्रमाणस्य फलं स्वसंवेदनसिद्धैव । न ह्यनुभवेऽप्युपदेशापेक्षा । फलं च द्विधानन्तर्थापरम्पर्यभेदात् । तत्रानन्तर्णेण सर्वप्रमाणानामज्ञाननिवृत्तिः फलम् । पारम्पर्येण केवलज्ञानस्य तावत् फलमौदासीन्यं शेषप्रमाणानां तु हानोपादानोपेक्षादुद्भयः । इति सुव्यवस्थितं प्रमान्नादिचतुष्टयम् । ततश्च “नासन्न सन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम् । चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वमाध्यात्मिका विदुः” इत्युन्मत्तभाषितम् ।

इस प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम इन तीनों प्रमाणोंसे प्रमाताका (आत्माका) होना सिद्ध है । जिन बाह्य विषयोंको ज्ञान जानता है उनका होना तो अभी पहिले सिद्ध कर चुके है । इसलिये यह कहना केवल निर्हेतुक वकना है कि जब बाह्य पदार्थ ही कोई चीज नहीं है तो जो प्रमाणज्ञान है वह किसको जानै ? जितनी क्रिया होती है वे किसी न किसी करणके विना नहीं होसकती । जैसे वृक्षका काटना किसी कुल्हाड़ीसे ही हो सकता है; जबतक कुल्हाड़ी न हो तबतक वृक्ष कट नहीं सकता है ।

जानना भी एक प्रकारकी क्रिया है इसलिये यह भी बिना किसी कारणके नहीं होसकती है। और जो यह पूछ कि जिन पदार्थोंको जानना हो उनके साथ साथ ही उनको जाननेवाला ज्ञान उपजता है अथवा उनके बाद ? सो हम दोनो तरहसे मानते है। हमलोगोंका प्रत्यक्ष तो जो विद्यमान पदार्थ हों उन्हींको जानसकता है और स्मरणज्ञान वीती हुई वस्तुको ही जानसकता है परंतु शब्द सुननेसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान तथा अनुमानज्ञान तीनों कालके पदार्थोंको जान सकते है। ये दोनो प्रकारके ज्ञान यद्यपि निराकार ही है तों भी अतिव्याप्ति दोष नहीं है। और जो निराकार माननेमें यह दोष वतलाया था कि किसी पदार्थका इस प्रकार निश्चय नहीं होसकैगा कि यह घड़ा ही; अन्य कुछ नहीं है अथवा यह असुक ही है अन्य कुछ नहीं है सो यह दोष मानना भी भूल है। क्योंकि, ज्ञान किसी समय भी हो परंतु उसी पदार्थको जानसकता है जिसके ज्ञानको रोकनेवाला ज्ञानावरण कर्म तथा वीर्यांतराय कर्म कुछ नष्ट होगया हो। इन शंकाओंके अतिरिक्त जो शंका है वे सब आडम्बरमात्र है इसलिये उनको स्वीकार न करना ही शून्यवादीका तिरस्कार है। इस प्रकार प्रमाणका जो शून्यवादीने खंडन क्रिया था वह मिथ्या हुआ। और प्रमाणका फल प्रमिति है, उस प्रमितिका अनुभव स्वयमेव होता है। जिस वस्तुका स्वयमेव अनुभव होसकता है उसका अनुभव उपदेशसे कराना व्यर्थ है। प्रमाणके फलदो प्रकारके है पहिला साक्षात् दूसरा परंपरासे उत्पन्न होनेवाला। इनमेंसे किसी पदार्थसंबंधी अज्ञानका नाश हो जाना प्रमाणका साक्षात् फल है। केवलज्ञानका परंपरा फल संसारसे उदासीनता होना है और शेषके अल्पज्ञानियोंके प्रत्येक ज्ञानका परंपरा फल इष्टानिष्ट पदार्थोंमें ग्रहण तथा त्यागकी बुद्धि उत्पन्न होना है तथा मध्यस्थ पदार्थमें मध्यस्थ भाव हो जाना परंपरा फल है। इस प्रकार प्रमाता आत्मा तथा प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति इन चारों प्रकारके पदार्थोंकी सिद्धि प्रमाणद्वारा होचुकी। इसलिये “न तो पदार्थ सत्स्वरूप ही है; न असत्स्वरूप ही है, न सत् असत् दोनोरूप ही है और न सत् असत्के अभावस्वरूप ही है किंतु अध्यात्म विषयके ज्ञाताओंने इन चारो प्रकारकी कथनीसे जुदा कोई विलक्षण ही तत्त्व माना है” इस प्रकारका जो कहना है वह उन्मत्तकासा कहना है।

किं चेदं प्रमात्रादीनामवास्तवत्वं शून्यवादिना वस्तुवृत्त्या तावदेष्वव्यम्। तच्चासौ प्रमाणादभिमन्यतेऽप्रमाणाद्वा ? न तावदप्रमाणात्तस्याऽकिंचित्करत्वात्। अथ प्रमाणात् तन्न। अवास्तवत्वग्राहकं प्रमाणं सांवृतमसांवृतं वा स्यात् ? यदि सांवृतं कथं तस्मादवास्तवाद्वास्तवस्य शून्यवादस्य सिद्धिः ? तथा च वास्तव एव समस्तोऽपि प्रमात्रा-

१ अनिरूपिततत्त्वार्थां प्रतीतिः सवृत्तिर्मता। तत्त्वार्थका निरूपण न करनेवाली प्रतीतिको सवृत्ति कहते हैं।

दिव्यवहारः प्राप्तः । अथ तद्ग्राहकं प्रमाणं स्वयमसांबृतं तर्हि क्षीणा प्रमात्रादिव्यवहाराऽवास्तवत्वप्रतिज्ञा तेनैव व्यभिचारात् । तदेवं पक्षद्वयेऽपि इतो व्याघ्र इतस्तदीति न्यायेन व्यक्त एव परमार्थतः स्वाभिमतसिद्धिविरोधः । इति काव्यार्थः ।

इस प्रकार शून्यवादीका कथन प्रथम तो किसीप्रकार सिद्ध ही नहीं होता, परंतु तो भी जो प्रमाण प्रमाता आदिकोंको झूठा कहा है वह क्या किसी प्रमाणके बलसे कहा है अथवा प्रमाणके विना ही ? यदि किसी प्रमाणके विना ही कहा है तो विना प्रमाण कहनेसे तो कुछ सिद्ध ही नहीं सकता । और यदि किसी प्रमाणके बलसे कहा है तो पदार्थको असत्यरूप कल्पनामात्र जाननेवाला प्रमाण क्या सांबृत प्रमाण है अथवा असांबृत ? जो यथार्थमें तो कुछ ही नहीं किंतु कल्पनामात्रसे माना गया हो वह सांबृत कहाजाता है । सो यदि उस प्रमाणको सांबृत माना हो तो उस असत्यार्थ प्रमाणसे सच्चे शून्यवादका निश्चय कैसे हो सकता है ? इसलिये जब शून्यवादको जाननेवाला प्रमाण ही झूठा है तब हमारा प्रमाताआदि संपूर्ण व्यवहार मानना ही सच्चा प्रतीत होता है । और यदि शून्यवादको जाननेवाला प्रमाण सच्चा है तो सर्वथा शून्यवादका कहना मिथ्या हुआ । क्योंकि; एक प्रमाण तो तुमने अपने मुखसे ही स्वीकार किया । इस प्रकार न तो प्रमाणसे सिद्धि हो सकती है और न प्रमाणके विना । दोनो ही पक्ष माननेमें दोष है । 'एक तरफ भागते है तो व्याघ्र खड़ा है और दूसरी तरफ देखते है तो नदी बह रही है' इस न्यायके अनुसार दोनो ही पक्षके माननेमें शून्यवादीको अपना शून्यवाद छोड़कर हमारा प्रमाताआदिका व्यवहार सत्य मानना पड़ता है । क्योंकि; किसी प्रकार भी शून्यवाद सिद्ध नहीं होता । इस प्रकार इस काव्यका अर्थ पूर्ण हुआ ।

अधुना क्षणिकवादिन ऐहिकाऽमुष्मिकव्यवहाराऽनुपपन्नार्थसमर्थनमविमृश्यकारितं दर्शयन्नाह ।

क्षणिकवादीने पदार्थके स्वरूपका जैसा उपदेश किया है उससे न तो इस लोककी और न परलोककी व्यवस्था बन सकती है इसलिये वह उपदेश विचार किये विना ही किया है ऐसा दिखाते हुए अब कहते है ।—

कृतप्रणाशाऽकृतकर्मभोगभवप्रमोक्षस्मृतिभङ्गदोषान् ।

उपेक्ष्य साक्षात् क्षणभङ्गमिच्छन्नहो महासाहसिकः परस्ते ॥ १८ ॥

मूलार्थ—यदि वस्तुका सभाव क्षणभंगुर ही माना जाय तो पूर्वकृत कर्मोंका फल बिना भोगे ही नाश हो जायगा; त्वयं नहीं किये हुए कर्मोंका फल भी भोगना पड़ेगा; संसारका, मोक्षका तथा स्रग्शक्तिका नाश होनायगा । अनुभवसिद्ध इन दोषोंको नहीं गिनता हुआ आपके विरुद्ध मानता हुआ क्षणिकवादी जो वस्तुका स्वरूप क्षणभंगुर होना ही मानता है; हे भगवन् । वह उसकी बड़ी धृष्टता समझनी चाहिये ।

व्याख्या—कृतप्रणाराशदोषमकृतकर्मभोगदोषं भवभङ्गदोषं प्रमोक्षभङ्गदोषं स्मृतिभङ्गदोषमित्येतान् साक्षादित्यनुभवसिद्धान् उपेक्ष्यानाहृत्य साक्षात्कुर्वन्नपि गजनिर्मलिकामवलम्बमानः सर्वभावानां क्षणभङ्गमुदयानन्तरत्रिनाशरूपक्षणक्षयितामिच्छन् प्रतिपद्यमानस्ते तत्र परःप्रतिपक्षी वैनाशिकः [मागत इत्यर्थः] अहो महासाहसिकः । साहसिकश्च महासाहसिकोऽत्यन्तमविमृश्य प्रवृत्तिकारी । इति मुकुलितार्थः ।

व्याख्यार्थ—पूर्वकृत कर्मोंका फल भोगे बिना ही नाश हो जाना, त्वयं नहीं किये हुए कर्मोंका भी फल भोगने पडना, संसारका नाश हो जाना, मोक्षका नाश हो जाना तथा स्मरणशक्तिका नाश हो जाना इन अनुभवसिद्ध दोषोंको नहीं गिनकर संपूर्ण वस्तुओंको क्षणभंगुर माननेवाला तुम्हारा प्रतिपक्षी बौद्ध देखो ! बडा साहसी है !! जिन संसारमोक्षदिक संपूर्ण विषयोंको क्षणिकवादी त्वयं मानता है उन्हींका अभाव सर्वथा क्षणभंगुराना माननेसे होता है तो भी जैसे हन्नी नेत्र गूंदकर सब कुछ करता है तेसे ही संसारमोक्षदि संपूर्ण विषयोंका अनुभव करता हुआ तथा वस्तुकी स्थिति क्षणभंगुर माननेसे संसारमोक्षदि कुछ भी नहीं सिद्ध हो सकते हैं ऐसा समझता हुआ भी जो वस्तुको उत्पत्तिके अनंतर क्षण क्षणों नष्ट होते हुए मानता है सो ही आपकी तरफ ध्यान नहीं देना है । भावार्थ—हे भगवन् । वस्तुका क्षण क्षणों बिनाश होना माननेवाला यह एक प्रकारका बौद्ध इसने वस्तुका स्वरूप सर्वथा क्षणध्वयी माना है और यह मानना उसके ही आचरणसे दूषित भिद्ध होता है । आगे आनेवाले कष्टोंको विचारे बिना ही अपनी शिरजोरिये जो सहसा प्रवृत्त हो उसको साहसी कहते हैं । इस बौद्धकी भी ऐसी ही प्रवृत्ति है । क्योंकि;

क्षणभंगुरपना युक्तिसे बाधित होता है तो भी क्षणभंगुरताको ही मानता है । यह साहसियोंमें भी महासाहसी है । क्यौंकि; यह सर्वथा ही विचार न करता हुआ धृष्टतासे कार्य करनेवाला है । इस प्रकार इस कारिकाका संक्षिप्त अर्थ है ।

विवृतार्थस्त्वयम् ।-बौद्धा बुद्धिक्षणपरम्परामात्रमेवात्मानमामनन्ति; न पुनर्माैतिककणनिकराऽनुस्यूतैकसूत्रवत्तदन्वयिनमेकम् । तन्मते येन ज्ञानक्षणेन सदनुष्ठानमसदनुष्ठानं वा कृतं तस्य निरन्वयविनाशान्न तत्फलोपभोगः । यस्य च फलोपभोगस्तेन तत्कर्म न कृतम् । इति प्राच्यज्ञानक्षणस्य कृतप्रणाशः स्वकृतकर्मफलाऽनुपभोगात् । उत्तरज्ञानक्षणस्य चाऽकृतकर्मभोगः स्वयमकृतस्य परकृतस्य कर्मणः फलोपभोगादिति । अत्र च कर्मशब्द उभयत्रापि योज्यः । तेन कृतप्रणाश इत्यस्य कृतकर्मप्रणाश इत्यर्थो दृश्यः । बन्धानुलोम्याच्चेत्थमुपन्यासः । तथा भवभङ्गदोषः । भव आर्जवीभावलक्षणः संसारस्तस्य भङ्गो विलोपः स एव दोषः क्षणिकवादे प्रसज्यते । परलोकाभावप्रसङ्ग इत्यर्थः परलोकिनः कस्यचिदभावात् । परलोको हि पूर्वजन्मकृतकर्मानुसारेण भवति । तच्च प्राचीनज्ञानक्षणानां निरन्वयं नाशात्केन नामोपभुज्यतां जन्मान्तरे ? यच्च मोक्षाकरगुप्तेन “यच्चित्तं तच्चित्तान्तरं प्रतिसंधत्ते यथेदानीन्तनं चित्तं, चित्तं च मरणकालभावि” इति भवपरम्परसिद्ध्यै प्रमाणमुक्तं तद् व्यर्थः; चित्तक्षणानां निरवशेषनाशिनां चित्तान्तरप्रतिसंधानाऽयोगात् । द्वयोरवस्थितयोर्हि प्रतिसंधानमुभयानुगामिना केनचित्क्रियते । यश्चानयोः प्रतिसंधाता स तेन नाभ्युपगम्यते । स ह्यात्माऽन्वयी । न च प्रतिसंधत्ते इत्यस्य जनयतीत्यर्थः; कार्यहेतुप्रसङ्गात् । तेन वादिनाऽस्य हेतोः स्वभावहेतुत्वेनोक्तत्वात् । स्वभावहेतुश्च तादात्म्ये सति भवति । भिन्नकालभाविनोश्च चित्तचित्तान्तरयोः कुतस्तादात्म्यम् ? युगपद्भाविनोश्च प्रतिसन्धेयप्रतिसन्धायकत्वाऽभावापत्तिः । युगपद्भावित्वेऽविशिष्टेऽपि किमत्र नियामकं यदेकः प्रतिसन्धायकोऽपरश्च प्रतिसन्धेय इति ? अस्तु वा प्रतिसन्धानस्य जननमर्थः सोऽप्यनुपपन्नस्तुल्यकालत्वे हेतुफलभावस्याऽभावात् । भिन्नकालत्वे च पूर्वचित्तक्षणस्य विनष्टत्वादुत्तरचित्तक्षणः कथमुपादानमन्तरेणोत्पद्यताम् ? इति यत्किञ्चिदेतत् ।

अब इसका अर्थ विस्तारसे कहते है । बौद्धलोग विचारके क्षणोकी परंपराको ही केवल आत्मा मानते है । और मोतियोके प्रत्येक नगोंमें प्रवेश पानेवाले सूतके डोरके समान प्रत्येक क्षणके साथ संबंध रखनेवाले अनाद्यनंत ऐसे किसी एक नित्य आत्माको नहीं

मानते हैं। बौद्धमतमें ऐसा माना गया है कि विचारके जिस क्षणने कुछ सत्स्वरूप अथवा असत्स्वरूप कार्य किया है उस क्षणका आगेकी पर्यायोंकी तरफ संबन्धरहित सर्वथा नाश हो जाता है इसलिये अपने आपको अपने कृत्यका फल स्वयं नहीं भोगना पड़ता है। जिसको उस कृत्यका फल भोगना पड़ता है वह एक नवीन ही उत्पन्न होता है इसलिये उसका वह कर्म किया हुआ नहीं होता। इसप्रकार जिस पहिले क्षणने कर्म किया था उसको भोगना न पड़ा किन्तु वह यों ही नष्ट हो गया इसलिये किये हुए कर्मका फल भोगेविना ही नष्ट हो जाना सिद्ध हुआ। तथा जिस आगेके ज्ञान क्षणने स्वयं उस कर्मको किया नहीं था उसको उसका फल भोगना पड़ा इसलिये स्वयं नहीं किये हुए कर्मका भी फल भोगना सिद्ध हुआ। इस कारिकामें 'कृतप्रणश' शब्द जो पड़ा हुआ है उसका अर्थ किये हुए का नाश हो जाना होता है। परन्तु यह शंका बनी ही रहती है कि ऐसा क्या किया है जिसका नाश हो जायगा? इस शंकाकी निवृत्ति करनेकेलिये आगे कहे हुए 'अकृतकर्मभोग' पदसे 'कर्म' शब्द लेकर 'कृतप्रणश' शब्दके बीचमें भी जोड़ देना चाहिये और फिर ऐसा अर्थ करना चाहिये कि पूर्वकृत जो कर्म है उसका नाश फल भोगेविना ही हो जायगा। रचनाकी रीति सरल होनेसे भी प्रकरणानुसार यह अर्थ हो सकता है। तथा क्षणिकपना माननेसे जिसका चारों गतिओंमें परिभ्रमण करना स्वरूप है ऐसा संसार भी सिद्ध न होसकैगा। अर्थात् परलोकका अभाव हो जायगा। क्योंकि, जब सभीका स्वभाव क्षणभंगुर माना गया है तब परलोक जानेके लिये वचा कौन रहैगा? जीव इस जन्ममें जैसा कर्म करता है उसीके अनुसार परलोकमें जाकर सुख दुःख भोगता है। परन्तु बौद्धमतमें तो ऐसी नित्य कोई चीज ही नहीं है जो जन्मान्तरमें जाकर सुखदुःख भोगनेकेलिये बनी रहे। क्योंकि; जो पूर्वके ज्ञानक्षण है वे आगे उत्पन्न होनेवाले क्षणोंके साथ कुछ भी सन्ध न रखकर पहिले ही नष्ट हो जाते हैं इसलिये जन्मान्तरमें जानेके लिये ऐसा कौन बचता है जो वहाँके सुखदुःख भोगे? और जो मोक्षाकरगुप्तने इस दोषके दूर करनेके अभिप्रायसे यह कहा कि जो कोई चेतनाका क्षण होता है वह आगेके दूसरे चैतन्यक्षणमें अपने स्वरूपका संस्कार उत्पन्न करके ही नष्ट होता है। जिस प्रकार जीवनके मध्यका प्रत्येक चैतन्यक्षण आगेके चैतन्यक्षणमें संस्कार डालकर ही नष्ट होता दीखता है। मरणके अंतसमयमें होनेवाला चैतन्यक्षण भी एक चैतन्यक्षण है इसलिये वह भी आगामी परलोकके प्रथम चैतन्यक्षणमें अपने सपूर्ण संस्कारको जोड़कर ही नष्ट होता है। इस प्रकार परिपटी दिखलानेसे मोक्षाकरगुप्तने यह सिद्ध किया कि बौद्धमतके अनुसार भी चैतन्य-

क्षणको अपने पूर्वकृत कर्मोंका शुभाशुभ फल परलोकमें भोगना पड़ता है। परंतु इस परिपाटीका दिखाना व्यर्थ है क्योंकि; जब पूर्वके चैतन्यक्षण सर्वथा नष्ट होते जाते हैं तब आगेके चैतन्यक्षणोंसे पूर्वके चैतन्यक्षणोंका संबंध होना ही असंभव है। जब पूर्वापरकी दोनो वस्तु एक समयमें विद्यमान हों तब कदाचित् दोनोंमें प्रवेश रखनेवाली किसी एक शक्तिके द्वारा एक दूसरेके सामर्थ्यका संबंध तथा परिवर्तन हो सकता है। जो दोनो पर्यायोंमें अर्थात् चैतन्यक्षणोंमें संबंध करानेवाला आत्मद्रव्य है उसको बौद्धोंने अंगीकार ही नहीं किया है। आत्मा ही सदा शाश्वता है इसलिये वही एक पर्यायके शुभाशुभ कर्मके फलादिको दूसरे पर्यायोंमें परिवर्तन करासकता है। आगेके पर्यायमें पूर्व धर्मका परिवर्तन कराना अर्थात् पैदा कराना यह अर्थ मानना भी बौद्धको इष्ट नहीं है। क्योंकि; पैदा होनेमें तो कार्यकारणभाव संबंध होनेसे कार्यहेतु होजाता है और बौद्धने इसको माना स्वभाव हेतु ही है। सो पहिले कहचुके है। स्वभावहेतु वहां ही होता है जहां तादात्म्य संबंध हो। और तादात्म्य संबंध तभी संभव है जब पूर्वापरके चैतन्यक्षण एकसाथ विद्यमान रहें। जहां पूर्वापरके चैतन्यक्षण सर्वथा भिन्न भिन्न समयवर्ती मानेगये हैं वहां उनका तादात्म्य संबंध कैसे होसकता है? और यदि एक समयमें भी पूर्वापर चैतन्यक्षणको विद्यमान मानलिया जाय तो भी यह निश्चय नहीं होसकता है कि अमुक चैतन्यक्षण तो अपने संपूर्ण सामर्थ्यका परिवर्तन करनेवाला है तथा अमुकमें परिवर्तन होता है। क्योंकि; वे चैतन्यक्षण सभी एकसे है; परस्पर उनमें कुछ अंतर नहीं है इसलिये यह विभाग कैसे होसकेगा कि इसमें तो सामर्थ्यका परिवर्तन किया जायगा और इसके सामर्थ्यका परिवर्तन होगा। अच्छा! कुछ समयकेलिये ऐसा विभाग होना मानकर सामर्थ्यका परिवर्तन मान भी लियाजाय तो भी उस सामर्थ्यका परिवर्तन होना असंभव है। क्योंकि; एक ही समयमें कार्य और कारणका होना अनुचित है। यदि उन दोनोंका समय भिन्न भिन्न मानाजाय तो भी जब पूर्वका चित्तक्षण नष्ट होचुका तो उत्तरके चित्तक्षणकी उत्पत्ति विना उपादान कारणके कैसे होसकैगी? इस प्रकार विचारनेसे बौद्धमतानुसार परलोकका होना सिद्ध नहीं होता।

तथा प्रमोक्षभङ्गदोषः । प्रकर्षेणाऽपुनर्भावेन कर्मबन्धनान्मुक्तिः प्रमोक्षस्तस्यापि भङ्गः प्राप्नोति । तन्मते तावदात्मैव नास्ति । कः प्रेत्य सुखीभवनार्थं यतिष्यते ? ज्ञानक्षणोऽपि संसारी कथमपरज्ञानक्षणसुखीभवनाय घटिष्यते ? न हि दुःखी देवदत्तो यज्ञदत्तसुखाय चेष्टमानो दृष्टः । क्षणस्य तु दुःखं स्वरसनाशित्वात्तेनैव साङ्गदध्वंसे । सन्तानस्तु न वास्तवः कश्चिद् । वास्तवत्वे त्वात्मान्युपगममसङ्गः ।

इसी प्रकार मोक्षका भी अभाव होजाता है। कर्मबंधके ऐसे नाश होजानेका नाम मोक्ष है जिसका फिर बंध न हो। ऐसे मोक्षका होना बौद्धमतके अनुसार असंभव है। प्रथम तो उसके मतमें आत्मा कोई वस्तु ही नहीं मानागया है इसलिये आगामी भवमें सुखी होनेके लिये प्रयत्न ही कौन करैगा? जबतक संसार है तबतक जो ज्ञानक्षणरूप पर्याय माने है उनमेंसे भी प्रतिसमय पूर्वके सर्वथा नष्ट होते जाते है और आगेके नवीन उपजते रहते हैं। उनमें परस्पर कोई संबंध नहीं है इसलिये वे भी सुखी होनेकी चेष्टा नहीं कर सकते हैं। चेष्टा वही करता है जिसको आगे चलकर सुखी होनेकी आशा हो। केवल दूसरोंके सुखी होनेके लिये कोई भी प्रयत्न नहीं करता है। जब उनमेंसे कोई भी ज्ञानक्षण नहीं ठहर सकता है किंतु सभी नष्ट होनेवाले है तो सुखी होनेकेलिये प्रयत्न कौन करे? और प्रत्येक ज्ञानक्षणका सुखदुःख भी उसीके साथ नष्ट हो जाता है, आगे चलता नहीं है। इस दोषके दूर करनेके लिये यदि सब ज्ञानक्षणोंमें सुखदुःखको पहुचानेवाली एक वासना मानीजाय तो जिस मतमें कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है उसमें वासना भी कोई स्थिर पदार्थ सिद्ध नहीं होसकता, जिसके द्वारा- सब क्षणोंमें सुखदुःखोंकी संतान चलती रहे। यदि वासनाको सच्ची तथा नित्य मानते हों तो वह आत्मा ही है। नाममात्रका भेद है।

अपि च बौद्धा निखिलवासनोच्छेदे विगतविषयाकारोपप्लवविशुद्धज्ञानोत्पादो मोक्ष इत्याहुस्तच्च न घटते; कारणाऽभावादेव तदनुपपत्तेः। भावनार्प्रचयो हि तस्य कारणमिष्यते। स च स्थिरैकाश्रयाऽभावाद्धिशेषानाधायकः प्रतिक्षणमपूर्ववदुपजायमानो निरन्वयविनाशी गगनलङ्घनाभ्यासवदनासादितप्रकर्षो न स्फुटाऽभिज्ञानजननाय प्रभवतीत्यनुपपत्तिरेव तस्य। समलचित्तक्षणानां स्वाभाविक्याः सदृशारम्भणशक्तेरसदृशारम्भं प्रत्यशक्तेश्चाकस्मादनुच्छेदात्। किं च समलचित्तक्षणाः पूर्वं स्वरसपरिनिर्वाणाः। अयमपूर्वो जातः। सन्तानश्चैको न विद्यते। बन्धमौक्षौ चैकाधिकरणौ; न विषयभेदेन वर्तते। तत्कस्येयं मुक्तिर्य एतदर्थं प्रयतते? अयं हि मोक्षशब्दो

१ सर्वे क्षणिकमित्याद्युपदिष्टार्थविषयधारावाहिकदुद्धिसंतानोक्तवो भावनाप्रचयस्तस्या अपि बहुत्वम् ॥ २ ननु स्याथिसंस्काराभावेऽपि पूर्वपूर्वज्ञानक्षणत्वसित्त पृथोत्तरोत्तरक्षण उत्पद्यते रक्तकर्पासबीजसंतानवदित्याह समलेति ॥ ३ नमूपदेऽज्ञान्यज्ञानप्रवाहस्य सदृशारम्भणेऽपि प्रथम परोक्षतयस्य स्व निर्मलस्यान्ते निर्मलतमस्य साक्षात्काराभ्यायकतया न द्रोप इत्यत आह किं चेति ॥

बन्धनविच्छेदपर्यायः । मोक्षश्च तस्यैव घटते यो बद्धः । क्षणक्षयवादे त्वन्यः क्षणो बद्धः क्षणान्तरस्य च मुक्तिरिति मोक्षाऽभावः प्रामोति । १२ ।

और बौद्ध जो मोक्षका स्वरूप ऐसा मानते हैं कि सपूर्ण वासनाओंका नाश होजानेपर नष्ट होगया है विपर्योका मलिन संबन्ध जिसमें ऐसी विशुद्ध ज्ञानकी उत्पत्ति ही मोक्ष है सो यह स्वरूप बनता नहीं है । क्योंकि; जब कारण ही नहीं हो तो कार्य कैसे उपजसकता है ? भावनाओंके संबन्धको उसका कारण माना है सो वह कोई अविनाशी एक आश्रयरूप न होनेसे कुछ विशेषता पैदा नहीं करसकता तथा वह प्रत्येक नवीन नवीन ही उत्पन्न होता है तथा निरन्वय ही नष्ट होजाता है तथा जिस प्रकार गगनका कितना ही उल्लंघन क्यों न किया जाय परंतु अंत नहीं आता उसी प्रकार वह भी कितनी ही बार क्यों न उपज विनश ले परंतु उसकी उत्पत्तिका अंत नहीं आता ऐसे उस ज्ञानक्षणे किसी भी स्पष्ट सब्जे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होसकती है इसलिये ऐसा शुद्ध ज्ञान होना असंभव ही है । भावार्थ—जब शुद्ध ज्ञानकी उत्पत्ति ही संभव नहीं है तो मोक्ष कहाँसे हो ? क्योंकि; शुद्ध ज्ञानकी उत्पत्तिका ही नाम मोक्ष है । और जो संसारदशामें होनेवाले मलिन ज्ञानक्षण है उनसे केवल मलिन ज्ञानक्षणोकी ही उत्पत्ति होसकती है; शुद्ध ज्ञानक्षणोकी उत्पत्ति होना संभव नहीं है । अर्थात् अशुद्ध ज्ञानक्षण उत्पन्न करनेमात्रकी उनमें स्वाभाविक शक्ति विद्यमान है । क्योंकि, प्रत्येक बीज अपने सजातीय फलको ही पैदा करसकता है; विजातीयको कभी नहीं करसकता है । और जब उसका सदा मलिन ज्ञानक्षण उपजाना ही स्वभाव है तो अकस्मात् उसका नाश होजाना भी संभव नहीं है । भावार्थ—समल ज्ञान-क्षणोका सर्वथा नाश होकर नवीन शुद्ध ज्ञानकी उत्पत्तिरूप मोक्षकाहोना असंभव ही है । और भी एक दोष यह है कि संसारदशामें होनेवाले मलिन ज्ञानक्षण तो सर्वथा अपने स्वरूपसे नष्ट होचुके तथा पीछेसे शुद्ध ज्ञानक्षणकी जो उत्पत्ति है वह निर्मूल ही है और पूर्ववर्ती तथा इन शुद्ध ज्ञानक्षणोंमें रहनेवाला कोई एक संतान संभव नहीं है । जब संसारदशके मलिन ज्ञानक्षणोका शुद्ध ज्ञानक्षणरूप मोक्षदशाके साथ कोई संबन्ध ही नहीं रहा तो संसारीक अवस्था तो किसी अन्यकी ही थी तथा मोक्ष किसी अन्यका ही हुआ ऐसा मानना पड़ेगा । यथार्थमें मोक्ष उसीका होना चाहिये जिसकी पहिले संसारीक अवस्था रही हो । क्योंकि, बंधनसे छूटनेका नाम मोक्ष है इसलिये जो बंधता है वही छूटसकता है जिसका कभी बंध ही नहीं हुआ वह छूटैगा किससे ? और जब संसारदशावाला जो बंधा है वह तो छूटता ही नहीं है तो वह प्रयत्न भी किसलिये करैगा ? जो कोई प्रयत्न

करता है वह अपने ही सुखी होनेकेलिये, नकि दूसरेकेलिये । क्षणिक बौद्धिके मतमें बंधता तो पहिला क्षण है और छूटता है दूसरा इसलिये बंधे हुएकी मोक्षका तो अभाव ही रहा ।

तथा स्मृतिभिद्भदोषः । तथा हि । पूर्वबुद्ध्याऽनुभूतेऽर्थे नोत्तरबुद्धीनां स्मृतिः संभवति; ततोऽन्यत्वात्सन्तानान्तरबुद्धिवत् । न ह्यन्यदृष्टोऽर्थोऽन्येन स्मर्यते । अन्यथा एकेन दृष्टोऽर्थः सर्वैः स्मर्येत । स्मरणाऽभावे च कौतस्कुती प्रत्यभिज्ञाप्रसूतिः ? तस्याः स्मरणानुभवोभयसंभवत्वात् । पदार्थप्रेक्षणप्रबुद्धप्राक्तनसंस्कारस्य हि प्रमातुः स एवायमित्याकारोण्यमुत्पद्यते । अथ स्यादयं दोषो यद्यविशेषेणान्यदृष्टमन्यः स्मरतीत्युच्यते किं त्वन्यत्वेऽपि कार्यकारणभावादेव च स्मृतिः । भिन्नसंतानबुद्धीनां तु कार्यकारणभावो नास्ति; तेन संतानान्तराणां स्मृतिर्न भवति । न चैकसांतानिकीनामपि बुद्धीनां कार्यकारणभावो नास्ति येन पूर्वबुद्ध्यानुभूतेऽर्थे तदुत्तरबुद्धीनां स्मृतिर्न स्यात् । तदप्यनवदातम्; एवमपि अन्यत्वस्य तदवस्थत्वात् । न हि कार्यकारणभावाभिधानेऽपि तदपगतं; क्षणिकत्वेन सर्वासां भिन्नत्वात् । न हि कार्यकारणभावात् स्मृतिरित्यत्रोभयप्रसिद्धोऽस्ति दृष्टान्तः ।

तथा क्षणिकपना माननेसे स्मरण भी न होसकैगा ऐसा दोष आता है । जैसे एक बुद्धिके विचारको दूसरेकी बुद्धि नहीं समझ सकती है क्योंकि; वे दोनो बुद्धि परस्पर भिन्न है उसी प्रकार बुद्धिके प्रथम क्षण आगेके क्षणको नहीं जानसकते है क्योंकि; वे पूर्वोत्तर कालवर्ती सभी बुद्धिक्षण परस्परमें भिन्न है । जो वस्तु जिस किसीने देखी हो उसका स्मरण उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं करसकता है । यदि एकके देखे हुएका दूसरा भी स्मरण करसकता हो तो एकने जो चीज देखी है उसका स्मरण सभीको होना चाहिये । इस प्रकार जब आगेके बुद्धिक्षणोंमें स्मरण ही नहीं होसकता है तो प्रत्यभिज्ञान कहाँसे होगा ? क्योंकि; प्रत्यभिज्ञान नामा ज्ञान तभी होता है जब पहिले देखे हुएका स्मरण हुआ हो तथा वर्तमानमें पहिलेके समान किसी चीजको अथवा विलक्षणको अथवा उसी चीजको अथवा अन्य प्रकारकी किसी चीजको प्रत्यक्ष देखा हो । भावार्थ—पहिले देखे हुएका स्मरण तो जैसे 'वह था' तथा वर्तमान किसीका ऐसा अनुभव करना जैसे 'यह है' ऐसे स्मरण तथा अनुभवके बाद उत्पन्न होनेवाले जोड़रूप एक ज्ञानको प्रत्यभिज्ञान कहते है । जैसे वह यह है अथवा उससे यह भिन्न है अथवा यह उसके समान ही है,

इत्यादि । किसी वर्तमान वस्तुको देखनेसे जब पूर्वका स्मरण उठता है तभी उसके बाद प्रत्यभिज्ञान उपजताहै । यहांपर बौद्ध कहता है कि “ यदि हम बिना किसी संबधके ही अन्यकर देखे हुएका अन्यको स्मरण होना माँने तो ऊपर दिखाया हुआ दोष आसकै परंतु हम तो कार्यकारणपना जिनमें पाया जाता हो उन्हीमें परस्पर एक दूसरेका स्मरण होना मानते है । जो संतान भिन्न है उनमें परस्पर कार्यकारणपना ही नहीं है इसलिये उनमें एकके देखे हुएका दूसरेको स्मरण नहीं होसकता है । किंतु जो बुद्धिक्षण एक ही संतानमें उत्पन्न होते है उनमें पूर्वका बुद्धिक्षण तो कारण होता है और पीछे उत्पन्न हुआ कार्य होता है इसलिये उस कार्यकारणपनेके संबधसे उन एक संतानवर्ती बुद्धिक्षणोंमें स्मरण होसकता है” । यह भी बौद्धका कथन ठीक नहीं है । क्योंकि; एक संतानवाले क्षणोंमें कार्यकारणरूप संबध माननेसे भी कुछ भिन्नता मिट नहीं जाती है । भिन्नता तो तब न रहै जब सभी क्षण एकरूप हों । जब सभी क्षण परस्पर भिन्न हैं, क्षण क्षणमें नष्ट होते जाते है तब कार्य-कारणरूप संबध माननेसे भी परस्परका भेद मिट नहीं सकता है । और जहां कार्यकारणपना हो वहां चाहै परस्पर भेद हो तो भी पहिलेके देखे हुएका दूसरेको स्मरण होसकता है ऐसा कोई दृष्टान्त भी नहीं है जिसका दोनो पक्षोंमें आदर होसकै ।

अथ “यस्मिन्नेव हि सन्ताने आहिता कर्मवासना । फलं तत्रैव संघत्ते कर्पासे रक्तता यथा” इति कर्पासे रक्तता-दृष्टान्तोऽस्तीति चेत्तदसाधीयः साधनदूषणयोरसंभवात् । तथा हि । अन्वयाद्यसंभवान्न साधनम् । न हि कार्यकारणभावो यत्र तत्र स्मृतिः कर्पासे रक्ततावदित्यन्वयः संभवति । नापि यत्र न स्मृतिस्तत्र न कार्यकारणभाव इति व्यतिरेकोऽस्ति । असिद्धत्वाद्यनुद्भावनाच्च न दूषणम् । न हि ततोऽन्यत्वादित्यस्य हेतोः कर्पासे रक्ततावदित्यनेन कश्चिद्दोषः प्रतिपाद्यते । किं च यद्यन्यत्वेऽपि कार्यकारणभावेन स्मृतेरुपत्तिरिष्यते तदा शिष्याचार्यादिबुद्धीनामपि कार्यकारणभावसद्भावेन स्मृत्यादिः स्यात् । अथ नाथं प्रसङ्ग एकसंतानत्वे सतीति विशेषणादिति चेत्तदप्ययुक्तं; भेदाऽभेदपक्षाभ्यां तस्योपक्षीणत्वात् । क्षणपरस्परतत्तस्याऽभेदे हि क्षणपरस्परैव सा । तथा च संतान इति न किंचिदतिरिक्तमुक्तं स्यात् । भेदे त्वपारमार्थिकः पारमार्थिको वाऽसौ स्यात् ? अपारमार्थिकत्वेऽस्य तदेव दूषणमकिंचित्करत्वात् । पारमार्थिकत्वे स्थिरो वा स्यात् क्षणिको वा ? क्षणिकत्वे संताननिर्विशेष

एवायमिति किमनेन सेनभीतस्य सेनान्तरशरणस्वीकरणानुकरणिना । स्थिरश्चेदात्मैव संज्ञाभेदतिरोहितः प्रतिपन्नः । इति न स्मृतिर्घटते क्षणक्षयवादिनाम् । तदभावे चाऽनुमानस्याऽनुत्थानमित्युक्तं प्रागेव ।

कदाचित् कहीं कि “ जिस सतानमें कर्मोंकी वासना होती है उसी संतानद्वारा उन कर्मोंका फल भोगा जाता है । जैसे जिस कपासके बीजमें लालिमा होती है उसके बोनेपर उसीसे उपजे कपासमें लालिमा आती है” यह कपासलालिमाका दृष्टांत मिलता है परंतु इस दृष्टांतसे न तो कुछ सधसकता है और न किसी वचनमें बाधा पड़सकती है । कार्यकारणपना जहां जहां होता है वहां वहां सरण उत्पन्न होता है जैसे कपास और लालिमा ऐसा अन्यय नहीं संभवता है तथा जहां सृष्टि नहीं होती वहां कार्यकारणपना भी नहीं होता ऐसा व्यतिरेक भी नहीं घटता है । जहां अन्यय व्यतिरेक संभव हों वहां ही हेतु सिद्ध होसकता है । यदि अन्ययव्यतिरेक ही नहीं होसके तो कार्यकारणरूप हेतु किस प्रकार सिद्ध होसकता है? जब हेतु सिद्ध हो तभी कार्यकारणपना होनेसे सृष्टि होना भी संभव होसकता है । और हमने जो यह कहा था कि जिनमें परस्पर भेद होता है उनमें एकके देखे हुए पदार्थ की दूसरेको सृष्टि होना असंभव है सो इस वचनमें कपास लालिमाके दृष्टांतसे कुछ असिद्धतादिक दोष भी आते नहीं दीखते, जो हमारा कहना असत्य होजाय । और भी एक दोष यह है कि यदि कार्यकारणपनेके संबंधमात्रसे भिन्न भिन्न वस्तुओंमें भी सृष्टि उपजसकती हो तो शिष्यको गुरु पढ़ता है इसलिये शिष्यकी बुद्धि तो कार्य है तथा गुरुकी बुद्धि कारण है सो यहां भी गुरुके अनुभव किये पदार्थोंका शिष्यको सरण होना चाहिये परंतु होता नहीं है सो क्यों? एक संतानमें ही कार्यकारणरूप संबंधके द्वारा सरणका होना मानना भी युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि, जब संतान और बुद्धिक्षणोंमें परस्पर भिन्नता अभिन्नताका विचार करनेलगते है तो सतान कोई चीज सिद्ध नहीं होती । कैसे? यदि क्षणपरंपरा तथा संतानमें परस्पर अभेद मानाजाय तो क्षणपरंपरा ही रही, सतान कोई भिन्न वस्तु नहीं ठहरी इसलिये संतानसे कोई अपूर्व कार्य होना असंभव है; जो कुछ कार्य होगा वह क्षणपरंपरासे ही होगा । और यदि क्षणपरंपरासे संतान कोई भिन्न वस्तु है तो भी वह सचमुच कुछ है अथवा कल्पनामात्र ही है? यदि कल्पनामात्र ही है तब तो फिर भी कुछ कर नहीं सकती है । और यदि सचमुच कोई चीज है तो वह स्थिर है अथवा बुद्धिक्षणादिवत् वह भी क्षणिक है? यदि सतान भी क्षणिक है तब तो जैसे क्षणपरंपरामें दोष है तैसे ही दोष इसमें भी संभव होसकते है इसलिये ऐसी संतानके माननेसे भी क्या प्रयोजन? यह

मानना तो ऐसा ही है जैसा एक चोरसे भयभीत होकर दूसरे चोरका शरण लेना । यदि वह स्थिर है तो नाम बदलकर आत्मा ही स्वीकार किया समझना चाहिये । इस प्रकार जबतक क्षणिकपना मानाजायगा तबतक स्मृति होना असंभव ही है । स्मरण न होनेसे अनुमान भी न होसकैगा यह दोष तो पहिले ही दिखाबुके है ।

अपि च स्मृतेरभावे निहितप्रत्युन्मार्गणप्रत्यर्पणादिव्यवहारा विशीर्येन् । “इत एकनवतेः कल्पे शक्त्या मे पुरुषो हतः । तेन कर्मविपकेन पादे विद्धोऽसि भिक्षवः” इति वचनस्य च का गतिः ? एवमुत्पत्तिरुत्पादयति, स्थितिः स्थापयति, जरा जर्जरयति, विनाशो नाशयति इति चतुःक्षणिकं वस्तु प्रतिजानाना अपि प्रतिक्षेप्याः । क्षणचतुष्कानन्तरमपि निहितप्रत्युन्मार्गणादिव्यवहाराणां दर्शनात् । तदेवमनेकदोषापातेऽपि यः क्षणभङ्गमभिप्रैति तस्य महत् साहसम् । इति काव्यार्थः ।

परंतु एक और भी दोष यह संभव है कि यदि स्मृति नहीं रहेगी तो जो धरोहर रखदी गई है उसको मागेगा कौन तथा पीछा देगा कौन ? ऐसे व्यवहारोंका नाश ही होजायगा । और “अबसे इक्यानवैमें कल्पमें मैने बलात्कारसे एक पुरुष मारड़ाला था उसी कर्मके खोटे फलसे हे मिश्रुको ! यह मेरा पैर छिदा है ” इस वचनके विषयमें क्या उत्तर होसकैगा ? इसी प्रकार जो उत्पत्ति स्थिति जरा तथा मरणके क्रमसे चार क्षण पर्यंत वस्तुकी स्थिति मानते हैं उनका कहना भी अनुचित है । प्रथम क्षणमें तो वस्तुकी उत्पत्ति, दूसरे स्थितिक्षणमें वस्तुकी स्थिति, तीसरे जराक्षणमें वस्तुकी अवस्था जर्जरित होना तथा चौथे मरणक्षणमें वस्तुका नाश ऐसे चार क्षण ही वस्तु रहसकती है ऐसा वे कहते हैं परंतु यह कहना दूषित है । क्योंकि, चार क्षणके अनंतर भी रक्सी हुई धरोहरका लेना दैना देखा जाता है । इस प्रकार अनेक दोष आते हुए भी जो क्षणमंगुरता मानता है उसका बड़ा भारी साहस समझना चाहिये । इस प्रकार इस काव्यका अर्थ पूर्ण हुआ ।

अथ ताथागताः क्षणक्षयपक्षे सर्वव्यवहारानुपपत्तिं परैरुद्भावितामाकर्णर्थेत्थं प्रतिपादयिष्यन्ति यत्पदार्थानां क्षणिकत्वेऽपि वासनावललब्धजन्मना ऐक्याध्यवसायेन ऐहिकामुष्मिकव्यवहारप्रवृत्तेः कृतप्रणशादिदोषा निरवकाशा एवेति । तदाकृतं परिहर्तुकामस्तत्कल्पितवासनायाः क्षणपरम्परतो भेदाभेदानुभयलक्षणे पक्षत्रयेत्यघटमानत्वं दर्शयन् स्वाभिप्रेतभेदाभेदस्याद्वादकामानपि तानङ्गीकारयितुमाह ।

क्षणभंगुरता माननेमें सर्व व्यवहारोंका लोप होजानेका दोष जो बौद्धोंके ऊपर लगायागया उसकी मरंमत बौद्ध इस प्रकार करैंगे कि यद्यपि संपूर्ण पदार्थ क्षणभंगुर है तो भी वासनके बलसे उत्पन्न हुए अभेदज्ञानसे इस लोक तथा परलोक संबन्धी संपूर्ण व्यवहार चल सकते हैं इसलिये पूर्वकृत कर्मोंका नाश होजायगा इत्यादिक दोष कहना असत्य है। बौद्धोंकी इस आशंकाको दूर करनेकी इच्छासे आचार्य महाराज बौद्धकी कल्पना की हुई वासना क्या क्षणपरंपरासे भिन्न है अथवा अभिन्न है अथवा भिन्न भी नहीं है तथा अभिन्न भी नहीं है ऐसी तीनों कल्पनाओंमेंसे किसी भी कल्पनाके माननेमें वासनाकी सिद्धि नहीं होती ऐसा दिखाते हुए जैनधर्ममें माने हुए कथंचित् भेदाभेद नहीं चाहते हुए भी बौद्धोंको मानने पड़ते हैं ऐसा कहते हैं।

सा वासना सा क्षणसन्ततिश्च नाऽभेदभेदाऽनुभयैर्घटते ।

ततस्तटाऽदर्शिशकुन्तपोतन्यायात्त्वदुक्तानि परे श्रयन्तु ॥ १९ ॥

मूलार्थ—सर्वथा एकता मानना अथवा परस्पर भेद ही मानना अथवा भेदाभेद दोनों ही न मानना ऐसे तीन पक्षोंकी कल्पना बौद्धमतमें हो सकती है। परंतु इन तीनों पक्षोंमेंसे किसी भी पक्षके माननेसे बौद्धकर संकल्पित कीहुई वासना तथा प्रतिसमय उत्पन्न और नष्ट होते हुए ज्ञानक्षणोंकी शृंखला सिद्ध नहीं होसकती है, इसलिये हे अर्हन् ! जैसे समुद्रेके बीच जहाजसे उड़े हुए पक्षीको जब जहाजके अतिरिक्त कोई भी शरण नहीं दीखता है तब जहाजका ही उसको शरण लेना पड़ता है तैसे बौद्धोंको अपने सिद्धान्तका खडन होजानेसे आपकर कहे हुए कथंचित् भेदाभेदरूप सिद्धांतका ही शरण लेना चाहिये।

व्याख्या—सा शाक्यपरिकल्पिता झुटितमुक्तावलीकल्पानां परस्परविशकलितानां क्षणानामन्योऽन्यानुस्यूत-प्रत्ययजनिका एकसूत्रस्थानीया सन्तानापरपर्याया वासना । वासनेति पूर्वज्ञानजनितामुत्तरज्ञाने शक्तिमाहुः । सा च क्षणसन्ततित्वाददर्शनप्रसिद्धा प्रदीपकलिकावन्नवनवोत्पद्यमानापारापरसदृशक्षणपरम्परा । एते द्वे अपि अभेदभेदाऽनुभयैर्न घटते । न तावदभेदेन तादात्म्येन ते घटते । तयोर्हि अभेदे वासना वा स्यात् क्षणपरम्परा वा; न द्वयम् । यद्धि यस्मादभिन्नं न तत्ततः पृथगुपलभ्यते । यथा घटाद्धटस्वरूपम् । केवलायां वासनायामन्वयि-स्वीकारः । वास्याऽभावे च किं तथा वासनीयमस्तु ? इति तस्या अपि न स्वरूपमवतिष्ठते । क्षणपरम्पराभावात्-

झीकरणे च प्राञ्च एव दोषाः। न च भेदेन ते शुज्येते। सा हि भिन्ना वासना क्षणिका वा स्यादक्षणिका वा? क्षणिका च चेत्तर्हि क्षणेभ्यस्तस्याः पृथक्कल्पनं व्यर्थम्। अक्षणिका चेदन्वयिपदार्थाभ्युपगमेनागमबाधः। तथा च पदार्थान्तराणां क्षणिकत्वकल्पनाप्रयासो व्यसनमात्रम्।

व्याख्यार्थ—प्रथम ज्ञानक्षणसे आगेके दूसरे ज्ञानक्षणोंमें उत्पन्न होती हुई शक्तिको वासना कहते हैं। द्रुटी हुई मोतियोंकी मालामेंसे विखिरे हुए मोतियोंके समान परस्पर जुड़े जुड़े ज्ञानक्षणोंका एक दूसरेमें मिले हुएकासा ज्ञान करनेवाली वासना बौद्धमतावलंबियोंने मानी है। यह वासना संपूर्ण ज्ञानक्षणोंमें इस प्रकार प्रविष्ट रहती है जिस प्रकार मोतियोंकी मालामें डोरा। इसीका दूसरा नाम संतान है। और दीपककी लौके समान सदा नये नये उत्पन्न होते हुए पूर्वोत्तर पर्यायोंमें एकसी जो ज्ञानक्षणोकी अर्थात् प्रत्येक समयवर्ती ज्ञानके पर्यायोंकी श्रेणी है उसीको बौद्धसिद्धांतवाले क्षणसंतति कहते हैं। ये दोनो ही क्षणसंतति तथा वासना न तो अभेददृष्टि माननेसे ही संभव होसकती है और न भेदपक्ष अर्थात् अनेकता माननेसे और न भेदाभेद दोनो ही न माननेसे। जब अभेदपक्ष मानते हैं तब तो संपूर्ण संसार ही एकरूप है इस लिये यह वासना है और यह क्षणसंतति है ऐसा भेदव्यवहार नहीं बनसकता। जब संपूर्ण विश्वको अभेदरूप मान चुके तब या तो वासना ही एक चीज मानलीजाय या क्षणसंतति ही। अभेदरूप संपूर्ण विश्वको मानते हुए यह नहीं कहसकते हैं कि वासना तथा क्षणसंतति दोनो ही भिन्न भिन्न वस्तु हैं। जो वस्तु जिससे अभिन्न है उसकी प्रतीति उससे भिन्न होकर कभी नहीं होसकती है। जैसे घड़ा और घड़ेका आकार ये दोनो अभिन्न है; घड़ेका स्वरूप घड़ेके अतिरिक्त कोई भिन्न वस्तु नहीं है इसलिये घड़ेके स्वरूपका घड़ेके अतिरिक्त कही अन्यत्र भान नहीं होता। इस प्रकार जब दोनो जुड़े सिद्ध नहीं होते तब यदि केवल वासना ही स्वीकार करै तो वासनानमें एक अनुगामीपना धर्म रहता है सो जब वासित करने योग्य कोई भिन्न पदार्थ ही नहीं है तो वासनाका अन्वय कहाँपर रहैगा और अपनी वासनासे किसको वासित करैगा? इस प्रकार केवल वासना माननेपर तो वासनाका स्वरूप भी नहीं बनता है और यदि केवल क्षणसंतति ही मानीजाय तो क्षणसंततिमें आनेवाले दोष पहिले ही कहचुके हैं। और दोनोंमें भेद माननेपर भी वासना तथा क्षणसंतति ही मानीजाय तो क्षणसंततिमें भिन्न मानकर भी क्या क्षणसंततिकी तरह क्षणिक माना है अथवा नित्य? यदि वासना भी क्षणिक है तो क्षणसंततिके अतिरिक्त वासनाकी कल्पना करना ही व्यर्थ है। अर्थात् यदि चिरस्थायी सब क्षणोंमें रहनेवाली एक वासना नहीं मानीजाय तो पहिले क्षणवर्ती

पुण्यपापादिक आगेके दूसरे क्षणोंमें न पहुंच सकेंगे किंतु फल बिना दिये ही पुण्यपापादिक क्षणनशके साथ साथ नष्ट होजायंगे। इसलिये पहिले अनुभवको तथा पुण्यपापादिकोंको आगेके क्षणोंमें पहुंचानेकेलिये ही वासनाकी कल्पना की गई है। यह वासना नित्य होनेसे ही आगेके क्षणोंमें पहिले क्षणोंके पुण्यपापादिकोंको पहुंचा सकती है। परंतु यदि यह भी क्षण क्षणमें नष्ट होनेवाली मानीजाय तो स्मरण तथा पुण्यपापादिक क्षणनशके साथ साथ नष्ट होजानेका जो दोषरोपण किया था वह दोषरोपण वासना माननेपर भी ज्योंका त्यों बना रहता है इसलिये वासनाका मानना न मानना बराबर है। इस भयसे यदि वासनाको नित्य ही मानने लगे तो इस नित्य पदार्थके स्वीकार होनेसे बौद्धोंके सिद्धांतमें बाधा आती है। क्योंकि, बौद्धोंके सिद्धांतमें कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है। और जब वासनाको नित्य मानलिया तो अन्य पदार्थोंको भी नित्य माननेमें क्या बाधा है जो क्षणिक सिद्ध करनेके लिये इतना प्रयास उठानेका व्यसन लगा रखा है।

अनुभयपक्षेणापि न घटेते। स हि कदाचिदेवं ब्रूयात्-नाहं वासनायाः क्षणश्रणितोऽभेदं प्रतिपद्ये न च भेदं; किं त्वनुभयमिति तदप्यनुचितं; भेदाऽभेदयोर्विधिनियेधरूपयोरैकतरप्रतिपेधेऽन्यतरस्यावश्यं विधिभावात्। अन्यतरपक्षाभ्युपगमस्तत्र च प्रागुक्त एव दोषः। अथवाऽनुभयरूपत्वेऽवस्तुत्वप्रसङ्गः। भेदाऽभेदलक्षणपक्षद्वयव्यतिरिक्तस्य मार्गान्तरस्य नास्तित्वात्। अनार्हतानां हि वस्तुना भिन्नेन वा भाव्यमभिन्नेन वा; तदुभयाऽतीतस्य बन्ध्यास्तनन्धयप्रायत्वात्। एवं विकल्पत्रयेऽपि क्षणपरम्परावासनयोरनुपपत्तौ पारिशेष्याद्भेदाऽभेदपक्ष एव कक्षीकरणीयः। न च “प्रत्येकं यो भवेद्दोषो द्वयोर्भावे कथं न सः” इति वचनादत्रापि दोषतादवस्थ्यमिति वाच्यं; कुक्कुटर्यनरसिंहादिवज्जाल्यन्तरत्वादनैकान्तपक्षस्य।

यदि कदाचित् बौद्ध कहें कि न तो मैं वासनमें क्षणसंततिसे भेद ही मानता हूं और न अभेद ही मानता हूं किंतु भेदाभेद दोनोंका अभाव मानता हूं तो यह भी बौद्धका कथन अयोग्य है। क्योंकि, भेद तथा अभेद ये दोनों ऐसे धर्म हैं कि एकके निषेधसे दूसरा आही जाता है इसलिये भेदको न मानें तो अभेद आपडता है और अभेदको न मानें तो भेद आपडता है। दोनोंका निषेध कदापि नहीं होसकता। और भेदाभेदमेंसे किसी एकको मानें तो प्रत्येकके दोष ऊपर दिखा ही चुके हैं। और यदि भेदाभेद का अभाव माना ही जाय तो दोनोंके निषेध करनेपर कुछ रहेगा ही नहीं किंतु सर्वाभाव होजायगा। क्योंकि;

पदार्थकी सिद्धि या तो भेदरूपसे ही होसकती और या अभेद मानकर ही । वस्तुकी स्थिति करनेका भेदाभेद छोड़कर अन्य कोई मार्ग नहीं है । जो आर्हत मतको नहीं मानते हैं वे या तो वस्तुको भेदरूपसे ही साधसकते हैं या अभेदरूपसे ही । जैसे बाँझके सुत होना संभव नहीं है तैसे उनके लिये भेदाभेदके अतिरिक्त वस्तुसाधनेका कोई भी मार्ग संभव नहीं है । इस प्रकार तीनों पक्षोंके माननेमें दोषारोपण होसकता है । एक भी पक्ष ऐसा नहीं है जिसके माननेसे क्षणसंतति तथा वासना सिद्ध होसकै इसलिये हताश होकर कथंचित् भेदाभेदपक्ष ही मानना पड़ता है । “ जो दोष प्रत्येक जुदे जुदे पक्ष माननेसे आता है वह दोष उन दोनोंके समुदायरूप एक पक्ष माननेसे भी आवेगा ” इस वचनके अनुसार जो दोष एक एक भेद अथवा अभेद पक्षके माननेसे आते हैं वे कथंचित् भेदाभेद माननेमें भी आसकते हैं ऐसा कहना भी असत्य है । क्योंकि; जैसे कुक्कुटसर्प या नरसिंह पर्यायमें न तो केवल कुक्कुट या नरकासा ही रूप रहता है और न सर्प या सिंहकासा ही किंतु दोनोंसे विलक्षण ही होता है उसी प्रकार कथंचित् भेदाभेदरूप अनेकांतवादका स्वरूप एक एक पक्षोंकी अपेक्षा कुछ निराला ही है ।

नव्वार्हतानां वासनाक्षणपरम्परयोरङ्गीकार एव नास्ति । तत्कथं तदाश्रयभेदाभेदचिन्ता चरितार्था इति चैवैवम् । स्याद्वादवादिनामपि हि प्रतिक्षणं नवनवपर्यायपरम्पररोत्पत्तिरभिमतैव । तथा च क्षणिकत्वम् । अतीताऽनागत-वर्तमानपर्यायपरम्परानुसन्धायकं चान्वयिद्रव्यम् । तच्च वासनेति संज्ञान्तरभाक्त्वेऽप्यभिमतमेव । न खलु नामभेदाद्वादः कोऽपि कोविदानाम् । सा च प्रतिक्षणोत्पदिष्णुपर्यायपरम्पराऽन्वयिद्रव्यात्कथंचिद्भिन्ना कथंचिदभिन्ना च । तथा तदपि तस्याः स्याद्भिन्नं स्यादभिन्नम् । इति पृथक्प्रत्ययव्यपदेशविषयत्वाद्भेदो द्रव्यस्यैव च तथा तथा परिणमनादभेदः । एतच्च सकलादेशविकलादेशव्याख्याने पुरस्तात्पञ्चयिष्यामः ।

जैनोंने जब वासना तथा क्षणसंतति ये दोनो पदार्थ ही नहीं माने हैं तो ने परस्पर भिन्न है अथवा अभिन्न ऐसा विचार करने की उनको क्या आवश्यकता है? यह शंका करना उचित नहीं है । क्योंकि, स्याद्वादियोने भी प्रतिक्षण नये नये पर्यायोंकी उत्पत्ति मानी है इसलिये तो क्षणिकता अथवा क्षणसंतति मानना सिद्ध होता है और जो एक द्रव्यके अतीत अनागत वर्तमान काल संबंधी संपूर्ण पर्यायोंको एकरूप रखनेवाला है उसको अन्वयिद्रव्य कहा है तथा उसीको वासना नामसे भी कहसकते हैं । नाममात्रका भेद होनेसे विद्वानोंमें विवाद कभी नहीं होता । वह प्रत्येक क्षणोंमें उपजनेवाली पर्यायोंकी शृंखला अन्वयिद्रव्यसे

(वासनासे) कथंचित् भिन्न है और कथंचित् अभिन्न है । इसी प्रकार अन्वयिद्रव्य भी पर्यायपरंपरासे (क्षणपरंपरासे) कथंचित् भिन्न कथंचित् अभिन्न है । जो प्रत्येक पर्यायका ज्ञान जुदा जुदा होता है वह निर्मूल नहीं है इसलिये तो प्रत्येक पर्याय भिन्न भिन्न है परंतु वे संपूर्ण पर्याय होते एक ही द्रव्यके है इसलिये पर्याय तथा अन्वयि द्रव्य एक दूसरेसे अभिन्न है । इस कथंचित् भेदाभेदका खुलासा आगे चलकर सकलदेश विकलदेशका व्याख्यान करते समय करेंगे ।

अपि च बौद्धमते वासनापि तावन्न घटते इति निर्विषया तत्र भेदादिविकल्पचिन्ता । तदक्षणं हि पूर्वक्षणेनोत्तर-क्षणस्य वास्यता । न चाऽस्थिराणां भिन्नकालतयान्योन्याऽसंबद्धानां च तेषां वास्यवासकभावो युज्यते; स्थिरस्य संबद्धस्य च बद्धादेर्मृगमदादिना वास्यत्वं दृष्टमिति । अथ पूर्वचित्तसहजाच्चेतनाविशेषात्पूर्वशक्तिविशिष्टं चित्तमुत्पद्यते । सोऽस्य शक्तिविशिष्टचित्तोत्पादो वासना । तथा हि । पूर्वचित्तं रूपादिविषयं प्रवृत्तिविज्ञानं यत्तत्पड्विधम् । पञ्च रूपादिविज्ञानान्यऽविकल्पकानि । पष्ठं च विकल्पविज्ञानम् । तेन सह जातः समानकालश्चेतनाविशेषोऽहङ्कारासदमाल्यविज्ञानम् । तस्मात्पूर्वशक्तिविशिष्टचित्तोत्पादो वासनेति । तदपि न; अस्थिरत्वाद्वासकेनाऽसम्बन्धाच्च । यश्चासौ चेतनाविशेषः पूर्वचित्तसहभावी स न वर्तमाने चेतस्युपकारं करोति । वर्तमानस्याऽशक्याऽपनेयोपनेयत्वेनाऽविकार्यत्वात् । तद्धि यथाभूतं जायते तथाभूतं विनश्यति इति । नाप्यनागते उपकारं करोति; तेन सहासंबद्धत्वात् । असंबद्धं च न भावयतीत्युक्तम् । तस्मात् सौगतमते वासनापि न घटते । अत्र च स्तुतिकारेणाऽभ्युपेत्यापि तामन्वयिद्रव्यव्यवस्थापनाय भेदाभेदादिचर्चा विवरितेति भावनीयम् ।

और भी एक दोष यह है कि बौद्धमतमें वासना भी नहीं सिद्ध होती है इसलिये जब क्षणसंततिके अतिरिक्त कोई पदार्थ ही नहीं है तो भेदाभेदका झगड़ा बिना आधार करना व्यर्थ है । पूर्व क्षणके धर्मोंका उत्तर क्षणमें आजाना ही वासना मानी गई है । परंतु जो क्षण स्वयं अस्थिर हैं तथा जुदे जुदे समयोंमें उपजनेसे एक दूसरेसे मिल नहीं सकते है उन क्षणोंमेंसे यह क्षण तो वासना पैदा करनेवाला है तथा इस क्षणमें वासना पैदा होती है ऐसा कथन कैसे बनसकता है ? जो बल्लादि स्वयं स्थिर हों तथा जिनका कस्तूरी आदिकके साथ संबंध भी होसकता हो उन्हींमें कस्तूरी आदिकोंकी वासना होती हुई दीखती है । यहापर बौद्ध कहता है कि पूर्वचित्तक्षणके साथ साथ उत्पन्न हुए एक प्रकारके चैतन्यके द्वारा पूर्वकीसी शक्तिसहित दूसरा चित्तक्षण

उपजता है। पूर्वकीसी शक्तिविशिष्ट आगेके चित्तक्षणका उत्पन्न होना ही वासना है। पहिला जो रूपादिक ग्रहण करनेवाला चित्तक्षण है उसको प्रवृत्तिविज्ञान कहते हैं और वह छह प्रकारका होता है। रूपासादिकके ग्रहण करनेवाले पांच विज्ञान तो निर्विकल्पक हैं और छठा विज्ञान सविकल्पक है। इन्ही ज्ञानोको चित्त कहते हैं। जिस ज्ञानमें विशेषाकाररूप नाना प्रकारके भिन्न भिन्न पदार्थ प्रतिभासित हों वह तो सविकल्पक कहाता है और जिसमें सब कुछ विज्ञानमय अभिन्न ही दीखे वह निर्विकल्पक कहाता है। विकल्प नाम भेदका है। उस छह प्रकारके ज्ञानके साथ उत्पन्न हुआ और अहंकारको उपजानेवाला तथा आलयविज्ञान जिसका दूसरा नाम है ऐसा जो एक प्रकारका चैतन्य है उससे पूर्वकीसी शक्तिविशिष्ट एक चित्तकी उत्पत्ति होती है। वासना भी उसीको कहते हैं। यह सब बौद्धका कहना सर्वथा अयोग्य है। क्योंकि; जो वासनाको पैदा करता है वह स्वयं अस्थिर है तथा जिसमें वासना उपजाई जाती है उसके साथ मिल भी नहीं सकता है। और जो यह पूर्वचित्तके समयमें उत्पन्न होनेवाला चैतन्यविशेष है वह वर्तमान कालवर्ती चित्तमें कुछ भी उपकार नहीं कर सकता है। क्योंकि; जो वर्तमानमें माना जाता है उसके स्वरूपमें न तो किसी धर्मका नाश होना ही संभव है और न किसी धर्मकी उत्पत्ति होना। वह तो जैसा उपजता है तैसा ही नष्टहोजाता है। इस प्रकार वर्तमानके चित्तक्षणमें तो पूर्व चित्तक्षणद्वारा उपकार होना असंभव है ही किंतु आगामी चित्तक्षणमें जो पूर्वके चित्तक्षणद्वारा उपकार होना असंभव ही है। क्योंकि; आगामी चित्तक्षणके साथ उसका कुछ भी संबंध नहीं होसकता है। जो स्वयं असंबद्ध है अर्थात् जो जिसके साथ मिल नहीं सकता है वह उसमें किसी प्रकारकी वासना भी नहीं पहुँचा सकता है ऐसा कहचुके हैं। इस प्रकार सौगत मतमें वासनाकी सिद्धि होना असंभव है। स्तुतिकर्ता श्रीहेमचंद्राचार्यने वासनाको स्वयं मानकर भी जो यहांपर भेदभेदकी चर्चा की है वह सदासे अखंड प्रवर्तते हुए अविनाशी द्रव्यकी सिद्धि करनेकेलिये ही की है ऐसा समझना चाहिये।

अथोत्तरार्धव्याख्या। तत इति पक्षत्रयेऽपि दोषसम्भवाच्चतुक्तानि भवद्वचनानि भेदाभेदस्याद्वाद्वाद्संवादपूतानि परे कुतीर्थ्याः प्रकरणान्मायातनयाः श्रयन्तु आद्रियन्ताम्। अत्रोपमानमाह तदादर्शीत्यादि। तटं न पश्यन्तीति तटाऽदर्शी यः शकुन्तपोतः पक्षिशावकस्तस्य न्याय उदाहरणं तस्मात्। यथा किल कथमप्यपारपारावारा-न्तःपतितः काकादिशकुनिशावको बहिर्निर्जिगमिषया प्रवहणकूपस्तम्भादेस्तटप्राप्तये मुग्धतयोडुनिनः समन्ताञ्जलैका-

र्णवमेवावलोक्यस्तदमद्वैव निर्वेदाह्यावृत्य तदेव कृपस्तम्भादिस्थानमाश्रयते; गत्यन्तराऽभावात् । एवं तेऽपि कुती-
श्याः प्रागुक्तपक्षत्रयेऽपि वस्तुसिद्धिमनासादयन्तस्त्वदुक्तमेव चतुर्थं भेदाऽभेदपक्षमनिच्छयापि कक्षीकुर्वाणा-
स्त्वच्छासनमेव प्रतिपद्यन्ताम् । नहि स्वस्य बलविकलतामाकलय्य बलीयसः प्रभोः शरणाश्रयणं दोषपोपाय नीति-
शालिनाम् । त्वदुक्तानीति बहुवचनं सर्वेषामपि तन्त्रान्तरीयाणां पदे पदेऽनेकान्तवादप्रतिपत्तिरेव यथाऽवस्थि-
तपदार्थप्रतिपादनौपयिकं नान्यदिति ज्ञापनार्थम्; अनन्तधर्मात्मकस्य सर्वस्य वस्तुनः सर्वनयात्मकेन साद्वादेन
विना यथावद् ग्रहीतुमशक्यत्वात्; इतरथाऽन्धगज्ज्यायेन पृथ्व्याहिताप्रसङ्गात् ।

अब बांकी रहे हुए आधे श्लोकका व्याख्यान करते हैं । इससे अर्थात् पक्षत्रयमें दोष होनेसे अन्य कुत्सित धर्मोंके प्रवर्तकोंको भी
आपके दिखाये हुए कथचित् भेदाभेदरूप साद्वादवचनोंका ही आश्रय लेना चाहिये । यहांपर अन्य कुत्सित धर्मोंके प्रवर्तकोंको
ऐसा सामान्य शब्द होनेपर भी प्रकरणके वशसे बुद्धमतावलंबी ही समझना चाहिये । अर्थात्-बौद्धादिकोंके वचन सर्वथा भेदरूप
अथवा अभेदरूप अथवा अनुभयरूप ही है इसलिये उन वचनोंमें नाना प्रकारके दोष सभ्य हैं और आपके वचन कथचित् भेदा-
भेदरूप साद्वादगर्भित होनेसे किसी प्रकार भी दूषित नहीं है इसलिये परवादियोंको झल मारकर अंतमें आपके ही वचन स्वीकार
करने पड़ते हैं । अब यहांपर झल मारकर अंतमें आपके ही वचन किस प्रकार स्वीकार करने पड़ते हैं इस बातको 'तटादर्शि'
इत्यादि कहकर दृष्टांत द्वारा समझाते हैं । समुद्रके किनारेसे बहुत दूर पहुंच जानेसे जिस पक्षीके बच्चेको किनारा नहीं दीखता
हो उसको तटादर्शि शकुंतपोत कहते हैं । उसीका यहांपर दृष्टांत है । किसी पक्षीका बच्चा जहाजके मस्तूलपर बैठ रहकर किसी
प्रकार अथाह तथा विशाल समुद्रके बीचमें पहुंचजानेपर बाहिर निकलनेकी इच्छासे किनारेपर आनेके लिये मूर्खताके कारण जहाजके
मस्तूलसे जब उड़जाता है और चारों तरफ जल ही जल देखता है किंतु किनारा किधर भी नहीं दीखता है तब जिस प्रकार
पुरुषार्थहीन होकर फिरसे लौटकर उसी मस्तूलका सहारा लेता है । वर्योक्ति; वहां दूसरा कोई शरण ही नहीं है । उसी प्रकार
कुत्सित मतोंके प्रवर्तक बौद्धादिक भी जब पूर्वोक्त भेदादि तीनों पक्षोंसे किसी पक्षसे भी वस्तुसिद्धि नहीं करसकते हैं तब
जिस कथंचित् भेदाभेदरूप चौथे पक्षका आपने उपदेश किया है उसीका आश्रय नहीं चाहते हुए भी झल मारकर लेते हुए
आपके मतका सहारा लेते हैं । अपने बलकी हीनता देखकर अपनेसे अधिक बलवान् स्वामीका शरण लेना कुछ भी नीतिविरुद्ध

नहीं है। स्तोत्रमें जो “त्वदुक्तानि” ऐसा बहुवचनांत पद पड़ा है उससे यह सूचित होता है कि और भी संपूर्ण कुमतवादी लोग प्रत्येक स्थानपर स्याद्वादका शरण लेकर ही यथार्थ वस्तुका प्रतिपादन करसकते हैं। जबतक आपके (अर्हत्के) स्याद्वादका शरण नहीं लेंगे तबतक कदापि निर्दोष वस्तुस्वरूप नहीं कहसकते हैं। क्योंकि; प्रत्येक वस्तुमें धर्म अनतो है; किसी धर्मका ज्ञान किसी नयसे होसकता है और किसी धर्मका किसी नयसे; एक नयसे संपूर्ण धर्मोका ग्रहण होना असंभव है इसलिये संपूर्ण नयस्वरूप स्याद्वादके माने बिना यथावत् वस्तुका ज्ञान होना असंभव है। यदि स्याद्वादका शरण न लेवै तो अंधगजन्यायके अनुसार वस्तुके एक एक अशका ही ज्ञान होसकैगा; और वस्तुका संपूर्ण स्वरूप ग्रहण करना असंभव ही रहेगा।

जन्मके अंधे मनुष्य, हाथीका स्वरूप जानलेनेकी इच्छासे हाथीके पास यदि जावै और उनमेंसे कोई तो टटोलकर हाथीकी पूंछ पकड़े, कोई कान, कोई सूंड तथा कोई पैर तो इस प्रकार हाथीका एक एक अंग जांचकर पूंछ पकड़नेवाला तो हाथीका स्वरूप पूंछकसा कहैगा और कान पकड़नेवाला कानकासा, सूंड पकड़नेवाला सूंडकासा तथा पैर पकड़नेवाला हाथीका स्वरूप खंभसरीखा कहैगा। इसी प्रकार जिस जन्मांधने जिस अंगको टटोला होगा वह उस हाथीका स्वरूप उसी अंगसमान कहैगा। इसीको अंधगजन्याय कहते हैं। यदि यहां विचार किया जाय तो जो अंधे मनुष्योंने हाथीका स्वरूप कहा है वह सर्वथा झूठा नहीं है। क्योंकि; हाथीके एक एक अंगकी अपेक्षा वह स्वरूप हाथीका ही है, अन्य किसीका नहीं है। परंतु यदि हाथीके पूर्ण स्वरूपका विचार करते है तो जो एक एक अंधने कहा है उतना ही पूर्ण स्वरूप नहीं है। पूर्ण स्वरूप तो उन सब अंधोके कहे हुए स्वरूपोंको मिला देनेपर ही होता है। इसी प्रकार जन्मांधोंके समान कुमतवादियोंने अनेक अंगोविशिष्ट हाथीके सदृश अनेक धर्मविशिष्ट जो वस्तु है उसका स्वरूप एक एक धर्मका ही आश्रय लेकर कहा है। किसीने सर्वथा भेद ही वस्तुका स्वरूप माना है किसीने अमेद ही; किसीने नित्य ही; किसीने अनित्य ही, किसीने उभयात्मक ही तथा किसीने अवाच्य ही। इस प्रकार वस्तुका एक एक धर्म लेकर नाना प्रकारसे परस्पर विरुद्ध वस्तुस्वरूप कहा है। यद्यपि ये संपूर्ण वस्तुस्वरूप एक एक धर्मकी अपेक्षासे सच्चे है परंतु यदि पूर्ण स्वरूप विचारा जाय तो उतना ही नहीं है। किंतु उन संपूर्ण स्वरूपोंको मिलानेपर यथार्थ वस्तुका स्वरूप सिद्ध होता है और इसीका नाम कथंचित् अथवा अनेकान्त अथवा स्याद्वाद है।

श्रयन्तीति वर्तमानान्तं केचित्पठन्ति, तत्राप्यदोषः। अत्र च समुद्रस्थानीयः संसारः। पोतसमानं त्वच्छासनम्।

कूपस्तम्भसन्निभः स्याद्वादः । पक्षिपोतोपमा वादिनः । ते च स्वाभिमतपक्षप्ररूपणोद्भूयेन मुक्तिलक्षणतटप्राप्तये कृतप्रयत्ना अपि तस्मादिष्टार्थसिद्धिमपश्यन्तो व्यावृत्य स्याद्वादरूपकूपस्तम्भालङ्कृततावकीनशासनप्रवहणोपसर्पणमेव यदि शरणीकुर्वते तदा तेषां भवार्णवाद्बहिर्निष्क्रमणमनोरथः सफलतां कलयति । नाऽपरथा । इति काव्यार्थः ।

इस स्तोत्रमें कोई तो 'श्रयन्ति' अर्थात् आश्रय लेते हैं ऐसा वर्तमान कालके अर्थका जतानेवाला शब्द मानते हैं और कोई 'श्रयन्तु' अर्थात् आश्रय लेंवै ऐसा आज्ञार्थसूचक शब्द मानते हैं परंतु दोनों ही शब्द निर्दोष हैं । दृष्टान्तमें जहांपर समुद्र है वहांपर दार्ष्टान्तमें संसार है तथा जहाजके स्थानमें आपका शासन है, मस्तूलके स्थानमें स्याद्वाद है, पक्षिके बच्चेके समान वादी जन हैं । इसका अभिप्राय यह है कि, वे वादी अपने अपने अभिमत पक्षोंका निरूपण करनेरूप उड़ानसे मोक्षरूप तटपर पहुंचने के लिये प्रयत्न करते हुए भी जब इष्टसिद्धिकी पूर्ति होते नहीं देखते हैं तब यदि लौटकर स्याद्वादरूपी मस्तूलसे सुशोभित आपके शासनरूपी जहाजका शरण लेंवै तो संसाररूपी समुद्रके बाहिर निकलनेका उनका मनोरथ पूर्ण होसकता है । अन्यथा यह मनोरथ पूर्ण होना असंभव है । इस प्रकार इस काव्यका अर्थ पूर्ण हुआ ।

एवं क्रियावादिनां प्रावादुकानां कतिपयकुग्रहनिग्रहं विधाय साम्प्रतमक्रियावादिनां लौकायंतिकानां मतं सर्वो-
धमत्वादन्ते उपन्यस्यन् तन्मतमूल्यस्य प्रत्यक्षप्रमाणस्यानुमानादिप्रमाणान्तरानङ्गीकारेऽकिञ्चित्कत्वप्रदर्शनेन तेषां
प्रज्ञायाः प्रमादमादर्शयति ।

इस प्रकार क्रियावादी वादियोंके कुछ दुराग्रहोंका खंडन कर अब अक्रियावादी अर्थात् नास्तिक चार्वाकोंका मत अत्यन्त अधम होनेके कारण सबके अंतमें दिखाते हुए चार्वाकने अपने मतमें जो प्रत्यक्ष प्रमाण माना है वह अनुमानादि प्रमाणोंके मानने बिना कुछ कार्यकारी नहीं होसकता है ऐसा दिखाकर चार्वाकोंकी बुद्धिका प्रमाद प्रगट करते हैं ।

विनाऽनुमानेन पराभिसन्धिमसंविदानस्य तु नास्तिकस्य
न साम्प्रतं वक्तुमपि क्व चेष्टा क्व दृष्टमात्रं च हहा प्रमादः ॥ २० ॥

मूलार्थ—अनुमानके बिना माने वह नास्तिक हमलोगोंका अभिप्राय भी नहीं समझ सकता है इसलिये हमारे सामने उसको

बोलना भी नहीं चाहिये । क्योंकि, प्रत्यक्षसे केवल देखा हुआ पदार्थ ही जाना जासकता है, हमारी चेष्टाका जानलेना असंभव ही है । इसलिये वह केवल प्रत्यक्ष प्रमाणको मानकर जो हमारे मतका खंडन करता है सो उसका बड़ा भारी प्रमाद है ।

व्याख्या—प्रत्यक्षमैवैकं प्रमाणमिति मन्यते चार्वाकः; तत्र संनह्यते । अनु पश्चाद्विद्वल्लिङ्गिसम्बन्धग्रहणस्मरणानन्तरं मीयते परिच्छिद्यते देशकालस्वभावविकृष्टोऽर्थोऽनेन ज्ञानविशेषणेत्यनुमानम् । प्रस्तावात्स्वार्थानुमानम् । तेनानुमानेन लैङ्गिकप्रमाणेन विना पराभिसन्धिं पराभिप्रायसंविदानस्य सम्यग्जानानस्य [तुशब्दः पूर्ववादिभ्यो भेदद्योतनार्थः । पूर्वेषां वादिनामास्तिकतया विप्रतिपत्तिस्थानेषु क्षोदः कृतः । नास्तिकस्य तु वक्तुमपि नौचिती । कुत एव तेन सह क्षोदः? इति तुशब्दार्थः । नास्ति परलोकः पुण्यं पापमिति वा मतिरस्य "नास्तिकास्तिकदैष्टिकम्" इति निपातनाच्चास्तिकः । तस्य] नास्तिकस्य लौकायतिकस्य वक्तुमपि न साम्प्रतं वचनमप्युच्चारयितुं नोचितम् । ततस्तूष्णीम्भाव एवाऽस्य श्रेयान् । दूरे प्रामाणिकपरिषदि प्रविश्य प्रमाणोपन्यासगोष्ठी ।

व्याख्यार्थ—चार्वाक जो एक प्रत्यक्षको ही प्रमाण मानता है उसका अब खंडन किया जाता है । 'अनु' नाम पीछेसे अर्थात् चिन्ह और चिन्हविशिष्टके प्रथम जाने हुए परस्पर अविनाभावरूप संबंधका स्मरण होनेके अनंतर, दूर देशवर्ती तथा परोक्ष कालवर्ती अथवा परमाणु आदिक स्वभावसूक्ष्म वस्तुओंका जिस ज्ञानके द्वारा निश्चय कियाजाय वह अनुमान है । विशेष यह है कि अनुमान दो प्रकारका होता है; एक स्वार्थानुमान और दूसरा परार्थानुमान । परोपदेशके विना ही जो अनुमान हो वह स्वार्थानुमान कहाता है और जो अनुमान दूसरेके समझानेकेलिये शब्दद्वारा बोलाजाता है वह परार्थानुमान कहाता है । यहांपर प्रसंगवश स्वार्थानुमान ही लेना चाहिये । जबतक वह इस अनुमान प्रमाणको न मानै तबतक दूसरोंके अभिप्रायको भलेप्रकार नहीं जानसकता है । इसलिये अन्यवादी अनुमानादि प्रमाणोद्वारा परलोकादिको माननेवाले होनेसे ऊहापोह करनेके तो योग्य है परंतु यह नास्तिक चार्वाक बोलनेके भी योग्य नहीं है, ऊहापोह करना तो दूर ही रहा । इस प्रकार पहिले जिन वादियोंका खंडन करनेके है उनकी अपेक्षा इस नास्तिकका मंतव्य अधिक तुच्छ जो दिखाया गया है वह 'तु' शब्दके बलसे । अर्थात्—उपर्युक्त स्रोत्रमें 'तु' शब्द जो पड़ा है उसीसे यह अभिप्राय झलकता है । पुण्य पाप परलोकादिक अदृष्ट वस्तु सब झूठ है ऐसी जिसकी मति है वह नास्तिक कहाता है । इसी अर्थमें व्याकरणके "नास्तिकास्तिकदैष्टिकम्" इस निपातसूत्रसे नास्तिक शब्द बनाया गया है । इस चार्वाक

नास्तिकको ऐसे प्रसंगपर सत्यवादियोंके समुदायमें घुसकर प्रमाणके विषयका विचार करना तो दूर ही रहा किंतु वचन कहनेका भी अधिकार नहीं है । अर्थात् ऐसे प्रसंगपर इसको चुप रहना ही उचित है ।

वचनं हि परप्रत्यायनाय प्रतिपाद्यते । परेण चाप्रतिपित्सितमर्थं प्रतिपाद्यन्नसौ सतामवधेयवचनो न भवत्यु-
न्मत्तवत् । ननु कथमिव तूष्णीकतैवास्य श्रेयसी ? यावता चेष्टाविशेषादिना प्रतिपाद्यस्याऽभिप्रायमनुमाय सुक-
रमेवानेन वचनोच्चारणमित्याशङ्क्याह “क चेष्टा क दृष्टमात्रं च” इति । केति बृहदन्तरे । चेष्टा इद्वितं पराभिप्राय-
रूपस्थानुमेयस्य लिङ्गम् । क च दृष्टमात्रम् । दर्शनं दृष्टं, भात्रे के । दृष्टमेव दृष्टमात्रं प्रत्यक्षमात्रम् । तस्य लिङ्गनिरपे-
क्षप्रवृत्तित्वात् । अत एव दूरमन्तरमेतयोः । न हि प्रत्यक्षेणातीन्द्रियाः परचेतोवृत्तयः परिज्ञातुं शक्यास्तस्यैन्द्रिय-
कत्वात् । मुखप्रसादादिचेष्टया तु लिङ्गभूतया पराभिप्रायस्य निश्चयेऽनुमानप्रमाणमनिच्छतोऽपि तस्य बलादापत्ति-
तम् । तथा हि । मद्बचनश्रवणाऽभिप्रायवानर्थं पुरुषस्तादृग्मुखप्रसादादिचेष्टाऽन्यथाऽनुपपत्तेरिति । अतश्च हहा
प्रमादः । हहा इति खेदे । अहो तस्य प्रमादः प्रमत्तता, यदनुभूयमानमन्यनुमानं प्रत्यक्षमात्राङ्गीकारेणापन्हते ।

दूसरोंको विश्वास करानेकेलिये ही वचन कहा जाता है । जिस अभिप्रायको दूसरे जानना चाहते हैं उसको न समझकर अन्य अर्थको जब यह नास्तिक सिद्ध करने लगेगा तब उन्मत्तके वचनके समान इसके वचनका निरादर ही होगा; न कि प्रशंसा । अर्थात् इसलिये चुप रहना ही अच्छा है । यहांपर नास्तिक कहता है कि मुझे चुप क्यों रहना चाहिये ? क्योंकि; प्रतिपादन करने-
योग्य वादीके अभिप्रायको चेष्टादिके द्वारा समझकर सहज ही उसके विषयमें युक्तिसंगत बोलसकता हूं । नास्तिककी यह शंका सुनकर आचार्य उत्तर देते हैं कि; कहां तो चेष्टा देखकर अभिप्राय समझलेना और कहां केवल प्रत्यक्षसे देखना । (केवल प्रत्यक्षसे देखलेना “दृष्टमात्र” शब्दका अर्थ है । दृष्ट नाम देखनेका है । यहांपर ‘दृष्ट’ शब्दमें भाववाचक प्रत्यय किया गया है ।) अर्थात् सामान्य रीतिसे इंद्रियोंद्वारा देखलेना और चेष्टा देखकर अभिप्राय समझलेना इन दोनोंमें बड़ा अंतर है । चेष्टा तो परके आंतरंग अभिप्रायका अनुमान करानेमें हेतु होती है और जो केवल किसी प्रत्यक्ष वस्तुका देखना है वह हेतुके विना सहज ही होसकता है इसलिये इन दोनों ज्ञानोंमें बड़ा भारी अंतर है । यहांपर ‘क’ शब्द रखनेसे दोनों ज्ञानोंमें बड़ा भारी अंतर दिखाया गया है । दूसरे वादियोंके मानसिक विचारोका जो कि अन्य जनोकी इंद्रियोंके गोचर नहीं है जान लेना प्रत्यक्ष ज्ञानसे नहीं

होसकता है। क्योंकि, प्रत्यक्षसे वही पदार्थ जाना जासकता है जो इंद्रियगोचर हो। यदि मुखकी प्रसन्नता आदिक चेष्टाके द्वारा दूसरोका विचार समझा जाता हो तो नहीं चाहते हुए भी नास्तिकको अनुमानप्रमाण स्वीकारना पड़ेगा। क्योंकि; चेष्टा एक प्रकारका हेतु अथवा चिन्ह है। चिन्हको देखनेसे जो ज्ञान उपजता है उसीको अनुमान ज्ञान कहते हैं। चेष्टा देखकर जाना हुआ पदार्थज्ञान यदि वचन द्वारा कहा जाय तो अनुमान ही प्रतीत होता है। जैसे—नास्तिक विचार करता है कि; मेरे वचनको यह वादी अवश्य सुनना चाहता है। क्योंकि, यदि नहीं चाहता होता तो इस वादीके मुखकी चेष्टा ऐसी न होती। अर्थात्—यह अनुमान लिखनेसे यह कहना स्पष्ट होता है कि जो चेष्टा देखनेसे अभिप्राय समझा जाता है वह अनुमान ही है। इसलिये हहा अर्थात् बड़े खेदकी बात है कि नास्तिकका यह बड़ा प्रमाद है जो अनुमान प्रमाणका अनुभव करते हुए भी केवल प्रत्यक्षको ही प्रमाण मानकर अनुमानको स्वीकार नहीं करता है।

अत्र च संपूर्वस्य वेत्तेरकर्मकत्वे एवात्मनेपदम् । अत्र तु कर्मास्ति । तत्कथमत्रानश? अत्रोच्यते । अत्र संवेदितुं शक्तः संविदान इति कार्यं “ वयःशक्तिशैले ” इति शक्तौ शानविधानात् । ततश्चायमर्थोऽनुमानेन विना पराभिसंहितं सम्यग्वेदितुमशक्तस्येति । एवं परबुद्धिज्ञानाऽन्यथाऽनुपपत्त्याऽयमनुमानं हठादङ्गीकारितः ।

‘ संविदानस्य ’ ऐसा शब्द जो स्तुतिकर्ताने बोला है वह ‘ सं’ पूर्वक विद धातुके आगे आनश् प्रत्यय होनेपर बनता है और यह आनश् प्रत्यय आत्मनेपद होनेपर ही होसकता है। संपूर्वक विद धातु यदि अकर्मक हो तभी व्याकरणमें आत्मनेपदी करनेकी आज्ञा है। क्रियाके द्वारा प्राप्त होनेवाले भावको कर्म कहते हैं। जैसे अमुक मनुष्य दूध पीता है। यहांपर पीनेरूप क्रियाके द्वारा प्राप्त होनेवाला दूध है इसलिये दूध ही कर्म है। इसी प्रकारसे जो धातु किसी कर्मका संबंध रखता हो वह सकर्मक कहा जाता है। जिस धातुका कोई कर्म संभव नहीं होता वह अकर्मक कहाता है। संविद धातुका इस श्लोकमें जब ‘पराभिसन्धिम्’ अर्थात् दूसरोके अभिप्रायको ऐसा कर्म विद्यमान है तब संविद धातुके आगे आनश् प्रत्यय किस प्रकार होसकता है? और यदि आनश् प्रत्यय नहीं किया जायगा तो ‘ संविदानस्य ’ यह शब्द किस प्रकार वनेगा? इसका उत्तर।—यहांपर इस शब्दको इस प्रकार बनाना चाहिये कि जो ‘संवेदितुं’ अर्थात् जाननेकलिये समर्थ हो वह संविदान है। यहांपर “वयःशक्तिशैले” इस सूत्रकर सामर्थ्य अर्थमें शान प्रत्यय करनेसे संविदान शब्द बनसकता है। अर्थात् इस सूत्रकर शान प्रत्यय करनेमें अकर्मक धातुके आगे

ही हो ऐसा नियम नहीं है । सामर्थ्य अर्थमे सिद्ध होनेके कारण संविदान शब्दका ऐसा अर्थ करना चाहिये कि अनुमानके बिना वह नास्तिक दूसरोंके अभिप्रायोंको भलेप्रकार समझनेमें असमर्थ है । इस प्रकार वह नास्तिक अनुमान प्रमाण जवत्तक स्वीकार न करे तवत्तक दूसरोंके अभिप्राय जानना दुर्लभ है । इस प्रकार बिना इच्छा भी इसको अनुमान प्रमाण स्वीकार कराया ।

तथा प्रकारान्तरेणाध्ययमङ्गीकारयितव्यः । तथा हि । चार्वाकः काश्चित् ज्ञानव्यक्तीः संवादित्वेनाऽव्यभिचारिणीरुपलभ्यान्याश्च विसंवादित्वेन व्यभिचारिणीः, पुनः कालान्तरे तादृशीतराणां ज्ञानव्यक्तीनामवश्यं प्रमाणेतरते व्यवस्थापयेत् । न च सन्निहितार्थवलेनोत्पद्यमानं पूर्वापरपरामर्शश्चून्यं प्रत्यक्षं पूर्वापरकालभाविनीनां ज्ञानव्यक्तीनां प्रामाण्याप्रामाण्यव्यवस्थापकं निमित्तमुपलक्षयितुं क्षमते । न चायं स्वप्रतीतिगोचराणामपि ज्ञानव्यक्तीनां परं प्रति प्रामाण्यमप्रामाण्यं वा व्यवस्थापयितुं प्रभवति । तस्माद्यथादृष्टज्ञानव्यक्तिसाधर्म्यद्वारेणेदानीन्तनज्ञानव्यक्तीनां प्रामाण्याऽप्रामाण्यव्यवस्थापकं परप्रतिपादकं च प्रमाणान्तरमनुमानरूपमुपासीत । परलोकादिनिषेधश्च न प्रत्यक्षमात्रेण शक्यः कर्तुं सनिहितमात्रविषयत्वात्तस्य । परलोकादिकं चाप्रतिपिध्य नायं सुखमास्ते । प्रमाणान्तरं च नेच्छतीति डिम्भहेवाकः ।

अब प्रकारांतरसे भी चार्वाकको अनुमानादि प्रमाण अगीकार करते है । चार्वाक किसी समय कुछ ज्ञानोको सत्य होनेके कारण प्रमाणभूत मानकर तथा जो ज्ञान झूठे थे उनको अप्रमाणभूत मानकर फिर कभी दूसरे समय जब पूर्ववत् सत्य असत्य ज्ञानोको देखता होगा तब उनको अवश्य ही पहिलेकी तरह प्रमाणभूत या अप्रमाणभूत ठहराता होगा । परंतु जिसमें पूर्वापर अवस्थाओंका संमेलनरूप ज्ञान होना असंभव है किंतु जो केवल वर्तमान कालवर्ती विषयको ही जानसकता है ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञानसे पूर्वापर कालवर्ती प्रमाण किंवा अप्रमाणरूप ज्ञानोंमें प्रमाणताका तथा अप्रमाणताका निश्चय ठहराना अशक्य है । भावार्थ—पहिलेके ज्ञानसदृश इस वर्तमान ज्ञानको देखकर प्रमाण किंवा अप्रमाण ठहराना केवल प्रत्यक्ष ज्ञानका कार्य नहीं है । क्योंकि; पहिले सरीखा ही यह है इत्यादि पूर्वोत्तर विषयोंका जोड़रूप ज्ञान होना प्रत्यक्षका कार्य नहीं है; प्रत्यक्ष केवल वर्तमान कालके विषयको ही जानसकता है कि यह है इत्यादि । जो पूर्वोत्तर समयवर्ती दो पदार्थोंका मिला हुआ ज्ञान होता है वह ज्ञान भिन्न ही है । उसको प्रत्यक्ष नहीं कहसकते हैं । इसीलिये वह जुदा ही प्रमाण मानना पडता है । तथा यह नास्तिक चार्वाक उन

ज्ञानोको अपनी प्रतीतिके गोचर होनेपर भी दूसरोंके सन्मुख उन ज्ञानोकी प्रमाणता तथा अप्रमाणताका प्रतिपादन केवल प्रत्यक्ष द्वारा नहीं करसकता है। इसलिये अपने वर्तमान ज्ञानोंमें पहिले ज्ञानोकी समानताका स्मरण करनेसे जिस प्रमाणके द्वारा अपने आपको उन ज्ञानोंमें प्रमाणता अप्रमाणताका निश्चय होसके तथा दूसरोंके प्रति भी जिसके द्वारा उन ज्ञानोकी प्रमाणता अप्रमाणताका निश्चय करासके ऐसा प्रत्यक्षके अतिरिक्त एक दूसरा ही प्रमाणज्ञान स्वीकार करना चाहिये। और जो ऐसा ज्ञान स्वीकार किया जायगा वह पूर्वोत्तरकी समानता देखकर समानताके द्वारा 'यह ज्ञान पूर्ववत् प्रमाण अथवा अप्रमाण है' इस प्रकारका होगा। ऐसा ज्ञान करनेमें मूल कारण पूर्वोत्तर समयवर्ती ज्ञानोकी समानताका विचार होना ही है और इसलिये हम ऐसे ज्ञानको जो वर्तमान ज्ञानमें पूर्वोत्तरकी समानताके विचारबलद्वारा प्रमाणता अप्रमाणता ठहरा सकता है; अनुमान ही कहेंगे। क्योंकि; अविनाभावी हेतुके दीखनेसे जो अप्रकट वस्तुका अंदाज होजाता है उसीको अनुमान कहते हैं। यहांपर भी पूर्वोत्तर ज्ञानोकी समानताके विचाररूप हेतुके द्वारा प्रमाणता अप्रमाणता रूप अप्रकट विषयका निश्चय किया जाता है इसलिये ऐसे ज्ञानको अनुमान ही कहसकते हैं। इस प्रकार चार्वाकको यह अनुमान प्रमाण भी स्वीकार करना पड़ता है।

परलोकादिकोका जो चार्वाक निषेध करता है वह भी प्रत्यक्ष प्रमाणमात्रसे होना असंभव है। क्योंकि; समीपमें विद्यमान रक्खे हुए पदार्थको ही प्रत्यक्ष समझ सकता है। जो वस्तु परोक्ष है उसको प्रत्यक्ष नहीं जान सकता है। और जबतक यह नास्तिक परलोकादिकका निषेध न करलेगा तबतक इसको चैन पड़ना दुर्लभ है। परंतु जिन अनुमानादिक प्रमाणोंसे निषेध हो सकता है उनको यह स्वीकार नहीं करता है इसलिये इसका विचार बच्चेकीसी चेष्टा है।

किं च प्रत्यक्षस्याप्यर्थोऽव्यभिचारादेव प्रामाण्यम् । कथमितरथा स्नानपानाऽवगाहनाद्यर्थक्रियाऽसमर्थं मरु-
मरीचिकानिचयचुम्बिनि जलज्ञाने न प्रामाण्यम् ? तच्चार्यप्रतिबद्धलिङ्गशब्दद्वारा समुन्मज्जतोरनुमानागमयोरप्य-
र्थोऽव्यभिचारादेव किं नेष्यते ? व्यभिचारिणोरप्यनयोर्दर्शनादप्रामाण्यमिति चेत् प्रत्यक्षस्यापि तिमिरादिदोषा-
न्निशीथिनीनाथयुगलावलम्बिनोऽप्रमाणस्य दर्शनात् सर्वत्राऽप्रामाण्यप्रसङ्गः । प्रत्यक्षाभासं तदिति चेदितरत्रापि
तुल्यमेतदन्यत्र पक्षपातात् । एवं च प्रत्यक्षमात्रेण वस्तुव्यवस्थाऽनुपपत्तेस्तन्मूला जीवपुण्याऽपुण्यपरलोकनिषेधा-
दिवादा अप्रमाणमेव ।

और यह यदि प्रत्यक्षको प्रमाण मानसकता है तो उसी स्थानपर कि जहां प्रत्यक्षसे देखा हुआ विषय झूठा न हो। यदि इस प्रकारसे प्रत्यक्षको प्रमाण न मानता हो तो जिससे खान, पीना, गोते लगाना आदिक प्रयोजन नहीं सधसकते हैं ऐसी मृगतृष्णामें जो जलका ज्ञान होजाता है उसको भी प्रमाण क्यों नहीं मानता है? भावार्थ—इससे यह स्पष्ट है कि सत्य पदार्थका जतानेवाला होनेसे ही प्रत्यक्ष ज्ञानको चार्वाकने प्रमाण माना है। और जब ऐसा है तो इष्ट पदार्थके विना न रहनेवाले हेतुके द्वारा उत्पन्न अनुमानको तथा सत्य विषय कहनेवाले शब्दोंके द्वारा उत्पन्न हुए आगमज्ञानको भी प्रमाण क्यों नहीं मानना चाहिये? अर्थात्—अवश्य मानना चाहिये। क्योंकि इनसे भी निश्चित किया हुआ विषय प्रत्यक्षके समान ही सच्चा होता है। और यदि कहीं कि, अनुमान तथा आगम कहीं कहींपर झूठे भी दीखते हैं इसलिये ये दोनो प्रमाण नहीं है तो हम पूछते हैं कि; क्या प्रत्यक्ष कहीं भी झूठा नहीं होता? प्रत्यक्षसे भी जिसके तिमिरादि नेत्ररोग होजाता है उसको एक चंद्रमाके दो दीखते हैं इसलिये उसका प्रत्यक्ष अप्रमाण देखकर संपूर्ण प्रत्यक्षोंको अप्रमाण कहना पड़ेगा। और जो कहीं कि; वह प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष ही नहीं है किंतु प्रत्यक्षाभास है और हम प्रमाण मानते हैं सो तो प्रत्यक्षको मानते हैं इसलिये नेत्ररोगादिके कारण एक चंद्रमाके दो दीखनेवाले ज्ञानसे हमारे मंतव्यमें कुछ वाधा नहीं है तो इसी प्रकार यदि पक्षपात कुछ नहीं है तो अनुमान तथा आगम भी जब झूठे होते है तब वे अनुमानाभास तथा आगमाभास है और जब सच्चे होते हैं तब वे ही प्रमाण है ऐसा मानलेना चाहिये। इस प्रकार जब वस्तुओंकी व्यवस्था केवल प्रत्यक्षसे होना असंभव है तब जो चार्वाकने प्रत्यक्षमात्रसे ही जीव, पुण्य, पाप, तथा परलोकादिकोंका निषेध किया है वह निषेध करना मिथ्या ठहरता है। क्योंकि; जो वस्तु प्रत्यक्षके गोचर ही नहीं है उनका प्रत्यक्षसे न दीखनेके कारण निषेध करना बड़ी भारी मूर्खता है।

एवं नास्तिकाभिमतो भूतचिद्वादोऽपि निराकार्यः। तथा च द्रव्यालङ्कारकार उपयोगवर्णने “ न चार्थं भूतधर्मः सत्त्वकठिनत्वादिवन्मद्याङ्गेषु भ्रम्यादिमदशक्तिवद्वा प्रत्येकमनुपलम्भात्। अनभिव्यक्तावात्मसिद्धिः”।

इसी प्रकार नास्तिकोंने जो प्रत्यक्षसे आत्मद्रव्य न दीखनेके कारण पृथिवी जल वायु अग्नि तथा आकाश इन पांचो भूतोंके एकत्रित होनेसे ही चैतन्यका उत्पन्न होना मानलिया है वह भी असत्य है ऐसा दिखाते है। द्रव्यालङ्कारके कर्तानि भी चैतनाका वर्णन करते समय यही कहा है कि “यह चैतन्य पृथिव्यादि पांच भूतोंका विकार नहीं है। क्योंकि; जो पांचो भूतोंके धर्म

होते हैं वे प्रत्यक्ष अनुभवमें आते हैं। जैसे पृथिव्यादिकोकी सत्ता (अस्तित्व), कठिनता शीतउष्णादिक स्पर्श तथा छोटापन बड़ापन आदिक धर्म प्रत्यक्ष दीखते हैं तथा मदिराकी शक्ति भी चकर आजानेपर स्पष्ट दीखती है। इसी प्रकार यदि चैतन्य भी पृथिव्यादिकोंका धर्म होता तो किसी न किसीमें अवश्य दीखता परंतु किसीमें भी नहीं दीखता है। यदि कहों कि यह चैतन्य धर्म छुपा रहता है तो हम कहते हैं कि जिसके आश्रय वह छुपा है वही आत्मा है।

कायाकारपरिणतेभ्यस्तेभ्यः स उत्पद्यते इतिचेत्कायपरिणामोऽपि तन्मात्रभावी न कादाचित्कः। अन्यस्त्वान्मैव स्यात्। अहेतुत्वे न देशादिनियमः। मृतादपि च स्यात्। शोणिताद्युपाधिः सुप्तादावप्यस्ति, न च सतस्तस्योत्पत्तिः; भूयोभूयःप्रसङ्गात्। अलब्धात्मनश्च प्रसिद्धमर्थक्रियाकारित्वं विरुध्यते। असतः सकलशक्तिकिकलस्य कथमुत्पत्तौ कर्तृत्वमन्यस्यापि प्रसङ्गात्। तन्न भूतकार्यमुपयोगः।

यदि कहों कि जब पृथिव्यादिक शरीररूप परिणमते है तभी उनमें चैतन्य उत्पन्न हो जाता है तों हम पूछते हैं कि कायका परिणमन यदि पृथिव्यादिकोंके मिलनेसे ही होजाता हो तो सदा क्यों नहीं रहता है? कभी कभी क्यों होता है? यदि पृथिव्यादिकोंके अतिरिक्त कोई और भी कारण है तो वह आत्मा ही है। अथवा—यदि कहों कि कायाकार परिणत होनेसे पृथिव्यादिक भूतोंमें चैतन्यकी उत्पत्ति होजाती है तो हम पूछते है कि; यदि चेतनाकी उत्पत्ति होनेमें भूतोंका कायरूप परिणमन होना ही कारण है तो कायरूप परिणाम मृतक होनेपर भी विद्यमान है परंतु उसमें चैतन्यका आविर्भाव क्यों नहीं होता है? यदि और भी कुछ कारण मानते हों तो वह आत्मा ही है। यदि चैतन्य उत्पन्न होनेका आत्मरूप एक विशेष कारण न हो तो किसी स्थानमें ज्ञान होता है और किसीमें नहीं ऐसा नियम नहीं होसकैगा तथा मृतक शरीरसे भी ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा। यदि कहों कि जबतक शरीरमें रक्तस्राव रहता है तभी तक ज्ञान होसकता है तो हम पूछते हैं कि मुद्में तो रक्तस्राव क्षीण होजाता है परंतु सोते हुऐके रक्तस्राव बना रहनेपर भी ज्ञान क्यों नहीं होता? और भी एक दोष यह है कि यदि आत्मा न माने तो जो क्रिया आत्माके बिना किसीसे हो नही सकती है ऐसी प्रश्नोत्तर आदिक क्रिया नहीं होनी चाहिये। जिसमें कोई भी शक्ति नहीं रहसकती ऐसा सकलसामर्थ्यशून्य अभावरूप पदार्थ किसी भी कार्यकी उत्पत्तिका कर्ता नहीं होसकता है। यदि अभाव

भी चैतन्यरूप कार्य की उत्पत्तिका कर्ता हो तो गधेके सींग भी उसके कर्ता होने चाहिये । इसलिये चैतन्यकी उत्पत्ति पृथिव्या-दिकीसे नहीं होसकती है ।

साक्षादग्ने.

॥१६६॥

कुतस्तर्हि सुप्तोत्थितस्य तदुदयः? असंवेदनेन चैतन्यस्याऽभावात् । न; जाग्रदवस्थाऽनुभूतस्य स्मरणात् । असंवे-
दनं तु निद्रोपघातात् । कथं तर्हि कायविकृतौ चैतन्यविकृतिः? नैकान्तः; श्वित्रादिना कश्मलवपुयोऽपि बुद्धिशुद्धेः;
अधिकारे च भावनाविशेषतः प्रीत्यादिभेददर्शनात् शोकादिना बुद्धिविकृतौ कायविकाराऽदर्शनाच्च । परिणामिना
विना च न कार्योत्पत्तिः । न च भूतान्येव तथा परिणमन्ते; विजातीयत्वात् काठिन्यादेरनुपलम्भात् ।

शंका—पृथिव्यादि भूतोसे चैतन्यकी उत्पत्ति न मानकर आत्मासे ही माननेपर भी जो जीव सोतेसे उठता है उसके फिरसे चैतन्यकी उत्पत्ति कहाँसे होगी? क्योंकि; पूर्व चैतन्यका तो सोते समय नाश हो चुकता है । और यह ऊपर उमने ही कहा है कि; जिसमें जिस शक्तिका अभाव है उसमें उसकी उत्पत्ति उपादान कारण विना कदापि नहीं होसकती है । उत्तर—यह चार्वाककी शंका ठीक नहीं है । क्योंकि; जों जाग्रत अवस्थामे अनुभव किया था उसीका सोतेसे उठनेपर स्मरण होता है । सोते समय भी चैतन्य शक्तिका नाश नहीं होजाता है किंतु निद्राके तीव्र उदयसे उस चैतन्यका आच्छादन होजाता है । कदाचित् शंका हो कि; कायका ह्रास होनेके साथ चैतन्यका भी ह्रास क्यों होता है? परंतु यह शंका उचित नहीं है । क्योंकि; ऐसा ही सर्वथा नियम नहीं है कि; कायमें विकार हो तो बुद्धिमें भी विकार होता ही हो । जिसके श्वेत कोठ होता है उसकी भी बुद्धि स्वच्छ देखी जाती है । और जहां कायमें विकार कुछ होता ही नहीं है तहां भी जिसमें बड़ा रागथा उसमेंसे वैराग्य आदिक भावना भानेपर बुद्धि विरक्त होते दीखती है तथा जिसमें पहिले द्वेष था उसमें प्रीति होते दीखती है । इसी प्रकार शोकादिके कारण बुद्धि तो मलिन होते दीखती है परंतु शरीरमें कुछ अंतर पड़ता ही नहीं है । इस प्रकार शरीरके साथ तो ज्ञानका अन्यव्यतिरेक बनता नहीं है परंतु जो परिणाम होता है वह किसी न किसी परिणामीका आलंबन लिये विना निहेंतुक नहीं हो सकता है इसलिये ज्ञानरूप परिणामका मूल आधार कोई दूसरी वस्तु है अवश्य । और पृथिव्यादिकोका चैतन्यरूप परिणमन होना मानना ठीक नहीं है । क्योंकि; पृथिव्यादिक जड़ जातिके है और ज्ञान जड़से उलटा चैतन्य जातिका है । विजातीयसे विजातीयकी उत्पत्ति कभी

होती नहीं है। और यदि चैतन्य धर्म पृथिव्यादिकोका परिणाम रूप हो तो उसके साथ साथ कठोरता आदिक धर्म भी जो पृथिव्यादिकोंके हैं मिलने चाहिये परंतु चैतन्यके साथ साथ कठिनतादि धर्म कहीं नहीं मिलते हैं।

अणव एवेन्द्रियग्राह्यत्वरूपां स्थूलतां प्रतिपद्यन्ते तज्जात्यादि चोपलभ्यते। तन्न भूतानां धर्मः फलं वा उपयोगः। तथा भवांश्च यदाक्षिपति तदस्य लक्षणम्। स चात्मा स्वसंविदितः। भूतानां तथाभावे वहिर्मुखं स्याद्गैरोऽहमित्यादि तु नान्तर्मुखं; बाह्यकरणजन्यत्वात्। अनभ्युपगतानुमानप्रमाणस्य चात्मनिर्भेधोऽपि दुर्लभः। धर्मः फलं च भूतानामुपयोगो भवेद्यदि। प्रत्येकमुपलभः स्यादुत्पादो वा विलक्षणात्। १। इति काव्यार्थः।

जो प्रथम अणुरूप पुद्गल होते है वे ही कभी निमित्त पाकर इंद्रियोंके विषयभूत होनेयोग्य स्थूलपना धारण करलेते हैं परंतु जाति जो अणुअवस्थामें थी, स्थूल होनेपर भी वही दीखती है, जातिमें भेद नहीं होता है। उपयोग तो पुद्गलसे एक भिन्न ही जातिका है इसलिये पृथिव्यादि भूतोंसे उपयोगकी उत्पत्ति नहीं होसकती है। और आप जिस ज्ञानका आक्षेप करते हैं वही आत्माका चिन्ह है। और वह आत्मा अपने अपने ही अनुभवसे जान पड़ता है। और जो भूतोंसे इसकी उत्पत्ति हो तो भै गौरवर्ण हूं इत्यादि प्रतीति अंतरंगकी तरफ ही क्यों होती है? बाहिरकी तरफ ही होनी चाहिये। क्योंकि; गौरादिकका ज्ञान बाह्य इंद्रियोंसे ही होता है। और जो अनुमानको प्रमाण ही नहीं मानता है वह अरूपी पदार्थका निषेध भी कैसे करसकता है। “उपयोग यदि भूतोंका ही धर्म अथवा कार्य हो तो प्रत्येकको उसका अनुभव होना चाहिये तथा विजातीय पदार्थसे भी विजातीयकी उत्पत्ति होनी चाहिये परंतु ऐसा होता नहीं है।” ऐसा कहा भी है। इस प्रकार इस काव्यका अर्थ पूर्ण हुआ।

एवमुक्त्युक्तिभिरैकान्तवादप्रतिक्षेपमाख्याय साम्प्रतमनाद्यऽविद्यावासनाप्रवासितसन्मतयः प्रत्यक्षोपलक्ष्यमाणमप्यनेकान्तवादं येवमन्यन्ते तेषामुन्मत्ततामविर्भावयन्नाह।

यहां पर्यंत नाना प्रकारकी युक्तियां कहकर एकांत पक्षोका खंडन किया। अब यह दिखाते हैं कि; अनादिकालसे साथ लगे हुए अज्ञान और मोहके वश होकर जिन जीवोंने अपनी बुद्धि दुराग्रहसे मलिन कररक्खी है वे अनेकांतवादको प्रत्यक्षसे देखते हुए भी अंगीकार नहीं करते हैं इसलिये वे उन्मत्त हो रहे हैं।

प्रतिक्षणोत्पादविनाशयोगिस्थिरैकमध्यक्षमपीक्षमाणः ।

जिन ! त्वदाज्ञामवमन्यते यः स वातकी नाथ पिशाचकी वा ॥ २१ ॥

मूलार्थ-हे जिनेंद्र प्रभो ! प्रतिसमय उत्पन्न होते तथा नष्ट होते तथा द्रव्यत्वकी अपेक्षा सदा स्थिर रहते हुए वस्तुओंको प्रत्यक्ष देखता हुआ भी जो इसी प्रकारका जिसमें उपदेश किया गया है ऐसे आपके शासनको अंगीकार नहीं करता है वह या तो पागल है अथवा किसी भूतने उसको घेरलिया है ।

व्याख्या-प्रतिक्षणं प्रतिसमयमुत्पादेनोत्तराकारस्वीकाररूपेण विनाशेन च पूर्वाकारपरिहारलक्षणेन युज्यत इत्येवंशीलं प्रतिक्षणोत्पादविनाशयोगि । किं तत् ? स्थिरैकं कर्मतापन्नम् । स्थिरमुत्पादविनाशयोरनुयायित्वात् त्रिकालवर्ति यदेकं द्रव्यं स्थिरैकम् । एकशब्दोत्र साधारणवाची । उत्पादे विनाशे च तत्साधारणमन्वयिद्रव्यत्वात् । यथा चैत्रमैत्रयोरेका जननी साधारणेत्यर्थः । इत्थमेव हि तयोरेकाधिकरणताः पर्यायाणां कथंचिदनेकत्वेऽपि तस्य कथंचिदेकत्वात् । एवं त्रयात्मकं वस्तु अध्यक्षमपीक्षमाणः प्रत्यक्षमवलोकयन्नपि हे जिन रागादिजैत्र ! त्वदाज्ञां (आ सामस्येनानन्तधर्मविशिष्टतया ज्ञायन्तेऽवबुद्ध्यन्ते जीवादयः पदार्था यथा सा आज्ञा आगमः शासनम् । तवाज्ञा त्वदाज्ञा तां त्वदाज्ञां) भवत्सणीतस्याद्वादमुद्रां यः कश्चिदविवेकी अवमन्यतेऽवजानाति (जाल्यपेक्षमेकवचनमवज्ञया वा) स पुरुषपशुर्वातकी पिशाचकी वा । वातो रोगविशेषोऽस्यास्तीति वातकी । वातकीव वातकी । वातूल इत्यर्थः । एवं पिशाचकीव पिशाचकी । भूताविष्ट इत्यर्थः । अत्र वाशब्दः समुच्चयार्थं उपमानार्थो वा । स पुरुषापशदो वातकिपिशाचकिभ्यामधिरोहति तुलामित्यर्थः ।

व्याख्यार्थ-प्रत्येक समय उत्पादमें अर्थात् उत्तर कालवर्ती पर्यायके धारण करनेमें तथा विनाशमें अर्थात् पहिले पर्यायके विनाश होनेमें जो संयुक्त रहता हो उसको प्रतिक्षणोत्पादविनाशयोगि कहते हैं । ऐसी क्या चीज ? स्थिरैक । अर्थात् स्थिर नाम सदा उत्पत्ति और विनाशमें साथ रहनेवाला ऐसा जो एक अर्थात् द्रव्य है वह स्थिरैक कहाता है । यहाँपर एक शब्दका अर्थ साधारण है । उत्पत्ति तथा विनाशमें द्रव्य सदा एक ही बना रहता है । जैसे चैत्र और मैत्रकी एक ही माता है अर्थात् जो माता चैत्रकी है

वही मैत्रकी है। इसी प्रकार उत्पत्ति तथा विनाश जिसके होते हैं वह वस्तु सदा एक ही है। अर्थात् पर्याय तो परस्परमें कथंचित् भिन्न हैं परंतु उन संपूर्ण पर्यायोका आश्रय द्रव्य कथंचित् एक ही है। भावार्थ—उत्पत्ति तथा विनाशरूप पर्यायोकी अपेक्षा यद्यपि प्रत्येक द्रव्य उत्पत्ति विनाश सहित है तो भी वे उत्पत्ति विनाश ऐसे नहीं होते हैं कि; जिसका नाश हो उसका सर्वथा नाश ही होजाय; कुछ वचै ही नहीं; तथा जिसकी उत्पत्ति जड़के विना ही होजाय। किंतु जो उत्पत्ति और नाश होते हैं वे ऐसे ही होते हैं जिनसे एक अवस्थासे द्रव्यकी दूसरी तीसरी आदिक अवस्था बदलती जाती है। इसीलिये प्रत्येक द्रव्यमें उत्पत्ति विनाशरूप धर्म होकर भी स्थिरपना एक ऐसा धर्म है जिसके बलसे द्रव्य सदा ही किसी न किसी अवस्थामें विद्यमान बना रहता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय श्रौव्य इन तीनों धर्मों कर सदा सहित है। और हे जिन! अर्थात् रागादि दोषोंके नाश करनेवाले भगवन्! इसी प्रकारसे वस्तुका प्रत्यक्ष अवलोकन करता हुआ भी जो कोई अविवेकी आपकी उपदेशी हुई स्थाद्धारूप आज्ञाकी अवहेलना करता है वह मनुष्याकारधारी पशु या तो वातकी है अथवा पिशाचकर दवाया हुआ है। यहांपर आपकी आज्ञा ऐसा अर्थ त्वदाज्ञा शब्दका होता है। 'आ' नाम पूर्णरूपसे अर्थात् वस्तुके जितने धर्म हैं उन संपूर्ण धर्मों सहित जीवादि पदार्थ जिसके द्वारा 'ज्ञान्ते' नाम जाने जाते हैं उसको आज्ञा कहते हैं। आगम, शासन उपदेशादि भी आज्ञाको ही कहते हैं। आपकी जो आज्ञा है उसको त्वदाज्ञा कहते हैं। यद्यपि अवज्ञा करनेवाले बहुत है तो भी जो 'जो कोई' ऐसा एक कोई ही ग्रहण किया है सो यह एकवचन अवज्ञा करनेवालेके समूह की अपेक्षासे कहा है अथवा तिरस्कारकी दृष्टिसे एकवचन कहा है। जिसको बक बादका रोग होजाता है उसको वातकी अथवा वातुल कहते हैं। वह विना परीक्षा किये ही कुछ न कुछ बका करता है। जो अविवेकी आपके वचनोकी अवज्ञा करता है वह भी वातुलके समान ही है इसलिये उसको भी वातकी कहा है। इसी प्रकार पिशाचकी भी उसको कहते हैं जिसको पिशाच दवालेता है अर्थात् जो भूतोंकर घिरा हुआ हो। पिशाचोंकर घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार विना विचार ही कुछ न कुछ प्रलाप करता है उसी प्रकार आपके वचनोकी अवज्ञा करनेवाला भी पिशाचकीके समान बुरे भलेका कुछ विचार न करता हुआ आपकी अवज्ञा करता है इसलिये पिशाचकीके समान ही है। इस स्तोत्रमें जो 'वा' शब्द पड़ा है उसका अर्थ या तो समुच्चय करना है अथवा उपमान है। अर्थात् वातकी शब्दका अर्थ वायल और पिशाचकी शब्दका अर्थ पिशाचोंकर घिरा हुआ होता है परंतु यहांपर वायलके

समान तथा भूत पिशाचोंकर घिरे हुएके समान वह है ऐसा समानपना दिखानेवाला अर्थ 'वा' शब्दका होता है। अर्थात् वह अधम पुरुष वातकी तथा पिशाचकीकी समानता रखता है।

“ वातातीसारपिशाचात्कश्चान्तः ” इत्यनेन मत्वर्थयिः कश्चान्तः। एवं पिशाचकीत्यपि। यथा किल वातेन पिशाचेन वाक्रान्तवपुर्वस्तुत्त्वं साक्षात्कुर्वन्नपि तदावेशशशादन्यथा प्रतिपद्यते एवमयमन्येकान्तवादापस्मार-परवश इति।

“ वाताऽतीसारपिशाचात्कश्चान्तः ” इस व्याकरणके सूत्रकर वात शब्दसे तथा पिशाच शब्दसे 'वात अथवा पिशाच जिसको लगा हो' ऐसे मत्वर्थमें इन् प्रत्यय तथा उस प्रत्ययके पहिले उस शब्दके अंतमें क प्रत्यय होकर वातकी पिशाचकी शब्द बनते हैं। जिस प्रकार वातकर अथवा भूतपिशाचोंकर घिरा हुआ मनुष्य प्रत्येक चीजको प्रत्यक्ष देखता हुआ भी वात अथवा भूतपिशाचोंके वश होकर कुछ अन्यथा ही समझता तथा बकने लगता है उसी प्रकार आपका निंदक भी एकांतवादरूपी मृगीरोगके अथवा भूत पिशाचोंके परवश होनेसे कुछ अन्यथा ही मानता तथा बकता है।

अत्र च जिनेति साभिप्रायम्। रागादिजेतृत्वाद्धि जिनः। ततश्च यः किल विगलितदोषकालुष्यतयाऽवधेय-वचनस्यापि तत्रभवतः शासनमवमन्यते तस्य कथं नोन्मत्ततेति भावः। नाथ हे स्वामिन्। अलब्धस्य सम्य-ग्दर्शनादर्लम्भकतया लब्धस्य च तस्यैव निरतिचारपरिपालनोपदेशदायितया च योगक्षेमकरत्वोपपत्तेर्नाथः। तस्यामन्त्वणम्।

इस स्तोत्रमें जो संबोधनवाचक जिनशब्द कहा है वह कुछ विशेष प्रयोजनकेलिये है। रागादि दोषोंको जीतनेसे जिन कहते हैं। रागादि दोष नष्ट होजानेसे झूठ बोलना आदिक दोष आपके नष्ट होगये है और इसीलिये आप पूज्य है तथा आपके वचन आदरणीय हैं। ऐसे आपके पथ्यरूप शासनका जो तिरस्कार करता है वह उन्मत्त नहीं है तो कैसा है? ऐसा भावार्थ है। नाथ अर्थात् हे स्वामिन्! ऐसा शब्द इसलिये रक्खा है कि नहीं प्राप्त हुए सम्यग्दर्शनादिरूपी तीन रत्नोंको देनेवाले तथा जिसको प्राप्त हो चुके हैं उसको अतीचार रहित पालन करनेका उपदेश देनेवाले होनेसे आप सुखशान्तिके दाता है और इसीलिये आपको नाथ कहते हैं। प्रार्थना करते समय आपको पुकारनेमें हे नाथ! ऐसा कहा है।

वस्तुतत्त्वं चोत्पादव्ययध्रौव्यात्मकम् । तथा हि । सर्वं वस्तु द्रव्यात्मना नोत्पद्यते विपद्यते वा; परिस्फुटमन्व-
यदर्शनात् । लूनपुनर्जातनखादिष्वन्वयदर्शनेन व्यभिचार इति न वाच्यं; प्रमाणेन बाध्यमानस्याऽन्वयस्याऽपरि-
स्फुटत्वात् । न च प्रस्तुतोऽन्वयः प्रमाणविरुद्धः सत्यप्रत्यभिज्ञानसिद्धत्वात् “सर्वव्यक्तिषु नियतं क्षणेक्षणोऽन्यत्व-
मथ च न विशेषः । सत्योश्चित्यपचित्योराकृतिजातिव्यवस्थानात्” इति वचनात् । ततो द्रव्यात्मना स्थितिरेव सर्व-
स्य वस्तुनः । पर्यायात्मना तु सर्वं वस्तूत्पद्यते विपद्यते च; अस्खलितपर्यायानुभवसम्भवात् । न चैवं शुद्धे शङ्खे
पीतादिपर्यायाऽनुभवेन व्यभिचारस्तस्य स्खलद्रूपत्वात् । न खलु सोऽस्खलद्रूपो येन पूर्वाकारविनाशाऽजहद्द्रु-
तोत्तराकारोत्पादाऽविनाभावी भवेत् । न च जीवादौ वस्तुनि हर्षामपौदासीन्यादिपर्यायपरम्परानुभवः स्खलद्रूपः
कस्यचिद्बाधकस्याऽभावात् ।

वस्तुका स्वरूप उत्पाद व्यय ध्रौव्य सहित ही है । सभी वस्तु द्रव्यस्वभावसे न तो उपजती है और न विनशती है । क्योंकि;
अपने प्रत्येक पर्यायमें द्रव्यका परिवर्तन प्रत्यक्ष दीखता है । ‘ जो नख केशादिक काटनेपर भी बढ़ जाते है वे भी पहिलेकेसे
ही दीखते हैं परंतु यथार्थमें वे जिस प्रकार दूसरे है उसी प्रकार सभी पर्याय जो उत्पन्न होते है वे नवीन ही होते
हैं । उनमें पहिले द्रव्यका परावर्तन मानना मिथ्या है ’ ऐसी शंका करना अयोग्य है । क्योंकि; नख केशादिकोंमें तो
विचारनेपर प्रमाणसे बाधा दीखती है इसलिये वहांपर फिरसे उपजे नख केशादिक पहिलोंकी अपेक्षा भिन्न ही है परंतु जहांपर द्रव्यका
अपने प्रत्येक पर्यायोंमें पहुंचते रहना प्रत्यक्ष अनुभवमें आता है वहांपर भी द्रव्यका परावर्तन न मानना बड़ी मूर्खता है । प्रत्येक वस्तु
में पूर्व द्रव्यका अनुवर्तन होना कुछ प्रमाण बाधित नहीं है । क्योंकि; पहिले जिसको देखलेते हैं उसको दूसरे समय देखनेपर
ऐसा सच्चा प्रत्यभिज्ञान ज्ञान प्रकट होता है कि यह वही है जों पहिले देखा था । ऐसा कहा भी है कि “ संपूर्ण व्यक्तियोंमें
सदा क्षण क्षणमें कुछ भेद होता रहता है परंतु सर्वथा भिन्नता नहीं होती है । क्योंकि; आकार तथा जातिका ही फेर फार होता
दीखता है । भावार्थ—द्रव्यका संपूर्ण नाश कभी नहीं होता है ।” इसलिये द्रव्यस्वरूपकी अपेक्षा सभी वस्तु सदा स्थिर है ।
पर्यायोंकी अपेक्षा सभी वस्तु उपजती तथा विनशती रहती है । पर्यायोंकी उत्पत्ति विनाशका भी अनुभव सदा ही अबाध्य होता
है । यद्यपि शुद्ध शंखमें पीलेपनेका भी कभी अनुभव होजाता है परंतु वह अनुभव जिस प्रकार झूठा है उसी प्रकार सभी पर्यायोंके

अनुभव भी झूठे ही होंगे ऐसा नहीं है। क्योंकि; जिस प्रकार शंखमें पीलेपनकी जो प्रतीति होती थी वह रोग दूर होनेपर अपने आपको ही झूठी भासती है तथा अन्य मनुष्योंको भी वह झूठी प्रतिभासती है उस प्रकार सभी पर्यायोंके उत्पत्ति नाशकी प्रतीति किसीको झूठी नहीं भासती है। शंखमें जो पीलापन किसीको दीखने लगता है वह कभी कभी; किन्तु सदा ही नहीं दीखता है। इसलिये उस पीलापनको तो पूर्वाकारके विनाशरूप तथा उत्तर आकारके उत्पादरूप उत्पत्तिविनाशका आधार नहीं मानते हैं परन्तु इस प्रकार जीवादि सभी वस्तुओंमें हर्ष क्रोध उदासीनता या घट पटादिक पर्यायोंकी शृङ्खला झूठी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि, किसी भी मनुष्यको उनके अनादि आधारभूत द्रव्यमें बाधा नहीं दीखती है।

ननूत्पादादयः परस्परं भिद्यन्ते न वा? यदि भिद्यन्ते कथमेकं वस्तु त्रयात्मकम्? न भिद्यन्ते चेत्तथापि कथमेकं त्रयात्मकम्? तथा च “यद्युत्पादादयो भिन्नाः कथमेकं त्रयात्मकम्। अथोत्पादादयोऽभिन्नाः कथमेकं त्रयात्मकम्”। इति चेत्तद्युक्तं; कथंचिद्भिन्नलक्षणत्वेन तेषां कथंचिद्भेदाऽभ्युपगमात्। तथा हि। उत्पादविनाशद्वौव्याणि स्याद्भिन्नानि भिन्नलक्षणत्वादूपादिवदिति। न च भिन्नलक्षणत्वमसिद्धम्। असत् आत्मलाभः, सतः सत्ता-वियोगो, द्रव्यरूपतयानुवर्त्तनं च खलूत्पादादीना परस्परमसंकीर्णानि लक्षणानि सकललोकसाक्षिकाण्येव।

अब वादी पृछता है कि उत्पाद विनाश तथा स्थिरता परस्परमें भिन्न है अथवा अभिन्न? यदि भिन्न है तो एक ही वस्तु उत्पाद व्यय श्रौव्य इन तीनों धर्मरूप किस प्रकार होसकती है? क्योंकि, जो परस्पर भिन्न है वे एकस्वरूप नहीं होसकते हैं। और यदि ये तीनों धर्म अभिन्न है तो भी एक वस्तुके तीन स्वरूप किस प्रकार होसकते हैं? क्योंकि; जो उत्पत्ति विनाश तथा स्थिरतापनेसे अभिन्न है वह एक समयमें या तो उत्पत्तिसहित ही होसकती है या विनाशसहित अथवा स्थिर ही रहसकती है। परस्पर विरुद्ध तीनों धर्मोंका एक वस्तुमें एक ही समयमें रहना असभव है। यही कहा है “यदि उत्पादादि धर्म परस्पर भिन्न हैं तो एक वस्तु तीनोंमय किस प्रकार होसकती है? और यदि उत्पादादि धर्म परस्पर अभिन्न हैं तो भी एक वस्तु तीनों स्वरूपवाली किस प्रकार होसकती है?”। यह शंका जो वादीनें की है वह ठीक नहीं है। क्योंकि, वे धर्म कथंचित् अर्थात् अपने अपने लक्षण प्रयोजनादिकी अपेक्षा ही भिन्न है, न कि सर्वथा। इसलिये उनमें परस्परका भेद कथंचित् ही माना गया है। कथंचित् भेद सिद्ध करनेके लिये अनुमान दिखाते हैं।—उत्पत्ति, विनाश तथा स्थिरता ये तीनों धर्म कथंचित् भिन्न

है। क्योंकि; इन तीनों धर्मोंके लक्षण परस्पर भिन्न है। जैसे रूपगुणका लक्षण भिन्न होनेसे वह द्रव्यके संपूर्ण धर्मोंसे भिन्न होता है। इनका भिन्न भिन्न लक्षण भी असंभव नहीं है। असत् आकारका उपजना तो उत्पत्तिधर्मका लक्षण है तथा विद्यमान आकारका वियोग होजाना व्यय स्वभावका लक्षण है तथा द्रव्यरूपकी अपेक्षा कभी भी नष्ट न होकर सदा अपने संपूर्ण पर्यायोंमें वर्तना स्थिरताका किंवा द्रौव्यधर्मका लक्षण है। तीनों धर्मोंके ये लक्षण परस्पर जुड़े है तथा इन लक्षणोंकी प्रतीति संपूर्ण मनुष्योंको सदा ही होती है।

न चामी भिन्नलक्षणा अपि परस्परानपेक्षाः खण्ड्यवदसत्त्वापत्तेः। तथा हि। उत्पादः केवलो नास्ति स्थितिविगमरहितत्वात् कूर्मरोमवत्। तथा विनाशः केवलो नास्ति स्थित्युत्पत्तिरहितत्वात् तद्वत्। एवं स्थितिः केवला नास्ति विनाशोत्पादशून्यत्वात्तद्वदेव। इत्यन्योऽन्यापेक्षाणामुत्पादादीनां वस्तुनि सत्त्वं प्रतिपत्तव्यम्। तथा चोक्तं “घटमौलिसुवर्णाधीं नाशोत्पादस्थितिष्वयम्। शोकप्रमोदमाध्यस्थं जनो याति सहेतुकम्। १। पयोव्रतो न दृश्यति न पयोऽस्ति दधिव्रतः। अगोरसव्रतो नोभे तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम्। २।” इति काव्यार्थः।

परस्पर भिन्न भिन्न लक्षणवाले होकर भी ये तीनों एक दूसरेकी अपेक्षारहित स्वतंत्र सिद्ध नहीं है; नहीं तो आकाशके फूलोंकी तरह कुछ ठहर ही नहीं सकते। यही दिखाते है।—जिसमें स्थिति विनाश न हों ऐसा कोई उत्पाद धर्म अकेला नहीं है। जिस प्रकार कछुएकी पीठपर वालोका नाश तथा वालोकी स्थिति नहीं है इसलिये उनकी उत्पत्ति भी अकेली नहीं है। तथा स्थिति और उत्पत्ति रहित नाश भी कही अकेला नहीं रहता है। इसी प्रकार केवल स्थिति भी कोई चीज नहीं है। इन दोनों अनुमानोंमें भी कछुएकी पीठपरके वाल ही उदाहरणरूप ह। अर्थात् जिस प्रकार कछुएपर वाल नहीं होते उसी प्रकार स्थिति, उत्पत्ति, विनाश ये तीनों धर्मोंमेंसे विना दो धर्मोंके अकेले किसी धर्मका भी रहना संभव नहीं है। इस प्रकार सदा संपूर्ण वस्तुओंमें एक दूसरोंकी अपेक्षा लेकर ही प्रत्येक धर्मका रहना सिद्ध होता है। श्रीसमन्तभद्र स्वामीने ऐसा ही कहा है “सुनारकी दुकानपर तीन मनुष्य सुवर्ण खरीदनेकी इच्छासे आये परंतु उनमेंसे एक मनुष्यको तो सुवर्णके बने हुए कलशकी, दूसरेको सुवर्णके सुकुटकी तथा तीसरेको साधा सुवर्ण लेनेकी इच्छा थी। वहा आकार तीनोंने सुवर्णका बना हुआ कलश तोड़ते हुए तथा सुकुट बनाते हुए सुनारको देखा तो उनके चित्तमें तीन प्रकारके परिणाम जुड़े हुए। ये तीन प्रकारके परिणाम जो तीनोंके हुए वे

निष्कारण नहीं हुए। कलश चांहेनेवालेके परिणाम तो शोकतुर होगये। क्योंकि, उसको जिसकी चाह थी वही तोड डाला गया। जिसको सुकुटकी इच्छा थी वह सुकुट बनते हुए देखकर प्रसन्न हुआ। क्योंकि, उसकी इच्छा पूर्ण होनेवाली जानपड़ती थी। जिसको साधा सुवर्ण लेनेकी इच्छा थी वह न तो प्रसन्न हुआ और न शोकातुर हुआ। क्योंकि, साधा सुवर्ण उसका सदा ही विद्यमान था। जब चाहता तभी लेसकता था। भावार्थ—उन तीनों मनुष्योंके जो तीन प्रकारके परिणाम हुए वे किसी न किसी जुदे जुदे कारणसे ही हुए। वे कारण पर्यायकी उत्पत्ति नाश तथा किसी अपेक्षा स्थिरता ही थे। यदि ये कारण जुदे जुदे न होते तो तीनों मनुष्योंके परिणाम भिन्न भिन्न न होते। क्योंकि, कारणके विना कार्यकी उत्पत्ति होना असंभव है। इसलिये ये तीनों ही धर्म कथंचित् भिन्न भिन्न है। तथा ये तीनों ही धर्म एक सुवर्णरूप द्रव्यके है, प्रत्येक अंग जुदे जुदे नहीं है इसलिये इस अपेक्षासे ये तीनों धर्म अभिन्न भी है।” अन्य प्रकारसे भी इनका भेदाभेद दिखाते हुए श्रीसमन्तभद्र-स्वामीने एक दूसरा उदाहरण दिखाया है “जिसने दूध पीनेका नियम किया हो वह दही नहीं खासकता है तथा जिसने दही खानेमात्रकी प्रतिज्ञा की हो वह दूध नहीं पीसकता है और जिसने गोरसमात्र छोडदिया हो वह न दूध पीता है और न दही खाता है। भावार्थ—जिस प्रकार यद्यपि दूध तथा दही ये दोनों ही एक गोरसके पर्याय है तो भी कथंचित् परस्पर भिन्न है। यदि भिन्न न होते तो जिसने दूधमात्रका ग्रहण करना नियत करलिया है वह दही भी क्यों नहीं खाता? तथा जिसने दही खानेमात्रकी प्रतिज्ञा की है वह दूध भी क्यों नहीं पीता? एवं सभी वस्तुओंके उत्पत्ति विनाश कथंचित् परस्पर भिन्न है। और जिस प्रकार गोरसका त्यागनेवाला न दहीं खाता है, न दूध पीता है। क्योंकि, गोरस द्रव्यकी अपेक्षा दही दूध आदि सभी एकरूप है। उसीप्रकार सभी वस्तु द्रव्यस्वभावकी अपेक्षासे विचार करनेपर एकरूप ही है।” इस प्रकार इस स्तोत्रका अर्थ पूर्ण हुआ।

अथान्ययोगव्यवच्छेदस्य प्रस्तुतत्वादास्तां तावत्साक्षाद्भवान्। भवदीयप्रवचनावयवा अपि परतीर्थिकतिरस्कार-
वद्भक्त्या इत्याशयवान् स्तुतिकारः स्याद्वादव्यवस्थापनाय प्रयोगमुपन्यस्यन् स्तुतिमाह।

अपरंच अन्य कर्मादि उपाधियोंका सबध दूर होजानेसे साक्षात् आपका तो कहना ही क्या है परंतु आपने जिन शाखोंका

तथा युक्तियोंका उपदेश किया है उनके अंश भी परवादियोंका तिरस्कार करनेके लिये कटिबद्ध हैं ऐसा आशय दिखाते हुए स्तुति कर्ता श्रीहेमचंद्राचार्य स्याद्वादकी सिद्धि करनेके लिये अनुमानप्रयोगरूप स्तुति करते हैं ।

अनन्तधर्मात्मकमेव तत्त्वमतोऽन्यथा सत्त्वमसूपपादम् ।

इति प्रमाणान्यपि ते कुवादिकुरङ्गसंत्रासनसिंहनादाः ॥ २२ ॥

मूलार्थ—वस्तुका जो सच्चा स्वरूप है वह अनंतधर्मात्मक ही है । इस प्रकार यदि न माना जाय तो वस्तुकी सत्ताका वर्णन करना भी दुर्लभ होजाय । इस प्रकार कहनेवाले आपके प्रमाण भी कुवादीरूप मृगोंको त्रस्त करनेके लिये केसरीकी गर्जनके समान हैं । व्याख्या—तत्त्वं परमार्थभूतं वस्तु जीवाजीवलक्षणमनन्तधर्मात्मकमेव । अनन्तास्त्रिकालविषयत्वादपरिमिता ये धर्माः सहभावितः क्रमभाविनश्च पर्यायास्त एवात्मा स्वरूपं यस्य तदनन्तधर्मात्मकम् । एवकारः प्रकारान्तरव्यवच्छेदार्थः । अत एवाह “अतोऽन्यथा” इत्यादि । अतोऽन्यथा उक्तप्रकारवैपरीत्येन सत्त्वं वस्तुतत्त्वमसूपपादम् । सुखेनोपाद्यते घटनाकोटिसंढ्कमारोप्यते इति सूपादम् । न तथा असूपपादम् । दुर्घटमित्यर्थः । अनेन साधनं दर्शितम् । तथा हि । तत्त्वमिति धर्मि । अनन्तधर्मात्मकत्वं साध्यो धर्मः । सत्त्वान्यथानुपपत्तेरिति हेतुः अन्यथानुपपत्त्येकलक्षणत्वाच्चेतोः । अन्तर्व्याप्त्यैव साध्यस्य सिद्धत्वाद् दृष्टान्तादिभिर्न प्रयोजनम् । यदनन्तधर्मात्मकं न भवति तत्सदपि न भवति । यथा वियदिन्दीवरम् । इति केवलव्यतिरेकी हेतुः साधर्म्यदृष्टान्तानां पक्षकुक्षिनिक्षिप्तत्वेनान्वयायोगात् ।

व्याख्यार्थ—तत्त्व अर्थात् सत्यार्थभूत जीव अजीवादि वस्तु, अनंतधर्मात्मक ही है । अनंत अर्थात् त्रिकालवर्ती होनेसे अपरिमित जो सहभावी तथा क्रमभावी पर्यायरूप धर्म हैं वे ही जिसका आत्मा अर्थात् स्वरूप हो उसको अनंतधर्मात्मक कहते हैं । इस श्लोत्रमें अनंतधर्मात्मक शब्दके अनंतर जो ‘एव’ शब्द है उससे यहा पर ऐसा अर्थ होता है कि जीवादि तत्त्व अन्य प्रकार नहीं है किंतु अनंतधर्मस्वरूप ही है । इसी अभिप्रायसे “अतोऽन्यथा सत्त्वमसूपपादम्” ऐसा कहा है । अर्थात् वस्तु जो अनंतधर्मात्मक कहा है उसके सिवाय दूसरी रीतिसे वस्तुतत्त्वका प्रतिपादन करना कठिन है । जिसका प्रतिपादन अनायाससे

करसकै अर्थात् सिद्ध करसकै उसको सूपपाद कहते हैं। और जो सूपपाद न हो किंतु अत्यंत दुःसाध्य हो वह अनूपपाद या दुर्घट कहाता है। 'अतोऽन्यथा सत्त्वमसूपपादम्' इस वाक्यसे अनुमानका हेतुभूत अंग दिखाया है। श्लोत्रमें कहा हुआ तत्त्व शब्द तो धर्मा है, अनंतधर्मात्मक कहना है सो साध्यधर्म है और 'सत्त्वकी सिद्धि अन्यथा नहीं होसकती है' यह वचन हेतु है। क्योंकि; साध्यके अतिरिक्त न मिलना ही हेतुका मुख्य लक्षण है। अर्थात्-तत्त्व अनंतधर्मात्मक ही है। क्योंकि; दूसरे प्रकारसे सत्त्वकी सिद्धि नहीं होसकती है। इस प्रकारसे अनुमानका वचन इस श्लोत्रमेंसे बनसकता है। यहांपर हेतु और साध्यकी व्याप्तिका जब विचार करते हैं तभी अनंतधर्मात्मकरूप साध्यकी सिद्धि भी स्पष्ट होजाती है इसलिये दूसरे दृष्टांत उपनय निगमन कहनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है। भावार्थ-साध्यके अतिरिक्त कहीं दूसरे स्थानपर हेतुके नहीं मिलनेको व्याप्ति कहते हैं। व्याप्तिका विचार करनेसे हेतुके होनेपर साध्यका होना निश्चित होजाता है। जैसे जहा जहापर घूआ होता है वहां वहांपर अग्नि अवश्य मिलती है। रसोईके घरमें घूआ है इसलिये अग्नि भी है। इस प्रकार निश्चय होजानेपर जहां हम घूआ देखते हैं वहां ही अग्निका निश्चय कर लेते हैं। इसी प्रकार अनंतधर्मात्मकपना जहां न होगा वहां सत्त्व भी न होगा अथवा सत्त्व होगा अनंतधर्मात्मकपना अवश्य होगा इत्यादि निश्चय होनेसे ही संपूर्ण वस्तुओंमें अनंतधर्मात्मकपना निश्चित होसकता है इसलिये दृष्टांतादि नहीं दिखाये हैं। जो अनंतधर्मात्मक नहीं होता वह सत्त्वरूप भी नहीं होता। जैसे आकाशका कमल। आकाशकमलमें अनंतधर्म नहीं है इसलिये वह सत्त्वरूप भी नहीं है। इस प्रकार यह हेतु केवलव्यतिरेकी है। क्योंकि, जितने अनंतधर्ममहित वस्तु इस हेतुके अन्यरूप दृष्टांत होसकते हैं वे सब साध्य अवस्थामें पड़े हुए हैं अर्थात् अभी उन सबको तो साधना ही है इसलिये अन्वयी दृष्टान्त नहीं होनेसे व्यतिरेकी दृष्टांत कहना पड़ा है। साध्य जहा न मिले वहां हेतु भी यदि न मिले तो ऐसे उदाहरणको व्यतिरेकी दृष्टान्त कहते हैं। जहां हेतु हो वहां साध्य भी हो ऐसे उदाहरणको अन्वयी दृष्टान्त कहते हैं।

अनंतधर्मात्मकत्वं चात्मनि तावत्साकाराऽनाकारोपयोगिता कर्तृत्वं भोक्तृत्वं प्रदेशाष्टकनिश्चलता अमूर्त्तत्व-
मसंख्यातप्रदेशात्मकता जीवत्वमित्यादयः सहभावितो धर्माः। हर्मविषादगोकुसुखदुःखदेवनरनारकतिर्यक्त्वाद्-
यस्तु क्रमभावितः। धर्मास्तिकायादिव्यव्यसंख्येयप्रदेशात्मकत्वं गत्याद्युपग्रहकारित्वं मत्यादिज्ञानविषयत्वं तत्तद-

वच्छेदकाऽवच्छेद्यत्वमवस्थितत्वमरूपित्वमेकद्रव्यत्वं निष्क्रियत्वमित्यादयः । घटे पुनरामत्वं पाकजरूपादिमत्त्वं पृथुबुभोदरत्वं कम्बुग्रीवत्वं जलादिधारणाहरणादिसामर्थ्यं मत्यादिज्ञानज्ञेयत्वं नवत्वं पुराणत्वमित्यादयः । एवं सर्वपदार्थेष्वपि नानानयमताऽभिज्ञेन शाब्दानाऽऽर्थोश्च पर्यायान् प्रतीत्य वाच्यम् ।

अन्तर्धर्म जो प्रत्येक द्रव्यमें कहे है वे दो प्रकारके होते हैं; एक सहभावी दूसरे क्रमभावी । जो द्रव्यके साथ सदाकाल रहे वे तो सहभावी कहे जाते हैं और जो निमित्त पाकर अथवा यों ही क्रमसे उत्पन्न तथा नष्ट होते रहे उनको क्रमभावी कहते हैं । क्रमभावियोंका दूसरा नाम पर्याय और सहभावियोंका दूसरा नाम गुण है । जीवद्रव्यके अनन्त धर्मोंसे साकार अनाकार उपयोग अथवा ज्ञान दर्शन तथा कर्तापना, भोक्तापना, आठ मध्य प्रदेशोंकी निश्चलता, अमूर्तिकपना, असंख्यात प्रदेशीपना, तथा जीवत्वादिक धर्म तो सहभावी हैं और हर्ष, विषाद, शोक, सुख, दुःख, देवपना, मनुष्यपना, नारकपना तथा तिर्यचपर्यायादिक क्रमभावी हैं । धर्म, अधर्म, लोकाकाश द्रव्योंमें असंख्यात प्रदेशी होना तथा गति, स्थिति, अवकाशदान आदिक उपकार होना, मति श्रुत केवल ज्ञानोंके विषयभूत होसकना तथा निश्चय करनेवाले ज्ञानसे भिन्न २ निश्चित होना, जैसाका तैसा स्थित रहना, अरूपीपना, एकद्रव्यपना तथा क्रियारहित होना इत्यादि अनन्तो धर्म हैं । पुद्गल द्रव्योंमें भी इसी प्रकार एक एकमें अनन्तो धर्म है । जैसे घड़ेमें कच्चापन, पक्कापन, पकनेपर रूपादिकका बदलना, मोटे चौड़े पेटवाला होना, कंबु फलकीसी ग्रीवावाला होना, जल रखने लाने आदिककी शक्ति सहित होना, मतिज्ञानादिक ज्ञानोंके विषय होना, नवीनता तथा जीर्णता होना इत्यादिक धर्म हैं । इसी प्रकार और भी संपूर्ण पदार्थोंमें नाना प्रकारकी नयात्मक कथनीके अनुसार समझनेवालेको शब्दसंबंधी तथा अर्थसंबंधी पर्याय विचारकर कहने चाहिये ।

अत्र चात्मशब्देनानन्तेष्वपि धर्मेष्वनुवर्तिरूपमन्वयिद्रव्यं ध्वनितम् । ततश्च “उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्” इति व्यवस्थितम् । एवं तावदर्थेषु शब्देष्वपि उदात्ताऽनुदात्तस्वरितविवृतसंवृतघोषवदघोषताऽल्पप्राणमहाप्राणतादयः सत्तदर्थप्रत्यायनशक्त्यादयश्चावसेयाः । अस्य हेतोरसिद्धिविरुद्धानैकान्तिकत्वादिकण्टकोद्धारः स्वयमभ्यूहः ।

यहांपर आत्मा कहनेसे अनन्तो धर्मोंमें सदा अनुवर्तनेवाला अन्वयिद्रव्य समझा जाता है । भावार्थ—इसी प्रकार कुछ धर्म तो १ एतद्विशेषणं नास्त्येव कपुस्तके।

द्रव्यके नित्य साथ रहनेवाले होते है और कुछ उत्पन्न तथा नष्ट भी होते रहते हैं। इसलिये जो सत् है वह सदा उत्पाद व्यय द्रौव्य इन तीनों धर्मोंकर सहित रहता है ऐसा सिद्ध हुआ। जिस प्रकार एक एक पदार्थमें अनंतो धर्म होते हैं उसी प्रकार उन अर्थोंवाले शब्दोंमेंसे प्रत्येक शब्दमें भी जिसका उच्चारण ऊंचा हो ऐसा उदात्त धर्म, जिसका उच्चारण नीचेसे हो ऐसा अनुदात्त धर्म, उदात्त अनुदात्तोंका मिला हुआ स्वरित धर्म तथा जिसके उच्चारणसे गला फूले ऐसा विवृत धर्म, जिससे न फूले ऐसा संवृत धर्म तथा घोषवत् धर्म, अघोष धर्म, अल्पप्राण धर्म तथा महाप्राण आदिक तथा अपने अर्थोंको प्रतिभासित करने आदिककी शक्ति, इत्यादिक अनेक धर्म होते है। 'अन्यथा सत्की सिद्धि होना असंभव है' ऐसे इस हेतुमें यदि कोई असिद्धता विरुद्धता अनेकान्तिकता आदिक दोषरूपी कांटे डाले तो उसका निवारण करदेना पाठकोंकी बुद्धिपर ही छोड़ते हैं।

इत्येवमुल्लेखशेखराणि ते तव प्रमाणान्यपि न्यायोपपन्नसाधनवाक्यान्यपि (आस्तां तावत्साक्षात्कृतद्रव्यपर्यायनिकायो भवान् यावदेतान्यपि) कुवादि। कुरङ्गसन्त्वासनसिंहनादाः । कुवादिनः कुत्सितवादिन एकांशग्राहकनयानुयायिनोऽन्यतीर्थिकास्त एव संसारवनगहनवनसन्त्यसन्तिया कुरङ्गा मृगास्तेषां सम्यक्त्रासने सिंहनादा इव सिंहनादाः । यथा सिंहस्य नादमात्रमप्याकर्ण्य कुरङ्गास्त्रासमासूत्रयन्ति तथा भवत्प्रणीतैवंप्रकारप्रमाणवचनान्यपि श्रुत्वा कुवादिनस्त्रासमश्रुवते । प्रतिवचनप्रदानकारतां विभ्रतीति यावत् । एकैकं त्वदुपज्ञं प्रमाणमन्ययोगव्यवच्छेदकमित्यर्थः ।

हे प्रभो ! आपने तो संपूर्ण द्रव्य, पर्यायोंको प्रत्यक्ष जानलिया है इसलिये आपकी तो बात ही दूर रही परंतु पूर्वोक्त रीतिसे साद्वादका भले प्रकार निरूपण करनेवाले आपके न्याययुक्त हेतुओंके वचन ही कुवादीरूप हरिणोंको त्रस्त करनेकेलिये सिंहनादके समान हैं। मुख्यताकी अपेक्षा लेकर एक २ धर्मको ही सर्वथा कहनेवाले एक एक नयके अनुगामी जो कुवादी अर्थात् खोटे मतोंका प्रतिपादन करनेवाले तथा खोटे मतोंके चलानेवाले हैं वे ही यहापर संसाररूपी गहन वनमें वास करनेके रोचक होनेसे मृगसमान है। इन मृगोंको खूब भयभीत करनेकेलिये आपके युक्तिपूर्ण वचन सिंहनादके समान है। यद्यपि यथार्थमें सिंहनाद नहीं है तो भी सिंहनादसे जिस प्रकार मृग भयभीत होजाते है उसी प्रकार आपके वचनोंसे बड़े बड़े कुवादिरूपी मृग त्रस्त होजाते है इसलिये सिंहनादके समान

होनेसे आपके वचनोको सिंहाद ही कहते है । यहांपर आपके युक्तिपूर्ण वचनोंका प्रत्युत्तर न देसकना ही कुवादियोंका भय-भीत होजाना है । अर्थात् आपका कहा हुआ एक भी हेतु दूसरे वादियोंके मतका खण्डन करनेवाला है ।

अत्र प्रमाणानीति बहुवचनमेवंजातीयानां प्रमाणानां भगवच्छासने आनन्त्यज्ञापनार्थम्; एकैकस्य सूत्रस्य सर्वोदधिसलिलसर्वसरिद्राऽलुकाऽनन्तरुणार्थत्वात् तेषां च सर्वेषामपि सर्वविन्मूलतया प्रमाणत्वात् । अथ वा इत्यादिबहुवचनान्ता गणस्य संसूचका भवन्तीति न्यायादिति शब्देन प्रमाणबाहुल्यसूचनात्पूर्वाद्धे एकस्मिन्नपि प्रमाणे उपन्यस्ते उचितमेव बहुवचनम् । इति काव्यार्थः ।

यहांपर जो “ प्रमाणानि ” ऐसा बहुवचन कहा है उससे यह समझना चाहिये कि आपके शासनमें एक एक विषयके खण्डन करनेकेलिये अनंतो प्रमाण है । क्योंकि; संपूर्ण समुद्रोकी जलबिंदुओसे तथा संपूर्ण नदियोंकी वालुकासे भी अनंत गुणा एक एक द्वादशांग सूत्रका अर्थ है । और वे सभी सूत्र तथा उनके अर्थ सर्वज्ञभाषित होनेसे प्रमाण है । अथवा यदि किसी चीजके नामके आगे इति आदि या बहुवचनान्त शब्द बोले जाते है तो उनसे ‘ इत्यादि ’ ऐसे समूह अर्थकी सूचना समझी जाती है ऐसा व्यवहार है । इसलिये चाहे श्लोकके ऊपरी भागमें “अतोऽन्यथा सत्त्वमसूपपादम् ” यह एक ही प्रमाण लिखा है परंतु इति शब्दसे और भी बहुतसे प्रमाणोंका संग्रह होसकता है इसलिये “ प्रमाणानि ” ऐसा बहुवचन ही कहना उचित है । इस प्रकार इस श्लोकका अर्थ पूर्ण हुआ ।

अनन्तरमनन्तधर्मात्मकत्वं वस्तुनि साध्यं मुकुलितमुक्तम् । तदेव सप्तभङ्गीप्ररूपणद्वारेण प्रपञ्चयन् भगवतो निरतिशयं वचनातिशयं च स्तुवन्नाह ।

जो अनंतरके पहिले श्लोकमें वस्तु अनंत धर्मात्मक है ऐसा संक्षेपसे प्रतिपादन किया था उसीको अब सप्तभंगोंकी प्ररूपणाद्वारा विस्तारते हुए तथा भगवान्के वचनोका अनुपम अतिशय वर्णन करते हुए आचार्य कहते है ।

अपर्ययं वस्तु समस्यमानमद्रव्यमेतच्च विविच्यमानम् ।
आदेशभेदोदितसप्तभङ्गमदीदृशस्त्वं बुधरूपवेद्यम् ॥ २३ ॥

पर्याय अथवा पर्याय इन तीनों शब्दोंका अर्थ एक ही है। 'अद्रव्यमेतच्च' इसमें जो 'च' शब्द कहा है उसका अर्थ और, अथवा पुनः है। सो इस च शब्दसे यहां ऊपरकी अपेक्षा कुछ विशेषता और अपूर्वता झलकती है। अर्थात् जब संक्षेपसे देखते हैं तब तो वस्तु पर्यायरहित दीखती है और जब विस्तारपूर्वक देखते हैं तब अनुगतशील द्रव्यको छोड़कर पर्यायरूप ही दीखती है। जब अनादिसे अनंतकालतक चलनेवाले अनुयायी द्रव्यपनेकी अपेक्षा नहीं लेते हैं तब वह वस्तु केवल पर्यायरूप ही है।

यदा ह्यात्मा ज्ञानदर्शनादीन् पर्यायानधिकृत्य प्रतिपर्यायं विचार्यते तदा पर्याया एव प्रतिभासन्ते न पुनरात्माख्यं किमपि द्रव्यम्। एवं घटोऽपि कुण्डलौष्ठपृथुभ्रुवोदरपूर्वापरदिभागाद्यवयवापेक्षया विविच्यमानः पर्याय एव न पुनर्घटाख्यं तदतिरिक्तं वस्तु। अत एव पर्यायास्तिकनयानुपातिनः पठन्ति “भागा एव हि भासन्ते संनिविष्टास्तथा तथा। तद्भावेन पुनः कश्चिन्निर्भागः संप्रतीयते” इति। ततश्च द्रव्यपर्यायोभयात्मकत्वेऽपि वस्तुनो द्रव्यनयार्पणया पर्यायनयाऽनर्पणया च द्रव्यरूपता। पर्यायनयार्पणया द्रव्यनयानर्पणया च पर्यायरूपता। उभयनयार्पणया च तदुभयरूपता। अत एवाह वाचकमुख्यः “अपितानर्पितसिद्धेः” इति। एवंविधं द्रव्यपर्यायात्मकं वस्तु त्वमेवादीदृशस्त्वमेव दर्शितवान्। नान्य इति काकावधारणावगतिः।

जब ज्ञानदर्शनादिक पर्यायोंसहित आत्माका विचार करते हैं तब ज्ञानदर्शनादिक पर्यायोंके सिवाय ऐसा कुछ भी नहीं दीखता है जो जुदा आत्मद्रव्य मानाजाय। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्योंमें भी जब घड़ेकी तरफ देखते हैं तो कुछ गहरापन, महीका समूह, चोड़ा मोटा पेट, आगे पीछेके हिस्से इत्यादि हिस्सोंके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं दीखता है। इन पर्यायोंके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु घड़ा नहीं है। इसीलिये पर्यायार्थिक नयकी तरफ मुख्यतासे झुकनेवाले कहते हैं कि “यथायोग्य स्थानोंमें लगे हुए अंश ही सर्वत्र दीखते हैं। उन संपूर्ण अंशोंका आधार कोई दूसरा एक अवयवी नहीं दीखता है। इसलिये वस्तु यद्यपि द्रव्यपर्याय इन दोनों नयस्वरूप है परंतु जब द्रव्यार्थिक नयकी मुख्यता तथा पर्यायार्थिक नयकी अप्रधानता लेते हैं तब वस्तु अनाद्यन्त द्रव्यस्वरूप समझमें आता है। और जब पर्यायार्थिक नयकी तो योजना करते हैं किंतु द्रव्यार्थिककी नहीं करते हैं तब वस्तु पर्यायस्वरूप समझा जाता है। और जब दोनों नयोंकी अपेक्षा करते हैं तब वस्तुका स्वरूप द्रव्यात्मक भी समझा जाता है तथा पर्यायात्मक भी समझा जाता है। इसलिये शास्त्रकर्तियोंमें प्रधान तत्त्वार्थ सूत्रके कर्ता श्रीउमास्वामी कहते हैं कि “नयोंकी अपेक्षा

तथा उपेक्षा करनेसे द्रव्यपर्यायादिसखरूपोंकी सिद्धि होती है” । इस प्रकारसे वस्तुमें द्रव्यपना, पर्यायपना हे भगवत् ! आपने ही दिखाया है, अर्थात् और किसीने भी नहीं दिखाया है । इस प्रकार काकु ध्वनिसे दूसरोंमें वस्तुका स्वरूप दिखानेका निषेध होजाता है ।

नवन्व्याभिधानप्रत्यययोग्यं द्रव्यमन्याभिधानप्रत्ययविषयाश्च पर्यायाः । तत्कथमेकमेव वस्तुभयात्मकमित्याशङ्क्य विशेषणद्वारेण परिहरति—आदेशभेदेत्यादि । आदेशभेदेन सकलादेशविकलादेशलक्षणेन आदेशद्वयेन उदिताः निर्वि-

प्रतिपादिताः सप्तसंख्या भङ्गा वचनप्रकारा यस्मिन् वस्तुनि तत्तथा । ननु यदि भगवता त्रिसुवनवन्धुना निर्वि-
शेषतया सर्वेभ्य एवंविधं वस्तुतत्त्वमुपदर्शितं तर्हि किमर्थं तीर्थान्तरीयास्तत्र विप्रतिपद्यन्ते इत्याह “बुधरूपवेधम्”

इति । बुध्यन्ते यथावस्थितं वस्तुतत्त्वं सारतरविषयविभागविचारणया इति बुधाः । प्रकृष्टा बुधा बुधरूपा नैस-
र्गिकाधिगमिकाऽन्यतरसम्यग्दर्शनविशदीकृतज्ञानशालिनः प्राणिनः । तैरेव वेदिदुं शक्यं वेद्यं परिच्छेद्यम् । न पुनः

स्वस्वशास्त्रतत्त्वाभ्यासपरिपाकशाणानिशातबुद्धिभिरन्यैः तेषामनादिमिथ्यादर्शनवासनादूषितमतिताया यथा-
स्थितवस्तुतत्त्वाऽनवबोधेन बुधरूपत्वाऽभावात् । तथा चागमः “सदसदऽविसेषणात् भवहेतुयथास्थितोपलम्भात् ।
षाणफलाभावात्, मिथ्यादृष्टेः अज्ञानम्” । (संस्कृतच्छाया—सदऽसदऽविशेषणात् भवहेतुयथास्थितोपलम्भात् । फिर एक

ज्ञानफलाभावात्, मिथ्यादृष्टेः अज्ञानम्) ।
शंका—पर्यायोंका नाम तथा ज्ञान अन्य ही होता है और द्रव्यका नाम तथा ज्ञान कुछ अन्य प्रकार ही होता है; फिर एक
ही वस्तु द्रव्य पर्याय इन दोनों स्वरूपमय कैसे होसकती है? इस शंकाका उत्तर “आदेशभेदोदितसप्तसङ्गम्” इस विशेषणकर

देते है । अर्थात्—स्तुतिकर्तानि जो श्लोकमें आदेशभेद इत्यादि विशेषण लिखा है उससे उपर्युक्त शंका नहीं रहती है । सकला-
देश तथा विकलादेश जो दो आदेश हैं उनके द्वारा सात प्रकारकी जिस कथनशैलीसे वस्तुस्वरूप दिखाया गया है उससे वस्तुस्वरूप
कथंचित् द्रव्यस्वरूप भी होसकता है और कथंचित् पर्यायस्वरूप तथा उभयस्वरूप भी होसकता है । शङ्का—जो तीनों लोकके
बंधु ऐसे श्रीभगवान्ने यदि सामान्यपनेकर सभीको वस्तुस्वरूपका ऐसा उपदेश दिया था तो जो अन्य मतोंके प्रवर्तनवाले वादी है
के विवाद क्यों करते है? इसी शंकाके उत्तरमें “बुधरूपवेधम्” ऐसा कहा है । अर्थात्—इस सूक्ष्म तत्त्वको वे ही समझसकते है
जो अच्छे विद्वान् हों । सार तथा असारका विवेकपूर्वक विचार करनेवाले जो यथावत् वस्तुस्वरूपको समझसकते है उनको बुध

कहते हैं। जो बुधोंमें प्रकृष्ट हों वे बुधरूप कहलाते हैं। जो जाना जा सकता हो निश्चय किया जा सकता हो ऐसे वस्तुस्वरूपको वेद्य कहते हैं। अर्थात्—स्वतःस्वभाव ही उपजनेवाले अथवा किसी दूसरेके उपदेशसे उपजनेवाले सम्यग्दर्शनके द्वारा जिनका ज्ञान निर्मल होचुका है वे ही जीव वस्तुका सच्चा स्वरूप समझ सकते हैं; न कि अन्य भी मनुष्य जो कि अपने अपने शास्त्रोंमें कहे हुए तत्त्वोंका अभ्यास करनेसे बुद्धिको परिपक्व शाण (शाम) पर तीक्ष्ण नहीं करसके है। क्योंकि; अनादि मिथ्यादर्शन कर्मकी वासनासे उनकी बुद्धि इतनी मलिन होरही है कि यथावत् वस्तुका स्वरूप समझ नहीं सकते हैं और इसीलिये वे विद्वान् होकर भी यथार्थ विद्वान् नहीं है। मिथ्यादर्शन कर्म उसको कहते हैं जिसका उदय होनेपर जीव दुराग्रह न छोड़सकै तथा सच्चा वस्तुस्वरूप न समझ सकै। आगममें भी यही कहा है कि “सत् असत्का विवेक न होनेसे, संसारके कारणरूप कर्मोंका बंध जैसाका तैसा विद्यमान रहनेसे तथा सच्चे ज्ञानफलका अभाव रहनेसे मिथ्यादृष्टी जीव सत्र अज्ञानी ही है”।

अत एव तत्परिगृहीतं द्वादशाङ्गमपि मिथ्याश्रुतमामनन्ति; तेषामुपपत्तिनिरपेक्षं यदृच्छया वस्तुतत्त्वोपलम्भ-संरम्भात्। सम्यग्दृष्टिपरिगृहीतं तु मिथ्याश्रुतमपि सम्यक्श्रुततया परिणमते। सम्यग्दृशां सर्वविदुपदेशानुसारिप्रवृत्तितया मिथ्याश्रुतोक्तस्याप्यर्थस्य यथावस्थितविधিনিषेधविषयतयोन्नयनात्। तथा हि। किल वेदे “अजैर्यष्ट-व्यम्” इत्यादिवाक्येषु मिथ्यादृशोऽजशब्दं पशुवाचकतया व्याचक्षते। सम्यग्दृशस्तु जन्माऽप्रायोग्यं त्रिवाषिकं यवव्रीह्यादि पञ्चवाषिकं तिलमसूरादि सप्तवाषिकं कङ्कुसर्षपादि धान्यपर्यायतया पर्यवसाययन्ति। अत एव च भगवता श्रीवर्द्धमानस्वामिना, विज्ञानधन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति, न प्रेत्यसंज्ञास्तीत्यादि-ऋचः श्रीमदिन्द्रभूत्यादीनां द्रव्यगणधरदेवानां जीवादिनिषेधकतया प्रतिभासमाना अपि तद्व्यवस्थापकतया व्याख्याताः।

इसीलिये यदि उनमें द्वादशांगोंको भी पढा हो परंतु तो भी उनके ज्ञानको आचार्योंने मिथ्याश्रुत ही माना है। क्योंकि, वे युक्ति तथा नयकी अपेक्षा छोड़कर इच्छानुकूल वस्तुस्वरूपकी प्राप्तिका प्रयत्न करते हैं। जिनको सम्यग्दर्शन प्राप्त हो चुका है उनका मिथ्याश्रुतज्ञान भी सच्चा श्रुतज्ञान होजाता है। क्योंकि; सम्यग्दृष्टी अपनी प्रवृत्ति सर्वज्ञ कथित मार्गके अनुसार ही रखते हैं इसलिये मिथ्या शास्त्रोंके कहे हुए वचनोंको भी जैसा कुछ विधিনিषेधरूप सर्वज्ञदेवका उपदेश है उसके अनुसार ही घटालेते हैं। जैसे वेदमें

लिखा है कि “अजोसे यज्ञ करना चाहिये”। ऐसे ऐसे वचनोंमें जहां अजशब्द आता है वहां उसका अर्थ मिथ्यादृष्टी तो बकरा करता है परंतु सम्यग्दृष्टी कहते हैं कि जो उपज नहीं सके ऐसे तीन वर्षके पुराने जौ, धान आदिक तथा पांच वर्षवाले तिल मसूर आदिक तथा सात वर्षके पुराने कांगनी सरसो आदिक धान्य अजशब्दका अर्थ है। और इसी प्रकार पीछेसे गणघर चोवीसवे आदिक तथा सात वर्षके विद्वान् वेद की जिन ऋचाओंके अर्थद्वारा जीवतत्वका निषेध करते थे उन्हींके अर्थद्वारा भूतेभ्यः जिससे श्रीइन्द्रभृति आदिक विद्वान् वेद का मंडन किया था। उनमेंसे प्रथम ऋचा यह है कि “विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः जिससे तीर्थकर श्रीमहावीर स्वामीने जीवतत्वका मंडन होजाताहै। भावार्थ—इसके दो अर्थ होसकते हैं; एक तो ऐसा होसकता है जिससे समुत्थाय तान्येवातु विनश्यति न प्रेत्यसंज्ञास्ति”। भावार्थ—इसके दो अर्थ होसकते हैं; एक तो ऐसा होसकता है जिससे जीवतत्वका मंडन होजाताहै। इसलिये जीवतत्वका निषेध होजाताहै; दूसरा ऐसा होसकता है जिससे जीवतत्वका मंडन होजाताहै। इनमेंसे पहिला अर्थ जो इंद्रभृतिने किया था वह यह है कि विज्ञानमय आत्मा पांचो भूतोंसे ही उत्पन्न होता है और उन्हींमें विलीन होजाता है। इसलिये परलोक कुछ नहीं है। इसीका दूसरा अर्थ श्रीवर्द्धमान स्वामीने ऐसा किया कि ज्ञानका समूह इन पांच भूतोंका निमित्त पाकर उपजता है और उनके पर्यायोंकी पलटनेके साथ साथ ही वह ज्ञान बदलजाता है और उसका नाम भी पहिला नहीं रहता है।

तथा स्मार्ता अपि “न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने। प्रवृत्तिर्या भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला” इति श्लोकं पठन्ति। अस्य च यथाश्रुतार्थव्याख्यानेऽसंबद्धप्रलाप एव। यस्मिन् हि अनुष्ठीयमाने दोषो नारत्येव तस्मान्निवृत्तिः कथमिव महाफला भविष्यति? इत्याध्ययनदानादेरपि निवृत्तिप्रसङ्गात्। तस्मादन्यददपर्यमस्य प्रवृत्तिर्या भूतानाम्। प्रवर्तन्त उत्पद्यन्तेऽस्यामिति प्रवृत्तिरूपत्तिस्थानं भूतानां जीवानाम्। तच्चजीवसंसर्गिक-श्लोकस्य। तथा हि। न मांसभक्षणे कृतेऽदोषोऽपि तु दोष एव। एवं मद्यमैथुनयोरपि। कथं नादोष इत्याह—यतः प्रवृत्तिर्या भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला”।

इसी प्रकार स्मृतिकार कहते हैं कि “न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने। प्रवृत्तिर्या भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला”। प्रवृत्तिर्या भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला”। क्यौंकि; प्राणियोंकी प्रवृत्ति हेतुरित्यर्थः।

इसी प्रकार अर्थ यह होता है कि मांसभक्षणमें दोष नहीं है और न मद्य भी नहीं न मैथुन करनेमें। क्यौंकि; प्राणियोंकी प्रवृत्ति हेतु है। परंतु इसका प्रगट अर्थ यह होता है कि मांसभक्षणमें दोष नहीं है और न मद्य भी नहीं न मैथुन करनेसे ऐसा समझा जाता है कि; इसका प्रगट अर्थ यह होता है। परंतु इसके त्यागनेसे अवश्य महान् फल होता है। परंतु ऐसा अर्थ करनेसे ऐसा समझा जाता है कि; ही इस तरफ चली जाती है। परंतु इसके त्यागनेसे अवश्य महान् फल होता है। परंतु ऐसा अर्थ करनेसे ऐसा समझा जाता है कि; ऐसा कहनेवाला कोई बिना विचारे ही बकनेवाला है। क्यौंकि; जिसकी प्रवृत्ति करनेसे कुछ पाप नहीं होता उसके त्यागनेसे

महान् पुण्य भी कैसे होगा ? नहीं तो देवगुरुकी पूजन, पठन पाठन तथा दानादि कर्मको छोड़नेसे भी कुछ पाप न होना चाहिये । इसलिये इस श्लोकका ऐसा अर्थ करना चाहिये कि; मांस भक्षण करनेमें अदोष अर्थात् पुण्य नहीं है किंतु पाप ही होता है । इसी प्रकार मद्य मैथुनमें भी अदोष नहीं है किंतु दोष ही है । अदोष क्यों नहीं है ? क्योंकि; मांस मद्य मैथुनमें जीवोकी प्रवृत्ति अर्थात् उत्पत्ति होती रहती है । जीव जिसमें प्रवृत्ति अर्थात् उत्पन्न हों उसको प्रवृत्ति कहते हैं । जीवोकी उत्पत्तिके स्थानका नाम प्रवृत्ति है । अर्थात् मांस मद्य मैथुन इन तीनोंमें जीव सदा ही उपजते रहते हैं ।

प्रसिद्धं च मांसमद्यमैथुनानां जीवसंसक्तिसूक्ष्मकारणत्वमागमे । “ आमासु य पक्कासु य विपच्यमाणासु मांसपे-
सीसु । आयंतियमुववाओ भणियो दु णिगोयजीवाणं (संसकृतच्छाया-आमासु च पक्कासु च विपच्यमानासु मांस-
पेशीषु । आत्यन्तिकमुपपादो भणितः तु निगोतजीवानाम्) । १ । मज्जे महुह्मि मंसहि णवणीयहि चउत्थए ।
उप्पजंति अणंता तव्वण्णा तत्थ जंतूणो (मद्ये मद्यौ मांसे नवनीते चतुर्थे । उत्पद्यन्ते अनन्ताः तद्वर्णाः तत्र
जन्तवः) । २ । मेहुणसण्णारूढो णवलक्ख हणेइ सुहुमजीवाणं । केवलिणा पणत्ता सदहियव्वा सयाकालं
(मैथुनसंज्ञारूढो नवलक्षं हन्ति सूक्ष्मजीवानाम् । केवलिना प्रज्ञापिताः श्रद्धातव्याः सदाकालम्) । ३ । तथा
हि । इत्थीजोणीए संभवंति वेइंदिया उ जे जीवा । इको व दो व तिण्णि व लक्खपुहुत्तं उ उक्कस्सं (स्त्रीयोनौ
संभवन्ति द्वीन्द्रिया तु ये जीवाः । एको वा द्वौ वा त्रयो वा लक्षपृथक्त्वं तु उत्कृष्टम्) । ४ । पुरिसेण सह गयाए
तेसिं जीवाण होइ उद्वणं । वेणुगदिइंतेणं तत्तायसिलागणाएणं (पुरुषेण सह गतायां तेषां जीवानां भवति
उद्वनम् । वेणुकदृष्टान्तेन च तस्मायसशलाकापातेन) । ५ । ” संसक्तायां योनौ द्वीन्द्रिया एते शुक्रशोणितसंभ-
वास्तु गर्भजपञ्चेन्द्रिया इमे “पंचिंदिया मणुस्सा एगणरमुत्तणारिगब्भहि । उक्कस्सं णवलक्खा जायंती एगहे-
लाए (पञ्चेन्द्रिया मनुष्या एकनरमुत्तनारीगर्भे । उत्कृष्टं नवलक्षा जायन्ते एकहेलायाम्) । ६ । णवलक्खाणं
मज्जे जायइ एक दुण्हे य सम्मत्ती । सेसा पुण एमेव य विलयं वच्चंति तत्थेव (नवलक्षानां मध्ये जायते एको
द्वौ वा समस्तौ । शेषाः पुनः एवमेव च विलयं व्रजन्ति तत्रैव) । ७ । ” तदेवं जीवोपमर्दहेतुत्वान्न मांसभक्षणा-
दिकमदुष्टमिति योगः ।

और आगममें भी मांस मद्य मैथुनको जीवोंकी उत्पत्तिका मूलकारण कहा है। “कच्चेमें पकेमें फकते हुएमें तथा अन्य भी मांसकी अपेक्षा अवस्थाओंमें निगोत जीवोंकी अप्रमाण उत्पत्ति होती रहती है। १। मद्य, मधु, मांसमें तथा चौथे नवनीतमें रागी अपेक्षा प्रत्येक अवस्थाओंमें जंतु उत्पन्न होते हैं। २। मैथुन कर्ममें नौ लाख सूक्ष्म जीवोंका घात होना सर्वत्र भगवानने कहा है उसीके समान अनतो जंतु उत्पन्न होते हैं। ३।” अब योनिके जीवोंका विचार करते हैं। “स्त्रीकी योनिमें द्वीन्द्रिय जलता प्रसलिये उसका श्रद्धान सदा करना चाहिये। ३।” अब योनिके जीवोंका विचार करते हैं। ४। जैसे इसलिये उसका श्रद्धान सदा करना चाहिये। ३।” अब योनिके जीवोंका विचार करते हैं। ४। जैसे जीव कभी एक कभी दो कभी तीन इसी प्रकार अधिकसे अधिक कभी नौ लाख तक उत्पन्न हो जाते हैं। ४। जैसे अग्निसे तपाई हुई लोहेकी सलाई वासकी नलीमें डालनेसे नलीमें पड़े हुए तिल जल जाते हैं तैसे ही पुरुष जब संभोग करने लगता है तब योनिमें जितने जीव होते हैं उन सबोंका नाश हो जाता है। ५।” साक्षत योनिके द्वीन्द्रिय जीवोंकी संख्या तो ऊपर कही। अब रज और वीर्यके मेलसे उत्पन्न होनेवाले पंचेन्द्रियोंकी गिनती कहते हैं। “एक बार नारीका भोग करनेसे उस समय उस गर्भमें पंचेन्द्रिय मनुष्य कभी नौ लाख पर्यन्त भी एकदम उत्पन्न हो जाते हैं। ६। उन नौ लाखमेंसे एक या दो तो जी जाते हैं; अवशिष्ट यों ही नष्ट हो जाते हैं। ७।” इस प्रकार जीवहिसका कारण होनेसे मांसभक्षणादिक निर्दोष नहीं समझना चाहिये।

अथ वा भूतानां पिशाचप्रायाणामेषा प्रवृत्तिः। त एवात्र मांसभक्षणादौ प्रवर्त्तन्ते न पुनर्विवेकिन इति भावः। तदेवं मांसभक्षणादेर्दुष्टतां स्पष्टीकृत्य यदुपदेष्टव्यं तदाह “निवृत्तिस्तु महाफला”। तुरेवकारार्थः “तुः स्याद्भेदेऽवधारणे” इति वचनात्। ततश्चैतेभ्यो मांसभक्षणादिभ्यो निवृत्तिरेव महाफला स्वर्गोपवर्गफलप्रदा; न पुनः प्रवृत्तिरपीत्यर्थः। अत एव स्थानान्तरे पठितं “वैषे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः। मांसानि च न खादेद्यस्तयोस्तुल्यं भवेत्फलम्। १। एकरात्रोपितस्यापि या गतिर्वह्यचारिणः। न सा ऋतुसहस्रेण प्राप्तुं शक्या युधिष्ठिर”। मद्यपाने तु कृतं सूत्रानुवादैस्तस्य सर्वविगर्हितत्वात्। तानेवंप्रकारानर्थान् कथमिव बुधाभासास्तीर्थिका वेद्विमुहन्तीति कृतं प्रसङ्गेन। अथवा “प्रवृत्तिरेषा भूतानां” इसका अर्थ ऐसा करना चाहिये कि, भूत अर्थात् पिशाच राक्षसादिकोंकी ही यह दुष्ट प्रवृत्ति है, वे ही मांसभक्षण आदिक दुष्कर्म करते हैं, न कि विवेकी मनुष्य। इस प्रकार मांसभक्षणादिक दुष्कर्मोंको सर्वोप ठहरा कर

अब कर्तव्य क्या है सो कहते हैं। उससे निवृत्ति करनेसे ही महान् फल होता है। 'तु' शब्दका अर्थ भेद भी होता है तथा निश्चय भी होता है ऐसा कहा है। सो यहांपर जो 'तु' शब्द 'निवृत्तिस्तु' इस स्थानपर पड़ा है उसका अर्थ निश्चय कराना है। इसीलिये 'निवृत्तिस्तु' शब्दका अर्थ निवृत्ति ही ऐसा किया है। सर्ग मोक्षके फलको यहांपर महाफल कहा है। तु शब्दका निश्चय अर्थ माननेसे निवृत्ति ही महान् फल देनेवाली है, न कि प्रवृत्ति ऐसा अभिप्राय सूचित होता है। इसीलिये एक-दूसरे प्रसंगपर भी कहा है कि "सौ वर्ष पर्यंत प्रत्येक वर्षमें एक मनुष्य यज्ञ करै तथा दूसरा मांसभक्षण नहीं करै तो उन दोनोंका फल समान होगा। १। हे युधिष्ठिर ! एकरात्रिपर्यंत भी ब्रह्मचर्यं व्रत पालनेवालेकी जैसी उत्तम गति होती है तैसी हजार यज्ञ करनेवालेकी भी नहीं होती। २।" मद्यपान तो लोकमें ही निंद्य है उसका निषेध सूत्रानुवादमें करना व्यर्थ है। इस प्रकारसे जो ऐसे अर्थ हो सकते हैं उनको वे कैसे समझ सकते हैं जो स्वयं मतप्रवर्तक तो बनते हैं तथा विद्वान् बनते हैं परंतु यथार्थमें विद्वान् नहीं है। इतना कहना ही वश है।

अथ केऽमी सप्तभङ्गाः ? कश्चायमादेशभेद इति ? उच्यते । एकत्र जीवादौ वस्तुनि एकैकसत्त्वादिधर्मविषयप्रश्वशादविरोधेन प्रत्यक्षादिवाधापरिहारेण पृथग्भूतयोः समुदितयोश्च त्रिधिनिषेधयोः पर्यालोचनया कृत्वा स्याच्छब्दलाञ्छितो वक्ष्यमाणैः सप्तभिः प्रकारैर्वचनविन्यासः सप्तभङ्गीति गीयते । स्यादस्त्येव सर्वमिति विधिकल्पनया प्रथमो भङ्गः । स्यान्नास्त्येव सर्वमिति निषेधकल्पनया द्वितीयः । स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येवेति क्रमतो विधिनिषेधकल्पनया तृतीयः । स्यादवक्तव्यमेवेति युगपद्विधिनिषेधकल्पनया चतुर्थः । स्यादस्त्येव स्यादवक्तव्यमेवेति विधिकल्पनया युगपद्विधिनिषेधकल्पनया च पञ्चमः । स्यान्नास्त्येव स्यादवक्तव्यमेवेति निषेधकल्पनया युगपद्विधिनिषेधकल्पनया च षष्ठः । स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव स्यादवक्तव्यमेवेति क्रमतो विधिनिषेधकल्पनया युगपद्विधिनिषेधकल्पनया च सप्तमः । तत्र स्यात्कथंचित्स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावरूपेणास्त्येव सर्वं कुम्भादि न पुनः परद्रव्यक्षेत्रकालभावरूपेण ।

सप्तभङ्गी किस प्रकार है और आदेशोका भेद क्या वस्तु है ? उत्तर—जीवादि किसी एक पदार्थमें अस्तित्वादि धर्मोंसे किसी एक एक धर्मकी मुख्यतासे प्रथम उठनेपर पृथक् पृथक् अथवा मिले हुए विधि निषेध धर्मोंका प्रत्यक्षादि प्रमाणकी बाधा-

रहितविचार पूर्वक, 'सात्' शब्दसे चिन्हित ऐसी वचनरचना को ससभंगी कहते हैं। क्योंकि; वह वचनरचना सात प्रकार की हो सकती है। वह रचना ऐसी होनी चाहिये जिसके कहनेमें प्रत्यक्षादि किसी प्रमाणद्वारा विरोध नहीं आता हो। वे सात भंग इस प्रकार हैं।—किसी धर्मकी अपेक्षा संपूर्ण वस्तु अस्तिरूप ही है। अर्थात् है ही ऐसे विधियर्थकी कल्पनाकी मुख्यतासे ही हो सकती है।—किसी धर्मकी अपेक्षा संपूर्ण वस्तु नास्तिरूप ही है। अर्थात् नहीं ही है यह निषेधर्थकी मुख्यतासे दूसरा भंग है। किसी भंग मंग है। किसी अपेक्षासे संपूर्ण वस्तु नास्तिरूप ही है। अर्थात् नहीं ही है यह निषेधर्थकी मुख्यतासे तीसरा भंग होता है। किसी अपेक्षा वस्तु अवक्तव्य ही है ऐसा एकसाथ विधि निषेधकी कल्पना मुख्य करनेपर तीसरा भंग होता है। किसी अपेक्षा अस्तिरूप होकर भी वस्तु अवक्तव्य है ऐसा पांचवां भंग सामान्य विधिकी कल्पनासे तथा एक ही समय विधিনিषेध दोनोंकी मुख्यता करनेसे प्रथम भंग है। किसी अपेक्षा नहीं ही है ऐसा क्रमसे विधিনিषेधकी कल्पनासे चौथा भंग होता है। किसी अपेक्षा अस्तिरूप होकर भी वस्तु अवक्तव्य ही है ऐसा पांचवां भंग सामान्य विधिकी कल्पनासे तथा एक ही समय विधियर्थकी मुख्यतासे तृतीय भंग होता है। किसी अपेक्षा वस्तु नास्तिरूप होकर भी जब अवक्तव्य होता है तब सामान्य निषेधर्थकी मुख्यतासे ऐसा भंग सातवां होता है। किसी अपेक्षा वस्तु नास्तिरूप होकर भी जब अवक्तव्य होता है तब सामान्य निषेधर्थकी मुख्यतासे ऐसा भंग सातवां होता है। किसी अपेक्षा वस्तु नास्तिरूप होकर भी जब अवक्तव्य होता है तब सामान्य निषेधर्थकी मुख्यतासे ऐसा भंग सातवां होता है। किसी अपेक्षा वस्तु नास्तिरूप होकर भी जब अवक्तव्य होता है तब सामान्य निषेधर्थकी मुख्यतासे ऐसा भंग सातवां होता है। किसी अपेक्षा वस्तु नास्तिरूप होकर भी जब अवक्तव्य होता है तब सामान्य निषेधर्थकी मुख्यतासे ऐसा भंग सातवां होता है। किसी अपेक्षा वस्तु नास्तिरूप होकर भी जब अवक्तव्य होता है तब सामान्य निषेधर्थकी मुख्यतासे ऐसा भंग सातवां होता है।

अपेक्षा अस्तिनास्तिरूप होकर भी उसी समय युगपत् दोनों धर्मोंकीभी मुख्यता कीजाती है तथा युगपत् भी विधियर्थकी मुख्यता तथा अवक्तव्यरूप मिलकर सातवां भंग होता है। भावार्थ—कथंचित् अथवा सात् शब्दका अर्थ 'मुखसे स्पष्ट नहीं कही हुई किसी एक इष्ट अपेक्षासे' ऐसा होता है। सो जब अपेक्षाको स्पष्ट नहीं कहकर संक्षेपसे किसी धर्मको कहना होता है तब या तो सात् या कथंचित् शब्द जोड़कर बोलते हैं और जब अपेक्षाको स्पष्ट कहना होता है तब कथंचित् या सात् शब्द न कहकर केवल उस विवक्षाको दिखाकर विधियर्थ कहते हैं। जैसे—जब संक्षेपसे कहना होता है तब विवक्षा न कहकर केवल सात् अथवा कथंचित् शब्द द्वारा ही इस प्रकार बोला जाता है कि; सात् द्रव्य अस्तिरूप है, कथंचित् द्रव्य अस्तिरूप है अथवा किसी अपेक्षासे वस्तु अस्ति-रूप है। परंतु जब इसी विवक्षाको स्पष्ट कहना होता है तब ऐसा कहते हैं कि घड़ा आदिक कोई भी वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावोंकी अपेक्षासे अस्तिरूप है; न कि दूसरे द्रव्योंके द्रव्य क्षेत्र काल भावोंकी अपेक्षासे। अन्यथा कान्यकुजादिवे- तथा हि। कुम्भो द्रव्यतः पार्थिवत्वेनास्ति; क्षेत्रतः पाटलिपुत्रकत्वेन; न कालमत्वेन; न रक्तादित्वेन। भावतः श्यामत्वेन; न कालतः शैशिरत्वेन; न वासन्तिकदित्वेन।

स्वरूपहानिप्रसङ्ग इति । अवधारणं चात्र भङ्गेऽनभिमतार्थव्यावृत्त्यर्थमुपात्तम् । इतरथाऽनभिहिततुल्यतैवास्य वाक्यस्य प्रसज्येत; प्रतिनियतस्वार्थाऽनभिधानात् । तदुक्तं “वाक्येऽवधारणं तावदनिष्टार्थनिवृत्तये । कर्तव्यमन्यथाऽनुक्तसमत्वात्तस्य कुत्रचित्” ।

जैसे घड़को द्रव्यकी अपेक्षा देखते है तो पृथिवीपनेकी अपेक्षा अस्तिरूप है किंतु जलादिकी अपेक्षा अस्तिरूप नहीं है । क्षेत्रका विचार करनेपर पटना आदि किसी एक क्षेत्रकी अपेक्षा है वाकी दूसरे क्षेत्रोंकी अपेक्षा नहीं है । कालसे शीतादि किसी एक समयकी अपेक्षा है; शेष वसन्तादि अन्य समयोंकी अपेक्षा नहीं है । वस्तुके गुणोंको भाव कहते है । भावोंमेंसे किसी एककी अपेक्षा जब विचारते है तो वह घड़ा अपने श्यामादि गुणोंमेंसे विवक्षित एक गुणकी अपेक्षा है किंतु उसीमें रहनेवाले अन्य अविवक्षित गुणोंकी अपेक्षा नहीं है । यदि वस्तुको स्वकीय द्रव्य क्षेत्र काल भावोंकी अपेक्षा ही अस्तिरूप न मानकर विना विवक्षाके ही अस्तिरूप माना जाय तो उस वस्तुके पिंडसे औरोंकी व्यावृत्ति नहीं होसकैगी और फिर इसीलिये उस वस्तुके स्वरूपका अभाव होजायगा । क्योंकि, वस्तुका स्वरूप तभीतक स्थिर रहसकता है जबतक उसके स्वरूपसे दूसरोंके स्वरूपोंमें भिन्नता प्रतीत होती रहे । इसीलिये अमुक वस्तु स्यात् अस्तिरूप ही है इत्यादि वाक्योंमें जो ‘ही’ शब्दसे निश्चय कराते है वह इसीलिये कि; अमुकमें अमुकके सिवाय अन्य वस्तुओंका भेद प्रतीत होता रहै । यदि ‘ही’ शब्द नहीं कहाजाय तो किसी एकका निश्चय न होनेसे जिस वस्तुकी इच्छा नहीं है वह वस्तु भी इच्छित वस्तुके बोलनेपर समझी जाने लगैगी । सो ही कहा है “वाक्यमें जो दूसरोंके निषेधरूप निश्चय करानेवाला ‘ही’ शब्द बोला जाता है वह अनिच्छित वस्तुओंको इच्छितसे भिन्न समझानेके लिये बोला जाता है और बोलना ही चाहिये । यदि नहीं बोलाजाय तो किसी एकके बोलनेसे जो इष्ट है उसके अतिरिक्त जो इच्छित नहीं है वह भी समझा जाने लगैगा । क्योंकि; अमुक है ऐसे विधिरूप वचनसे यदि अमुकका ही विधान और दूसरोंका निषेध होसकै तो निश्चय होजाय परंतु अमुक है इतने वचनमात्रसे दूसरोंका निषेध और अपना विधान हो नहीं सकता है । इसलिये ‘ही’ के विना किसी वचनसे किसी एक वस्तुका निश्चय नहीं होसकता है ।

तथाप्यस्त्येव कुम्भ इत्येतावन्मात्रोपादाने कुम्भस्य स्तम्भाद्यस्तित्वेनापि सर्वप्रकारेणास्तित्वप्राप्तेः प्रतिनियतस्वरूपानुपपत्तिः स्यात् । तत्प्रतिपत्तये स्यादिति शब्दः प्रयुज्यते । स्यात्कथंचित्स्वद्रव्यादिभिरेवायमस्ति; न परद्रव्या-

दिभिरपीत्यर्थः । यत्रापि चासौ न प्रयुज्यते तत्रापि व्यवच्छेदफलवकारवद् बुद्धिमद्भिः प्रतीयत एव । यदुक्तं “सोऽप्रयुक्तोऽपि वा तज्ज्ञैः सर्वत्रार्थास्मृतीयते । यथैवकारोऽयोगादिव्यवच्छेदप्रयोजनः” । इति प्रथमो भङ्गः ।

यहांपर शंका होसकती है कि घड़ा है ही इस प्रकार बोलनेसे ही यदि अभिप्राय समझा जाता है तो स्यात् शब्द बोलनेकी क्या आवश्यकता है? परंतु यह शंका योग्य नहीं है । क्योंकि, ‘ही’ शब्द जो निश्चयवाचक है वह जब ‘है’ क्रियाके साथ जोड़दिया जाता है तब घड़ेके अस्तित्व धर्मका तो निश्चय होजाता है कि घड़ा है ही किंतु नास्तिकधर्मका निश्चय नहीं होसकता कि घड़ा ही है अन्य कुछ नहीं है । क्योंकि, निश्चयवाचक जो ‘ही’ शब्द लगाया गया है वह ‘है’ के साथ लगाया गया है, नकि घड़ेके साथ । इसलिये फिर भी अन्य वस्तुओंसे घड़ेकी जुदायगी प्रतीत होना दुर्लभ है । इसलिये स्यात् शब्द लगाकर ही प्रत्येक वाक्य बोलना चाहिये । भावार्थ—स्यात् शब्दके कहेनेसे यह फल होगा कि विधि अथवा निषेधकी मुख्यतासे जो वस्तु बोला जायगा उससे उसीका विधিনিषेध होगा, अन्यका नहीं । जैसे यह घडा ही है अन्य कुछ नहीं है । यहांपर इस विधिवाक्यसे घड़ेकी ही विधि होती है और अन्य सर्वोंका निषेध होता है । और जो ‘है’ के साथ ‘ही’ शब्द बोला जायगा उसका यह फल होगा कि जो अमुक वस्तु अस्तिरूप बोली है तो अस्तिरूप ही है निषेधरूप नहीं है और यदि निषेधरूप ही बोली है तो वह निषेधरूप ही है; विधिरूप नहीं है । जैसे घड़ा है ही ऐसे वाक्यसे यही अर्थ समझा जाता है कि यह घड़ा अस्तिरूप ही है । इस प्रकार प्रत्येक वाक्यमें स्यात् शब्द भी बोलना चाहिये तथा ‘ही’ शब्द भी बोलना चाहिये । इसीसे यह निर्दोष अर्थ होसकता है कि अमुक वस्तु स्यात् अथवा कथंचित् अथवा सक्रीय द्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा ही है, अन्यकी अपेक्षा नहीं है । एवं यदि वह अस्तिरूप कहा है तो अस्तिरूप ही है, नास्तिरूप नहीं है । जहापर स्यात् शब्दका मुखसे उच्चारण नहीं किया जाता है वहांपर भी उसको ऊपरसे समझ लेते है । जैसे अन्यका निषेध करनेवाला ‘एव’ अथवा ‘ही’ शब्द न बोलनेपर भी वाक्यमें उसका वैसा ही अभिप्राय बुद्धिमान् ऊपरसे समझ लेते है । यही कहा है “जिस वाक्यमें स्यात् शब्द नहीं बोला जाता है वहांपर भी अभिप्रायसे स्यात् शब्दका अर्थ बुद्धिमानोको प्रतीत होजाता है । जैसे जिस वाक्यमें ‘एव’ अथवा ‘ही’ शब्द नहीं बोला जाता है उसमें प्रकरणवश बुद्धिमानोको ‘ही’ का अर्थ ऊपरसे झलक जाता है । यह प्रथम भङ्ग हुआ ।

स्यात्कथंचिन्नास्त्येव कुम्भादिः । स्वद्रव्यादिभिरपि वस्तुनोऽसत्त्वाऽनिष्टौ हि प्रतिनियतस्व-

रूपऽभावाद्दस्तुप्रतिनियतिर्न स्यात् । न चास्तित्वैकान्तवादिभिर्न नास्तित्वमसिद्धमिति वक्तव्यं; कथंचित्तस्य वस्तुनि युक्तिसिद्धत्वात्साधनवत् । न हि क्वचिदनित्यत्वादौ साध्ये सत्त्वादिसाधनस्यास्तित्वं विपक्षे नास्तित्वमन्तरेणोपपन्नं; तस्य साधनत्वाऽभावप्रसङ्गात् । तस्माद्दस्तुनोऽस्तित्वं नास्तित्वेनाविनाभूतं नास्तित्वं च तेनेति । विवक्षावशाच्चाऽनयोः प्रधानोपसर्जनभावः । एवमुत्तरभङ्गेष्वपि श्रेयं “अर्पिताऽनर्पितसिद्धेः” इति वाचकवचनात् । इति द्वितीयः ।

अब दूसरा भंग कहते हैं । किसी अपेक्षा घटादि समस्त वस्तु नास्तिरूप ही है । जिस प्रकार स्वद्रव्यादिकी अपेक्षा वस्तु अस्तिरूप होती है उसी प्रकार यदि परकीय द्रव्यादिकी अपेक्षा भी अस्तिरूप ही मानीजाय अर्थात् उसमें नास्तित्व धर्म माना ही न जाय तो किसी भी वस्तुका भेदभावसे भिन्न भिन्न ज्ञान न होसकै । और इसीलिये वस्तुका निश्चय होना दुर्लभ होजाय । जो लोग वस्तुमें सदा सर्वथा अस्तित्व धर्म ही मानते हैं वे भी ऐसा नहीं कहसकते हैं कि वस्तुमें नास्तित्व धर्म है ही नहीं । क्योंकि, जैसे एक ही हेतुमें किसी अपेक्षा अस्तित्व तथा किसी अपेक्षा नास्तित्व धर्म ऐसे दोनो ही धर्म दीखते हैं उसी प्रकार वस्तुओंमें भी नास्तित्व धर्म युक्तिसे किसी प्रकार सिद्ध होसकता है । जो सत्त्वादिरूप हेतु अनित्यत्वादिरूप साध्यमें अस्तिरूप है वही विपक्षकी अपेक्षा नास्तिरूप है । जिसमें साध्य न रहता हो उसको विपक्ष कहते हैं । ऐसे विपक्षमें जवतक जिस हेतुका अभाव सिद्ध न होगा तवतक उस हेतुका साध्यके साथ रहना भी असंभव है । क्योंकि, जो विपक्षमें व्यावृत्ति दिखाये विना ही साध्यस्थलमें रहता हो वह हेतु नहीं होसकता है । भावार्थ—जव साध्यस्थानकी अपेक्षा हेतुमें अस्तित्व तथा विपक्षकी अपेक्षा नास्तित्व धर्म संभव होता हो तभी उस हेतुको हेतु कहसकते हैं । यदि हेतुमें विपक्षकी अपेक्षा नास्तित्व धर्म यथार्थमें ही न हो तो वह हेतु विपक्षसे व्यावृत्त रहता है ऐसा कहना भी वन न सकै । क्योंकि; जो यथार्थमें व्यावृत्तिधर्म सहित नहीं है उसको ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यह अमुकसे व्यावृत्त है । क्योंकि; वस्तुको जितने नामोंसे बोलसकते हैं उतने धर्म उसमें अवश्य ही होने चाहिये । किसी वस्तुमें किसी एक धर्मको न मानते हुए भी उस वस्तुको उस नामसे पुकारना कितनी मूर्खता है ! यद्यथा जिन शब्दोंको विशेषणरूप बनाकर वस्तुको पुकारते हैं उनको यथार्थमें उस वस्तुके धर्म न मानना कितनी मूर्खता है ! इसलिये यह सिद्ध है कि प्रत्येक वस्तुमें अस्तित्वधर्म नास्तित्व धर्मके साथ और नास्तित्व अस्तित्वके साथ नियमसे रहनेवाले

अविनाभावी धर्म है। निवृत्तके वश कभी नास्तित्व धर्मको उदासीनरूप देखते हुए अस्तित्व धर्मको प्रधान देखते हैं तथा कभी अस्तित्व धर्मको अमुख्य रखकर नास्तित्व धर्मको प्रधान मानने लगते हैं। भावार्थ—इसीलिये एक पदार्थको कभी अस्तिरूप कहते हैं और कभी नास्तिरूप कहते हैं। “अर्पित तथा अर्पित नयोंकी अपेक्षासे वस्तुमें भंग हो सकते हैं” इस प्रकार ग्रन्थकर्ताओंमें मुख्य श्रीउमास्वामीके वचनानुसार और भी तीसरे आदिक भंगोंमें अस्तित्व नास्तित्व धर्मोंकी प्रधानता अप्रधानता समझलेना चाहिये। इस प्रकार दूसरा भंग हुआ।

तृतीयः स्पष्ट एव। द्वाभ्यामस्तित्वनास्तित्वधर्मभ्यां युगपत्प्रधानतयाऽर्पिताभ्यामेकस्य वस्तुनोऽभिधित्सायां तादृशस्य शब्दस्याऽसंभवादवक्तव्यं जीवादिवस्तु। तथा हि। सदसत्त्वगुणद्वयं युगपदेकत्र सदित्यनेन वक्तुमशक्यं; तस्याऽसत्त्वप्रतिपादनाऽसमर्थत्वात्। तथाऽसदित्यनेनापि; तस्य सत्त्वप्रत्यायनसामर्थ्याऽभावात्। न च पुष्पदन्तादिवत्साङ्केतिकमेकं पदं तद्वक्तुं समर्थं; तस्यापि क्रमेणार्थद्वयप्रत्यायने सामर्थ्योपपत्तेः शतृशानयोः संकेतितसच्छब्दवत्। अत एव द्वन्द्वकर्मधारयवृत्त्योर्वाक्यस्य च न तद्वाचकत्वम्। इति सकलवाचकरहितत्वादेवक्तव्यं वस्तु युगपत्सदसत्त्वाभ्यां प्रधानभावार्पिताभ्यामाक्रान्तं व्यवतिष्ठते। न च सर्वथाऽवक्तव्यम्; अवक्तव्य-शब्देनाप्यनभिधेयत्वप्रसङ्गात्। इति चतुर्थः। शेषाख्यः सुगमाभिप्रायाः।

तीसरा भग स्पष्ट ही है। अर्थात् जब क्रमसे अस्तित्व और नास्तित्व धर्मकी मुख्यता करते हैं तब वस्तुका स्वरूप अस्तिनास्तिरूप रहता है। इसलिये वस्तु कथंचित् अस्तिनास्ति ऐसे दोनोरूप है। यह तीसरा भंग हुआ। चौथा भंग कथंचित् अवक्तव्यस्वरूप है। जब अस्तित्व नास्तित्व दोनो धर्मोंको एक समयमें प्रधान समझते हैं तब इन परस्परविरुद्ध दोनो धर्मोंका एक साथ कहनेवाला कोई भी शब्द न मिलनेसे वस्तुका स्वरूप अवक्तव्य होजाता है। क्योंकि; जितने शब्द हैं उनमेंसे कुछ तो ऐसे हैं जो वस्तुके किसी धर्मका अस्तित्वमात्र कहसकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नास्तित्वको ही जता सकते हैं। जो अस्तित्व दिखानेवाले शब्द हैं वे नास्तित्व धर्मको नहीं कह सकते हैं और जो नास्तित्व धर्मको कहते हैं उनसे अस्तित्व धर्म कहाजाना असभव है। और जिस प्रकार पुष्पदन्त शब्द संकेतित होनेसे किसी विशेषको जतानेवाला है उस प्रकार भी कोई एक शब्द ऐसा संकेतित नहीं है जिसके द्वारा एक साथ परस्पर विरुद्ध धर्मोंका कहना, समझना होसकता हो। जो कोई माना भी जाय तो वह क्रमसे ही परस्पर विरुद्ध अर्थोंको

कह सकता है, एक साथ नहीं। जिस प्रकार व्याकरणमें 'शतृ' और 'शान' इन दो प्रत्ययोंकी 'सत्' संज्ञा रखी गई है और उसके बोलनेपर 'शतृ शान' प्रत्यय समझे भी जाते हैं परंतु समझे कमसे ही जाते हैं। 'शतृ' और 'शान' ये दोनों प्रत्यय एक साथ नहीं समझे जाते हैं। या तो 'सत्' संज्ञा खुनके अनंतर पहिले 'शतृ' और पीछे 'शान' का बोध होता है और या पहिले 'शान' पीछे 'शतृ' का। इसीप्रकार इन्द्र अथवा कर्मधारय समासके द्वारा परस्पर विरुद्ध धर्मके वाचक दो शब्दको मिलाकर एक कर लेनेके अनंतर भी अथवा एक वाक्यद्वारा परस्पर विरुद्ध दो धर्मके वाचक दो शब्द बोलनेपर भी एक साथ दोनों धर्मोंका कहना समझना असंभव ही है। इसलिये एक साथ परस्परविरुद्ध दो धर्मोंको बोलनेकी अपेक्षा एक साथ दो धर्मोंका कहनेवाला कोई शब्द न होनेसे वस्तुका स्वरूप कथंचित् अवक्तव्य रहता है। वस्तुका अवक्तव्य स्वरूप कथंचित् ही संभवता है किंतु सर्वथा अवक्तव्य भी नहीं है। यदि सर्वथा अवक्तव्य स्वरूप होता तो अवक्तव्य शब्दसे कहना भी कठिन होजाता। यह चौथा भंग हुआ। सात् अस्ति अवक्तव्य, स्यान्नास्ति अवक्तव्य तथा स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्य ये पांचवें छठे सातवें भंग सुगम हैं। भावार्थ—इन तीनोंका स्वरूप जो कुछ कहना था वह ऊपरके कथनसे ही गतार्थ होजाता है और कुछ विशेष कहना नहीं है।

न च वाच्यमेकत्र वस्तुनि विधीयमाननिषिध्यमानाननन्तधर्माभ्युपगमेनानन्तभङ्गीप्रसङ्गादसङ्गतैव सप्तभङ्गी-
ति; विधिनिषेधप्रकारापेक्षया प्रतिपत्त्यर्थं वस्तुन्यनन्तानामपि सप्तभङ्गीनामेव संभवात् । यथा हि सदसत्त्वा-
भ्यामेवं सामान्यविशेषाभ्यामपि सप्तभङ्गैव स्यात् । तथा हि । स्यात्सामान्यम् । स्याद्विशेषः । स्यादुभयम् ।
स्यादवक्तव्यम् । स्यात्सामान्याऽवक्तव्यम् । स्याद्विशेषावक्तव्यम् । स्यात्सामान्यविशेषाऽवक्तव्यमिति । न चान्न
विधिनिषेधप्रकारौ न स्त इति वाच्यं; सामान्यस्य विधिरूपत्वाद्विशेषस्य च व्यावृत्तिरूपतया निषेधात्मकत्वात् ।
अथ वा प्रतिपक्षशब्दत्वाद्यदा सामान्यस्य प्राधान्यं तदा तस्य विधिरूपता विशेषस्य च निषेधरूपता । यदा
विशेषस्य पुरस्कारस्तदा तस्य विधिरूपता इतरस्य च निषेधरूपता । एवं सर्वत्र योज्यम् । अतः सुधृक् अनन्ता
अपि सप्तभङ्गैव भवेयुरिति ।

जब एक एक वस्तुमें अनन्तो अनन्तो धर्म हैं और सभी विधीयमान निषिध्यमान हैं तब यदि अनन्तो ही भंग होसकते हैं तो सप्तभंगी ही क्यों कहना चाहिये? यह शंका अनुचित है। क्योंकि; चाहे कितने ही धर्मोंको अस्तिनास्तिरूप कहा जाय परंतु

विधিনিषेधकी अपेक्षा प्रत्येक धर्मके भंग सात ही होंगे । इसलिये सब धर्मोंकी ससभङ्गी चाहें अनंतो हों परंतु प्रत्येक धर्मके विधিনিषेधकी अपेक्षा ससभङ्गी ही कहना उचित है । जिस प्रकार सत् असत् धर्मोंकी ससभङ्गी होसकती है उसी प्रकार सामान्य विशेष इन दो धर्मोंकी भी ससभङ्गी होसकती है । जैसे—प्रत्येक वस्तु कथंचित् सामान्य है, कथंचित् विशेष है, कथंचित् सामान्यविशेष सामान्यविशेषरूप है, कथंचित् अवक्तव्य है, कथंचित् सामान्य होकर भी अवक्तव्य है; कथंचित् विशेष होकर भी अवक्तव्य है तथा कथंचित् कर्त्तिक, सामान्य धर्म तो सदा अस्तिरूप है । कदाचित् कहें कि इसमें विधि तथा निषेध नहीं होसकते है सो भी कहना ठीक नहीं है । विधि निषेधकी अपेक्षा सात भग होसकते है और विशेष धर्म दूसरोका निषेधकर्ता होनेसे नास्तिरूप है । इसलिये जैसे अस्ति नास्ति धर्मोंमें विधि निषेध कहे जा सकते हैं कि ये दोनों सामान्य विशेष धर्मोंमें भी सात भंग होसकते हैं । अथवा इस प्रकार भी इनमें और विशेष धर्मकी अप्रधानता रखते है तब सामान्य विशेष शब्द एक दूसरेके विरुद्ध है इसलिये जब सामान्य धर्मकी तो प्रधानता करते है मुख्य समझकर सामान्यको अमुख्य समझते है तब विशेष धर्म विधिरूप होजाता है और सामान्य निषेधरूप होजाता है । और जब विशेषको स्वात्सामान्य है सात् विशेष है इत्यादि प्रकारसे सात भंग होसकते है । इसी प्रकार और भी संपूर्ण धर्मोंमें सात सात भंग घट सकते है । इसीलिये ठीक कहा है कि “अनतो धर्मोंमें भी विचार करनेपर प्रत्येकके सात सात ही भंग होनेसे यदि अनंतो भी होंगी तो ससभङ्गी ही होंगी” ।

प्रतिपर्यायं प्रतिपाद्यपर्यनुयोगानां सप्तानामेव संभवात् । तेषामपि सप्तत्वं; सप्तविधतज्ज्ञासानियमात् । तस्या अपि सप्तविधत्वं; सप्तधैव तत्संदेहसमुपादात् । तस्यापि सप्तविधत्वनियमः स्वगोचरवस्तुधर्माणां सप्तविध-

प्रत्येक पर्यायकी अपेक्षा भंग सात ही इसलिये होते है कि प्रत्येक पर्यायमें जिनको कहसकते है ऐसे समाधान अथवा उत्तर सात ही होतेहै । उत्तर सात ही इसलिये होते है कि उन स्वरूपोंके जाननेकी इच्छा सात प्रकारसे ही होती है । जाननेकी इच्छा भी सात प्रकार ही इसलिये होती है कि, उस विषयके संदेह सात प्रकारके ही उठते है । और संदेह भी अधिक इसलिये नहीं उठते कि, प्रत्येक वस्तुमें संभवने योग्य धर्म सात ही है ।

इयं च सप्तभङ्गी प्रतिभङ्गं सकलादेशस्वभावा विकलादेशस्वभावा च । तत्र सकलादेशः प्रमाणवाक्यम् । तद्वक्ष्यं चेदम् । प्रमाणप्रतिपन्नानन्तधर्मात्मकवस्तुनः कालादिभिरभेदवृत्तिप्राधान्यादभेदोपचाराद्वा यौगपद्येन प्रतिपादकं वचः सकलादेशः । अस्यार्थः—कालादिभिरष्टाभिः कृत्वा यदभेदवृत्तेर्धर्मिणोरपृथग्भावस्य प्राधान्यं तस्मात्कालादिभिर्भिन्नात्मनामपि धर्मधर्मिणामभेदाध्यारोपाद्वा समकालमभिधायकं वाक्यं सकलादेशः । तद्विपरी- तस्तु विकलादेशो नयवाक्यमित्यर्थः । अयमाशयः । यौगपद्येनाऽशेषधर्मात्मकं वस्तु कालादिभिरभेदप्राधान्यवृत्त्या- ऽभेदोपचारेण वा प्रतिपादयति सकलादेशः तस्य प्रमाणाधीनत्वात् । विकलादेशस्तु क्रमेण भेदोपचाराद्भेदप्रा- धान्याद्वा तदभिधत्ते तस्य नयात्मकत्वात् ।

प्रत्येक सप्तभङ्गीके प्रत्येक भंगमें कभी सकलादेश स्वभाव पाया जाता है और कभी विकलादेशरूप स्वभाव पाया जाता है । प्रमाणरूप ज्ञानके सूचक वाक्यको सकलादेश कहते हैं और नयरूप ज्ञानके सूचक वाक्यको विकलादेश कहते हैं । प्रमाणरूप ज्ञानसे जाने हुए अनंतधर्मस्वरूप वस्तुको कालादिक आठ निमित्तोंकी अपेक्षासे अथवा अभिन्न भावके संकल्पकी अपेक्षा लेकर एकसाथ कहनेवाला जो वचन हो, जैसे अमुक वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उसीको प्रमाणरूप वचन अथवा सकलादेश कहते हैं । सारांश यह है कि; वस्तुमें जितने धर्म होते हैं वे सभी कालादिक आठ निमित्तोंकी अपेक्षा अभिन्न समझे जाते हैं । सो उन संपूर्ण धर्मोंमें तथा उनके धर्मियोंमें परस्पर कालादिकी अपेक्षा अभेद मानकर अभेद भावको प्रधानकर अथवा कालादिसे जो धर्मधर्मी परस्पर अभिन्न हो रहे हैं उनमें अभेद दृष्टिका ही आरोपण प्रधान करके संपूर्ण धर्मधर्मीके समूहको जो वचन एक समयमें कहै उसको सकलादेश कहते हैं । और जो लक्षण प्रयोजनादिक निमित्तोंकी अपेक्षा लेकर वस्तुके धर्मधर्मियोंको भिन्न भिन्न कहनेवाला वाक्य होता है उसको विकलादेश अथवा नयवाक्य कहते हैं । भावार्थ—सकलादेश तो कालादिकृत अभेदभाव लेकर अथवा अभेदरूप उपचार कर एक ही समयमें वस्तुके संपूर्ण धर्मोंको एकरूप प्रतिपादन करता है । क्योंकि; वह सकलादेशरूप वस्तु प्रमाण- ज्ञानका ही विषय है । और जो विकलादेश है वह भेद दृष्टिका आरोपण करके अथवा भेदभावकी प्रधानता मानकर क्रमसे एक एक धर्मको लेकर वस्तुस्वरूपका कथन भिन्नरूप करता है । क्योंकि; विकलादेश वस्तु नयाधीन है । प्रमाणज्ञानतो युगपत् अंतो

धर्मों सहित वस्तुको अमेदरूपसे जानता है और जो नयरूप ज्ञान होता है वह वस्तुके एक एक धर्मका क्रमसे ग्रहण करता है । इसीलिये प्रमाणके विषयको तो सकलदेश कहते हैं और नयात्मक ज्ञानके विषयको विकलदेश कहते हैं ।

कः पुनः क्रमः ? किं च यौगपद्यम् ? यदाऽस्तित्वादिधर्माणां कालादिभिर्भेदविवक्षा तदैकशब्दस्यानेकार्थप्रत्यायने शक्त्यभावात्क्रमः । यदा तु तेषामेव धर्माणां कालादिभिरभेदेन वृत्तमात्मरूपमुच्यते तदैकेनापि शब्देनैकधर्मप्रत्यायनमुखेन तदात्मकतामापन्नस्याऽनेकाशेषधर्मरूपस्य वस्तुनः प्रतिपादनसम्भवाद्यौगपद्यम् ।

क्रमसे जानना इस शब्दका अभिप्राय तो क्या है और प्रमाण युगपत् समस्त धर्मोंको जानता है ऐसे वाक्यमें जो युगपत् शब्द कहा उसका अभिप्राय क्या है ? जब एक वस्तुमें रहनेवाले अस्तित्व नास्तित्व आदिक अन्तों धर्मोंमें लक्षण प्रयोजनादि कारणों द्वारा भेदभावकी कल्पना कीजाती है तब एक शब्दके बोलनेसे अनेक धर्मोंका प्रतिबोध नहीं हो सकता है । क्योंकि; उस समय धर्म तो परस्पर भिन्न भिन्न माने हुए हैं और एक शब्द अनेक धर्मोंका वाचक हो नहीं सकता है । इसलिये एक वचनसे एक साथ प्रतिपादन न होसकनेके कारण प्रत्येक धर्मको क्रमसे ही अनेक शब्दोंद्वारा कहना पड़ता है । इसीको क्रमसे जानना कहते हैं । और जब उन्हीं संपूर्ण धर्मोंको कालादिकी अपेक्षा अभिन्न मानकर सबको एकरूप मानते हैं तब सभी धर्म एकरूप विवक्षित होनेसे एक ही समयमें एक ही शब्दद्वारा पुकारे जा सकते हैं । परंतु तब भी एक शब्द जो बोलते हैं वह होता किसी न किसी एक ही धर्मका वाचक है किंतु उस एक धर्मकी मुख्यता करके बोलनेसे उसका अर्थ संपूर्ण धर्मोंका समुदाय माना जाता है । क्योंकि, उस समय संपूर्ण धर्मोंको एकरूप ही मान रक्खा है । इसीका नाम युगपत् है । अर्थात् एक धर्मकी मुख्यता करके एक शब्द बोलनेपर भी अमेद विवक्षासे संपूर्ण धर्मोंमें अमेद समझ लेना ही युगपत्शब्दका अर्थ है ।

के पुनः कालादयः ? कालः; आत्मरूपम्, अर्थः; संबन्धः; उपकारः; गुणिदेशः; संसर्गः; शब्द इति । तत्र (१) स्याज्जीवादिवस्त्वस्थेवेत्यत्र यत्कालमस्तित्वं तत्कालाः शेषानन्तधर्मा वस्तुन्येकत्रेति तेषां कालेनाऽभेदवृत्तिः । (२) यदेव चास्तित्वस्य तद्गुणत्वमात्मरूपं तदेवान्यानन्तगुणानामपीति आत्मरूपेणाऽभेदवृत्तिः । (३) य एव चाधारोऽर्थो द्रव्याख्योऽस्तित्वस्य स एवाऽन्यपर्यायाणामित्यर्थेनाऽभेदवृत्तिः । (४) य एव चाऽविष्वग्भावः कथंचित्तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धोऽस्तित्वस्य स एव शेषविशेषाणामिति सम्बन्धेनाऽभेदवृत्तिः । (५)

य एव चोपकारोऽस्तित्वेन स्वानुरक्तत्वकरणं स एव शेषैरपि गुणैरित्युपकारेणाऽभेदवृत्तिः । (६) य एव गुणिनः संबन्धी देशः क्षेत्रलक्षणोऽस्तित्वस्य स एवान्यगुणानामिति गुणिदेशेनाऽभेदवृत्तिः । (७) य एव चैकवस्वात्मनाऽस्तित्वस्य संसर्गः स एव शेषधर्माणामिति संसर्गेणाऽभेदवृत्तिः । अविष्वग्भावेऽभेदः प्रधानं भेदो गौणः संसर्गे तु भेदः प्रधानमभेदो गौण इति विशेषः । (८) य एव चास्तीति शब्दोऽस्तित्वधर्मात्मकस्य वस्तुनो वाचकः स एव शेषाऽनन्तधर्मात्मकस्यापीति शब्देनाऽभेदवृत्तिः पर्यायार्थिकनयगुणभावे द्रव्यार्थिकनयप्राधान्यादुपपद्यते ।

वे कालादि आठ कारण कौनसे है जिनके द्वारा धर्म धर्मी आदि अनेक भेदरूप वस्तुमें भी अभेद प्रतीत होता है^१ काल, आत्मरूप अर्थ, संबन्ध, उपकार, गुणिदेश, संसर्ग, शब्द ये अभेद दिखानेके आठ कारण है । (१) इनमेंसे जीवादि वस्तु कथंचित् अस्तिरूप ही है ऐसा शब्द बोलनेपर जितने समयतक उस जीवादि किसी एक द्रव्यमें अस्तित्व धर्मकी प्रधानता मानी गई हो उतने समयतक बाकीके भी अन्य धर्म उस एक वस्तुमें है इसलिये काल की अपेक्षा वे सर्व अभिन्नरूप है ऐसा मानना चाहिये । (२) जिस प्रकारसे अस्तित्व धर्म उस वस्तुमें वस्तुस्वरूप है उसी प्रकार और गुण भी उस वस्तुमें वस्तुस्वरूप ही होकर रहते हैं इसलिये निजपनेकी अपेक्षा वे सर्व एक ही अथवा अभिन्न ही है । (३) द्रव्यनामक जो पदार्थ अस्तित्व धर्मका आश्रय है वही और भी बाकीके अनंतो धर्मोंका अथवा पर्यायोंका आश्रय है इसलिये अर्थ या पदार्थकी अपेक्षा उन सर्वोंमें अभेद है । (४) जिसका कभी विश्लेष नहीं होता ऐसा जो द्रव्यके साथ कथंचित् तादात्म्यरूप संबंध अस्तित्वका है वही और गुणोंका भी है इसलिये संबंधकी अपेक्षा वस्तुके धर्म धर्मी आदिक स्वभाव अभिन्न हैं । (५) अस्तित्व धर्मकरिके निज स्वरूपमें जिस उपकारके द्वारा अनुराग पैदा होता है उसी उपकारके द्वारा अन्य धर्मों करिके भी वस्तुके स्वरूपमें अनुराग होता है इसलिये उपकारकी अपेक्षा वस्तुमें अभेदभाव है । (६) जिसमें गुण वसते है ऐसा द्रव्यरूप देश अथवा क्षेत्र जो एक अस्तित्व गुणका है वही क्षेत्र बाकीके अन्य गुणोंका भी है इसलिये गुणविशिष्ट द्रव्यरूप क्षेत्रकी अपेक्षा संपूर्ण धर्मोंमें परस्पर अभेदभाव है । (७) एक वस्तुपनेकी अपेक्षा जो अस्तित्वगुणका संसर्ग है वही और भी शेष गुणोंका संसर्ग है इसलिये संसर्गकी अपेक्षा अभिन्नपना है । यद्यपि वस्तुको संबंधकी अपेक्षा भी ऊपर अभिन्नरूप ही मान्युके है परंतु जब संबंधकी अपेक्षा वस्तु और उसके संपूर्ण धर्मोंको अभिन्नरूप सिद्ध करते है तब उन सर्वोंमें अविष्वग्भाव माननेसे अभेदविवक्षा प्रधान कीजाती है और भेदभाव अप्रधान रक्खा जाता है । किंतु जब संसर्गकी अपेक्षा अभेदभाव देखते है

तब भेदभाव तो मुख्य रखा जाता है और अभेदभाव अमुख्य रखा जाता है। यही संसर्ग तथा संबंधमें अपूर्वता है। (८) जो अस्ति अथवा है ऐसा शब्द अस्तित्व धर्मवाले वस्तुको जताता है उसीसे बाकीके अनतो धर्मोंका आश्रयमूल वस्तु भी जताया जाता है इसलिये शब्दकी अपेक्षा भी अनंतो धर्म तथा उसका आधार वस्तु ये सर्व परस्पर अभिन्नरूप है। अर्थात् एक ही शब्दसे एक वस्तुके संपूर्ण धर्मोंका बोध होजाता है इस लिये वस्तुके संपूर्ण अंश अभिन्न अथवा एकरूप ही है। जब पर्यायोंके आविर्भावकी अपेक्षा तो अमुख्य समझी जाती हो और अखंडरूप द्रव्यकी अपेक्षा रखनेवाली विवक्षाकी प्रधानता मानी जाती हो तब यह आठों प्रकारका अभेदभाव बनसकता है।

द्रव्यार्थिकगुणभावे पर्यायार्थिकप्राधान्ये तु न गुणानामभेदवृत्तिः संभवति; समकालमेकत्र नानागुणानाम-संभवात्। संभवे वा तदाश्रयस्य तावद्धा भेदप्रसङ्गात्। नानागुणानां सम्बन्धिन आत्मरूपस्य च भिन्नत्वात् आत्मरूपाऽभेदे तेषां भेदस्य विरोधात्। स्वाश्रयस्यार्थस्यापि नानात्वादन्यथा नानागुणाश्रयत्वस्य विरोधात्। सम्बन्धस्य च सम्बन्धिभेदेन भेददर्शनान्नानासम्बन्धिभिरैकत्रैकसम्बन्धाऽघटनात्। तैः क्रियमाणस्योपकारस्य च प्रतिनियतरूपस्याऽनेकत्वात् अनेकरूपकारिभिः क्रियमाणस्योपकारस्य विरोधात्। गुणिदेशस्य च प्रतिगुणं भेदात्तदभेदे भिन्नार्थगुणानामपि गुणिदेशाऽभेदप्रसङ्गात्। संसर्गस्य च प्रतिसंसर्गि भेदात्तदभेदे संसर्गिभेदविरोधात्। शब्दस्य प्रतिविषयं नानात्वात्सर्वगुणानामेकशब्दवाच्यतायां सर्वार्थानामेकशब्दवाच्यतापत्तेः शब्दान्तरवैफल्यापत्तेश्च।

और जब द्रव्यार्थिक अपेक्षा की अप्रधानता तथा पर्यायोंके आविर्भावकी मुख्यता ली जाती है तब संपूर्ण गुणोंमें परस्पर अभेदभाव नहीं बनसकता है। क्योंकि; (१) एक ही समयमें नाना भावोंका होना असंभव है और यदि हों भी तो उन भिन्न भिन्न भावोंके आश्रयरूप जो द्रव्य है वह भी उतने ही भेदरूप होजायगा। (२) और संपूर्ण गुणोंके स्वरूपमें तथा उनके आश्रयरूप द्रव्यमें परस्पर अनेकपना है। यदि उन गुणोंमें परस्पर भेद न हो तो वे गुणभिन्न भिन्न न गिने जाने चाहिये। (३) और उन गुणोंका आश्रयमूल जो द्रव्य है वह भी नानाप्रकार है। यदि नानारूप न हो तो नाना गुणोंका आश्रय किस प्रकार बनसकै ? (४) और जो अनेक संबंधियोंको संबद्ध रखनेवाले संबंध है वे भी अनेक होने चाहिये। क्योंकि; एक वस्तुमें

अनेक संबन्धियोंको संबद्ध रखना एक संबंधके द्वारा नहीं होसकता है। (५) और उन अनेक गुणों करके किया हुआ उपकार है वह भी प्रत्येक गुणका जुदा जुदा स्वरूप होनेसे अनेक प्रकार ही होगा। क्योंकि; जो उपकार अनेक उपकारियोंकर किया जाता है वह एकरूप नहीं होसकता। (६) जो प्रत्येक गुणका क्षेत्र है वह भी कश्चित् भिन्न भिन्न ही होना चाहिये। क्योंकि; यदि क्षेत्र अभिन्न होगा तो उसमें रहनेवाले भिन्न भिन्न प्रयोजनके धारक संपूर्ण गुण भी क्षेत्रकी अपेक्षा एकरूप होजायगे। (७) इसी प्रकार संसर्ग भी उन प्रत्येक संसर्गियोंकी अपेक्षा भिन्न भिन्न ही है जिनको कि वे मिलाने रखते है। यदि उन गुणोंको मिले हुए रखनेवाला संसर्ग एक ही होता तो मिले हुए जों अनेक गुण है वे भी संपूर्ण एक ही होजाते। (८) इसी प्रकार अस्तित्वादि प्रत्येक धर्मके वाचक शब्द भी भिन्न भिन्न है। यदि संपूर्ण गुणोंका अथवा धर्मोंका वाचक एक ही शब्द होता तो संपूर्ण धर्म एक शब्दके ही वाच्य अर्थ होजाते। और जब एक शब्दके अनेको वाच्य अर्थ होजाते तो अन्य शब्दोंका बोलना भी व्यर्थ होजाता।

तत्त्वतोऽस्तित्वादीनामेकत्र वस्तुन्येवमभेदवृत्तेरसंभवे कालादिभिर्भिन्नात्मनामभेदोपचारः क्रियते। तदेताभ्यामभेदवृत्त्यभेदोपचाराभ्यां कृत्वा प्रमाणप्रतिपन्नाऽनन्तधर्मात्मकस्य वस्तुनः समसमयं यदभिधायकं वाक्यं स सकलादेशः प्रमाणवाक्यापरपर्यायः। नयविषयीकृतस्य वस्तुधर्मस्य भेदवृत्तिप्राधान्याद् भेदोपचाराद्वा क्रमेण यदभिधायकं वाक्यं स विकलादेशो नयवाक्यापरपर्याय इति स्थितम्। ततः साधूक्तमादेशभेदोदितसप्तभङ्गम्। इति काव्यार्थः।

इस प्रकार पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे यदि विचार किया जाय तो यथार्थमें अस्तित्वादि जो अनेकों धर्म हैं वे एक किसी वस्तुमें अभेदभावसे नहीं रहसकते है किंतु कालादि आठों कारणोंके द्वारा परस्पर भिन्नस्वरूप ही रहेंगे। और जब ये इस प्रकार सर्व भिन्नस्वरूपही है तब इनमें कार्यवाहीरूप प्रयोजनके वश अभेदभावका उपचार अथवा आरोप कल्पना करनी पडती है। इस प्रकार द्रव्यार्थिक नयकी मुख्यता लेकर पहिले दिखाये हुए अभेदभावके कारण अथवा जब पर्यायार्थिक नयकी मुख्यता लेते है तब अभेदभाव समयमें नहीं बनसकता है इसलिये प्रयोजनवश आरोपित किये हुए अभेदरूपके कारण अनन्तधर्मात्मक वस्तुका एक ही कहनेवाला जो वाक्य हो वह सकलादेश है। इसीका दूसरा नाम प्रमाणवाक्य है। और नयरूप ज्ञानसे जिसका जानना होता है

ऐसा जो ँकदेशरूप वस्तुका ँक धरुडु है उसको जो वाक्य डेदभावकी अथवा डेदरूप उपचार की प्रथानता लेकर प्रतिपादन करे वह विकलदेश है । इसीको नयवाक्य डी कहते हैं । इस प्रकार सकलदेश तथा विकलदेश सिद्ध होनेसे यह कहना डी सिद्ध होता है कि सकलदेश विकलदेशरूप आदेशोंडेसे कडुी किसीका और कडुी किसीका सहारा लेनेसे वस्तुके स्वरूपडें सात सात डंग होजाते हैं । इस प्रकार इस काव्यका अर्थ पूर्ण हुआ ।

अनतरं डगवदशितस्याऽनेकान्तात्मनो वस्तुनो बुधरूपवेद्यत्वमुक्तडु । अनेकान्तात्मकत्वं च सप्तडङ्गीप्ररूपणेन सुखोद्येयं स्यादिति साडि निरूपिता । तस्यां च विरुद्धधरुडुर्माध्यासितं वस्तु पश्यन्त ँकान्तवादिनोऽबुधरूपा विरोधमुद्भावयन्ति । तेषां प्रमाणडार्गाड्यवनडुमाह ।

अडी पहिले यह कहा कि जिसका प्रतिपादन डगवान् सर्वज्ञने किया ऐसा वस्तुका अनेकान्तात्मक स्वरूप अच्छे विद्वानोके विचारडें डी आसकता है । और अनेकांतात्मकपनेका ज्ञान सप्तडङ्गीरूप साद्वादका प्ररूपण करनेसे डी डलेप्रकार होसकता है इसलिये डीछे से सप्तडङ्गीका निरूपण डी किया । परंतु नाना प्रकारके अस्तित्व नास्तित्व आदिक परस्परविरुद्ध धरुडुसहित वस्तुको देखते हुए अज्ञानी ँकान्तपक्षपाती जन उसडें विरोध समझते हैं । सो अब यह दिखाते हैं कि वे प्रमाणके सचे डार्गसे च्युत है ।

उपाधिडेदोपहितं विरुद्धं नार्थेष्वसत्त्वं सदवाच्यते च ।
इत्यप्रबुद्धैव विरोधडीता जडास्तदेकान्तहताः पतन्ति ॥ २ॡ ॥

डूलार्थ-परस्पर विरुद्ध जो अस्तित्व नास्तित्व तथा अवकन्य ये तीन धरुडु पदार्थडें आरोपित किये गये हैं वे यद्यडि विवक्षाके वश डीक हैं इसलिये विरुद्ध नहीं हैं परंतु विवक्षाओंका विचार न करनेवाले तथा ँकांतपक्षोंके धारण करनेसे जिनकी बुद्धि कुंठित होगई है तथा जो विरोधको देखकर डयडीत हैं ऐसे डूलै डनुष्य डार्गसे पतित होरहे हैं ।
व्याख्या-अर्थेषु पदार्थेषु चेतनाचेतनेष्वसत्त्वं नास्तित्वं न विरुद्धं न विरोधावरुद्धडु । अस्तित्वेन सह

विरोधं नाऽनुभवतीत्यर्थः । न केवलमसत्त्वं न विरुद्धं किं तु सदवाच्यं च । सच्चाऽवाच्यं च सदवाच्ये । तयोर्भावौ सदवाच्यते । अस्तित्वाऽवक्तव्यत्वे इत्यर्थः । ते अपि न विरुद्धे ।

व्याख्यार्थ—चेतन अचेतनरूप पदार्थोंमें रहनेवाला असत्त्व अर्थात् नास्तित्व धर्म विरोधसहित नहीं है। अर्थात् हमने जो चेतन और जड़रूप संपूर्ण पदार्थोंमें नास्तित्व धर्मका आरोपण किया है उसका अस्तित्व धर्मके साथ रहनेसे कुछ विरोध नहीं है। केवल अस्तित्वके साथ रहनेसे नास्तित्व धर्म ही विरोधरहित हो ऐसा नहीं है किंतु अस्तित्व तथा अवक्तव्य धर्म भी विरोधरहित ही है। अस्तित्वधर्मविशिष्ट वस्तुको सत् कहते हैं और जो एक साथ विरोधी धर्मोंके कारण बोला न जासकै उसको अवाच्य अथवा अवक्तव्य कहते हैं। इन दोनों धर्मोंको जब इकट्ठा बोलते हैं तब सदऽवाच्य कहते हैं। इन दोनों धर्मोंके भावको जब मिलाकर कहें तो सदवाच्यता कहते हैं और यदि जुदा जुदा कहें तो सत्त्व तथा अवाच्यत्व अथवा अस्तित्व तथा अवक्तव्यत्व कहते हैं। ये भी दोनों धर्म ऐसे विरोधी नहीं हैं जो एक वस्तुमें एक साथ न रहसकते हों।

तथा हि । अस्तित्वं नास्तित्वेन सह न विरुध्यते । अवक्तव्यत्वमपि विधिनिषेधात्मकमन्योऽन्यं न विरुध्यते । अथ वा अवक्तव्यत्वं वक्तव्यत्वेन साकं न विरोधमुद्भवति । अनेन च नास्तित्वाऽस्तित्वाऽवक्तव्यत्वलक्षणभङ्गत्रयेण सकलसप्तभङ्गा निर्विरोधतोपलक्षिताः अमीषामेव त्रयाणां मुख्यत्वाच्छेषभङ्गानां च संयोगजत्वेनाऽमीष्वेवान्तर्भावोदिति ।

अब ऊपरके कथनको स्पष्ट करते हैं। अस्तित्वधर्मका नास्तित्वधर्मके साथ रहनेमें विरोध नहीं है। अवक्तव्यत्व धर्मका विधिनिषेधरूप अस्तित्व तथा नास्तित्व इन दोनों धर्मोंके साथ विरोध नहीं है। अथवा अस्तित्व तथा नास्तित्व धर्म वक्तव्यरूप है इसलिये यों भी कह सकते हैं कि अवक्तव्यत्व धर्मका वक्तव्यत्वधर्मोंके साथ रहनेमें कुछ विरोध नहीं है। इन तीनों भंगोंमें परस्पर अविरोध होनेसे सातो ही भंगोंमें अविरोध समझ लेना चाहिये। क्योंकि, ये तीन ही भंग मुख्य है, बाकीके चार भंग तो इन्हीं तीनोंके संयोगोंसे उपजते हैं इसलिये उनका इन्हींमें अंतर्भाव होजाता है।

नन्येते धर्माः परस्परं विरुद्धाः । तत्कथमेकत्र वस्तुन्येषां समावेशः संभवति ? इति विशेषणद्वारेण हेतुमाह “उपाधिभेदोपहितम्” इति । उपाधयोऽवच्छेदका अंशप्रकारास्तेषां भेदो नानात्वं तेनोपहितमर्पितम् (असत्त्वस्य

विशेषणमेतत्) उपाधिभेदोपहितं सदर्थेष्वसत्त्वं न विरुद्धम् । सदवाच्यतयोश्च वचनभेदं कृत्वा योजनीयम् ।
उपाधिभेदोपहिते सती सदवाच्यते अपि न विरुद्धे ।

कदाचित् ऐसी शंका होसकती है कि ये धर्म परस्पर विरुद्ध है इसलिये इन तीनोंका एक एक पदार्थमें समावेश कैसे होसकता है? इसलिये विरोध न आनेमें हेतुरूप विशेषण कहते हुए उत्तर देते हैं कि “उपाधिभेदोपहितम्” । अर्थात् ये धर्म उपाधियोंके कारण मन्त्रे-गये हैं इसलिये इनमें परस्पर विरोध नहीं है । विवक्षित किसी वस्तुमें स्वयं रहकर उसको शेष अनेक वस्तुओंमेंसे जुदा करने-वाला जो धर्म होता है उसको उपाधि कहा है । अथवा नाना प्रकारके भिन्न भिन्न धर्मोंका नाम उपाधि है । उस उपाधिके अनेक भेदोंमेंसे किसी एक भेदके वश सत् रूप पदार्थोंमें स्थापित किया हुआ जो असत्व है वह विरोधी नहीं होसकता है । यहांपर उपाधिभेदोपहितम्’ ऐसा जो कहा वह नास्तित्वका विशेषण है तथा विरोध न आनेदेनेके लिये हेतु भी है । अर्थात् यह विशेषण हेतुरूप इसलिये है कि सत् पदार्थमें जो नास्तित्व धर्मका स्थापन है वह किसी न किसी व्यावर्तक धर्मके रहनेसे अवश्य मानना पडता है इसलिये अविरोध सिद्ध हो । वहांपर उपाधिका ही नाम व्यावर्तक धर्म है । इसी प्रकार अस्तित्व धर्म तथा अवक्तव्यत्व धर्ममें भी उपाधिके कारण ही अविरोध विचार लेना चाहिये । अर्थात् नाना प्रकारकी उपाधियोंमेंसे किसी एक उपाधिका आश्रय होनेसे ही अस्तित्व तथा अवक्तव्यत्वका भी नास्तित्व धर्मके साथ रहनेमें विरोध नहीं रहता ।

अयमभिप्रायः—परस्परपरिहारेण ये वर्तते तयोः शीतोष्णवत्सहाऽनवस्थानलक्षणो विरोधः । न चात्रैवं; सत्त्वाऽसत्त्वयोरितरेतरमविष्वग्भावेन वर्तनात् । न हि घटादौ सत्त्वमसत्त्वं परिहृत्य वर्तते पररूपेणाऽपि सत्त्वप्रसङ्गात् । तथा च तद्व्यतिरिक्तार्थान्तराणां नैरर्थक्यं तेनैव त्रिभुवनार्थसाध्यार्थक्रियाणां सिद्धेः । न चाऽसत्त्वं सत्त्वं परिहृत्य वर्तते स्वरूपेणाऽप्यसत्त्वप्राप्तेः । तथा च निरुपाख्यत्वात्सर्वशून्यतेति । तदा हि विरोधः स्याद्यद्येकोपाधिकं सत्त्वमसत्त्वं च स्यात् । न चैवं; यतो न हि येनैवांशेन सत्त्वं तेनैवाऽसत्त्वमपि । किं त्वन्योपाधिकं सत्त्वमन्योपाधिकं पुनरसत्त्वम् । स्वरूपेण हि सत्त्वं पररूपेण चासत्त्वम् ।

सारश यह है कि, शीतउष्णताकी तरह जो धर्म परस्परमेंसे एक दूसरेको हटाकर ही रहते है; किंतु एकसाथ रहते ही नहीं है उन धर्मोंका ही एक साथ न रहनेरूप विरोध कहाजासकता है । परंतु यहांपर ऐसा नहीं है कि एक साथ सत्त्व असत्व धर्म रहते

ही न हों। क्योंकि; सत्व असत्त्व धर्मोंको हम एक दूसरेके साथ अभेदभावसे रहते हुए प्रत्यक्ष देखते है। घड़े आदिकोमें जो घड़े आदिकोकी सत्ता रहती है वह असत्ताको छोड़कर कभी नहीं रहती है। यदि सर्वथा सत्ता ही रहै तो उस पदार्थके अतिरिक्त अन्य पदार्थोंकी अपेक्षा भी उस पदार्थका अस्तित्व होना चाहिये। और जो दूसरोकी अपेक्षा भी उसमें अस्तित्व रहेगा अर्थात् वह पदार्थ दूसरोकी अपेक्षा भी अस्तित्व माना जायगा तो उसके अतिरिक्त दूसरे पदार्थोंका रहना मानना ही निरर्थक है। क्योंकि; वह एक ही पदार्थ तीनों लोकोंके संपूर्ण पदार्थ स्वरूप होनेसे उसीसे संपूर्ण कार्य सिद्ध होसकते हैं। इसप्रकार जैसे सत्व धर्म असत्त्वको छोड़कर नहीं रहसकता है तैसे ही असत्व धर्म भी सत्वको छोड़कर नहीं रहसकता है। क्योंकि; सर्वथा असत्व ही हो अर्थात् जैसे पर पदार्थोंकी अपेक्षा प्रत्येक वस्तुमें असत्त्व धर्म रहता है तैसे ही यदि निज स्वरूपकी अपेक्षा भी असत्त्व ही रहेगा तो किसी वस्तुकी सत्ता ही न रहसकेगी और फिर कुछ न रहनेसे सर्वशून्यता होजायगी। और दूसरी बात यह है कि विरोध तभी आसकता है जब कि सत्व तथा असत्त्व ये दोनो धर्म एक किसी अपेक्षासे ही मानेजाय। परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि; जिस अंशकी अपेक्षा वस्तुको अस्तित्व मानते है उसीकी अपेक्षा नास्तित्व नहीं मानते है किंतु नास्तित्वरूप किसी अन्य अपेक्षासे मानते हैं और अस्तित्वरूप किसी अन्य अपेक्षासे। अर्थात् निज स्वरूपकी अपेक्षा तो वस्तुको अस्तित्व मानते हैं तथा निजसे भिन्न वस्तुओंकी अपेक्षा उसी वस्तुको नास्तित्वरूप मानते है।

दृष्टं ह्येकस्मिन्नेव चित्रपटावयविविनि अन्योपाधिकं तु नीलत्वमन्योपाधिकाश्चेतरे वर्णाः। नीलत्वं हि नीली-
रागाद्युपाधिकं वर्णान्तराणि च तत्तद्रञ्जनद्रव्योपाधिकानि। एवं भेचकरक्तेऽपि तत्तद्धर्णपुद्गलोपाधिकं वैचित्र्यम-
वसेयम्। न चैभिर्दृष्टान्तैः सत्त्वासत्त्वयोर्भिन्नदेशत्वप्राप्तिश्चित्रपटाद्यवयविविनि एकत्वात्तत्रापि भिन्नदेशत्वाऽसिद्धेः।
कथंचित्पक्षस्तु दृष्टान्ते दार्ष्टान्तिके च स्याद्वादिनां न दुर्लभः।

अन्यत्र भी इसी प्रकार देखा जाता है। कई रंगोंसे रंगा हुआ जो चित्र वस्त्र होता है उसमें जो नीलपन दीखपड़ता है वह तो किसी दूसरी चीजके संबंधसे तथा अन्य जो रंग होते है वे अपनीअपनी कुछ जुदी जुदी सामग्रियोंसे होते है। इसी प्रकार काला पीला इन दो वर्णोंका जो रंगा हुआ वस्त्र होता है उसमें भी जो जुदे जुदे रंग है वे अपनी अपनी जुदी सामग्रियोंसे ही। हुए है। भावार्थ—यद्यपि एक ही आधारमें अपनी अपनी अपेक्षा तो संपूर्ण रंग विद्यमान है परंतु अन्य रंगोंकी अपेक्षा अन्य

रंगोंका अभाव भी मानना ही पड़ता है। यदि दूसरोंकी अपेक्षा भी अभाव नहीं माना जाय तो संपूर्ण रंग एक ही होजाने चाहिये। और यदि सर्वथा असत्त्व ही माना जाय किन्तु अपनी अपेक्षा भी सत्त्व नहीं माना जाय तो सर्वोंका अभाव ही होजाय। इसलिये निज निजकी अपेक्षा तो उनमेंसे प्रत्येकका सत्त्व रहता है और परस्परोंकी अपेक्षा असत्त्व रहता है। चित्रविचित्र वस्त्रोंके दृष्टांतसे ऐसा भी नहीं सिद्ध होता है कि सत्त्व तथा असत्त्व ये दोनो धर्म हैं तो अवश्य परंतु भिन्न भिन्न स्थानपर रहते हो। क्योंकि; चित्रवस्त्रादि जो हैं वह अनेक रंगोंका आश्रय होकर भी अखंड एक ही है और इसीलिये उन संपूर्ण रंगोंका आधार एक ही माना जाता है, नकि भिन्न भिन्न। और फिर साक्षादियोगके पाससे कथंचित् बोलना तो कही छूट ही नहीं गया है। दृष्टांतमें और दार्ष्टांतमें भी वह विद्यमान है। अर्थात् हम न तो अनेक रंगोंके आधारभूत वस्त्रको ही सर्वथा एक कहते हैं और न सत्त्व असत्त्वके आश्रयको ही सर्वथा अभिन्न कहते हैं किन्तु कथंचित् सत्त्व असत्त्वका आश्रय एक है और कथंचित् जुड़े जुड़े हैं।

एवमप्यपरितोपश्चेदायुष्मतस्तर्ह्येकस्यैव पुंसस्तत्तदुपाधिभेदात्पितृत्वपुत्रत्वमातृत्वभागिनैयत्वपितृव्यत्वभ्रातृव्यत्वादिधर्माणां परस्परविरुद्धानामपि प्रसिद्धिदर्शनात् किं वाच्यम्? एवमवक्तव्यत्वादयोऽपि वाच्याः। इत्युक्तप्रकारेण उपाधिभेदेन वास्तवं विरोधाऽभावमग्रबुद्ध्यैवाऽज्ञात्वैव (एवकारोऽवधारणे। स च तेषां सम्यग्ज्ञानस्याऽभाव एव न पुनर्लेशतोऽपि भाव इति व्यनक्ति) ततस्ते विरोधीभूताः, सत्त्वाऽसत्त्वादिधर्माणां वहिर्मुखशेषुष्या संभावितो यो विरोधः सहाऽनवस्थानादित्साम्नीतात्त्वस्तमानसाः। अत एव जडास्तात्त्विकभयहेतोरभावेऽपि तथाविधपशुबन्ध्नीरुत्वान्मूर्खाः परवादिनस्तदेकान्तहताः। तेषां सत्त्वादिधर्माणां य एकान्त इतरधर्मनिषेधेन स्वाभिप्रेतधर्मव्यवस्थापननिश्चयस्तेन हता इव हताः पतन्ति स्खलन्ति। पतिताश्च सन्तस्ते न्यायमार्गाक्रमणेनासमर्था न्यायमार्गाध्वनीनानां च सर्वेषामप्याक्रमणीयतां यान्तीति भावः।

हे चिरंजीव ! यदि इतनेपर भी तुम संतोष नहीं हुआ तो जो पिता होना, पुत्र होना, मामा होना, भानजा होना, काका होना, तथा भतीजा होना इत्यादि धर्म परस्पर विरुद्ध होनेपर भी जो एक ही पुरुषमें संबंधके वश पाये जाते हैं उनके विषयमें क्या कहोंगे? भावार्थ—जिस प्रकार ये धर्म विरुद्ध होकर भी एक पुरुषमें रहसकते हैं। उसी प्रकार अस्तित्व नास्तित्वादि धर्म भी एक एक वस्तुमें रहसकते हैं। इसी प्रकार अवक्तव्यत्वादि धर्म भी समझलेने चाहिये। इस प्रकार हमने जो संबंधके विशेषणसे सब्बा विरोधाभाव

दिखाया है उसको नहीं समझकर ही वादी विरोधसे भयभीत हो रहे हैं। अर्थात् सूक्ष्मरूपसे विचार न करनेसे अस्तित्व नास्तित्वादिक धर्मोंका बाह्य स्थूल विचार करनेवाली दृष्टिके द्वारा जो परस्पर साथ न रहसकनेरूप दोष संभवता है उससे वे ब्रह्म हो चुके हैं। इसीलिये वे जड़ हैं अर्थात् भयका सच्चा कारण न होनेपर भी वे विना हेतु अज्ञानी पशुओंके समान डरते हैं इसलिये वे परवादी मूर्ख हैं और एकांतपक्ष धारण करनेके कारण खिन्न हो रहे हैं। अर्थात् उन सत्त्वादि धर्मोंसे अनिच्छित धर्मका सर्वथा निषेध करके इच्छित धर्मको सिद्ध करनेरूप जो एकांत पक्षपात है उसके धारनेसे जैसे कोई हतशक्ति होकर पड़जाता है उसी प्रकार अनेक दोष दीखनेपर हताश होकर गिर पड़ते हैं। और गिरते हुए न्यायमार्गका आक्रमण करनेमें असमर्थ होनेसे उस मार्गमें गमन करते हुए पथिकों द्वारा पददलित होते हैं।

यद्वा पतन्तीति प्रमाणमार्गतश्च्यवन्ते । लोकं हि सन्मार्गच्युतः पतित इति परिभाष्यते । अथ वा यथा वज्रादिप्रहारेण हतः पतितो मूर्खामनुच्छामासाद्य निरुद्धवाक्प्रसरो भवति एवं तेऽपि वादिनः स्वाऽभिमतैकान्तवादेन युक्तिसरणमनुसरता वज्राशनिप्रायेण निहताः सन्तः स्याद्वादिनां पुरतोऽकिञ्चित्करा वाज्जात्रमपि नोच्चारयितुमीशत इति ।

अथवा पड़नेका अर्थ न्यायमार्गसे च्युत होना करना चाहिये। जगतमें उसको पतित कहते हैं जो सत्मार्गसे च्युत होजाता है। अथवा जैसे वज्रादिकसे ताड़ित होनेपर मनुष्य भूमिपर गिर पड़ता है और अविक मूर्खोंको प्राप्त होजानेसे एक वचन भी नहीं बोल सकता है उसी प्रकार एकान्तपक्षपाती कुवादी भी युक्तिमार्गका—अनुसरण न करनेरूप स्वयं माने हुए एकान्तवादरूपी वज्रपातसे ताड़ित होकर स्याद्वादियोंके सन्मुख निस्तेज हो जाते हैं और एक वचनका भी उच्चारण नहीं करसकते हैं। स्तुतिके जो 'अप्रबुद्धैव' शब्दमें 'एव' शब्द मिला हुआ है उसका निश्चयरूप अर्थ होता है और उससे उनका ज्ञान सर्वथा मिथ्या ही है; किंतु लेशमात्र भी सच्चा नहीं है ऐसा सूचित होता है।

अत्र च विरोधस्योपलक्षणत्वाद्द्वैयधिकरण्यमनवस्था संकरो व्यतिकरः संशयोऽप्रतिपत्तिर्विषयव्यवस्थाहानिरित्येतेऽपि परोद्भाविता दोषा अभ्यूहाः । तथा हि । सामान्यविशेषात्मकं वस्त्वित्युपन्यसे परे उपालब्धारो भवन्ति । यथा सामान्यविशेषयोर्विधिप्रतिषेधरूपयोर्विरुद्धधर्मयोरैकत्राऽभिन्ने वस्तुन्यसंभवाच्छीतोष्णवदिति विरो

धः । न हि यदेव विधेरधिकरणं तदेव प्रतिषेधस्याधिकरणं भवितुमर्हति एकरूपतापत्तेः । ततो वैयधिकरण्यमपि भवति । अपरं च येनात्मना सामान्यस्याधिकरणं येन च विशेषस्य तावद्यात्मानौ एकैनैव स्वभावेनाधिकरोति द्वाभ्या वा स्वभावाभ्याम् ? एकैनैव चेत्तत्र पूर्ववद्विरोधः । द्वाभ्यां वा स्वभावाभ्यां सामान्यविशेषाख्यं स्वभावद्वयमधिकरोति तदाऽनवस्था । तावपि स्वभावान्तराभ्या तावपि स्वभावान्तराभ्यामिति ।

मूलं स्तुतिमें एक विरोधका ही निराकरण किया है परंतु वह संकेतमात्र है, इसलिये वादीके दिवाये हुए वैयधिकरण्य, अनवस्था, संकर, व्यतिकर, संशय, अप्रतिपत्ति तथा विषयव्यवस्थाहानि इन दोषोंका भी निराकरण ऊपरसे विचारना चाहिये । वस्तु सामान्यविशेषात्मक है ऐसा हमारे कहनेपर अन्यवादी दोष उठाते हैं कि विधि तथा निषेधरूप जो सामान्य और विशेष धर्म हैं वे शीत उष्णताके समान एक स्थानमें नहीं रहसकते हैं इसलिये विरोध समव होता है । जो वस्तु अस्तित्वका आधार है वही प्रतिषेध धर्मका आधार नहीं होसकती, नहीं तो विधि और निषेध एक ही होजायंगे । इस प्रकार वैयधिकरण्य दोष भी आता है । और जिस स्वरूपसे वस्तु सामान्य धर्मका आश्रय है तथा जिस स्वरूपसे विशेष धर्मका आश्रय है उन दोनों स्वरूपोंको वह जो वस्तु अपने अधीन रखती है सो अपने किसी एक ही स्वभावसे अथवा जुड़े जुड़े स्वभावोंसे ? यदि एक ही स्वभावसे उन दोनों स्वरूपोंको धारती है तो पूर्व कहे अनुसार विरोध समव है और जुड़े जुड़े सामान्यविशेषरूप दो स्वभावोंको वह वस्तु अपनेमें धारती हो तो आगे भी ऐसे ही दो दो स्वभाव मानने पड़ेंगे इसलिये कहीं स्थिति ही न रहैगी । क्योंकि, उन दो स्वभावोंको धारण करनेकेलिये भी अन्य दो स्वभाव मानने ही चाहिये तथा फिर भी उन दो स्वभावोंको धारनेकेलिये दूसरे दो स्वभाव मानने चाहिये । इस प्रकार कही भी ठिकाना नहीं रहेगा । इसीको अनवस्था दोष कहते हैं ।

येनात्मना सामान्यस्याधिकरणं तेन सामान्यस्य विशेषस्य च, येन च विशेषस्याधिकरणं तेन विशेषस्य सामान्यस्य चेति संकरदोषः । येन स्वभावेन सामान्यं तेन विशेषो, येन विशेषस्तेन सामान्यमिति व्यतिकरः । ततश्च वस्तुनोऽसाधारणाकारेण निश्चेतुमशकः संशयः । ततश्चाऽप्रतिपत्तिः । ततश्च प्रमाणविषयव्यवस्थाहानिरिति । एते च दोषाः स्याद्वादस्य जालन्तरत्वाच्चिरवकाशा एव । अतः स्याद्वादमर्मवेदिभिरुद्धरणीयास्तत्तदुपपत्तिभिरिति; स्वतन्त्रतया निरपेक्षयोरेव सामान्यविशेषयोर्विधिप्रतिषेधरूपयोस्तेषामवकाशात् ।

कथंचित् अस्तिरूप है और कथंचित् नास्तिरूप है । भावार्थ— इस चतुर्थ भेदके दो पक्षोंसे यह दिखाया है कि एक ही वस्तु कथंचित् विद्यमानरूप तथा कथंचित् अभावरूप है ।

हे विपश्चितां नाथ संख्यावतां मुख्य! इयमनन्तरोक्ता निपीततत्त्वसुधोद्गतोद्धारपरम्परा तवेति प्रकरणात्सामर्थ्याद्वा गम्यते । तत्त्वं यथावस्थितवस्तुस्वरूपपरिच्छेदस्तदेव जरामरणापहारित्वाद्धिबुधोपभोग्यत्वान्मिथ्यात्वविपश्चिन्निराकरिण्युत्वादान्तराह्लादकारित्वाच्च पीयूषं तत्त्वसुधा । नितरामनन्यसामान्यतया पीता आस्वादिता या तत्त्वसुधा तस्या उद्गता प्रादुर्भूता तत्कारणिका उद्धारपरम्परा उद्धारश्रेणिरिवेत्यर्थः । यथा हि कश्चिदाकण्ठं पीयूषरसमापीय तदनुविधायिनीमुद्गारपरम्परां मुञ्चति तथा भगवानपि जरामरणापहारित्त्वामृतं स्वैरमास्वाद्य तद्वसानुविधायिनीं प्रस्तुताऽनेकान्तवादभेदचतुष्टयीलक्षणामुद्गारपरम्परां देशनामुखेनोद्गीर्णवानित्याशयः ।

हे विद्वानोके नाथ ! अर्थात् प्रख्यात पण्डितोंके मुखिया ! यह अभी कही जो सान्नित्यानित्यादिरूप व्याख्या है वह ऐसी भासती है मानों आपने जो तत्त्वरूपी सुधाका पान किया है उससे उठी हुई उद्धारोंकी परंपरा है । प्रकरणवश अथवा आपके संबंधकार्ण होनेसे हम जानते है कि वह उद्धारपरंपरा आपकी ही है । जिस प्रकार पदार्थ है उनका उसी प्रकार निश्चय करनेको तत्व कहते हैं । जरामरणका नाश करनेवाला होनेसे, विबुधोक्ता (विद्वान् तथा पण्डितोंका) उपभोग्य होनेसे, मिथ्यात्वरूपी विषको निर्विष करनेवाला होनेसे तथा हृदयको आल्हादकारी होनेसे यह तत्त्वज्ञान ही अमृत है । भावार्थ—जिसके पीनेसे बुढापा न हो तथा मरण न हो उसीको सुधा कहते हैं । तथा विबुध नाम विद्वानोंका तथा देवोंका है सो जिस प्रकार सुधाको विबुध पीते हैं अर्थात् देवता पीते हैं उसी प्रकार इस तत्त्वरूपी सुधाको भी विबुध पीते हैं अर्थात् विद्वान् पीते है । जिस तत्त्वसुधाको दूसरे नहीं पीसके हैं ऐसी तत्त्वसुधाको जो आपने पीया है उसमेंसे उत्पन्न हुए उद्धारोंकी यह परंपरा समझनी चाहिये जो स्यादस्ति स्यात्नास्ति इत्यादि वचन निकले है । सारांश यह है कि जिस प्रकार कोई प्राणी गलेतक अमृत पीकर पीछे वारंवार उकार लेता है उसी प्रकार भगवान्ने भी स्वाधीन होकर जरामरणका नाशक तत्त्वरूपी अमृत पीकर उसके अनंतर उपदेशके वहाने होनेवाली अनेकान्तके अंशरूप स्यादस्ति स्यात्नास्ति, सान्नित्यं स्यादनित्यम्, स्याद्वक्तव्यं स्यादवक्तव्यम्, स्यात्समानं स्यादसमानम् ऐसे चारभेदरूप यह उद्धारोंकी परंपरा निकाली है ।

संपूर्ण दोषोंका ग्रहण इसी विरोधशब्दसे होसकता है। ऐसा अर्थ माननेपर 'विरोधसे भयभीत होकर' ऐसे शब्दका अर्थ ऐसा ही करना चाहिये कि 'विरोध वैयधिकरण्य अनवस्था आदिक जो दोष संभव होसकते है उनसे भयभीत होकर'। इस प्रकार सामान्य दोषवाची विरोध शब्दसे ही संपूर्ण दोषोंका ग्रहण होसकता है। इस प्रकार इस काव्यका अर्थ पूर्ण हुआ।

अथाऽनेकान्तवादस्य सर्वद्रव्यपर्यायव्यापित्वेऽपि मूलभेदापेक्षया चातुर्विध्याभिधानद्वारेण भगवतस्तत्त्वाऽमृत-
रसास्वादसौहित्यमुपवर्णयन्नाह ।

यद्यपि अनेकान्तवाद संपूर्ण द्रव्य पर्यायोंमें व्यापता है पंतु मुख्य भेदोंकी अपेक्षा उसको चार प्रकारसे दिखाते हुए तथा मगवान्ने तत्त्वरूपी अमृतरसका आस्वादनं कराकर हमारा अत्यंत हित किया इस बातका वर्णन करते हुए अब बोलते है ।

**स्यान्नाशि नित्यं सदृशं विरूपं वाच्यं न वाच्यं सदसत्तदेव ॥
विपश्चितां नाथ निपीततत्त्वसुधोद्गतोद्गारपरम्परेयम् ॥ २५ ॥**

मूलार्थ—हे विद्वानोंके विरोमणि प्रभो ! आपने जो अनेकान्त तत्त्वरूपी अमृतको पीया उसीसे यह उद्गार उत्पन्न हुआ है कि एक ही वस्तु कथंचित् नश्वर है कथंचित् नित्य है, कथंचित् समान है, कथंचित् असमान है, कथंचित् वक्तव्य है कथंचित् अवक्तव्य है, कथंचित् स्वरूप है और कथंचित् असवरूप है ।

व्याख्या—स्यादित्यव्ययमनेकान्तद्योतकमष्टास्वपि पदेषु योज्यम् । तदेवाधिकृतमैकं वस्तु स्यात्कथंचिन्नाशि विनशनशीलमनित्यमित्यर्थः । स्यान्नित्यमविनाशधर्मीत्यर्थः । एतावता नित्याऽनित्यलक्षणमेकं विधानम् । तथा स्यात्सदृशमवृत्तिहेतुसामान्यरूपम् । स्याद्विरूपं विविधरूपं विसदृशपरिणामात्मकं व्यावृत्तिहेतुविवेगेरूपमित्यर्थः । अनेन सामान्यविशेषरूपो द्वितीयः प्रकारः ।

व्याख्यार्थ—अनेकान्त अर्थका प्रकाशक जो 'स्यात्' अव्यय पद है उसको आठो ही वचनोंके साथ लगाना चाहिये । जैसे (१) स्यात् नाशि, (२) स्यात् नित्यम्, (३) स्यात् सदृशम्, (४) स्याद्विसदृशम्, (५) स्याद्व्याच्यम्, (६) स्यात् न वाच्यम्, (७) स्यात् सत्, (८) स्यात् असत् ऐसे आठो ही पक्षोंमें स्यात् शब्द लगाया जाता है । जो प्रत्येक लिङ्गोका,

प्रत्येक वचनका तथा प्रत्येक विभक्तीका संबन्ध होनेपर अपने आकारको न बदलै उसको अव्यय कहते हैं। अव्यय है सो शब्दोका एक भेद है। श्लोकमें जो 'तदेव' शब्द पड़ा है उसका अर्थ ऐसा होता है कि-वही प्रकरणगत एक वस्तु। स्यात् शब्दका अर्थ कथंचित् होता है। अर्थात् एक ही वस्तु कथंचित् नाशरूप स्थावकरी सहित है। भावार्थ-अनित्य है। यह तो प्रथम पक्षका अर्थ हुआ। दूसरे पक्षका अर्थ ऐसा है कि स्यात् नित्य है अर्थात् जो वस्तु अनित्य थी वही कथंचित् अविनश्वरधर्म सहित है। इन दो पक्षोंके कहेनेका यह अभिप्राय हुआ कि एक ही वस्तु नित्यानित्यपने करी सहित है अर्थात् कथंचित् नित्यानित्यपना वस्तुका एक प्रकार लक्षण है। यह नित्यानित्यपना वस्तुका एक अंग है। तीसरे पक्षमें जो स्यात् सदृश कहा है उसका अर्थ ऐसा है कि वही एक वस्तु कथंचित् साधारण धर्म विशिष्ट है। जिस समानतारूप धर्मके द्वारा वस्तुके प्रत्येक पर्यायमें तथा अन्य वस्तुओंमें भी समानपना भासता हो उसी धर्मको साधारण धर्म अथवा अनुवृत्तिहेतु सामान्य कहते हैं। चतुर्थ पक्षका अर्थ ऐसा है कि वही एक वस्तु कथंचित् असमान है। जिस धर्मके देखनेसे उस धर्मविशिष्ट वस्तुको अन्य वस्तुओंसे भिन्न समझ सकते हैं उस धर्मको असमान अथवा विशेष या विसदृश अथवा व्यावृत्तिहेतु असाधारण धर्म कहते हैं। इन दूसरे दो पक्षोंके वर्णनसे वस्तुका सामान्यविशेषात्मकपना दूसरा स्वरूप बताया है।

तथा स्याद्वाच्यं वक्तव्यम्। स्यान्न वाच्यमवक्तव्यमित्यर्थः। अत्र च समासेऽवाच्यमिति युक्तं तथाप्यवाच्यपदं योन्यादौ रूढमित्यसभ्यतापरिहारार्थं न वाच्यमित्यसमस्तं चकार स्तुतिकारः। एतेनाभिलाष्याऽनभिलाष्य-स्वरूपस्तृतीयो भेदः। तथा स्यात्सद् विद्यमानमस्तिरूपमित्यर्थः। स्यादसत्तद्विलक्षणमिति। अनेन सदसदाख्या चतुर्थी विधा।

इसी प्रकार पांचवें छठे पक्षोंका यह अर्थ है कि वही वस्तु कथंचित् वाच्य है तथा कथंचित् नहीं वाच्य है; अर्थात् अवक्तव्य है। यहांपर श्लोकमें यदि स्तुतिकर्ता चाहते तो 'वाच्य नहीं' इन दो शब्दोंकी जगह 'अवाच्य' ऐसा संक्षिप्त एक शब्द भी कहसकते थे परंतु लोकमें अवाच्य शब्दका अर्थ कुत्सित योनि आदिक होता है इसलिये संक्षिप्त एक शब्द न कहकर नहीं वाच्य ऐसे दो शब्द ही कहे हैं। इन तृतीय दो पक्षोंके कहेनेसे वस्तुका ऐसा स्वरूप प्रतिभासित होता है कि वस्तुको कथंचित् तो वचनद्वारा कहसकते हैं और कथंचित् कह ही नहीं सकते हैं। इसी प्रकार सातवें तथा आठवें भंगोंसे यह दिखाते हैं कि वस्तु

कथंचित् अन्निरूप है और कथंचित् नान्निरूप है । भावार्थ—एक चतुर्थ भेदके दो पक्षों पर दिया गया है कि एक ही मनु कथंचित् विद्यमानरूप तथा कथंचित् अगामरूप है ।

हे विपश्चितां नाथ संख्यावतां मुल्य! इयमनन्तगोका निपीततत्त्वपुत्रोद्गतोद्धारपरम्परा ननेति प्रकरणात्मान-
 र्थाद्धा गम्यते । तत्त्वं यथावस्थितवस्तुस्वरूपपरिच्छेदलक्ष्ये जगत्प्रणालारिचिद्विधुपभोग्यत्वान्निव्यात्वविधो-
 मिनिराकरिणुत्वादान्तराहादृक्कारित्वाच्च पीयूयं तन्वसुधा । नितरामनन्वनागान्गतया पीता आन्वादिना या
 तत्त्वसुधा तस्या उद्वता प्रादुर्भूता तत्कारणिता उद्धारपरम्परा उद्धारश्रंणितिलयः । यथा हि स्रश्चिदाहणके पीयू-
 रसमापीय तद्भवविधायिनीमुद्गारपरम्परां मुञ्चति तथा भगवानपि जगत्प्रणालारिचिदन्वन्तं स्वरमान्वाय तद्र-

सानुविधायिनीं प्रस्तुताऽनेकान्तवादभेदचतुष्टयीलक्षणासुद्गारपरम्परां देवानासुनेनोद्गीर्णमनित्वागवः ।
 हे विद्वानोके नाथ! अर्थात् प्रख्यात पण्डितोंके सुनिया! यह अभी कही जो मन्विच्यनित्यद्विरूप आगत है पर देवी भाव-
 ती है मानों आपने जो तत्त्वरूपी मुगाका पान किया है उमने उड़ी पुं उद्धारोकी परंपरा है । प्रकृतमय यथा भाते संसृज-
 वर्णन होनेसे एम जानते हैं कि वह उद्धारपरंपरा आपकी ही है । जिस प्रकार परार्थ है उनका उभी परमर विधर करनेको तल
 कहते हैं । जगत्प्रणका नाथ हल्लेयाव्य होनेसे, त्रिभुजोका (त्रिभुज तथा पण्डितोच) उत्सोच्य होनेसे, भिन्नतत्त्वरूपी त्रिभुजो
 निर्विष करनेवाला होनेसे तथा उदयतो आल्हादकारी होनेसे का तत्त्वज्ञान ही भजन है । भावार्थ—जिनके धीमेने बुझाया न हो
 तथा मरण न हो उसीको मुगा कहते हैं । तथा त्रिभुज नाम त्रिगतोत्र तथा देवीता है जो जिन प्रकार मुगाको त्रिभुज पीते हैं अर्थात्
 देवता पीते हैं उमी प्रकार एम तत्त्वरूपी मुगाको भी त्रिभुज पीते हैं अर्थात् त्रिभुज पीते हैं । जिस तत्त्वमुगाको हमारे करी पीनेके
 हैं ऐसी तत्त्वमुगाको जो आपने पीया है उमनेगे उत्पन्न हुए उद्धारोकी यह परंपरा समझनी चाहिये जो नान्नानि न्यामानि
 इत्यादि वचन निकले हैं । सारांश यह है कि जिस प्रकार कोई प्राणी गंधक प्रभु पीकर पीठे चारमार उकार लेता है उमी
 प्रकार भगवानने भी खापीन होकर जगत्प्रणका नाथक तत्त्वरूपी अमृत पीकर उमके अंततर उद्देशके लक्षणे होनेवाली अनेक-
 तके अंशरूप स्यादन्नि स्यान्नानि, स्याद्वक्त्यं स्यादनित्यम्, स्यात्प्रकृत्यं स्यादप्रकृत्यम्, स्यात्प्रमाणं स्यात्प्रमाणम् ऐसे चारोक्तरूप
 यह उद्धारोकी परंपरा निकाली है ।

अथ वा चैरेकान्तवादिभिर्मिथ्यात्वगलभोजनमावृत्ति भक्षितं तेषां तत्तद्वचनरूपा उद्धारप्रकाराः प्राक्प्रदर्शिताः । यैस्तु पचेलिमप्राचीनपुण्यप्राग्भारानुगृहीतैर्जगद्गुरुवदनेन्दुनिःस्यन्दि तत्त्वामृतं मनोहल्य पीतं तेषां विपश्चितां यथार्थवादविदुषां हे नाथ इयं पूर्वदलदर्शितोल्लेखशेखरा उद्धारपरम्परेति व्याख्येयम् ।

अथवा ऐसा अर्थ करना चाहिये कि—जिन एकान्तवादियोंने मिथ्यात्वरूपी विपभोजन वृत्तिपर्यत खाया है उन सबके वचनो द्वारा निकले हुए नाना प्रकारके उद्धार तो पहिले दिखा चुके है परंतु विपाक समयको प्राप्त हुए पूर्ववद्ध कर्मोंके भारसे अनुगृहीत जिन मनुष्योंने जगद्गुरु भगवान्के मुखचंद्रसे झरता हुआ वचनरूपी तत्त्वामृत पीया उन यथार्थ वक्ता विद्वानोंके मुखसे निकली हुई जिसका कि श्लोकके पहिले आधे हिस्सेमें उच्चारण किया है ऐसी यही सर्वोत्कृष्ट उद्धारपरंपरा है ।

एते च चत्वारोऽपि वादास्तेषु तेषु स्थानेषु प्रागेव चर्चिताः । तथा हि । आदीपमाव्योमेति वृत्ते नित्याऽनित्यवादः । अनेकमेकात्मकमिति काव्ये सामान्यविशेषवादः । सप्तभङ्ग्यामभिलाष्याऽनभिलाष्यवादः सदसद्वादश्च । इति न भूयः प्रयासः । इति काव्यार्थः ।

इन स्थानित्य सातअनित्यादि चारो ही वादोको हम यथाप्रसंग दिखाचुके है इसलिये फिरसे दिखानेका प्रयास करना व्यर्थ है । ‘आदीपमाव्योम’ इत्यादि पांचवें काव्यमें तो नित्यानित्यवादका विवेचन है; ‘अनेकमेकात्मकम्’ इत्यादि चौदहवें काव्यमें दूसरे सामान्यविशेषरूप वादका विचार है और चौबीसवें काव्यकी व्याख्यामें तीसरे वक्तव्यअवक्तव्यस्वरूपका निरूपण है तथा चौथे अस्तित्तिवादका भी प्रतिपादन वहां ही है । इस प्रकार इस काव्यका अर्थ पूर्ण हुआ ।

इदानीं नित्यानित्यपक्षयोः परस्परदूषणप्रकाशनवद्धलक्षतया वैरायमाणयोरितरेतरोदीरितिविविधहेतुहेतिसंनिपातसंजातविनिपातयोर्यत्नसिद्धप्रतिपक्षप्रतिपक्षस्य भगवच्छासनसाम्राज्यस्य सर्वोत्कर्षमाह ।

अब यह दिखाते है कि—जो सर्वथा नित्य तथा अनित्यपक्ष माननेवाले और परस्पर दोष दिखाना ही है मुख्य कर्तव्य जिन्होंका ऐसे तथा जो एक दूसरेका खंडन करनेकी इच्छासे नानाप्रकारके हेतुवचनरूपी शस्त्रोंका प्रहार करनेसे भूमिपर वैरियोंके समान पड़ते हुए ऐसे जो, हे भगवन् ! आपके वादी है उनका निराकरण आपसके खंडन करनेसे ही बिना प्रयत्न होजाता है इसलिये आपके शासनका वैभव सर्वोत्कृष्ट स्वयमेव हो रहा है ।

य एव दोषाः किल नित्यवादे विनाशवादेऽपि समास्त एव ।
परस्परध्वंसिषु कण्टकेषु जयत्यधृष्यं जिनशासनं ते ॥ २६ ॥

मूलार्थ—सर्वथा नित्यपक्ष माननेमें जैसे दोष संभवते है तैसे ही सर्वथा अनित्य माननेमें भी संभवते है । भावार्थ—जिस रि सर्वथा अनित्यवाद माननेमें नित्यवादी कुछ दूषण दिखाता है उसीप्रकार सर्वथा नित्यपक्षमें अनित्यपक्षवाला भी कुछ दूषण दिखाता है इसलिये एकदूसरेसे ही उन दोनोंका निराकरण होजाता है । इस प्रकार हे भगवन् ! कंटकोका नाश परस्पर ही होजा-नेपर आपका जिनशासन विनापरिश्रम यों ही विजयलक्ष्मीको प्राप्त होरहा है ।

व्याख्या—किलेति निश्चये । य एव नित्यवादे नित्यैकान्तवादे दोषा अनित्यैकान्तवादिभिः प्रसञ्जिताः क्रम-यौगपद्याभ्यामर्थक्रियाऽनुपपत्त्यादयस्त एव विनाशवादेऽपि क्षणिकैकान्तवादेऽपि समास्तुल्या नित्यैकान्तवादि-भिः प्रसज्यमाना अन्यूनाधिकाः । तथा हि ।

व्याख्यार्थ—श्लोकमें जो 'किल' शब्द पड़ा है उसका अर्थ 'निश्चयसे' ऐसा होता है । जो दोष सर्वथा नित्यपक्ष मान-नेमें सर्वथा अनित्य पक्ष माननेवालोंने दिखाये है वे ही अनित्यपक्षमें अर्थात् सर्वथा क्षणिकपक्ष माननेमें नित्यपक्षवालोंने दिखाये है । वे ही कहनेसे ऐसा अभिप्राय है कि दोनो पक्षोंमें समान ही दोष संभव है; न तो हीन हैं और न अधिक । क्रमसे अथवा एकसाथ प्रयोजनीभूत क्रियाओंका न होसकना इत्यादि वे दूषण है ।

नित्यवादी प्रमाणयति 'सर्वं नित्यं सत्त्वात् । क्षणिके सदसत्कालयोरर्थक्रियाविरोधात्तच्छणं सत्त्वं नावस्थां वदन्तीति । ततो निवर्तमानमनन्यशरणतया नित्यत्वेऽवतिष्ठते । तथा हि । क्षणिकोऽर्थः सन्वा कार्यं कुर्यादस-न्वा ? गत्यन्तराऽभावात् । न तावदाद्यः पक्षः, समसमयवर्तिनि व्यापाराऽयोगात् सकलभावानां परस्परं कार्य-कारणभावप्राप्त्याऽतिप्रसङ्गाच्च । नापि द्वितीयः पक्षः क्षोदं क्षमते; असतः कार्यकरणशक्तिकलत्वात् । अन्यथा ज्ञानविषयादयोऽपि कार्यकरणयोत्सहेरन् विशेषाऽभावात्' इति ।

नित्यवादी अनित्यवादीसे कहता है कि सत् होनेके कारण सपूर्ण वस्तु नित्य ही है । जो नित्य होता है वही सत् या अस्तिरूप

रहसकता है। जो क्षणिक होगा अर्थात् क्षणक्षणमात्रमें नष्ट होजाता होगा वह न तो अपने रहते हुए ही कोई क्रिया करसकता है जिससे कि कुछ प्रयोजन सधै; और न नष्ट होनेपर ही। इसलिये वस्तुको क्षणिक माननेसे किसी प्रकार भी स्थिरता नहीं होसकती है। इइ प्रकार अनेक दूषण संभव होनेसे तथा अन्य शरण न दीखनेपर लौटकर नित्यपक्षमें ही विश्वास जमता है। भला क्षणिक पदार्थ अपनी स्थितिके समय ही कार्यको करता है कि नष्ट होजानेके बाद? क्योंकि; उसमें दूसरा विचार तो हो ही नहीं सकता है। पदार्थ विद्यमान रहनेके समय उस पदार्थसे कार्यकी उत्पत्ति होना मानना तो ठीक नहीं। क्योंकि; क्षणिक पदार्थ जिस समय उत्पन्न होता है उसी समय ठहरता है, फिर तो नष्ट ही होजाता है इसलिये जबतक स्वयं भी उत्पन्न नहीं होचुका है किंतु उत्पन्न होरहा है तवतक दूसरेको उत्पन्न किस प्रकार करसकता है? भावार्थ—प्रत्येक वस्तुसे कुछ कार्य तभी होसता है जब वह वस्तु उत्पन्न होचुकती है। और यदि कार्यके साथ उपादान कारणरूप पर्यायका कुछ संबन्ध ही नहीं होता किंतु पूर्व पर्याय आगेकी कोई पर्याय उत्पन्न किये बिना ही नष्ट होजाता हो तो समग्र वस्तु परस्परमें भी एक दूसरेके कार्यकारणरूप क्यों नहीं होजाते? इस प्रकार क्षणिक पदार्थसे उत्पत्तिके समय कार्य उत्पन्न होना तो हो नहीं सकता है परंतु पदार्थ नष्ट होजानेके अनंतर भी उस नष्ट हुए पदार्थसे किसी कार्यकी उत्पत्ति होना असंभव ही है। क्योंकि; जब कारणरूप पदार्थ स्वयं ही विद्यमान नहीं है तब दूसरे कार्यको क्या उत्पन्न करेगा? नहीं तो खरघोषके सीगोसे भी कुछ कार्य उत्पन्न होनेलगे तो कौन रोकैगा? क्योंकि; असत्पनेसे दोनोमें कुछ विशेषता तो है ही नहीं। इस प्रकार नित्यवादी अनित्यपना माननेमें दोष दिखाता है।

अनित्यवादी नित्यवादिनं प्रति पुनरेवं प्रमाणयति 'सर्वे क्षणिकं सत्त्वात्, अक्षणिके क्रमयौगपद्याभ्यामर्थ-क्रियाविरोधादर्थक्रियाकारित्वस्य च भावलक्षणत्वात् । ततोऽर्थक्रिया व्यावर्त्तमाना स्वक्रोडीकृतां सत्तां व्याव-र्त्तयेदिति क्षणिकसिद्धिः । न हि नित्योऽर्थोऽर्थक्रियां क्रमेण प्रवर्त्तयितुमुत्सहते, पूर्वार्थक्रियाकरणस्वभावोपमर्द-द्वारेणोत्तरक्रियायां क्रमेण प्रवृत्तैः; अन्यथा पूर्वक्रियाकरणाऽविरामप्रसङ्गात् । तत्स्वभावप्रच्यवे च नित्यता प्रयाति; अतादवस्थस्याऽनित्यतालक्षणत्वात् ।

अब अनित्यवादी नित्यवादीके समक्ष इस प्रकार अपना अनित्यपना सिद्ध करता है कि; सत्त्वरूप होनेसे संपूर्ण पदार्थ क्षणिक ही हैं। यदि क्षणिक न मानकर नित्य ही माने जाय तो जिससे कुछ प्रयोजन सधसकता हो ऐसी क्रिया न तो क्रमसे ही उपजसकती है और

न एकसाथ । जो प्रयोजनकारी क्रियाका होना है वह तो कूटस्वरूप स्थितिको बदलनेवाला ही है । क्योंकि, जो पदार्थमें क्रियाका परिवर्तन होता है वह तबतक नहीं संभव है जबतक उस पदार्थका स्वयं परिवर्तन न माना जाय । इसलिये जो प्रयोजनभूत क्रिया बदलेगी वह अपने साथ रहनेवाली सत्ताको अवश्य बदलादेगी । और जब सत्ता बदलेगी तब क्षणिकपना होगा ही । जो पदार्थ सर्वथा सदा नित्य है अर्थात् कूटस्थ है उसके द्वारा प्रयोजनीभूत क्रियाकी उत्पत्ति क्रमसे तो हो नहीं सकती है । क्योंकि; जब पूर्वमें प्रवर्तती हुई क्रियाका नाश होजायगा तभी पहिली क्रिया बदलकर दूसरी क्रिया होसकैगी । जब पदार्थ सर्वथा नित्य है तो उसमें न तो पूर्व क्रियाका नाश ही संभव है और न उत्तरक्रियाकी उत्पत्ति ही संभव है । यदि पूर्वक्रियाका विनाश हुए बिना ही उत्तर क्रियाका प्रादुर्भाव होता हो तो प्रत्येक पदार्थकी पूर्वक्रिया नष्ट ही न होती किंतु चलती ही रहती । और यदि पूर्वक्रियाका नाश होकर उत्तर क्रियाकी उत्पत्ति होना मानते है तो पूर्वसभावका नाश होना ही अनित्यपना है इसलिये नित्यपना नहीं रहता है । क्योंकि, जैसाका तैसा न रहनेको ही अनित्यता कहते है ।

अथ नित्योऽपि क्रमवर्तिनं सहकारिकारणमर्थमुदीक्षमाणस्तावदासीत् । पश्चात् तमासाद्य क्रमेण कार्यं कुर्यादिति चेन्न; सहकारिकारणस्य नित्येऽकिंचित्करत्वात्, अकिञ्चित्करस्यापि प्रतीक्षणेऽनवस्थाप्रसङ्गात् । नापि योगपद्येन नित्योऽर्थोऽर्थक्रियां कुरुते; अयक्षविरोधात् । न ह्येककालं सकलाः क्रियाः प्रारम्भाणः कश्चिदुपलभ्यते । करोतु वा । तथाप्याद्यक्षणे एव सकलक्रियापरिसमाप्तेर्द्वितीयादिक्षणेऽप्यकुर्वाणस्याऽनित्यता बलादाढौकते; करणाकरणयोरेकस्मिन्विरोधात्' इति ।

शंका—जिससे कार्य उत्पन्न होनेवाला है वह चाहे नित्य ही है परंतु प्रत्येक उत्पादनकारण सहकारी कारणोंकी प्रतीक्षा अवश्य करता है और सहकारी पदार्थ क्रमवर्ती होते है इसलिये सहकारी जब मिलते है तभी उत्पादन कारण कार्यको जन सकता है, किंतु पहिले नहीं । इस प्रकार नित्य पदार्थसे भी क्रमपूर्वक कार्यकी उत्पत्ति होना अनुचित नहीं है । उत्तर—यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि; जो सर्वथा कूटस्थ है उसमें सहकारी भी कुछ फेरफार नहीं करसकता है । और जो कुछ कर ही नहीं सकता है उसकी सहायताकी भी प्रतीक्षा यदि नित्यपदार्थ कार्य उत्पन्न करनेमें करे तो कहीं ठिकाना ही नहीं रहे । कदाचित् नित्यवादी कहैगा कि नित्य पदार्थ जो कुछ क्रिया करनी होती है उनको एकसाथ ही करदेता है परंतु यह कहना भी मिथ्या है । क्योंकि, प्रयोजनकारी

क्रिया सर्वत्र क्रमसे ही होती दीखती है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं दीखता है जो अपनेसे उत्पन्न होनेवाली संपूर्ण क्रियाओंको एकसाथ ही पैदा करदे। अथवा एकसाथ ही संपूर्ण क्रियाओंको करदेता हो तो भी आदिके समयमें ही संपूर्ण क्रिया होजानेसे द्वितीयादि समयोंमें निष्क्रिय मानना पड़ेगा इसलिये निवारण करते करते भी अनित्यता आपड़ती है। क्योंकि; एकतरहके स्वभाववाला पदार्थ उसीको कहसकते है जिसमें करनेरूप आदिक स्वभावोंमेंसे कोई एक ही स्वभाव सदा शश्वता रहता हो। जिस पदार्थमें कभी तो क्रिया करनेरूप स्वभाव पाया जाता है और कभी नहीं करनेरूप, वह कूटस्थ नित्य कैसे होसकता है? स्वभावोंका परिवर्तन होते रहनेको ही अनित्यता कहते है।

तदेवमेकान्तद्वयेऽपि ये हेतवस्ते युक्तिसाम्याद्विरुद्धं न व्यभिचरन्तीत्यविचारितरमणीयतया मुग्धजनस्य ध्या-
कृत्य भोरपादयन्तीति विरुद्धा व्यभिचारिणोऽनैकान्तिका इति। अत्र च नित्याऽनित्यैकान्तपक्षप्रतिक्षेप एवोक्तः।
अपलक्षणस्यात्र सामान्यविशेषाद्येकान्तवादा अपि मिथस्तुल्यदोषतया विरुद्धा व्यभिचारिण एव हेतूनुपस्पृशन्तीति
परिभाषणीयम्।

एक पक्षारगर्भ्या नित्यअनित्य दोनों ही पक्षोंके माननेमें जो एक दूसरेके ऊपर दोषारोपण करके दोनों पक्षोंको सदोप ठहरानेमें अनेक हेतु विश्वासे योग्य हो जाय संपूर्ण हेतु दोनोंकी युक्तिया दोनों ही तरफ बढ़नेसे समान है। और दोनों तरफ समान होनेके कारण दोनों ही पक्षोंमें निवारण विशेष आशा है इत्यादि दोषों के संपूर्ण सेव निरुद्ध है। तथा जबतक पूर्ण विचार न किया जाय तभीतक रमणीय माल्य पड़नेसे भोले मनुष्योंको बगिरे नवाकर भगवती पदक देते हैं इत्यादि ये हेतु अनेकान्तिक भी हैं। जिन हेतुके मुननेसे पक्ष साध्यमें सबे झूठेपनेका अप्र हीने लगता है तभीको अनैकान्तिक कहते हैं। यहीपर नित्यानित्य एकान्त पक्षका खण्डन तो नाम लेकर किया है परंतु यह नाम लेना कथक भोजक है किंतु इमी पक्षका नाशिके; सामान्यभियोगादि तीनों एकान्तवाद भी एक दुरतिके साथ विचार करनेपर एक समान दोषोंकर योग्यक है इत्यादि इन पक्षान्तवादीके भी हेतु निवगसे विरुद्ध हैं तो विचार करलेना चाहिये।

अथोत्तराद्धै व्याख्यायते--परमणोरत्यानि। एवं च कण्ठरोग क्षुद्रशत्रुवैकान्तवादिषु परमसम्भंगिषु मरुतु, पर-
न्तन्वान् ध्यमन्ते विनाशमुपयान्तीत्येवंगीताः युन्दोपमन्त्र्यदिति परसरब्धमिगन्तेषु, हे जिन! ते तव आमने
स्वाहाऽन्यन्यनिपुणं द्राघशास्त्रीर्यं प्रयानं पराभिभाषुतानां कण्ठरानां स्वयमुच्छिस्तान्तेनैवाभावाद्भूष्यमपरा-

भवनीयं “शक्तोऽहं कृत्याश्चेति” कृत्यविधानाद्दर्शितुमशक्यं धर्षितुमनर्हं वा जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते । यथा कश्चिन्महाराजः पीवरपुण्यपरीपाकः परस्परं विगृह्य स्वयमेव क्षयमुपेयित्सु द्विपत्सु अयत्नसिद्धनिष्कण्टकत्वं समृद्धं राज्यमुपभुञ्जानः सर्वोत्कृष्टो भवत्येवं त्वच्छासनमपि । इति काव्यार्थः ।

अब श्लोकके बाकी रहे आधे हिस्सेका भी अर्थ दिखते हैं । वह आधा श्लोक “परस्परध्वंसिषु कण्टकेषु जयत्यधृष्यं जिनशासनं ते” यह है । ऐसे पूर्वोक्त प्रकारसे कंटकोंका अर्थात् एकान्तवादी क्षुद्र शत्रुओंका सुन्द उपसुन्द नामक दो राक्षसोंके समान परस्परसे ही नाश होजानेपर, हे जिनन्द्र ! जिसने स्याद्वादका निरूपण पूर्णतया किया है ऐसा द्वादशांगरूपी आपका शासन अर्थात् उपदेश अजेय है । क्योंकि, जो परामव करनेकी बांछा करनेवाले शत्रु है उनका उच्छेद स्वयमेव ही होगा है । ‘शक्तोऽहं कृत्याश्च’ इस सूत्रकर ‘क्यप्’ प्रत्यय होकर सिद्ध होनेसे ‘अधृष्य’ शब्दका अर्थ ऐसा होता है कि जिसका परामव नहीं होसकता है उसको अधृष्य कहते है । अधृष्य होनेसे ही यह आपका शासन सर्वोसे उत्कृष्ट मानजाता है । जिस प्रकार जिसके पुण्यकर्मका पाक तीव्रतासे होरहा है ऐसा कोई नरपति शत्रुओंके परस्पर लड़कर नष्ट होजानेपर परिश्रमके विना ही निष्कण्टक समृद्ध राज्यको भोगता हुआ सर्वोत्कृष्ट होजाता है उसी प्रकार आपका शासन उस नृपतिके समान स्वयमेव सर्वोत्कृष्ट हो रहा है । इस प्रकार इस काव्यका अर्थ पूर्ण हुआ ।

अनन्तरकाव्ये नित्यानित्याद्येकान्तवादे दोषसामान्यमभिहितम् । इदानीं कतिपयतद्विशेषान्नामग्राहं दर्शयंस्तत्परूपकाणामसद्भूतोद्भावकतयोद्धृततथाविधिरियुजनजनितोपद्रवमिव परित्रातुर्धरित्रीपतेस्त्रिजगत्पतेः पुरतो मुन्नत्रयं प्रत्युपकारकारितामाविष्करोति ।

इस ऊपरके काव्यमें नित्यअनित्य आदिक एकांत पक्षोंके माननेमें संभव होते हुए दोष सामान्यपनेसे तो दिखा दिये । परंतु यह स्पष्ट नहीं कहा कि वे दोष कौन कौनसे हैं ? इसलिये अब उनमेंसे कुछ दोषोंके नाम दिखाते हुए यह भी दिखाते है कि जिस प्रकार प्रजापर शत्रु जो नानाप्रकारके उपद्रव खड़े करते है उनसे रक्षाकरनेवाले नृपतिका प्रजाके ऊपर महान् उपकार समझा जाता है उसी प्रकार हे भगवन् ! जिन नित्य अनित्य आदिक झूठे पक्षोंका कुवादी प्रतिपादन करते है उन कुमागोसि तीनों जगत्की रक्षा करनेवाले आपका तीनों लोकके प्रति बड़ा उपकार है ।

नैकान्तवादे सुखदुःखभोगौ न पुण्यपापे न च बन्धमोक्षौ । दुर्नीतिवादव्यसनसिनैवं परैर्विलुप्तं जगदध्यशेषम् ॥ २७ ॥

मूलार्थ—एकान्तपक्षोंके माननेसे न तो सुख दुःखका भोगना ही बनसकता है और न पुण्य पाप तथा बन्धन मोक्ष ही बनसकते हैं । इसलिये खोटे युक्तिवादमें जो रुचि है वह खङ्गके समान है और उस खङ्गसे इन शत्रुओंके जगत्का नाश कररक्खा है ।

व्याख्या—एकान्तवादे नित्याऽनित्यैकान्तपक्षाभ्युपगमे न सुखदुःखभोगौ घटेते, न च पुण्यपापे घटेते न च बन्धमोक्षौ घटेते । पुनः पुनर्नञः प्रयोगोऽत्यन्ताऽघटमानतादर्शनार्थः । तथा हि । एकान्तनित्ये आत्मनि तावत् सुखदुःखभोगौ नोपपद्येते । नित्यस्य हि लक्षणमप्रच्युताऽनुत्पन्नस्थिरैकरूपत्वम् । ततो यदात्मा सुखमनुभूय स्वकारणकलापसामग्रीवशाद्दुःखमुपभुङ्क्ते तदा स्वभावभेदादनित्यत्वापत्त्या स्थिरैकरूपताहानिप्रसङ्गः । एवं दुःखमनुभूय सुखमुपभुञ्जानस्यापि वक्तव्यम् ।

व्याख्यार्थ—नित्य अनित्य आदिक एकांत पक्षोंके स्वीकार करनेसे सुखदुःखोंका भोगना सिद्ध नहीं होसकता है; तथा पुण्य पाप नहीं सिद्ध होसकते हैं और बन्ध मोक्ष भी संगत नहीं होसकते हैं । श्लोकमें यद्यपि एकवार 'न' लिखनेसे ही काम चलसकता था परंतु तो भी जो तीनवार 'न' लिखा है उससे अत्यंत असंगतपना दिखाया है । अर्थात् ऐसा जताया है कि एकान्तपक्ष माननेसे किसी प्रकार भी बन्धमोक्षादि संभव नहीं होसकते हैं । यदि सर्वथा नित्यता ही मानी जाय; किसी प्रकारका भी उत्पत्ति विनाश न मानाजाय तो आत्मामें सुख दुःखका होना ही असंभव है । क्योंकि; सर्वथा नित्य उसको कहते हैं जो किसी प्रकार भी अपने प्राचीन परिणामोंको नहीं छोड़ें तथा नवीन परिणामोंका ग्रहण नहीं करें । सो यदि सुख दुःखोंकी उत्पत्ति आत्मामें माननेसे तो जब आत्मा किसी कारणसे उत्पन्न हुए सुखका अनुभव करके किसी कारणवश उत्पन्न हुए दुःखका अनुभव करने लगैगा तभी स्वभावमें भेद पड़नेसे अनित्यता आखड़ी होगी और स्थिर एकरूप रहनेवाली नित्यता नहीं रहसकैगी । इसीप्रकार जब दुःखरूप परिणामोंको छोड़कर सुखका अनुभव करैगा तब भी स्वभावका परिवर्तन होनेसे नित्यता नहीं रहसकैगी किंतु अनित्यता आखड़ी होगी ।

अथाऽवस्थाभेदादयं व्यवहारः । न चावस्थानु भिद्यमानास्वपि तद्गतो भेदः; सर्पस्यैव कुण्डलार्जवाद्यवस्थानु । इति चेन्ननु तास्ततो व्यतिरिक्ता अव्यतिरिक्ता वा? व्यतिरेके तास्तस्येति संबन्धाऽभावोऽतिप्रसङ्गात्? अव्यतिरेके तु तद्धानेवेति तदवस्थितैव स्थिरैकरूपताहानिः । कथं च तदेकान्तैकरूपत्वेऽवस्थाभेदोऽपि भवेदिति? कदाचित् क्वो कि सुखदुःखदिरूप अवस्थाओंमें भेद पड़नेसे यह केवल व्यवहार माना जाता है कि यह पदार्थमें भेद हुआ परंतु वास्तवमें विचारा जाय तो जिस प्रकार सर्प कभी सीधा होजाता है, कभी कुण्डलाकार होजाता है परंतु उन अवस्थाओंके पलटनेसे कुछ सर्पमें फेरफार नहीं मानाजाता है उसीप्रकार अवस्थाओंमें परिवर्तन होनेपर भी अवस्थावाले पदार्थोंमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है । परंतु यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि; जो अवस्थाएं पदार्थोंमें बदलती रहती है वे पदार्थोंसे कोई भिन्न चीज है अथवा पदार्थमय ही होती है? यदि भिन्न चीज हैं तो वे अवस्थाएं उन्ही पदार्थोंकी है जिनसे वे उपजती है ऐसा कहनेके लिये कौनसा संबन्ध दोनोंके बीचमें दीखता है जिस संबन्धसे ऐसा कहसकै? और यदि कोई संबन्ध नहीं है तो वे अवस्थाएं जिसमें नहीं हुई हैं उसकी भी वे अवस्था मानीजावै तो कौन रोकसकता है? और यदि उस पदार्थमय ही है, भिन्न नहीं है तो अवस्थाओंमें परिवर्तन होनेसे उस पदार्थमें भी परिवर्तन होना मानना ही चाहिये । इस प्रकार फिर भी नित्यतामें बाधा आपड़ती है । और यदि पदार्थको सर्वथा एकरूप ही मानै तो अवस्थाओंमें परिवर्तन होना भी किस प्रकार होसकता है?

किं च सुखदुःखभोगौ पुण्यपापनिर्वर्त्यौ । तन्निर्वर्तनं चार्थक्रिया । सा च कूटस्थनित्यस्य क्रमेणाऽक्रमेण वा नोपपद्यत इत्युक्तप्रायम् । अत एवोक्तं “न पुण्यपापे” इति । पुण्यं दानादिक्रियोपार्जनीयं शुभं कर्म । पापं हिंसादिक्रियासाध्यमशुभं कर्म । ते अपि न घटेते प्रागुक्तनीतेः । तथा न बन्धमोक्षौ । बन्धः कर्मपुद्गलैः सह प्रतिप्रदेशमात्मनो बन्धयःपिण्डवदन्योऽन्यसंश्लेषः । मोक्षः कृत्स्नकर्मक्षयः । तावप्येकान्तनित्ये न स्याताम् । बन्धो हि संयोगविशेषः । स चाऽप्राप्तानां प्राप्तिरितिलक्षणः । प्राक्कालभाविनी अप्राप्तिरन्यावस्था । उत्तरकालभाविनी प्राप्तिश्चान्या । तदनयोरप्यवस्थाभेददोषो दुस्तरः ।

इसीप्रकार सुखदुःखोंका भोगना जो होता है वह पुण्यपापके उदयसे होता है और पुण्य पापकी उत्पत्ति शुभाशुभ क्रियाओंके करनेसे होती है । इसलिये जो आत्मा सदा कूटस्थ एकरूप है उसमें न तो क्रमसे और न एकसाथ ही वह क्रिया होसकती है जिसके

होनेसे पुण्य पाप उत्पन्न होसकै । ऐसी क्रिया क्यों नहीं होसकती है इस शंकाका उत्तर अभी दे चुके है । जब पुण्य पाप बांधने-वाली क्रिया ही नहीं होगी तब पुण्य पापका बाँधना असंभव ही है । इसीलिये कहा है कि “ न पुण्यपापे” । अर्थात् जिस प्रकार सुखदुःखोंका होना असंभव है उसीप्रकार पुण्यपापका होना भी असंभव है । पुण्य तो उसको कहते है जो दानादि शुभ कार्य करनेसे शुभ कर्म बंधता है । हिसादि अशुभ कार्यसे बांधनेवाले अशुभ कर्मको पाप कहते है । इसीप्रकार जीवका बांधना छूटना भी नहीं होसकता है । जिस प्रकार अग्निसे तपानेपर लोहेके गोलमें अग्नि ऐसी प्रविष्ट होजाती है कि गोलका एक अंश भी बचा नहीं रहता उसीप्रकार जो आत्मके प्रत्येक प्रदेशमें कर्मपुद्गलोंका एक दूसरेको जकड़कर अन्योन्य प्रवेशरूप ऐसा संबन्ध होजाता है जिसके होनेसे कर्म तथा आत्मामें कुछ भी भेदभाव नहीं रहता, उसीका नाम बांध है । ऐसा बांधन छूटजानेका नाम ही मोक्ष है । बांध तथा मोक्ष ये दोनों ही सर्वथा आत्माको नित्य माननेसे नहीं होसकते है । क्योंकि; बांधन तो एक प्रकारके संबन्धको कहते है । सो संबन्ध तभी कहाजाता है जब कोई दो वस्तु पहिले तो जुदी जुदी हों और पीछे मिलगयी हों । इनमेंसे जबतक दोनों वस्तु एकत्र नहीं मिली है तबतक तो एक अपूर्व ही अवस्था है और जब संयोग होजाता है तब एक दूसरी ही अवस्था हो जाती है । पूर्वापर समयवर्ती ये दोनों अवस्थायें सर्वथा भिन्न भिन्न हैं । सदा अवस्थाओंमें परिवर्तन होना सर्वथा नित्यताकी अपेक्षा कुछ उल्टा ही है । अर्थात् परिवर्तन तभी होसकता है जब वस्तुमें किसी प्रकार अनित्यता मानली जाय ।

कथं चैकरूपत्वे सति तस्याकस्मिको बन्धनसंयोगः ? वन्धनसंयोगाच्च प्राक्किं नायं मुक्तोऽभवत् ? किं च तेन बन्धनेनासौ विकृतिमनुभवति न वा ? अनुभवति चेच्चर्मादिवदनित्यः । नानुभवति चेन्निर्विकारत्वे सता असता वा तेन गगनस्येव न कोप्यस्य विशेषः । इति बन्धवैफल्यान्नित्यमुक्त एव स्यात् । ततश्च विशीर्णा जगति बन्ध-मोक्षव्यवस्था । तथा च पठन्ति “ वर्षातपाभ्यां किं व्योम्नाश्चर्मण्यस्ति तयोः फलम् । चर्मोपमश्चेत्सोऽनित्यः खतुल्यश्चेदसफलः ” । बन्धाऽनुपपत्तौ मोक्षस्याप्यनुपपत्तिर्वन्धनविच्छेदपर्यायत्वान्मुक्तिशब्दस्येति ।

और जब वस्तुओंमें फेरफार तो है ही नहीं तो विनाकारण अकस्मात् बांधनका संयोग किस प्रकार होगा ? और बांधनसंयोग जबतक नहीं हुआ है तभीसे उस जीवकी मुक्ति मानी जाय तो क्या हानि है ? क्योंकि; शुद्ध अवस्थाका ही नाम मुक्ति है । और हम नित्यवादीसे पूछते है कि जब जीव बांधता है तब उस बांधनसे जीवमें कुछ भी विकार होता है अथवा नहीं ? यदि

विकार होता है तो जिस प्रकार बँधने पर चर्ममें विकार होजाता है इसलिये वह अनित्य है उसी प्रकार जीवमें भी बँधनेपर विकार होजाता है इसलिये जीवको अनित्य मानना चाहिये । और यदि बँधनेसे जीवमें कुछ विकार उपजता ही नहीं तो उनको बँधनेपर बँधा तथा बंध डूटनेपर मुक्त भी नहीं कहना चाहिये । जैसे-किसी वस्तुमें कैसा ही उत्पाद विनाश होता रहै परंतु वहाँका गगन सदा निर्विकार रहता है इसलिये वह सदा ही शुद्ध मानागया है । इसी प्रकार बधन निष्फल होनेसे आत्मा सदा ही मुक्त रहना चाहिये । और जब बंधमोक्ष कुछ है नहीं तो जगत्में बंध मोक्षकी व्यवस्था मानना ही मिथ्या ठहरता है । यही कहा है “ वर्षा होनेसे तो गीलापन तथा गरमी पडनेसे कठोरता चमड़ेमें ही होजाती है; गगनमें नहीं । इसलिये यदि आत्मा गगनके समान है तो बंधमोक्ष होना निष्फल है और यदि चर्मके समान है तो अनित्यता सिद्ध होती है ” । इस प्रकार जब बंधन कोई चीज नहीं है तो मोक्ष कहना भी अनुचित है । क्योंकि, बधके विच्छेद होजानेका नाम ही मोक्ष है ।

एवमनित्यैकान्तवादेऽपि सुखदुःखाद्यनुपपत्तिः । अनित्यं हि अत्यन्तोच्छेदधर्मकम् । तथाभूते चात्मनि पुण्योपादानक्रियाकारिणो निरन्वयं विनष्टत्वात् कस्य नाम तत्फलभूतसुखानुभवः ? एवं पापोपादानक्रियाकारिणोऽपि निरवयवनाशे कस्य दुःखसंवेदनमस्तु ? एवं चान्यः क्रियाकारी अन्यश्च तत्फलभोक्तैत्यसमञ्जसमापद्यते । अथ “यस्मिन्नेव हि सन्ताने आहिता कर्मवासना । फलं तत्रैव सन्धत्ते कर्ष्पासे रक्तता यथा ” इति वचनान्नासमञ्जसमित्यपि वाज्ज्वलं; सन्तानवासनयोरवास्तवत्वेन प्रागेव निर्लोठितत्वात् । तथा पुण्यपापे अपि न घटते । तयोर्ह्यर्थक्रिया सुखदुःखोपभोगः । तदनुपपत्तिश्चानन्तरमेवोक्ता । ततोऽर्थक्रियाकारित्वाऽभावात्तयोरप्यघटमानत्वम् ।

इसी प्रकार सर्वथा क्षणिकता माननेसे भी सुखदुःखादिककी उत्पत्ति होना असंभव ही दीखता है । जिसका एक अंशमात्र अथवा एक धर्ममात्र भी शेष न रहै किंतु सर्वनाश हो जानेवाले पदार्थको यहाँपर बौद्धोंने अनित्य माना है । इस प्रकारसे संपूर्ण ही पदार्थ बौद्धमतानुसार अनित्य हैं । सो जो ऐसा आत्मा है तो जिस आत्माने पुण्यकर्मका अथवा पापकर्मका उपार्जन किया उसका दूसरे ही समय यदि सर्वथा नाश होजायगा तो पुण्यकर्मसे मिलनेवाले सुखका अथवा पापकर्मसे मिलनेवाले दुःखका अनुभव कौन करेगा ? यदि कहे कि आगेका आत्मा जो नवीन उत्पन्न होगा वह इस सुखदुःखका अनुभव करेगा तो जिसने किया वह तो भोगने ही नहीं पाया तथा जिसने कुछ भी नहीं किया उसको भोगना पडा सो यह प्रवृत्ति अनुचित है । और ऐसा होनेपर

कुछ नियम भी नहीं रहेगा कि अमुकके किये हुएको अमुक ही भोगै । “ जिस संतानमें जिस कर्मकी वासना उत्पन्न होती है उस कर्मका फल उसी संतानमें होता है । जैसे जिस लाल कपाससे जो तंतु बनते है उस लाल कपासकी लालिमा भी उन्ही तंतुओंमें आती है; दूसरोंमें नहीं ” इस वचनके अनुसार आगेके नियमित आत्मामें उस पूर्व कर्मका फल होजाना असंगत नहीं है । बौद्धका यह उत्तर भी योग्य नहीं है । क्योंकि; संतान तथा वासना जब सभी झूठे है तो सुखदुःखादि कैसे होसकता है ? यह विचार पहिले ही करचुके है । इसीप्रकार पुण्य पाप भी क्षणिकपना माननेसे नहीं बनसकते है । सुखदुःखका भोगना ही पुण्यपापरूप कर्मोंकी प्रयोजनीभूत क्रिया है वह किसी प्रकार भी नहीं बनसकती है इस बातको सर्वथा नित्य माननेमें दोष दिखाते समय अभी कह चुके है । सो जिस प्रकार सर्वथा नित्य माननेमें सुखदुःखोंका भोगना नहीं बनसकता है उसी प्रकार सर्वथा क्षणिक माननेमें भी नहीं बनसकता है । इसलिये जब सुखदुःखोंके भोगनेरूप क्रिया ही नहीं होसकती है तब पुण्यपापका बँधना भी कैसे संभव हो ?

किं चाऽनित्यः क्षणमात्रस्थायी । तस्मिंश्च क्षणे उत्पत्तिमात्रव्यग्रत्वात्तस्य कुतः पुण्यपापोपादानक्रियार्जनम् ? द्वितीयादिक्षणेषु चावस्थानुमेव न लभते । पुण्यपापोपादानक्रियाऽभावे च पुण्यपापे कुतो निर्मूलत्वात् ? तदसत्त्वे च कुतस्तनः सुखदुःखभोगः । आस्तां वा कथंचिदेतत् । तथापि पूर्वक्षणसदृशेनोत्तरक्षणेन भवितव्यम्; उपादानाऽनुरूपत्वादुपादेयस्य । ततः पूर्वक्षणाद् दुःखितादुत्तरक्षणः कथं सुखित उत्पद्यते ? कथं च सुखितात्ततः स दुःखितः स्यात् ? विसदृशभागतापत्तेः । एवं पुण्यपापादावपि । तस्माद्यत्किंचिदेतत् ।

और बौद्ध अनित्य उसको मानते है जो एक क्षणमात्रके अनंतर ही नष्ट होजाता हो । सो प्रथम एक क्षणपर्यंत तो वह उपजनेमें ही लगा रहता होगा इसलिये उसी समय पुण्यपापका उपार्जन तो कर ही नहीं सकता है । और प्रथम क्षणके अनंतर वह ठहर ही नहीं सकता है जो पुण्यपाप बँधनेकी कुछ क्रिया करै । और यदि पुण्य पाप बँधनेवाली क्रिया नहीं हुई तो निहेतुक पुण्यपापका बंध कहाँसे होगा ? और यदि पुण्यपापका बंध नहीं हुआ हो तो सुखदुःखोंका भोगना कहाँसे होगा ? अब भला थोड़े समयके लिये यह मान भी लिया जाय कि पुण्यपापका बंध जिस किसी प्रकार हो जाता है, तो भी जैसा पूर्व समयमें आत्मा नष्ट हुआ है, आगेका आत्मा भी तैसा ही उत्पन्न होना चाहिये । यदि पूर्वका आत्मा सुखी है तो आगेका सदा सुखी ही उपजना चाहिये और यदि पहिला दुःखी है तो उस संतानमें उत्तरोत्तरके आत्मा सब दुःखी ही उपजने चाहिये । क्योंकि; पूर्वका आत्मा उपादान कारण है

तथा उचरका आत्मा उसका उपादेय है। अर्थात् कार्य है। सो कार्यकारणमें ऐसा नियम होता है कि जैसा उपादान कारण होगा तैसा ही कार्य उपजैगा। इसलिये जो आत्मा सुखी है उसके अनंतरका आत्मा कभी दुःखी नहीं होसकैगा और जो पहिला दुःखी है उससे आगेका आत्मा कभी सुखी नहीं होसकैगा; नही तो यदि सुखीसे दुःखी तथा दुःखीसे सुखी भी होजायगा तो उपादानके समान ही कार्य होता है ऐसा नियम नहीं रह सकैगा। इसीप्रकार पुण्यपापमें भी समझना चाहिये। अर्थात् जिसके पास पुण्यका संचय है उसके पास कभी पापका संचय नहीं होसकैगा तथा जो पापी है वह कभी पुण्यात्मा नहीं होसकैगा; नही तो उपादानकारणसदृश ही कार्य होता है ऐसा नियम द्रुट जायगा। ऐसे दोष आनेसे क्षणिक मानना व्यर्थ है।

एवं बन्धमोक्षयोरप्यसंभवः। लोकेऽपि हि य एव वद्धः स एव मुच्यते। निरन्वयनाशाऽभ्युपगमे चैकाधिकरणत्वाऽभावात्सन्तानस्य चावास्तवत्वात् कुतस्तयोः संभावनामात्रमपीति? परिणामिनि चात्मनि स्वीक्रियमाणे सर्वे निर्वाधमुपपद्यते “परिणामोऽवस्थान्तरगमनं न च सर्वथा ह्यवस्थानम्। न च सर्वथा विनाशः परिणामस्तद्विदामिष्टः” इति वचनात्।

इसीप्रकार बंध मोक्ष मानना भी नहीं बनसकता है। संसारमें भी जो प्रथम बंधा होता है वही कदाचित् छूटता है। जब नाश होनेपर कुछ भी नहीं बचता है किंतु सर्वथा नाश होजाता है ऐसा मानागया है तो बंधनेवाला तथा छूटनेवाला ये दोनों एकरूप नहीं कहेजा सकते है। तथा संतान भी कोई सच्ची वस्तु नहीं है इसलिये बंधमोक्षकी संभावना भी करना असंभव है। और यदि एक ही आत्मा मानकर प्रतिक्षण नवीन उत्पन्न होनेवाले तथा पूर्वपूर्वके नष्ट होनेवाले जो है उनको उस आत्मके परिणामविशेष ही बौद्ध मानते हों तो सभी निर्वाध सिद्ध होजाता है। ऐसा कहा भी है कि “एक अवस्थाको छोडकर दूसरी अवस्था धारण करनेका नाम परिणाम है। न तो कोई भी द्रव्य सदा कूटस्थ एक अवस्थाविशिष्ट ही रहती है और न सर्वथा सदा विनाश ही होता रहता है। किंतु प्रत्येकका परिणमन या पर्यय होते रहना ही विद्वानोंको इष्ट है।

पातञ्जलटीकाकारोऽप्याह “अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वधर्मनिवृत्तौ धर्मान्तरोत्पत्तिः परिणामः” इति। एवं सामान्यविशेषसदसदभिलाष्याऽनभिलाष्यैकान्तवाद्देवपि सुखदुःखाद्यभावः स्वयमभियुक्तैरभ्यूह्यः।

पतञ्जलिके ग्रन्थकी टीका करनेवालेने भी कहा है कि “ध्रुवपरिणामविशिष्ट वस्तुमें एक धर्मका विलय होकर दूसरे धर्मका

प्रादुर्भाव होना ही परिणाम है” । यहांपर जिस प्रकार सर्वथा नित्य अथवा अनित्य माननेमें दोष दिखाये हैं उसी प्रकार सर्वथा सामान्य, विशेष, सत्, असत्, वस्तु अथवा अवस्तु अथवा अकारक अथवा अकारकत्व ही होसकना विद्वानोको स्वयं विचार लेना चाहिये ।

अथोत्तरार्द्धव्याख्या । एवमनुपपद्यमानेऽपि सुखदुःखभोगादिव्यवहारे परैः परतीर्थिकैरथ च परमार्थतः शत्रुभिः (परशब्दो हि शत्रुपर्यायोऽप्यस्ति) दुर्नीतिवादव्यसनासिना । नीयते एकदेशविशिष्टोऽर्थः प्रतीतिविषयमाभिरिति नीतयो नयाः । दुष्टा नीतयो दुर्नीतयो दुर्नयाः । तेषां वदनं परेभ्यः प्रतिपादनं दुर्नीतिवादः । तत्र यद्व्यसनमत्यासक्तिरौचित्यनिरपेक्षा प्रवृत्तिरिति यावत्, दुर्नीतिवादव्यसनम् । तदेव सद्बोधशरीरोच्छेदनशक्तियुक्तत्वादसिरेवासिः कृपाणो दुर्नीतिवादव्यसनासिः ।

अब श्लोकके उत्तरार्धका व्याख्यान करते हैं । इस प्रकार एकान्त पक्षोंके माननेमें सुखदुःखादि व्यवहार सिद्ध नहीं होते हुए भी अन्य धर्मोंके प्रवर्तक जनोने उस दुर्नीतिवादके व्यसनरूपी खड्गसे संपूर्ण संसारका नाश कर रक्खा है । प्रार्थना करनेका प्रयोजन यह है कि; हे भगवन्! आपं उनसे रक्षा करो । ‘पर’ शब्दका अर्थ शत्रु होता है । अथवा श्लोकमें पड़े हुए उस ‘पर’ शब्दका अर्थ परमार्थके शत्रु होता है । क्योंकि, शत्रु जिस प्रकार अपने शत्रुका सर्वथा नाश करनेवाला होता है उसी प्रकार इन्होंने खोटे मार्गोंका प्रतिपादन करके जगत्के जीवोंको अपायके मार्गमें लगाकर अत्यंत दुःखी कररक्खा है । एक अंश अथवा धर्म विशिष्ट वस्तुका निश्चय जिनके द्वारा हो उनको नीति अथवा नय कहते हैं । नयको ही विवक्षा अथवा अपेक्षा भी कहते हैं । ये ही नीति यदि खोटी अपेक्षारूप हों तो इनको दुर्नय कहते हैं । दुर्नयोको दूसरोंके आगे जो कहना सो दुर्नीतिवाद है । इस दुर्नीतिवादमें व्यसन अथवा अत्यंत आसक्तता रखनेका नाम दुर्नीतिवादव्यसन है । अर्थात् व्यसन उसका नाम है जिसके होनेपर उचित अनुचितका विचार नहीं करते हुए ही प्रवृत्ति हो । यह जो दुर्नीतिवादव्यसन है वह एक प्रकार खड्गके समान है । क्योंकि; सच्चा ज्ञानरूपी शरीर इसके चलनेसे कट जाता है । खड्गको असि कहते हैं । इसीलिये इसको दुर्नीतिवादव्यसनासि कहा है । तेन दुर्नीतिवादव्यसनासिना करणभूतेन दुर्नयप्ररूपणहेवाकखड्गेन । एवमित्यनुभवसिद्धं प्रकारमाह । अपि-शब्दस्य भिन्नक्रमत्वाद्देशेषमपि जगन्निखिलमपि त्रैलोक्यं, तात्स्थ्यात्तद्व्यपदेश इति त्रैलोक्यगतजन्तुजातं विलुप्तं;

सम्यग्ज्ञानादिभावप्राणव्यपरोपेन व्यापादितम् । तत्रायस्वेत्याशयः । सम्यग्ज्ञानादयो हि भावप्राणाः प्रावच-
निकैर्गीयन्ते । अत एव सिद्धेष्वपि जीवव्यपदेशः । अन्यथा हि जीवधातुः प्राणधारणार्थेऽभिधीयते । तेषां च
दशविधप्राणधारणाऽभावादजीवत्वप्राप्तिः । सा च विरुद्धा । तस्मात्संसारिणो दशविधद्रव्यप्राणधारणाज्जीवाः
सिद्धाश्च ज्ञानादिभावप्राणधारणादिति सिद्धम् । दुर्नयस्वरूपं चोत्तरकाव्ये व्याख्यास्यामः । इति काव्यार्थः ।

इस दुर्नीति वादरूपी खङ्गके द्वारा एक दोका नहीं किंतु अशेष जगतका घात हो रहा है । 'एवं' शब्द जो पड़ा है उसका अर्थ
अनुभवसिद्ध होता है । श्लोकमें जो 'जगदपि' ऐसा शब्द पड़ा है उसमेंसे 'अपि' शब्द 'अशेष' शब्दके साथ लगानेसे अर्थ ठीक
बनता है । भावार्थ—एक दो नहीं किंतु अशेष ही जगत् अर्थात् त्रैलोक्यमें होनेवाले जीवोंका समूह इसने विलुप्त कर दिया है । अर्थात्
सम्यग्ज्ञानरूप भावप्राणोंका घातकर उन जीवोंका नाश कर दिया है । प्राणोंके घात होनेका ही नाम मृत्यु है । एक द्रव्यप्राण और एक
भावप्राण ऐसे प्राण दो प्रकार हैं । ५ इंद्रिय, ३ बल (मन, वचन, काय), १ श्वासोच्छ्वास तथा १ आयु इन दशको द्रव्यप्राण
कहते हैं । सम्यग्ज्ञानादिकोंको प्रवचनके ज्ञाताओने भावप्राण कहा है । जो प्राण धारण करते हैं वे जीव कहे जाते हैं । प्राण
धारणकरना जिसका अर्थ है ऐसे जीव धातुसे जीव शब्द बनता है । ससारी जीव तो द्रव्यप्राणोंसे जीते हैं इसलिये उनको
जीव कहते हैं । सिद्धात्मा भावप्राणोंकी अपेक्षा जीते है इसलिये उनको भी जीव कहसकते हैं । यदि द्रव्य प्राणोंके धारण करनेवाले
ही जीव कहलते तो सिद्ध जीव जीव ही नहीं कहे जाते । परंतु सिद्धोंको जीव नहीं कहना सर्वथा विरुद्ध है । इसलिये ससारी
जीवोंको दशप्रकार द्रव्यप्राणोंकी अपेक्षा तथा मुक्त जीवोंको भावप्राणोंकी अपेक्षा जीव कहना चाहिये ऐसा सिद्ध है । दुर्नयका
स्वरूप इस काव्यमें स्पष्ट नहीं किया है किंतु आगेके काव्यमें कहेंगे । इस प्रकार इस काव्यका अर्थ पूर्ण हुआ ।

साम्प्रतं दुर्नयनयप्रमाणप्ररूपणद्वारेण “ प्रमाणनयैरधिगमः ” इति वचनाज्जीवाऽजीवादितत्त्वाऽधिगमनि-
बन्धनानां प्रमाणनयानां प्रतिपादयितुः स्वामिनः स्याद्वादविरोधिदुर्नयमार्गनिराकरणमन्यसामान्यं वचनाति-
शयं स्तुवन्नाह ।

अब खोटे नय, सच्चे नय तथा प्रमाणके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए आचार्य अर्हन् भगवान्की इस प्रकार स्तुति करते हैं कि—
प्रमाण नयसे जीवादि पदार्थोंका निश्चय होता है इस अभिप्रायवाले “ प्रमाणनयैरधिगमः ” इस वचनके अनुसार जिन प्रमाण-

नयोंको जीव अजीवादि तत्त्वोंका ज्ञान होनेमें असाधारण कारण माना है उन प्रमाणनयोंका प्रतिपादन करनेवाले अहंन् भगवान्क वचन असाधारण महिमाके धारक है तथा इन वचनोंके स्याद्वादके विरोधी दुर्नयोंका मार्ग नष्ट होजाता है ।

सदेव सत् स्यात्सदिति त्रिधाऽर्थो मीयते दुर्नीतिनयप्रमाणैः । यथार्थदर्शी तु नयप्रमाणपथेन दुर्नीतिपथं त्वमास्थः ॥ २८ ॥

मूलार्थ-दुर्नयके द्वारा तो ऐसा निश्चय होता है कि पदार्थ सत्स्वरूप ही है तथा सम्यक् नयके द्वारा ऐसा निश्चय होता है कि पदार्थ सत्स्वरूप है; एवं प्रमाणके द्वारा ऐसा निश्चय होता है कि पदार्थ कथंचित् सत्स्वरूप है । एवं सच्चे मार्गको यथार्थ देखनेवाले आपने ही सच्चे नयप्रमाणद्वारा दुर्नयका निराकरण किया है ।

व्याख्या-अर्थते परिच्छिद्यत इत्यर्थः पदार्थस्त्रिधा त्रिभिः प्रकारमीयेत परिच्छिद्यत । विधौ सप्तमी । कैस्त्रिभिः प्रकारैरित्याह दुर्नीतिनयप्रमाणैः । नीयते परिच्छिद्यते एकदेशविशिष्टोऽर्थ आभिरिति नीतयो नयाः । दुष्टा नीतयो दुर्नीतयो दुर्नया इत्यर्थः । नया नैगमाद्याः । प्रमीयते परिच्छिद्यतेऽर्थोऽनेकान्तविशिष्टोऽनेनेति प्रमाणं स्याद्वादात्सकं प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणम् । दुर्नीतयश्च नयाश्च प्रमाणे च दुर्नीतिनयप्रमाणानि तैः ।

व्याख्यार्थ—‘क्व’ धातुका अर्थ निश्चय करना है । इसलिये जिसका निश्चय किया जासके उसको अर्थ अथवा पदार्थ कहते हैं । इस पदार्थका निश्चय तीन प्रकारसे होसकता है; प्रथम तो दुर्नयसे, दूसरा सुनयसे तथा तीसरा प्रमाणसे । जिनसे वस्तुके एक एक अंशोंका निर्णय होजाता हो वे नीति या नय कहते हैं । खोटी नीतियोंको दुर्नीति अथवा दुर्नय कहते हैं । सुनय अथवा समीचीन नय वे हैं जो तत्त्वार्थसूत्रके प्रथमाध्यायके अंतमें नैगम, संग्रह, व्यवहारादि नाम लेकर कहे गये हैं । संपूर्ण धर्मविशिष्ट वस्तुका जिसके द्वारा निश्चय होता हो वह प्रमाण कहाता है । यह प्रमाणज्ञान स्याद्वादरूप होता है । इसके सामान्य भेद दो हैं, पहिला प्रत्यक्ष दूसरा परोक्ष । दुर्नीति, नय तथा प्रमाणको जब संस्कृत भाषामें एक साथ मिलकर बोलना चाहते हैं तब ‘दुर्नीतिनय-प्रमाणानि’ ऐसा बोलते हैं । सारांश यह है कि; प्रमाणके द्वारा तो वस्तुका सर्वांग ज्ञान होता है किंतु नयोंके द्वारा एक एक धर्मका ही ज्ञान होता है । कुनयोंसे भी वस्तुके एक एक धर्मका ही ज्ञान होता है परंतु जो वह एक है वही जब सर्व अंशरूप मान लिया जाता है तब उसी निश्चायक नयको कुनय कहते हैं ।

केनोच्छेदेन मीयेतेत्याह सदेव सत्स्यात्सदिति । सदित्यव्य कत्वाच्चपुंसकत्वम् । यथा किं तस्या गर्भे जातमिति । सदेवेति दुर्नयः । सदिति नयः । स्यात्सदिति प्रमाणम् । तथा हि । दुर्नयस्तावत्सदेवेति ब्रवीति । अस्त्येव घट इति । अयं वस्तुन्येकान्ताऽस्तित्वमेवाभ्युपगच्छन्नितरधर्माणां तिरस्कारेण स्वाभिप्रेतमेव धर्मं व्यवस्थापयति । दुर्नयत्वं चास्य मिथ्यारूपत्वात् । मिथ्यारूपत्वं च तत्र धर्मान्तराणां सतामपि निह्नुवात् ।

दुर्नीति, सुनीति तथा प्रमाणके द्वारा जो पदार्थका तीन प्रकारसे निश्चय होता है उसका स्वरूप कैसा है ऐसा प्रश्न होनेपर “ सदेव, सत्, स्यात् सदिति ” ऐसा उत्तर देते हैं । इसका अर्थ यह है कि, पदार्थ सत्स्वरूप ही है ऐसा एकान्तरूप ज्ञान कुनयके द्वारा होता है । सुनयके द्वारा जो ऐसा ज्ञान होता है कि पदार्थ सत्स्वरूप है उसमें तथा उपर्युक्त कुनयके ज्ञानमें इतना ही अंतर है कि कुनयजन्य ज्ञान तो एक विवक्षित धर्मको छोड़कर बाकी धर्मोंका निषेध करता है किंतु जो सुनयजन्य ज्ञान होता है उसमें मुख्य तो एक विवक्षित धर्म ही रहता है परंतु बाकीके अमुख्य धर्मोंका भी उदासीनरूपसे ग्रहण किया जाता है । जैसे कुनयसे तो ज्ञान होता है कि पदार्थ सत् ही है । अर्थात् सत्को छोड़कर अन्य कोई भी धर्म पदार्थमें नहीं है । सुनयसे जो ज्ञान होता है उसका उदाहरण ऐसा है कि पदार्थ सत्स्वरूप है । अर्थात् केवल सत्स्वरूप ही नहीं है; उसमें धर्म तो अंततः हैं परंतु अमुक समयपर विवक्षित धर्म सत्त्व ही है । प्रमाणद्वारा जो ज्ञान होता है उसका उदाहरण ऐसा है कि पदार्थ कश्चित् सत्स्वरूप है । अर्थात् कश्चित् कहनेसे पदार्थमें असत्त्वादि धर्म भी रहते प्रतीत होते हैं । ‘ सत् शब्द है सो यहांपर नपुंसकलिङ्ग है । नपुंसकलिङ्गी शब्दका उच्चारण यहां इसलिये किया है कि सत्शब्दका अर्थ यहांपर कोई खास पदार्थ नहीं है किंतु सामान्य सभी सत्स्वरूप पदार्थ उसके वाच्य है । सामान्य अर्थकी विवक्षा होनेपर शब्द नपुंसकलिङ्गी ही बोला जाता है । जैसे अमुक लीके गर्भमें क्या हुआ? । ‘क्या हुआ’ इसमें भी क्या (किम्) शब्द जो है वह नपुंसकलिङ्गी ही है । यहांपर जो दुर्नय है वह प्रत्येक पदार्थको एक धर्मविशिष्ट ही मनाता है । जैसे घड़ा केवल सत्स्वरूप ही है । यहां यह दुर्नय वस्तुमें एक मात्र अस्तित्व धर्मका ही निरूपण करता हुआ शेष धर्मोंके नियमपूर्वक विवक्षित धर्मको ही पदार्थका स्वरूप बतलाता है । खोटा नय होनेसे इसको दुर्नय कहते हैं । विवक्षित धर्मको छोड़कर बाकीके विद्यमान धर्मोंका भी यह अपलाप करता है इसलिये इस नयको खोटा कहते हैं ।

तथा सदित्युल्लेखवाच्यः । स ह्यस्ति घट इति घटे स्वाभिमतमस्तित्वधर्मं प्रसाधयन् शेषधर्मेषु गजनिमीलिका

मालम्बते । न चास्य दुर्नयत्वं धर्मान्तराऽतिरस्कारात् । न च प्रमाणत्वं स्याच्छब्देनाऽलाञ्छितत्वात् । स्यात्सदिति स्यात्कथंचित्सद्स्तु इति प्रमाणम् । प्रमाणत्वं चास्य दृष्टेष्टाऽबाधितत्वाद्धिपक्षे बाधकसम्भावाच्च । सर्वं हि वस्तु स्वरूपेण सत् पररूपेण चाऽसदित्यसकृदुक्तम् । सदिति दिङ्मात्रदर्शनार्थम् । अनया दिशा असत्त्वनित्यत्वाऽनित्यत्ववक्तव्यत्वाऽवक्तव्यत्वसामान्यविशेषाद्यपि बोद्धव्यम् ।

अन्य धर्मोंमें उदासीन होकर सत्वधर्मका प्रतिपादन करनेवाला नय समिचीन नय कहा जाता है । इसका उदाहरण जैसे कि 'घड़ा है' ऐसा वचन कहनेवाला घड़ेमें रहनेवाले बाकीके अनंतो धर्मोंकी तरफ हस्तीके देखनेके समान उदासीनतासे देखता हुआ विवक्षित अस्तित्व धर्मको मुख्य देखता है । यह नय भी यद्यपि एक धर्मको ही मुख्यतासे देखता है तो भी दुर्नय नहीं है । क्योंकि; बाकीके धर्मोंको चाहे उदासीनतासे ही देखता है परंतु तो भी निषेध नहीं करता है । इस नयको प्रमाण ज्ञान भी नहीं कह सकते हैं । क्योंकि; स्यात्शब्द छोड़कर इसको बोला है । अर्थात् प्रमाणज्ञान तभी समझा जाता है जब स्यात् शब्द अथवा कथंचित् शब्द आकर कहा जाय । अमुक वस्तु कथंचित् सत् है ऐसे ही ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । ऐसे ज्ञानको प्रमाण इसलिये कहते हैं कि इसमें प्रत्यक्ष परोक्षादि किसी ज्ञानसे भी बाधा नहीं आती है तथा जो प्रमाणद्वारा निश्चय हो जाता है उससे विरुद्ध माननेमें अनेक प्रकारकी बाधा दीख पड़ती है । यह बात स्थान स्थानपर कही है कि सभी वस्तु अपने द्रव्यादि चतुष्टयस्वरूपकी अपेक्षा तो सत् है तथा परद्रव्यादि चतुष्टयस्वरूपकी अपेक्षा असत् है । सत् धर्म तो यहां दृष्टान्तमात्र दिखाया है किंतु इसी प्रकार असत्वधर्म तथा नित्यत्व, अनित्यत्व, वक्तव्यत्व, अवक्तव्यत्व, सामान्य, विशेषादि धर्म भी समझलेने चाहिये ।

इत्थं वस्तुस्वरूपमाख्याय स्तुतिमाह—यथार्थदर्शीत्यादि । दुर्नीतिपथं दुर्नयमार्गं तुशब्दस्य अवधारणार्थस्य भिन्नक्रमत्वात्त्वमेव आस्थस्त्वमेव निराकृतवान् । न तीर्थान्तरदैवतानि । केन कृत्वा ? नयप्रमाणपथेन । नयप्रमाणे उक्तस्वरूपे । तयोर्मार्गेण प्रचारेण । यतस्त्वं यथार्थदर्शी । यथार्थोऽस्ति तथैव पश्यतीत्येवंशीलो यथार्थदर्शी । विमलकेवलज्योतिषा यथावस्थितवस्तुदर्शी । तीर्थान्तरशास्त्रास्तु रागादिदोषकालुष्यकलङ्कितत्वेन तथाविधज्ञानाभावात् यथार्थदर्शिनः । ततः कथं नाम दुर्नयपथमथने प्रगल्भन्ते ते तपस्विनः ?

इस प्रकार वस्तुका स्वरूप कहकर स्तुतिकर्ता 'यथार्थदर्शी' इत्यादि वचनद्वारा भगवत्की स्तुति करते हैं । 'तु' शब्द उप-

स्याद्वादमं-

॥१९७॥

शुक्त श्लोकमें जहां पड़ा है वहा ही उसका संबंध नहीं होता किंतु 'त्वमास्थः' इस स्थानमें पड़े हुए 'त्वम्' ऐसे शब्दके साथ होता है। तथा इस 'तु' शब्दका अर्थ 'ही' अथवा 'निश्चय' होता है। इसलिये श्लोकके अन्तिम भागका अर्थ ऐसा करना चाहिये कि आप ही दुर्नयरूप खोटे मार्गके मिटानेवाले हों; अन्य कोई भी देव दुर्नयरूप खोटे मार्गको नहीं मिटा सकता है। कैसे? सच्चे नय प्रमाणका मार्ग दिखानेसे। नय प्रमाणोंका स्वरूप कह ही चुके है। इन नय प्रमाणोंका सच्चा प्रकास करना ही नय प्रमाणोंके मार्गका दिखाना है। आप सच्चे मार्गको दिखानेवाले इसीसे सिद्ध है कि आप यथार्थदर्शी है। जैसा कुछ पदार्थ है उसको जो तैसा ही देखता हो उसको यथार्थदर्शी कहते है। निर्मल केवलज्ञानरूपी ज्योतिकर आपने ही वस्तुका यथावस्थित स्वरूप देखा है, और जो अन्यमतोंके प्रवर्तक है वे रागद्वेषादि दोषोंसे कलंकित रहनेके कारण सच्चा ज्ञान नहीं पासके है और इसीलिये वे यथार्थदर्शी नहीं है। यथार्थदर्शी न होनेसे वे वेचारे दुर्नयरूप खोटे मार्गका निराकरण भी नहीं कर सकते है।

न हि स्वयमनयप्रवृत्तः परेषामनयं निरेच्छमुद्धरतां धत्ते। इदमुक्तं भवति। यथा-कश्चित्सन्मार्गवेदी परोपकारदुर्लभितः पुरुषश्चौरश्चापदकण्टकाद्याकीर्णं मार्गं परित्याज्य पथिकानां गुणदोषोभयविकलं दोषाऽस्पृष्टं गुणयुक्तं च मार्गमुपदर्शयति एवं जगन्नाथोऽपि दुर्नयतिरस्करणेन भव्येभ्यो नयप्रमाणमार्गं प्ररूपयतीति।

जो स्वयं ही अनीति मार्गमें पड़ा है वह दूसरोको अनीतिमार्गसे अलग नहीं कर सकता है। कहनेका अभिप्राय यह है कि; जिस प्रकार कोई पुरुष सच्चे मार्गको जानता हुआ और परोपकार करनेमें तत्पर होता हुआ जीवोंको खोटे मार्गसे बचानेकी इच्छाकर चोर सिंह व्याघ्रादि भयानक जंतुओंसे तथा कंटक आदि दुःखदाई चीजोंसे भरा हुआ मार्ग छोड़कर पथिकोंको ऐसा मार्ग दिखा देता है जो गुणदोष रहित हो अथवा दोषरहित गुणसहित हो; उसी प्रकार जगतके नाथ जिनेंद्र भगवान् भी दुर्नयोंका खंडन करते हुए मव्योंको सच्चा नयप्रमाणरूप मार्ग दिखाते है।

आस्थ इत्यस्यतेरद्यतन्यां "शास्त्र्यस्तिवक्तिव्यतेरङ्" इत्यङि "श्वयत्यस्तवचपतः श्वास्थवोचपसम्" इति स्यादेशे

"स्वरादेस्तासु" इति वृद्धौ रूपम्।

श्लोकके अंतमें जो 'आस्थः' पद है उसका अर्थ निराकरण करना है। अस् धातुके आगे अद्यतनी अथवा लुङ् लकारवाचक मूतकालिक प्रत्ययके अर्थमें 'शास्त्र्यस्तिवक्तिव्यतेरङ्' इस सूत्रसे अङ् प्रत्यय होकर पीछे 'श्वयत्यस्तिवचपतः श्वास्थवोचपसम्'

इस सूत्रसे उसके स्थानमें अस्थ आदेश होकर पीछे जब 'सरादेस्तासु' इस सूत्रकर अस्थके ह्रस्व अकारको दीर्घ हो जाता है तब 'आस्थः' ऐसा पद बनजाता है ।

मुख्यवृत्त्या च प्रमाणस्यैव प्रामाण्यम् । यच्चात्र नयानां प्रमाणतुल्यकक्षताख्यापनं तत्तेषामनुयोगद्वारभूततया प्रज्ञापनाङ्गत्वज्ञापनार्थम् । चत्वारि हि प्रवचनाऽनुयोगमहानगरस्य द्वाराणि । उपक्रमो निक्षेपोऽनुगमो मयाश्चेति । एतेषां च स्वरूपमावश्यकभाव्यादेर्निरूपणीयम् । इह तु नोच्यते ग्रन्थगौरवभयात् । अत्र चैकत्र कृतसमासान्तः पथिन्शब्दोन्यत्र चाऽव्युत्पन्नः पथशब्दोऽदन्त इति पथशब्दस्य द्विःप्रयोगो न दुष्यति ।

यद्यपि यथार्थ देखा जाय तो मुख्यपनेसे प्रमाणज्ञानमें ही प्रमाणपना रहता है परंतु तो भी जो नयोंको प्रमाणके तुल्य कहा है सो यह अभिप्राय जतानेके लिये कहा है कि नय जो पदार्थका सच्चा स्वरूप दिखानेवाले माने गये है वे अनुयोगोंके द्वारा होनेकी अपेक्षा ही माने गये है । प्रवचन अनुयोगरूपी विशाल नगरमें प्रवेश पानेके चार द्वार हैं; उपक्रम, निक्षेप, अनुगम तथा नय । इन द्वारोंका स्वरूप जानना ही तो आवश्यकभाष्यादि ग्रन्थोंमें कहा है; वहांसे जान लेना । यहांपर ग्रन्थ बढ जानेके भयसे नहीं कहा है । इस श्लोकमें एक स्थानपर तो समासान्त 'पथिन्' शब्द है तथा दूसरे स्थानपर अव्युत्पन्न अकारान्त 'पथ' शब्द है इसलिये पथ शब्दको दो बार लिखना अनुचित नहीं है ।

अथ दुर्नयनयप्रमाणस्वरूपं किञ्चिन्निरूप्यते । तत्रापि प्रथमं नयस्वरूपं; तदनधिगमे दुर्नयस्वरूपस्य दुष्परिज्ञानत्वात् । अत्र चाचार्येण प्रथमं दुर्नयनिर्देशो यथोत्तरं प्राधान्यावबोधनार्थः कृतः । तत्र प्रमाणप्रतिपन्नार्थैकदेशपरामर्शो नयः । अनन्तधर्माध्यासितं वस्तु स्वाभिप्रेतैकधर्मविशिष्टं नयति प्रापयति संवेदनकोटिमारोहयतीति नयः । प्रमाणप्रवृत्तेरुत्तरकालभावी परामर्श इत्यर्थः ।

अब दुर्नय, नय तथा प्रमाणका निरूपण कुछ करना चाहिये उसमें भी सबसे प्रथम नयका स्वरूप दिखाना चाहिये । क्योंकि जबतक नयका स्वरूप नहीं दिखानेगे तबतक दुर्नयका स्वरूप समझना कठिन है । श्लोकमें आचार्य महाराजने प्रथम दुर्नय, फिर नय तथा अंतमें प्रमाण शब्द रक्खा है सो इसका अभिप्राय यह है कि प्रमाणता तथा मुख्यता उत्तरोत्तर अधिक है । अर्थात् दुर्नय तो अप्रमाण है नय किसी अपेक्षा प्रमाण है तथा प्रमाण सर्वथा ही प्रमाण है । प्रमाणद्वारा निश्चित किये हुए पदार्थके

एक अंशका जो विचार करना है वह नय है । वस्तु तो प्रत्येक अनंत धर्मसहित है परंतु विवक्षित किसी एक धर्मरूप उस वस्तुको जो सिद्ध करै अथवा आरोपित करै वह नय है । अर्थात् प्रत्येक वस्तु अनंतो धर्मवाली होती है उनमेंसे किसी एक धर्मकी मुख्यता करके किसी वस्तुको उसी एक विवक्षित धर्ममय कहना तथा मानना सो नय है । नय सदा तभी प्रवर्तता है तथा उसी वस्तुमें प्रवर्तता है जब जो वस्तु प्रमाणज्ञानद्वारा जानी जा चुकती है ।

नयाश्चानन्ता अनन्तधर्मत्वाद्द्वस्तुनस्तदेकधर्मपर्यवसितानां वक्तुरभिप्रायाणां च नयत्वात् । तथा च ब्रह्माः “ जावइया वयणपहा तावइया चैव हुति नयवाया ” इति । तथापि चिरन्तनाचार्यैः सर्वसंग्राहिसप्ताभिप्रायपरिकल्पनाद्वारेण सप्त नयाः प्रतिपादिताः । तद्यथा । नैगमसंग्रहव्यवहारऋजुसूत्रशब्दसमभिरूढैवंभूता इति । कथमेषां सर्वग्राहकत्वमिति चेदुच्यते । अभिप्रायस्तावदर्थद्वारेण शब्दद्वारेण वा प्रवर्तते; गत्यन्तराऽभावात् । तत्र ये केचनार्थनिरूपणप्रवणाः प्रमात्रभिप्रायास्ते सर्वेऽप्याद्ये नयचतुष्टयेऽन्तर्भवन्ति । ये च शब्दविचारचतुरास्ते शब्दान् दिनयत्रये इति ।

नय वस्तुके उसी एक धर्मको ग्रहण करता है जो वक्ताको इष्ट हो । प्रत्येक वस्तुमें धर्म अनंतो होते है इसलिये नय भी अनंतो ही हो सकते है । पूर्वाचार्योंने ऐसा ही कहा है कि “जितने प्रकारसे वचन बोले जा सकते है उतने ही प्रकारके नय है” । इस प्रकार यद्यपि नय बहुत है परंतु उन संपूर्ण नयोंका अभिप्राय वक्ष्यमाण सात प्रकारके भेदोंमें ही अन्तर्गत हो जाता है इसलिये पूर्वाचार्योंने नयोंको संक्षेपसे सातप्रकार ही कहा है; नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ, एवंभूत । इन्ही सात प्रकारोंमें संपूर्ण नयोंके अभिप्राय जिस प्रकार अन्तर्हित हो सकते है सो दिखाते है । अभिप्रायका प्रगट करना या तो किसी पदार्थके द्वारा हो सकता है अथवा किसी शब्द द्वारा हो सकता है । तीसरा तो कोई मार्ग ही नहीं है । इनमेंसे जो अभिप्राय ऐसे है जिनका प्रगट करना पदार्थोंद्वारा हो सके वे तो सर्व आदिके चार नयोंमें गभित हो जाते है और जो विचार शब्दद्वारा प्रगट हो सकते है उनका अन्तर्भाव अंतके शब्दादि तीन नयोंमें होता है ।

तत्र नैगमः सत्तालक्षणं महासामान्यमवान्तरसामान्यानि च द्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वादीनि तथाऽन्यान्विशेषान्सकलाऽसाधारणरूपलक्षणान्ऽवान्तरविशेषांश्चाऽपेक्षया पररूपव्यावर्त्तनक्षमान् सामान्यादत्यन्तविनिर्मुक्तितस्वरूपान-

भिप्रैति । इदं च स्वतन्त्रसामान्यविशेषवादे धुण्णमिति न पृथक्प्रयत्नः । प्रवचनप्रसिद्धनिलयनप्रस्थदृष्टान्तङ्ग-
यगम्यश्चायम् । संग्रहस्तु अशेषविशेषतिरोधानद्वारेण सामान्यरूपतया विश्वमुपादत्ते । एतच्च सामान्यैकान्तवादे
प्राक् प्रयञ्चितम् ।

इन सातोंमेंसे आदिका जो नैगम नय है वह सत्स्वरूप महासामान्यको तथा द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्वादिरूप अवान्तर सामा-
न्योको एवं प्रत्येक स्थूल पदार्थोंमें रहनेवाले विशेषोंको तथा जिनका स्वरूप सामान्य धर्मकी अपेक्षा सर्वथा उलटा और अपेक्षा
करनेपर जिसके द्वारा एक दूसरेका भेदभाव प्रतीतिगोचर होता हो ऐसे सूक्ष्म अवान्तर विशेष धर्मोंको ग्रहण करता है । अर्थात्
संपूर्ण प्रकारके सामान्य धर्म तथा समग्र प्रकारके विशेष धर्मोंको यह नैगम नय अभेदभावसे स्वीकार करता है । भावार्थ—यह
नय सामान्यविशेषधर्मसहित पदार्थको सामान्यभावसे ग्रहण करता है; किसी भी धर्मको छोड़ता नहीं है । जहांपर सामान्य
विशेष धर्मोंको सर्वथा भिन्न भिन्न माननेवालोंका विचार किया है वहांपर ही सामान्यविशेषात्मकपनेका विवेचन कर चुके हैं और
वही विषय नैगम नयका है इसलिये यहांपर फिरसे इसका विचार नहीं करते । इस नैगम नयके दो दृष्टान्त शास्त्रोंमें प्रसिद्ध हैं;
उन्हींसे इसका खुलासा ज्ञान होता है । उन दो दृष्टान्तोंमें पहिला तो निलयनका है और दूसरा पंसेरी (पांचसेरी) का है ।
संग्रह नय जो दूसरा है वह संपूर्ण विशेष धर्मोंकी आकांक्षा छोड़कर किसी सामान्य धर्मकी सुल्यता लेकर जितनेमें वह
सामान्य धर्म रहता हो उस संपूर्ण विषयको ग्रहण करता है । इस नयके विषयका आलोचन भी सर्वथा सामान्यरूप पदार्थ
माननेवालेका खंडन करते समय कर आये है ।

व्यवहारस्त्वेवमाह । यथा लोकग्राहमेव वस्त्वस्तु । किमनया अदृष्टाऽव्यवहियमाणवस्तुपरिकल्पनकष्टपिष्टि-
क्या ? यदेव च लोकव्यवहारपथमवतरति तस्यैवाऽनुग्राहकं प्रमाणमुपलभ्यते; नेतरस्य । न हि सामान्यमनादि-
निधनमेकं संग्रहाऽभिमतं प्रमाणभूमिस्तथानुभवाऽभावात् सर्वस्य सर्वदर्शीत्वप्रसङ्गाच्च । नापि विशेषाः परमाणु-
लक्षणाः क्षणक्षयिणः प्रमाणगोचरास्तथा प्रवृत्तेरभावात् । तस्मादिदमेव निखिललोकाऽबाधितं प्रमाणप्रसिद्धं किय-
त्कालभाविस्थूलतामाविश्राणमुदकाद्याहरणाद्यर्थक्रियानिर्वर्तनक्षमं घटादिकं वस्तुरूपं पारमार्थिकम् । पूर्वोत्तरकाल-
भावितत्पर्यायपर्यालोचना पुनरज्यायसी; तत्र प्रमाणप्रसराऽभावात्; प्रमाणमन्तरेण विचारस्य कर्तुमशक्यत्वात् ।

तीसरा व्यवहार नय ऐसा कहता है कि वस्तु उतने मात्र ही है जितनी लौकिक व्यवहारमें काम आती है तथा जिस विस प्रकार लोक व्यवहारमें मानी जाती है। जिसका दर्शनमात्र भी नहीं है तथा जो लोकोंके व्यवहारमें हो भी आती नहीं हो ऐसी वस्तुकी करुपना करनेका कष्ट उठानेसे क्या प्रयोजन ? जितनी कुछ वस्तु लोकव्यवहारमें आवश्यकिय हैं उन्हीका प्रमाणद्वारा निश्चय होता है। जो लोकव्यवहारके मार्गमें नहीं आती उसका प्रमाणद्वारा निश्चय भी नहीं होता है। अर्थात् लोकव्यवहारमें जो कुछ वस्तु आवश्यकिय होती है वह विशेषरूप ही होती है। जो अनादिनिधन संग्रहनयका विषयभूत एकत्वरूप सामान्य मानागया है उसका किसी प्रकार भी अनुभवसे निश्चय नहीं होता। अर्थात् व्यवहार दृष्टिसे देखते है तो सभी वस्तु विशेषरूप ही कार्यक्षेत्रमें उपयोगी जान पडती है। यदि सामान्य धर्मका भी जीवोको अनुभव होता हो तो वे मनुष्य सर्वदर्शी अर्थात् सर्वज्ञ होजाने चाहिये। क्योंकि; जिस सामान्य धर्मका अवलोकन होना माना जायगा वह सामान्य सभी चराचर त्रिलोक तथा त्रिकालवर्ती पदार्थोंमें विद्यमान रहनेवाला है। जो क्षण क्षणमें नष्ट माने जाते हैं ऐसे परमाणुरूप सर्वथा विशेष पदार्थ भी प्रमाणसे निश्चित नहीं होते। क्योंकि, यदि ऐसे पदार्थ भी प्रमाणगोचर होते तो उनमें जीवोंकी प्रवृत्ति भी उसके अनुकूल ही दीखती, परंतु ऐसे पदार्थोंको विषय करनेवाली लोकोंकी प्रवृत्ति नहीं दीखती है इसलिये ऐसे पदार्थ है ही नहीं जिनका कि क्षण क्षणमें विध्वंस होता रहता हो।

अवस्तुत्वाच्च तेषां किं तद्गोचरपर्यालोचनेन। तथा हि। पूर्वोत्तरकालभाविनो द्रव्यविवर्त्ताः क्षणक्षयिपरमाणु-लक्षणा वा विशेषा न कथंचन लोकव्यवहारमुपरचयन्ति। तन्न ते वस्तुरूपा लोकव्यवहारोपयोगिनामेव वस्तु-त्वात्। अत एव पन्था गच्छति, कुण्डिका स्रवति, गिरिर्दहते, मन्थाः क्रोशन्तीत्यादिव्यवहाराणां प्रामाण्यम्। तथा च वाचकमुख्यः “ लौकिकसम उपचारप्रायो विस्तृतार्थो व्यवहारः ” इति।

इसलिये लोगोको यही निर्वाध प्रतीति होरही है कि जो वस्तु कुछ समयतक ठहरनेवाली स्थूल पर्याय धार रही हों तथा जिनके द्वारा जल लाने आदिक कर्म होसकते हो वे ही यथार्थमें पदार्थ है। पूर्वोत्तर पर्यायोंकी करुपना करके उनमें सदा रहनेवाला कोई एक शाश्वता पदार्थ मानना निस्सार है। क्योंकि; ऐसा माननेमें कोई भी प्रमाण काम नहीं देता है। और जिसमें प्रमाण प्रवेश नहीं कर सकता है उसका सिद्ध होना कठिन है। तथा ऐसा कोई एक अनाद्यनिधन पदार्थ ही नहीं है जिसमें नाना प्रकारके दृष्टिगोचर पर्याय होते हुए अनुभवमें आते हों। क्योंकि; विचार करनेपर ऐसा कोई भी पदार्थ सिद्ध नहीं होता। पूर्वोत्तर कालमें

होनेवाले पर्यायोंका आश्रयभूत ऐसा कोई एक एक पदार्थ अथवा क्षणक्षणमें नष्ट होनेवाले परमाणुस्वरूप-विशेष पदार्थ किसी भी लौकिक उपयोगमें नहीं आते हैं इसलिये वे यथार्थमें सत्यार्थ पदार्थ ही नहीं है। क्योंकि; सच्चे पदार्थ वे ही है जो लौकिक प्रयोजनमें आ सकते है। इसीलिये मार्ग चलता है; कुंडी बहती है, पर्वत जल रहा है, पलंग चिछाते है इत्यादि लौकिक व्यवहार प्रमाणभूत माने जाते है। ग्रन्थकर्ताओंके शिरोमणि तत्त्वार्थाधिगमभाष्यके कर्ताने भी ऐसा ही कहा है “जो लौकिक व्यवहारके अनुसार हो, जिसका शरण उपचार हो तथा जिसका लौकिक प्रयोजन अधिक हो वह व्यवहार नय है”।

ऋजुसूत्रः पुनरिदं मन्यते। वर्तमानक्षणविवर्त्येव वस्तुरूपं; नादतीतमनागतं च। अतीतस्य विनष्टत्वादानागतस्याऽलब्धत्वात्सकलशक्तिविरहरूपत्वान्नाथार्थक्रियानिर्वर्तनक्षमत्वम्। तदभावाच्च न वस्तुत्वं; यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थसदिति वचनात्। वर्तमानक्षणालिङ्गितं पुनर्वस्तुरूपं समस्तार्थक्रियासु व्याप्रियत इति तदेव पारमार्थिकम्। तदपि च निरंशमभ्युपगन्तव्यम्; अंशव्याप्यतेर्युक्तिरिक्तत्वात्; एकस्याऽनेकस्वभावतामन्तरेणाऽनेकस्वावयवव्यापनाऽयोगात्। अनेकस्वभावतैवाऽस्त्विति चेन्न विरोधव्याघ्राघ्रातत्वात्। तथा हि।

चौथा ऋजुसूत्र नय मानता है कि न तो अतीत ही वस्तुका स्वरूप है और न आगामी ही, किंतु जो शुद्ध वर्तमान समयमें विद्यमान है वही वस्तुका स्वरूप है। जो बीत चुका है वह तो विनष्ट हो चुकनेसे तथा जो आगामी है वह अभी पैदा ही नहीं हुआ है इससे ये दोनो प्रकारके पर्याय सर्वथा गधेके सींगेके ही समान है। इसलिये संपूर्ण सामर्थ्यरहित होनेसे इनके द्वारा किसी भी प्रयोजनकारी क्रियाकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। यदि इससे प्रयोजनकारी क्रिया ही नहीं हो सकती है तो यह वस्तु कैसा ? ऐसा कहा भी है कि “जो अर्थक्रियाकारी होता है उसीको यथार्थमें वस्तु कहना चाहिये”। और जो वस्तु वर्तमान क्षणमें विद्यमान होता है वही संपूर्ण प्रयोजनीभूत क्रियाओंको करता है इसलिये उसीको यथार्थ वस्तु कहना उचित है। वर्तमानकालीन भी जो निरंश हो वही वस्तु कहा जा सकता है। क्योंकि; अनेक अंशविशिष्ट किसी एक वस्तुको माननेमें कोई प्रमाण ही नहीं है। यदि एक ही वस्तु अपने अनेक अवयवोंमें व्याप्त होती हुई मानी जाय तो वह अनेक प्रकारके स्वभाव धारण किये विना नहीं व्याप्त हो सकती है और एक ही वस्तुमें अनेक स्वभावोंका होना असंभव है। और यह कहना भी ठीक

नहीं है कि एक वस्तुमें अनेक स्वभाव यदि रहै तो क्या हानि है ? । क्योंकि; एक ही वस्तुमें यदि अनेक स्वभावोंकी सत्ता मानी जायगी तो उस वस्तुको विरोधरूपी व्याघ्र सूंघने लगैषा । उस विरोधको आगे दिखाते है ।

यद्येकः स्वभावः कथमनेकोऽनेकश्चेत्कथमेकः? एकाऽनेकयोः परस्परपरिहारेणाऽवस्थानात् । तस्मात्स्वरूपनि-
मग्नाः परमाणव एव परस्परोपसर्पणद्वारेण कथंचिन्नित्यरूपतामापन्ना निखिलकार्येषु व्यापारभाजः । इति त एव
स्वलक्षणं, न स्थूलतां धारयत् पारमार्थिकमिति । एवमस्याभिप्रायेण यदेव स्वकीयं तदेव वस्तु, न परकीयम्;
अनुपयोगित्वादिति ।

अनेक स्वभाव एक ही वस्तुमें माननेसे विरोध आने लगता है । क्योंकि; जितने स्वभाव होते है वे एक दूसरेसे विरुद्ध होते है । यदि विरुद्धस्वभाववाले न हों तो उन स्वभावोंमें अनेकपना ही कैसा ? और जो परस्पर विरुद्ध स्वभाववाले होते है वे एक स्थानमें किसी प्रकार नहीं रह सकते हैं । तथा यदि एक ही स्वभाव है तो अनेक स्वभाव कैसे ? और यदि अनेक स्वभाव है तो उनको एक कैसे कह सकते है? क्योंकि; एकपना तथा अनेकपना ये दोनों धर्म परस्परमें विरोधी होनेसे एक स्थानमें नहीं रह सकते है; किंतु एक स्थानमें एक ही रहैगा । इसलिये अपने अपने स्वरूपमें निमग्न ऐसे परमाणु ही परस्परमें एक दूसरेके साथ निमित्त पाकर इकट्ठे होते हुए संपूर्ण कार्यको करते है और इसलिये वे शुद्ध परमाणु ही यथार्थ वस्तु है; न कि जो स्थूल रूपको धारण करते है ऐसे कोई स्थूल पदार्थ परमार्थ वस्तु हों । इस प्रकार जब इस नयकी अपेक्षा देखते है तो जितना शुद्ध एक एक निज वस्तु है वही केवल सच्ची वस्तु है और जो पररूप है अथवा जो अनेक परमाणुओंके समूहसे उत्पन्न हुई दीखती है वह कोई सच्ची वस्तु नहीं है । क्योंकि, ऐसी वस्तुका कुछ उपयोग नहीं हो सकता है । सच्चा उपयोग परमाणुओंसे ही हो सकता है ।

शब्दस्तु-रूढितो यावन्तो ध्वनयः कस्मिंश्चिदर्थं प्रवर्तन्ते; यथेन्द्रशक्रपुरन्दरादयः सुरपत्नौ तेषां सर्व्वेषामप्येक-
सर्थमभिप्रैति किल । प्रतीतिवशाद्यथा शब्दाऽव्यतिरेकोऽर्थस्य प्रतिपाद्यते तथैव तस्यैकत्वमनेकत्वं वा प्रतिपादनी-
यम् । न चेन्द्रशक्रपुरन्दरादयः पर्यायशब्दा विभिन्नार्थवाचितया कदाचन प्रतीयन्ते; तेभ्यः सर्व्वदैकाकारपरामर्शो-

१ ' सुरपत्नौ ' इति पात्रो नास्त्येव खण्डके ।

त्पत्तेरखलितवृत्तितथा तथैव व्यवहारदर्शनात् । तस्मादेक एव पर्यायशब्दानामर्थ इति; शब्दते आहूयतेऽनेना-
ऽभिप्रायेणार्थ इति निरुक्तादेकार्थप्रतिपादनाभिप्रायेणैव पर्यायध्वनीनां प्रयोगात् ।

पांचवें शब्दनयकी प्रधानता होनेपर जितने कुछ शब्द रूढिके वशसे किसी एक पदार्थमें लगसकते है उन संपूर्ण शब्दोंका वाच्य अर्थ एक ही समझा जाता है । जैसे इंद्र, शक्र-पुरंदरादिक शब्द एक इन्द्रनामक देवोंके राजांमें लगसकते है इसलिये इन संपूर्ण शब्दोंका अर्थ एक देवराज ही मानना सो शब्दनय है । जिस प्रकार वाचक शब्दसे पदार्थको अभिन्न मानते है । क्योंकि, प्रतीति ऐसा ही स्वीकार करती है । उसी प्रकार प्रतीतिगोचर होनेके कारण उन संपूर्ण शब्दोंके अर्थको भी एक मानसकते है । इन्द्र, शक्र, पुरंदर आदिक जो पर्यायवाची शब्द होते है उनके अर्थ जुदे जुदे प्रतीत नहीं होते । क्योंकि; उनमेंसे किसी भी एक शब्दके बोलनेसे उसी एक पदार्थकी प्रतीति होती है तथा लाना लेजाना आदिक क्रिया भी उसी एक की होती दीखती है । इसलिये जितने पर्यायवाची शब्द होते है उन सर्वोंका वाच्य अर्थ एक ही होना चाहिये । 'शब्द' धातुका अर्थ बोलना है । जिस अभिप्रायसे अर्थ कहाजाता है उसको शब्द कहते है ऐसा शब्दनयका अर्थ करनेसे यह समझ सकते हैं कि जितने पर्यायवाची शब्द होते है वे सब एक ही अभिप्रायकी मुख्यतासे बोले जाते है इसी लिये उन सब शब्दोंका अर्थ एक ही समझना चाहिये ।

यथा चायं पर्यायशब्दानामेकमर्थमभिप्रैति तथा तदस्तटी विरुद्धलिङ्गलक्षणधर्माभिसंबन्धाद्धस्तुनो भेदं चाभिधत्ते । न हि विरुद्धधर्मकृतं भेदमनुभवतो वस्तुनो विरुद्धधर्माऽयोगो युक्तः । एवं संख्याकालकार-
कपुरुषादिभेदादपि भेदोऽभ्युपगन्तव्यः । तत्र संख्या एकत्वादिः । कालोऽतीतादिः । कारकं कर्त्रादि । पुरुषः
प्रथमपुरुषादिः ।

शब्द नय जिस प्रकार पर्यायवाची अनेक शब्दोंका अर्थ एक समझाता है उसीप्रकार विरुद्ध लिङ्गवाले शब्दोंके वाच्य अर्थको लिङ्गभेदके कारण भिन्न भिन्न भी प्रतीत कराता है । जैसे पुलिङ्ग तट शब्दका अर्थ कुछ अन्य है तथा स्त्रीलिङ्गवाले तटी शब्दका अर्थ कुछ जुदा है और नपुंसकलिङ्गवाले तट शब्दका कुछ और ही है । जिस वस्तुमें विरुद्ध धर्मके कारण भेदका अनुभव होता हो वह विरुद्धधर्मवाला नहीं है ऐसा कहना असगत है । क्योंकि; यथार्थमें यदि उस वस्तुमें एक दूसरी वस्तुकी अपेक्षा विरुद्ध धर्म नहीं रहता हो तो उन दोनोंमें भेद दृष्टिगत क्यों हो ? । जिस प्रकार एक ही शब्दमें लिङ्गका भेद होनेसे उसके अर्थमें भेद

माना जाता है उसीप्रकार संख्या, काल, कारककी तथा पुरुषादिकी अपेक्षा शब्दोंमें भेद होनेसे भी अर्थमें भेद मानाजाता है । संख्या तो एकवचनादि । जैसे पुरुष (एक) है, पुरुष (दो अथवा बहुत) है । कालका भेद अतीतकालादि—जैसे वह है, वह था, वह होगा । कारक कर्ता कर्म करणादि । जैसे 'वह भागता है' इस वाक्यमें तो 'वह' शब्द कर्ताकारक है और 'उसको खाता है' यहांपर 'उसको' शब्द कर्मकारक है । पुरुष—प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष । जैसे 'वह है' यहांपर प्रथम पुरुष है; 'तू है' यहांपर मध्यम पुरुष है तथा 'मैं हूँ' यहांपर पुरुष उत्तम है । इसी प्रकार सर्वत्र लिङ्गादिके भेदसे शब्दोंके अर्थमें परस्पर भेद मानाजाता है ।

समभिरूढस्तु पर्यायशब्दानां प्रविभक्तमेवार्थमभिमन्यते । तद्यथा । इन्दुनादिन्द्रः । परमैश्वर्यमिन्द्रशब्दवाच्यं परमार्थतत्सद्बल्यर्थे । अतद्धृति पुनरुपचारतो वर्तते । न वा कश्चित् तद्भान्; सर्वशब्दानां परस्परविभक्तार्थप्रतिपादितया आश्रयाश्रयिभावेन प्रवृत्त्यसिद्धेः ।

छद्वा समभिरूढ नय पर्यायवाची शब्दोंके अर्थको परस्पर भिन्न भिन्न मानता है । इन्द्रशब्दका यथार्थ अर्थ परम ऐश्वर्य होता है । इसलिये जिसमें परम ऐश्वर्य संभव हो उसीको इंद्र मानना समभिरूढ नयका कर्तव्य है । क्योंकि; इन्द्रशब्दका वाच्य अर्थ जो परम ऐश्वर्य है वह यथार्थमें उसीमें मिलसकता है जिसमें परम ऐश्वर्य सचमुच हो । जिसमें परम ऐश्वर्य नहीं है उसको इंद्र कहना उपचारमात्र है । सचमुचमें देखा जाय तो जिसमें परम ऐश्वर्य नहीं है उसको इंद्र कहना ही नहीं चाहिये । यथार्थमें वह परम ऐश्वर्यवाला है ही नहीं । सो भी क्योंकि; जितने शब्द है वे सत्र अलग अलग अर्थको कहनेवाले होनेसे जिसमें किसी शब्दका वाच्य अर्थ संभव न हो उसमें उस वाच्य अर्थका आश्रयपना होनेमात्रसे ही उस शब्दकी प्रवृत्ति नहीं होसकती है । भावार्थ—जब समभिरूढ नयकी अपेक्षा की जाती है तब किसी शब्दकी कहींपर भी इतनेमात्रसे प्रवृत्ति नहीं हो जाती कि अमुक पदार्थमें यद्यपि उस शब्दका वाच्यरूप धर्म तो नहीं है परतु इसमें स्थापना आदिकसे आरोपित होस ता है इसलिये उस धर्मका आश्रय होनेसे उस शब्दका वाच्य अमुक होसकता है । किंतु समभिरूढ नयकी अपेक्षा किसी भी शब्दकी तभी प्रवृत्ति होती है जब उस शब्दका वाच्यरूप धर्म उस पदार्थमें सचमुच विद्यमान हो ।

एवं शकनाच्छक्रः, पूर्यारणात्पुरन्दर इत्यादिभिन्नार्थत्वं सर्वशब्दानां दर्शयति प्रमाणयति च । पर्यायशब्दा

अपि भिन्नार्थाः प्रविभक्तव्युत्पत्तिनिमित्तकत्वात् । इह ये ये प्रविभक्तव्युत्पत्तिनिमित्तकास्ते ते भिन्नार्थाः । यथेन्द्र-
पशुपुरुषशब्दाः । विभिन्नव्युत्पत्तिनिमित्तकाश्च पर्यायशब्दा अपि । अतो भिन्नार्था इति ।

जिस प्रकार इन्द्रशब्द जहाँपर अपना वाच्य अर्थ हो वहाँपर ही प्रवृत्त होता है उसी प्रकार शक्रशब्द तथा पुरंदरादि शब्द भी जिसमें स्वार्थ दीखता हो उसीमें प्रवृत्त हो सकते हैं । शक्रशब्दका अर्थ सामर्थ्यसहित होना है । पुरोंको जो दारण अर्थात् विदारण करता हो उसको पुरंदर कहते हैं । इसी प्रकार और भी जिस जिसके जितने पर्यायवाचक शब्द होते हैं वे सब समभिरूढ नयकी अपेक्षा परस्पर भिन्न अर्थोंको ही दिखाते हैं तथा भिन्न भिन्न ही निश्चय करते हैं । क्योंकि; जितने शब्द है उन सर्वोंकी व्युत्पत्ति अर्थात् शब्द साधनेकी प्रक्रिया सर्वथा भिन्न भिन्न है । जिनके बनानेकी शैली परस्पर भिन्न होती है वे परस्पर भिन्न ही देखे जाते हैं । जैसे इन्द्र, पशु पुरुष, आदिक शब्द जुदी जुदी प्रकृति प्रत्यय आदि सामग्रीसे बनते हैं इसलिये इनके अर्थ सर्वथा जुदे जुदे ही दीखते हैं । सो जैसे इन्द्र, पशु, पुरुषादि शब्द परस्पर भिन्न प्रक्रियासे बनते हैं उसीप्रकार पर्याय-वाची शब्द भी भिन्न प्रकृति मत्स्यादिकोंसे बनते हैं इसलिये पर्यायवाची शब्दोंके अर्थ भी परस्पर भिन्न ही होने चाहिये ।

एवंभूतः पुनरेवं भापते । यस्मिन्नर्थे शब्दो व्युत्पाद्यते स व्युत्पत्तिनिमित्तमर्थो यदैव भवतीते तदैव तं शब्दं प्रवर्तमानमभिप्रैति, न सामान्येन । यथोदकाद्याहरणवेलायां योपिदादिमस्तकारूढो विशिष्टचेष्टावानेव घटोभि-
धीयते, न शेषो; घटशब्दव्युत्पत्तिनिमित्तशून्यत्वात् पदादिवदिति । अतीतां भाविनीं वा चेष्टामङ्गीकृत्य सामान्ये-
नैवोच्यत इति चेन्न; तयोर्विनेष्टानुत्पन्नतया शशविपाणकल्पत्वात् ।

एवंभूत नय ऐसा कहता है कि जितने अर्थकी वाचकता लेकर जो शब्द व्याकरण द्वारा बनाया जाता है उतना अर्थ जब प्रकट होता हुआ दीखता हो तभी उस शब्दका प्रयोग करना उचित है; जबतक उस अर्थकी उत्पत्ति नहीं हुई हो तबतक उस शब्दकी किसी स्थानमें प्रवृत्ति करना उचित नहीं है । जैसे जिस समय घड़ा जलसे भरा हुआ किसीके मस्तकपर रखवा हुआ आता दीखे तभी उसको घड़ा कहना एवंभूत नयकी अपेक्षासे सत्य है । किंतु जो घड़ा जब ऐसी अवस्थामें नहीं है तब उसको घड़ा कहना एवंभूतकी अपेक्षा उचित नहीं है । क्योंकि; घड़ाशब्द व्याकरणद्वारा इसी अर्थमें बनाया जाता है । इसीप्रकार पदादि शब्द भी तभी रूप्योगमें लाने चाहिये जब उनका वाच्य अर्थ प्रकट होरहा हो । जो पदार्थ किसी पर्यायरूप परिणत होचुका हो

अथवा होनेवाला हो उसकी भूत या भावी चेष्टा वर्तमानमें गंधेके सीगसमान असत् रूप है अर्थात् वर्तमानमें कुछ है ही नहीं । इसलिये ऐसी भूत या भावी पर्यायोंकी चेष्टाका बहाना लेकर किसी पदार्थमें उस भूत भावी पर्यायके वाचक शब्दका प्रयोग करना सर्वथा अनुचित जान पड़ता है ।

तथापि तद्वारेण शब्दप्रवर्तने सर्वत्र प्रवर्तयितव्यो विशेषाऽभावात् । किं च यद्यतीतवत्स्यच्चेष्टापेक्षया घटशब्दोऽचेष्टावत्यपि प्रयुज्येत, कपालमृत्पिण्डादावपि तत्प्रवर्तनं दुर्निवारं स्याद्विशेषाऽभावात् । तसाद्यत्र क्षणे व्युत्पत्तिनिमित्तमविकलमस्ति तस्मिन्नेव सोऽर्थस्तच्छब्दवाच्य इति ।

यदि वर्तमानमें किसी शब्दके वाच्यरूप पर्यायका अभाव रहनेपर भी केवल भूत भावी पर्यायोंकी कल्पनाकर उस पर्यायरूप मानकर वह उस शब्दका वाच्य मानना ठीक हो तो सभी शब्दोंका प्रयोग सभी पदार्थोंमें करना चाहिये । क्योंकि, प्रत्येक सभी पुद्गल कभी न कभी विवक्षित पर्यायरूप होगया ही होगा; नही तो, आगे होजायगा । और यदि अतीत अनागत चेष्टाओंकी अपेक्षा लेकर भी वर्तमानमें घड़ेकी चेष्टा न होनेपर भी घड़ेमें घड़ाशब्दका प्रयोग होसकता हो तो जबतक घडा बना ही नहीं है तबतक कपाल मट्टी आदि अवस्थाओंमें भी घड़ाशब्द क्यों नहीं बोलाजाता ? क्योंकि; भूत भावी घटचेष्टाकी अपेक्षा जैसी कपाल मट्टी आदिकोंकी अवस्था है तैसी ही जब घडा अपनेरूप चेष्टा नहीं कर रहा हो तबकी अवस्था है । इसलिये जिस समय किसी शब्दकी व्युत्पत्तिका निमित्तकारण परिपूर्ण विद्यमान मिलता हो उसी समय उस शब्दका उपयोग करना उचित है ।

अत्र संग्रहश्लोकाः । अन्यदेव हि सामान्यमभिन्नज्ञानकारणम् । विशेषोऽप्यन्य एवेति मन्यते नैगमो नयः । १ । सद्रूपताऽनतिक्रान्तं स्वस्वभावमिदं जगत् । सत्त्वरूपतया सर्वं संगृह्यन् संग्रहो मतः । २ । व्यवहारस्तु तामेव प्रतिवस्तु व्यवस्थितिम् । तथैव ह्यन्यमानत्वाद्वाप्यारयति देहिनः । ३ । तत्रजुसूत्रनीतिः स्याच्छुद्धपर्यायसंश्रिता । नश्वरस्यैव भावस्य भावात् स्थितिवियोगतः । ४ । विरोधिलिङ्गसंख्यादिभेदाद्भिन्नस्वभावताम् । तस्यैव मन्यमानोऽयं शब्दः प्रत्यवतिष्ठते । ५ । तथाविधस्य तस्यापि वस्तुनः क्षणवर्तिनः । ब्रूते समभिरूढस्तु संज्ञाभेदेन भिन्नताम् । ६ । एकस्यापि ध्वनेर्वाच्यं सदा तन्नोपपद्यते । क्रियाभेदेन भिन्नत्वादेवंभूतोऽभिमन्यते । ७ ।

अब इन नयोंके विषयमें संग्रह किये हुए श्लोकोंका अर्थ लिखते हैं। अमेदभावका ज्ञान करानेवाला सामान्य धर्म तो अन्य है तथा विशेषरूप धर्म कुछ जुदा ही है ऐसा ज्ञान नैगमनयके द्वारा होता है। १। सत्त्व धर्मको नहीं छोड़ता हुआ यह जगत् अपने अपने भावोरूप प्रवर्तता है इसलिये सत्त्व धर्मकी अपेक्षा मुख्यकर संग्रह नय सभी जगत्को एकरूप ग्रहण करता है ऐसा माना गया है। २। व्यवहारनय उसी सत्ताको प्रत्येक वस्तुमें भिन्न भिन्नरूपसे मनाता हुआ जीवोंको व्यवहार कराता है। क्योंकि, व्यवहार दृष्टिसे सभी वस्तु जुदी जुदी ही दीखती हैं। ३। ऋजुसूत्र नय व्यवहार नयके विषयमेंसे भी जो शुद्ध वर्तमान कालवर्ती होता है उसीका आश्रय लेता है। क्योंकि, प्रत्येक पदार्थ अपनी स्थिति पूरी करके नष्ट होता हुआ ही दीखता है इसलिये संपूर्ण पदार्थ नश्वर स्वभाववाले ही है। भावार्थ-स्थिति पूर्ण करके सभी नष्ट होते हैं। इसलिये जिस किसीकी जितने कालकी स्थिति है उतने कालतक ही उस वस्तुको उसरूप मानना चाहिये। ४। परस्पर विरोधी लिङ्ग संख्या आदिकोंका भेद होनेसे वस्तु भी भिन्न भिन्न स्वभावको धारण करती है ऐसा माननेवाला शब्द नय है। ५। इस प्रकारके तथा क्षणस्थायी वस्तुको फिर भी संज्ञाओंके भेदसे भिन्न भिन्न माननेवाला समभिरूढ नय है। ६। वस्तु एक ही शब्दका वाच्य सदा नहीं बना रहता है। क्योंकि, वस्तुमें जैसी जैसी क्रिया बदलती है तैसी तैसी ही वस्तुकी अवस्था भी बदलती जाती है ऐसा एवंभूत नय मानता है। ७।

एत एव च परामर्शा अभिप्रेतधर्मावधारणात्मकतया शेषधर्मतिरस्कारेण प्रवर्तमाना दुर्नयसंज्ञामश्रुवते। तद्व्युत्पत्तिस्तत्ताका हि खल्वेते परप्रवादाः। तथा हि। नैगमनयदर्शनानुसारिणौ नैयायिकवैशेषिकौ। संग्रहाभिप्रायप्रवृत्ताः सर्वेऽव्यङ्गैतवादाः सांख्यदर्शनं च। व्यवहारनयानुपाति प्रायश्चार्वाकदर्शनम्। ऋजुसूत्राकृतप्रवृत्तबुद्ध्यस्ताथागताः। शब्दादिनयावलम्बिनो वैयाकरणादयः।

ये सम्यक् नयोंकर दिखाये हुए अभिप्राय ही विवक्षित धर्मोंके निश्चयरूप होकर जत्र बाकीके अविवक्षित धर्मोंका तिरस्कार करते हुए प्रवर्तते हैं तब दुर्नय नाम पाते हैं। परवादी लोगोंकी उत्पत्ति भी इन्हीं दुर्नयरूप अभिप्रायोंकी मुख्यता धारण करनेसे हुई है। नैयायिक तथा वैशेषिक दर्शनवाले तो खोटे नैगम नयके पक्षपाती हैं। संपूर्ण अद्वैतवादी तथा सांख्यमती संग्रहनयकी प्रधानता पकड़नेसे प्रवृत्त हुए हैं। व्यवहारनयका पक्षपाती प्रायः चार्वाकदर्शनवाला है। बौद्धलोगोंने ऋजुसूत्रनयका ही केवल अवलंबन ले रक्खा है। शब्द, समभिरूढ तथा एवंभूत नयोंको सर्वथा माननेवाले वैयाकरणी आदिक हैं।

उक्तं च सोदाहरणं नयदुर्नयस्वरूपं श्रीदेवसूरिपादैः । तथा च तद्वन्थः “नीयते येन श्रुताख्यप्रमाणविषयी-
कृतस्यार्थस्यांशस्तदितरांशौदासीन्यतः स प्रतिपचुरभिप्रायविशेषो नयः” इति । स्वाभिप्रेतादंशादितरांशापलापी
पुनर्नयाभासः । स व्याससमासाभ्यां द्विप्रकारः । व्यासतोऽनेकविकल्पः । समासतस्तु द्विभेदो; द्रव्यार्थिकः पर्या-
यार्थिकश्च । आद्यो नैगमसंग्रहव्यवहारभेदात् त्रेधा । धर्मयोर्धर्मिणोर्धर्मधर्मिणोश्च प्रधानोपसर्जनभावेन यद्विवक्षणं
स नैकगमो नैगमः । सच्चैतन्यमात्मनीति धर्मयोः । वस्तुपर्यायवद्द्रव्यमिति धर्मिणोः । क्षणमेकं सुखी विषयासक्त-
जीव इति धर्मधर्मिणोः । धर्मद्वयादीनामैकान्तिकपार्थक्याभिसंधिर्नैगमाभासः । यथात्मनि सत्त्वचैतन्ये परस्पर-
मत्यन्तपृथग्भूते ।

उदाहरण सहित सम्यक् नय तथा दुर्नयोंका सरूप श्रीदेवसूरि महाराजने भी कहा है । उनके ग्रन्थमें इस प्रकार कहा है कि—जो श्रुत
प्रमाणके विषयभूत हुए पदार्थके एक अंशका ग्रहण करै तथा बाकीके सभी अंशोंमें उदासीन रहै ऐसे वस्तुके एक प्रकारके अभिप्राय
को नय कहते है । विवक्षित अशको ग्रहणकर वाक्रीके अशोंका सर्वथा निषेध करनेवालेको नयाभास कहते है । वह नय विस्तार
सक्षेपके भेदोंकी अपेक्षा दो प्रकारका है । विस्तारकी अपेक्षा तो अनेक भेद होते है परंतु संक्षेपसे देखा जाय तो मूल भेद दो है,
पहिला द्रव्यार्थिक दूसरा पर्यायार्थिक । द्रव्यार्थिकके नैगम, संग्रह, व्यवहार ये तीन भेद है । दो धर्मोंमें अथवा दो धर्मियोंमें या
एक धर्म एक धर्मोंमें प्रधानताकी अपेक्षा करनेको नैगम अथवा नैकगम कहते हैं । सत्त्व और चैतन्यये दोनों धर्म आत्सामें है ऐसे
विचारमें तो दो धर्मोंकी प्रधानता है । तथा वस्तु और पर्याय जिसमें हों वह द्रव्य है ऐसे वचनमें दो धर्मियोंकी मुख्यता है ।
क्योंकि, वस्तु भी धर्म है तथा पर्याय भी एक प्रकारका धर्म ही है ।-विषयासक्त जीव क्षणमात्रकेलिये सुखी होजाता है इस
वाक्यमें जीव तो धर्म है तथा सुखीपना धर्म ये दोनों प्रधान है । दो धर्मोंमें, धर्मधर्मियोंमें अथवा दो धर्मियोंमें जो सर्वथा भेदभाव
दिखावै उसको नैगमाभास अथवा खोटा नैगमनय कहते है । जैसे आत्मासे सत्त्व धर्म तथा चैतन्य धर्म सर्वथा भिन्न है ।

सामान्यमात्रग्राही परामर्शः संग्रहः । अयमुभयविकल्पः, परोऽपरश्च । अशेषविशेषेष्वौदासीन्यं भजमा-
नः शुद्धद्रव्यं सन्मात्रमभिमन्यमानः परः संग्रहः । विश्वमेकं सदविशेषादिति यथा । सत्ताड्डैतं स्वीकुर्वाणः सक-
लविशेषान्निराचक्षणस्तदाभासः । यथा सत्त्व तत्त्वं ततः पृथग्भूतानां विशेषणामदर्शनात् । द्रव्यत्वादीन्यवान्तर-

सामान्यानि मन्वानस्तद्भेदेषु गजनिमीलिकामवलम्बमानः पुनरपरसंग्रहः । धर्माधर्माकाशकालपुद्गलद्रव्याणामैक्यं
द्रव्यत्वाऽभेदादित्यादिर्यथा । तद्रव्यत्वादिकं प्रतिजानानस्तद्विशेषान्निहुवानस्तदाभासः । यथा द्रव्यत्वमेव तत्त्वं
ततोऽर्थान्तरभूतानां द्रव्याणामनुपलब्धेः ।

केवल सामान्य धर्मका ग्रहण करानेवाला संग्रह नय है । इसके दो भेद है; एक महासंग्रह दूसरा अवान्तर संग्रह । संपूर्ण
विशेष धर्मोपर उदासीन होकर लक्ष्य न देता हुआ केवल सत्स्वरूप शुद्ध द्रव्यको जो सच्चा मानता हो उस नयको महासंग्रह कहते
है । जैसे सामान्य सत्त्व धर्मकी अपेक्षा संपूर्ण विश्व एक है । सत्तासामान्यको केवल स्वीकार करनेवाला तथा वाक्यके अन्य
धर्मोका निषेध करनेवाला जो एक सत्तासामान्यरूप विचार है वह महासंग्रहाभास है । जैसे सत्ता ही केवल सच्चा तत्त्व या पदार्थ
है । क्योंकि; सत्ताके सिवाय जो विशेष धर्म मानेजाय उन धर्मोका कुछ भी अवलोकन नहीं होता है । द्रव्यत्वादि अवान्तर सामान्य
धर्मोको मनानेवाला तथा उन सामान्य धर्मोके साथ रहनेवाले विशेष विशेष धर्मोकी तरफ हस्तिकी दृष्टिके समान नहीं देखनेवाला
अवान्तरसंग्रह या अपरसंग्रह कहाता है । जैसे द्रव्यत्व धर्मकी अपेक्षा धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गलादि सभी द्रव्य एक है ।
केवल द्रव्यत्वादि सामान्य धर्मोको स्वीकार करता हुआ जो उन सामान्य धर्मोके साथके विशेष विशेष धर्मोको निषेधता हो वह
अपरसंग्रहाभास है । जैसे द्रव्यत्व ही सच्चा तत्त्व है । क्योंकि; द्रव्यत्वसे भिन्न द्रव्यका कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता ।

संग्रहेण गोचरीकृतानामर्थानां विधिपूर्वमवहरणं येनाऽभिसन्धिना क्रियते स व्यवहारः । यथा यत्सत्तद्द्रव्यं
पर्यायो वेत्यादिः । यः पुनरपरमार्थिकं द्रव्यपर्यायप्रविभागमभिप्रैति स व्यवहाराभासः । यथा चार्वाकदर्शनम् ।

संग्रहनयके द्वारा जो एकरूप माने जाते हैं उनमें जो विचार ऐसा स्वीकार कराता हो कि व्यवहारके अनुकूल यह जुदा जुदा
है उसको व्यवहारनय कहते हैं । जैसे जो संग्रहकी अपेक्षा एक स्वरूप कहा है वह द्रव्य है या पर्याय ? यह नय और भी
इसी प्रकारके भेदोंको ठीक मानता है । जो द्रव्यपर्यायादिकोंमें झूठा भेद मानता है वह व्यवहारनय भास समझा जाता है ।
जैसे चार्वाकका मत । इस प्रकार द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक ऐसे दो भेदोंमेंसे द्रव्यार्थिकके जो तीन भेद किये थे उनका तथा
उनसे उलटे मिथ्या नयोंका तो उदाहरणसहित वर्णन हुआ, अब पर्यायार्थिक नयके भेद कहते हैं ।

पर्यायार्थिकश्चतुर्द्धी । ऋजुसूत्रः शब्दः समभिरूढ एवंभूतश्च । ऋजु वर्तमानक्षणस्थायि पर्यायमात्रं प्राधान्यतः सूत्रयन्त्रभिप्राय ऋजुसूत्रः । यथा सुखनिवर्तः सम्प्रत्यस्तीत्यादिः । सर्वथा द्रव्याऽपलापी पुनस्तदाभासः । यथा ताथागतमतम् । कालादिभेदेन ध्वनेरर्थभेदं प्रतिपद्यमानः शब्दः । यथा वभूव भवति भविष्यति सुमेरुरित्यादिः । तद्भेदेन तस्य तमेव समर्थयमानस्तदाभासः । यथा वभूव भवति भविष्यति सुमेरुरित्यादयो भिन्नकालाः शब्दा भिन्नमेवार्थमभिदधति भिन्नकालशब्दत्वात्तादृक्सिद्धाऽन्यशब्दवदित्यादिः ।

पर्यायार्थिक नयके भेद चार है; ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ, एवंभूत । ऋजु अर्थात् केल वर्तमान क्षणवर्ती पर्यायको जो प्रधानतासे ग्रहण करता हो उस अभिप्रायको ऋजुसूत्र कहते है । जैसे सुखीपना इस समय है । अर्थात् इस समय सुखी है, इस समय दुःखी है इत्यादि वर्तमान पर्यायरूप जैसा हो तैसा कहनेका नाम ऋजुसूत्र है । जो सर्वथा अनादिनिधन द्रव्यका निषेध कर केवल पर्यायोंको ही अपने अपने समयमें सच्चा मानता है वह ऋजुसूत्रभास है । जैसे बौद्धोंका मत । कालादिके, भेदोंसे जो शब्दोंमें भेद पड़ता है उसके द्वारा जो वाच्य वस्तुको भी भिन्न भिन्न मानता है वह शब्दनय है । जैसे सुमेरु यद्यपि त्रिकालवर्ती है परंतु 'सुमेरु' या इस वाक्यका अर्थ तो परोक्ष भूतकालके आश्रयसे कुछ जुदा ही है; तथा 'सुमेरु' इस वाक्यका अर्थ जुदा ही है; एवं 'सुमेरु है' इस वाक्यका अर्थ कुछ और ही है । इस शब्दभेदका आश्रय लेकर जो वस्तुको सर्वथा जुदा ही मानता है वह शब्दनयाभास है । जैसे 'सुमेरु है, सुमेरु था, सुमेरु होगा' इत्यादि जुदे जुदे कालवाची शब्दोंका अर्थ सर्वथा जुदा जुदा ही होता है । क्योंकि, और भी ऐसे बहुतसे शब्द हैं जो भिन्नकालोंके कारण अर्थमें भेद डालते है इसलिये कालभेदके कारण अर्थमें भेद होना ही चाहिये ।

पर्यायशब्देषु निरुक्तिभेदेन भिन्नमर्थं समभिरोहन् समभिरूढः । इन्दनादिन्द्रः, शकनाच्छक्रः पूर्दारणात् पुरन्दर इत्यादिपु यथा । पर्यायध्वनीनामभिधेयानात्वमेव कक्षीकुर्वाणस्तदाभासः । यथेन्द्रगकपुरन्दर इत्यादयः शब्दा भिन्नाभिधेया एव भिन्नशब्दत्वात्कारिकुरङ्कतुरङ्गशब्दवदित्यादिः । शब्दानां स्वप्रवृत्तिनिमित्तभूतक्रियाविशिष्टमर्थं वाच्यत्वेनाऽभ्युपगच्छन्नेवंभूतः । यथेन्दनमनुभवन्निन्द्रः, शकनक्रियापरिणतः शक्रः, पूर्दारणप्रवृत्तः

पुरन्दर इत्युच्यते । क्रियाऽनाविष्टं वस्तु शब्दवाच्यतया प्रतिक्षिपंस्तु तदाभासः । यथा विशिष्टचेष्टाशून्यं घटाख्यं वस्तु नैव घटशब्दवाच्यं घटशब्दप्रवृत्तिमित्तभूतक्रियाशून्यत्वात्पटवदित्यादिः ।

पर्यायवाची शब्दोंमें भी शब्दसिद्धिविषयक भेद है इसलिये उनके वाच्य अर्थोंको जुदा मनानेवाला समभिरूढ नय है । जैसे परम ऐश्वर्यकी अपेक्षा इन्द्र कहना उचित है, शक्तिकी अपेक्षा शक्र कहना उचित है, पुरोंको विदीर्ण करनेवालेकी अपेक्षा पुरंदर कहना ठीक है । इत्यादि और भी जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वे सब शब्दभेदके कारण कुछ न कुछ भेद ही दिखाते हैं । पर्यायवाची शब्दोंको सर्वथा ही भिन्न अर्थ कहनेवाला मानना समभिरूढाभास है । जैसे हस्ती घोड़ा हरिण आदिक शब्द भिन्न भिन्न होनेसे जिस प्रकार अपने अर्थको भी भिन्न भिन्न दिखाते हैं उसीप्रकार इन्द्र शक्र पुरंदरादिक शब्द भी भिन्न भिन्न होनेसे अर्थको सर्वथा जुदा ही दिखाते हैं । किसी पदार्थमें जब किसी शब्दके वाच्यरूप कार्यकारी क्रिया होरही हो तभी उस पदार्थको जो उस शब्दके अर्थरूप कहना सो एवंभूत है । जैसे जिस समय परम ऐश्वर्यका अनुभव कर रहा हो उसी समय इन्द्रको इन्द्र कहना तथा शक्तिरूप क्रियाका जिस समय अनुभव कर रहा हो तब उसी इन्द्रको शक्र कहना एवं जब पुरोंको विदार रहा हो तब उसी इन्द्रको पुरंदर कहना उचित है । भावार्थ—जब पदार्थ जिस क्रियारूप परिणत न होरहा हो उस समय यद्यपि यह नय उस पदार्थको उस क्रियारूप कहता नहीं है परंतु उस क्रियाका उस पदार्थमेंसे निषेध भी नहीं करदेता है किंतु उस विषयसे उस समय उदासीन रहता है । और जो एवंभूत नयाभास है वह जिस क्रियारूप पदार्थ परिणत होता है उसको उस क्रियावाचक शब्दके अतिरिक्त अन्य शब्दोंका वाच्यरूप होनेसे रोकता है । जैसे जिस समय घड़ा अपने योग्य क्रियामें लगाहुआ न हो उस समय उसको घड़ा कभी नहीं कहना चाहिये । क्योंकि, उस समय उसमें जिस क्रियाके द्वारा वह घड़ा कहाता है वह क्रिया है ही नहीं । यदि अपनी क्रियासे शून्य वस्तु भी उस शब्दका वाच्य अर्थ होसकती हो तो वस्त्रमें भी घड़ा शब्दका प्रयोग क्यों नहीं होता ? ।

एतेषु चत्वारः प्रथमेऽर्थनिरूपणप्रवणत्वादर्थनयाः । शेषास्तु त्रयः शब्दवाच्यार्थगोचरतया शब्दनयाः पूर्वः पूर्वो नयः प्रचुरगोचरः परः परस्तु परिमितविषयः ।

इन सत्तो नयोंमेंसे आदिके जो चार नय है वे तो शब्दके आश्रयकी मुख्यता न रखकर केवल अर्थका आश्रय मुख्यतासे

लेकर प्रवृत्त होते हैं इसलिये अर्थनय कहते हैं और बाकीके तीन नय मुख्यतासे शब्दका आश्रय लेकर ही प्रवर्तते है इसलिये वे शब्दनय कहते हैं। इन सातों नयोंमेंसे जो पूर्व पूर्वके है वे उत्तरोत्तरी अपेक्षा विषयका ग्रहण अधिक करते है और उनमें जो उत्तरके है वे पूर्व पूर्व नयकी अपेक्षा अल्प विषयवाले है।

सन्मात्रगोचरात्संग्रहाद्भौगमो भावाभावभूमिकत्वाद् भूमविषयः। सद्दिशेषप्रकाशकाद् व्यवहारतः संग्रहः समस्तसत्स-
मूहोपदर्शकत्वाद्बहुविषयः। वर्तमानविषयाद्बहुसूत्राद्बहुव्यवहारस्त्रिकालविषयावलम्बित्वादनल्पार्थः। कालादिभेदेन
भिन्नार्थोपदर्शिनः शब्दाद्बहुसूत्रस्तद्विपरीतवेदकत्वान्महार्थः। प्रतिपर्यायशब्दमर्थभेदमभीप्सतः समभिरूढाच्छब्द
स्तद्विपर्यायानुयायित्वात्प्रभूतविषयः। प्रतिक्रियं विभिन्नमर्थं प्रतिजानानादेवंभूतात्समभिरूढस्तदन्यथार्थस्थापक-
त्वान्महागोचरः।

संग्रह केवल सत्धर्मका ही ग्रहण करता है और नैगम नय सत्असत् दोनों धर्मोंका ग्रहण करता है इसलिये संग्रहकी अपेक्षा नैगमका विषय बहुत है। सत्ता धर्मके किसी विशेष अंशका ग्रहण करनेवाले व्यवहारकी अपेक्षा संग्रह नय संपूर्ण सत्ताविशिष्टका प्रकाशक होनेसे अधिक विषयवाला है। ऋजुसूत्र नय केवल वर्तमान कालवर्ती पर्यायको ही प्रकाशता है इसलिये तीनो कालवर्ती वस्तुको प्रकाशनेवाला व्यवहार नय इस नयसे अधिक विषयवाला है। लिङ्ग सख्या कालादिके भेदसे वर्तमान कालवर्ती पर्यायोंमें भी शब्द नय भेद दिखाता है इसलिये इसकी अपेक्षा वर्तमान पर्यायमें अभेद रखनेवाला ऋजुसूत्र नय महाविषयवाला है। शब्द नय पर्यायवाची शब्दोंमें अभेदभाव दिखाता है तथा समभिरूढ नय पर्यायवाची शब्दोंमें परस्पर भेद प्रकाशता है इसलिये समभिरूढ नयकी अपेक्षा शब्द नयका विषय बहुत है। समभिरूढ नय कुछ क्रियाओंका परिवर्तन होनेसे अर्थमें भेद नहीं मानता है परंतु एवंभूत क्रियाओंके भेदसे एक ही वस्तुको भिन्न भिन्न मानता है इसलिये एवंभूतकी अपेक्षा समभिरूढका विषय बड़ा है।

नयवाक्यमपि स्वविषये प्रवर्तमानं विधिप्रतिषेधाभ्यां सप्तभङ्गीमनुव्रजतीति विशेषार्थिना नयानां नामान्वर्थवि-
शेषलक्षणाक्षेपपरिहारदिचर्चस्तु भाष्यमहोदधिगन्धस्तिटीकान्यायावतारादिग्रन्थेभ्यो निरीक्षणीयः। प्रमाणं तु
सम्यगर्थनिर्णयलक्षणं सर्वनयात्मकं स्याच्छब्दलाञ्छितानां नयानामेव प्रमाणव्यपदेशभाक्त्वात्। तथा च श्रीविम-
लनाथस्तवे श्रीसमन्तभद्रः “नयास्तव स्यात्पदलाञ्छना इमे रसोपविद्धा इव लोहधातवः। भवन्त्यभिप्रेतफला यत
स्ततो भवन्तमार्याः प्रणता हितैपिणः” इति।

प्रमाणवाक्योंके समान नयवाक्य भी अपने अपने विषयोंमें विधिनिषेधके कर्ता संभव होनेसे सप्त अंगरूप होसकते हैं इसलिये जिनको इस विषयमें अधिक जानना हो उनको इन नयोंके नाम, नामके अनुसार सार्थक भिन्न भिन्न लक्षण, शंका, समाधान आदि विषयोंका विचार भाष्यमहोदधि, गन्धहस्ति टीका, न्यायावतारादि ग्रंथोद्धारजानलेना चाहिये । जो सच्चे अर्थका निर्णय करनेवाला हो तथा संपूर्ण नयोंके समुदायरूप अर्थको कहता हो उसको प्रमाण कहते हैं । क्योंकि; स्यात्शब्द लगाकर उच्चारण करनेसे नयवाक्योंका ही प्रमाण नाम होजाता है । यही तेरहवें तीर्थकार श्रीविमलनाथ की स्तुति करते हुए श्रीसमन्तभद्रस्वामीने कहा है कि “जिस प्रकार रसायनके योगसे लोह इच्छित फल देने लगता है उसीप्रकार ‘स्यात्’ शब्द लगानेसे ये आपके कहे हुए नय ही अभिमत फलके दाता होजाते हैं इसलिये हितेच्छु जन आपको नमस्कार करते हैं” ।

तच्च द्विविधं; प्रत्यक्षं परोक्षं च । तत्र प्रत्यक्षं द्विधा; सांब्यवहारिकं पारमार्थिकं च । सांब्यवहारिकं द्विविधमिन्द्रियाऽनिन्द्रियमित्तभेदात् । तद्वित्यमवग्रहेहावायधारणाभेदादैकैकशश्रुत्विकल्पम् । अवग्रहादीनां स्वरूपं सुप्रतीतत्वान्न प्रतन्यते । पारमार्थिकं पुनरुत्पत्तावात्ममात्रापेक्षम् । तद्विविधं; क्षायोपशमिकं क्षायिकं च । आद्यमवधिमनःपर्यायभेदाद् द्विधा । क्षायिकं तु केवलज्ञानमिति । परोक्षं च स्मृतिप्रत्यभिज्ञानोहाऽनुमानागमभेदात्पञ्चप्रकारम् ।

ऐसा जो प्रमाण है उसके दो प्रकार हैं; प्रत्यक्ष तथा परोक्ष । फिर प्रत्यक्षके भी दो भेद हैं एक सांब्यवहारिक दूसरा पारमार्थिक । एक सांब्यवहारिक प्रत्यक्ष तो ऐसा है जिसमें इंद्रियोंकी सहायता लेनी पड़ती है और दूसरा ऐसा सांब्यवहारिक है जिसमें केवल मनकीमी सहायता लेनी पड़ती है । उस संपूर्ण सांब्यवहारिक प्रत्यक्षके चार चार भेद होते हैं; अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा । भावार्थ—ये चारो भेद प्रत्येक सांब्यवहारिक प्रत्यक्षमें उत्पन्न होसकते हैं । एक ही विषयके ज्ञानमें उत्तरोत्तर जैसी जैसी अधिक दृढता होती है तैसे तैसे ही उस ज्ञानके ये उत्तरोत्तर नाम रक्खे गये हैं । इनका स्वरूप सुगम है इसलिये यहां नहीं दिखाते हैं । जो परमार्थिक प्रत्यक्ष कहा है उसकी उत्पत्ति कुछ इन्द्रियादिकी अपेक्षा लेकर नहीं होती किंतु सहायरहित केवल साक्षात् आत्मासे ही होती है । इस पारमार्थिकके भी दो भेद हैं; एक क्षायोपशमिक पारमार्थिक दूसरा क्षायिक पारमार्थिक । अवधि तथा

मनःपर्याय ये दो तो क्षायोपशमिक पारमार्थिक हैं तथा केवलज्ञान क्षायिक पारमार्थिक-प्रत्यक्ष है। परोक्ष प्रमाण पांच प्रकारका है; स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, ऊह (तर्क), अनुमान तथा आगमज्ञान।

तत्र संस्कारप्रबोधसम्भूतमनुभूतार्थविषयं तदित्याकारं वेदनं स्मृतिः। ततीर्थकरविम्बमिति यथा। अनुभव-स्मृतिहेतुकं तिर्यगूर्ध्वतासामान्यादियोगोचरं संकलनात्मकं ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्। यथा तज्जातीय एवायं गोपिण्डो, गोसदृशो गवयः, स एवायं जिनदत्त इत्यादिः।

किसी समय किसी पदार्थका अनुभव करनेके बाद जो संस्कार होजाता है उसका उद्भव होनेसे उसी अनुभव किये हुए पदार्थका 'वह' ऐसा याद आना सो स्मृति अथवा स्मरण है। जैसे वह तीर्थकरका प्रतिबिम्ब। वर्तमान समयमें किसी वस्तुको प्रत्यक्ष देखनेपर तथा पहिले देखे हुए किसी सदृश या विलक्षण आदि वस्तुके याद आनेपर वर्तमान देखे हुए तथा स्मरण किये हुए पदार्थोंमें जो जोड़रूप ज्ञान होता है उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे पूर्वकासा ही यह गोपिण्ड है, तथा गौके समान ही यह गवय है। एव यह वही जिनदत्त है। अर्थात्—'वह' ऐसा तो स्मरणांश है तथा 'यह' ऐसा वर्तमानांश प्रत्यक्ष है। इन दोनों ज्ञानोंके हो जानेपर पीछेसे एक ज्ञान ऐसा होता है जिसके द्वारा पूर्वके देखे हुए पदार्थसे वर्तमानके पदार्थमें या तो समानता दीखती है या भेद प्रतीत होता है अथवा एकताकी प्रतीति होती है। जैसे अमुक वस्तु पूर्व देखे हुएसे भिन्न है अथवा वैसा ही है या वही है इत्यादि अनेक प्रकारसे प्रतीति होती है। सादृश्य दिखानेवाले प्रत्यभिज्ञानमें जिस सादृश्यका ज्ञान होता है कि यह वैसा ही है, वह सादृश्य धर्म दो प्रकारका है, एक तिर्यक् सामान्य तथा दूसरा ऊर्ध्वतासामान्य। वर्तमान कालवर्ती एक जातिके पदार्थोंमें रहनेवाली समानताको तिर्यक् सामान्य कहते हैं। जैसे यह गौ इस गौके समान है। एक ही पदार्थके क्रमवर्ती संपूर्ण पर्यायोंमें रहनेवाली समानताको ऊर्ध्वतासामान्य कहते हैं। जैसे एक ही पुद्गल अनेक पर्यायोंमें क्रमसे परिवर्तन करता है सो उन संपूर्ण पर्यायोंमें परस्पर उस एक पुद्गलकी अपेक्षा समानता है।

उपलम्भाऽनुपलम्भसम्भवं त्रिकालीकलितसाध्यसाधनसम्बन्धाद्यालम्बनमिदमस्मिन् सत्येव भवतीत्याद्याकारं संवेदनमूहस्तर्काऽपरपर्यायः। यथा यावान् कश्चिद्भूमः स सर्वो वहौ सत्येव भवतीति, तस्मिन्नसत्यसौ न भवत्येवेति वा। अनुमानं द्विधा; स्वार्थं परार्थं च। तत्राऽन्यथाऽनुपपत्त्येकलक्षणहेतुग्रहणसंबन्धस्मरणकारणकं साध्य-

विज्ञानं स्वार्थम् । पक्षहेतुवचनात्मकं परार्थमनुमानमुपचारात् । आसवचनादाविभूतमर्थसंवेदनमागमः । उपचारादाप्तवचनं चेति । स्मृत्यादीनां च विशेषस्वरूपं स्याद्वाद्दरत्वाकरात् साक्षेपपरिहारं ज्ञेयमिति ।

तीनों कालमें होनेवाले साध्य साधनादि पदार्थोंमेंसे कुछका तो प्रत्यक्ष हुआ हो तथा कुछका प्रत्यक्ष नहीं हुआ हो परंतु साध्य साधनादि किसी संबंधका आलंबन मिलनेसे यह रहनेपर ही यह रहसकता है इत्यादि प्रकारसे सभीमें उत्पन्न होनेवाला जो ज्ञान है वह ऊह है । इसीका दूसरा नाम तर्क है । जैसे जितना धूँआ है वह अग्नि होनेपर ही होसकता है और यदि अग्नि न हो तो कभी नहीं होसकता है । ऊह ज्ञान जिनमें होचुका है उनमेंसे घूमादि हेतुके देखनेपर अग्निआदि साध्यका ज्ञान होना या ऐसा वचन कहकर ज्ञान कराना अनुमान है । यह अनुमान दो प्रकारका है, स्वार्थ तथा परार्थ । जिसको साध्य माना हो उसके कहीं अन्यत्र जो नहीं मिलसकै ऐसे असाधारण लक्षणवाले हेतुके देखनेपर ऊहज्ञानके द्वारा साध्यके साथ रहनेका संबन्ध याद आनेपर जो उस साध्यका ज्ञान होता है वह स्वार्थ अनुमान है । जिस स्थलमें हेतु देखकर साध्यका निश्चय करना हो उस स्थलको पक्ष कहते है । पक्ष हेतु आदिक बोलकर दूसरेको साध्य जतानेका नाम परार्थानुमान है । दूसरेके ज्ञानका कारण होनेसे इस कारणरूप वचनको कार्यरूप ज्ञान मानकर उपचारसे अनुमान कहते है । भावार्थ—यथार्थमें ज्ञान ही प्रमाण होता है, वचनादि यथार्थ प्रमाण नहीं है । क्योंकि; जो अज्ञानका विरोधी होता है वही अज्ञानका नाश करके किसी विषयका ज्ञान उत्पन्न करासकता है । जो स्वयं अज्ञानस्वरूप है वह अज्ञानके नाशमें असाधारण कारण नहीं होसकता है । ज्ञान ही अज्ञानका विरोधी है इसलिये वही यथार्थ प्रमाण होसकता है । अनुमान भी एक प्रमाण ही है । यथार्थवक्ताका वचन सुनकर उत्पन्न हुआ ज्ञान आगमप्रमाण है । उपचारसे आसके वचनोंको भी प्रमाण कहते हैं । स्मृत्यादि परोक्ष प्रमाणोंका विशेष स्वरूप शंकासमाधान सहित जानना ही तो स्याद्वाद्दरत्वाकर नामक ग्रन्थसे जानलेना चाहिये ।

प्रमाणान्तराणां पुनरर्थोपच्युपमानसम्भवंप्रतिभैतिह्यादीनामत्रैवान्तर्भावः । सन्निकर्षादीनां तु जडत्वादेव न प्रामाण्यमिति । तदेवंविधेन नयप्रमाणोपन्यासेन दुर्नयमार्गस्त्वया खिलीकृतः । इति काव्यार्थः ।

प्रमाणके इन प्रत्यक्ष परोक्ष भेदोंके अतिरिक्त जो अर्थोपत्ति, उपमान, संभव, प्रातिभ, ऐतिह्य आदिक भेद कहे जाते हैं उन सबोंका इन्हींमें अंतर्भाव होजाता है । और जो इंद्रिय अर्थके सन्निकर्षादिकोंको अथवा इंन्द्रियादिकोंको; प्रमाण मानते है वह तो

मानना ही उचित नहीं है। क्योंकि; सन्निकर्षादिक जड़स्वरूप होनेसे प्रमाण नहीं होसकते। इस प्रकार हे भगवन्! आपने सब्चे नय प्रमाणोंका स्वरूप दिखाकर दुर्नयका मार्ग रोक दिया है। इस प्रकार इस काव्यका अर्थ पूर्ण हुआ।

इदानीं सप्तद्वीपसमुद्रमात्रो लोक इति वावदूकानां तन्मात्रलोके परिमितानामेव सत्त्वानां सम्भवात् परिमितात्मवादिनां दोषदर्शनमुखेन भगवत्प्रणीतं जीवाऽनन्त्यवादं निर्दोषतयाऽभियुवन्नाह।

अब जो केवल सातद्वीपसमुद्रप्रमाणही लोक मानते है उनको इतने बडे लोकमें परिमित जीव ही संभव होसकते है इसलिये जीवोंकोभी अक्षय अनंत न मानकर परिमित ही मानना पडता है सो उनके माननेमें दोष दिखाते हुए आचार्य इस वातकी स्तुति करते हैं कि हे भगवन्! आपने जो जीवोंको अनंतो बताये है वही वताना निर्दोष है।

**मुक्तोऽपि वाऽभ्येतु भवं भवो वा भवस्थशून्योऽस्तु मितात्मवादे ।
षड्जीवकायं त्वमनन्तसंख्यमाख्यस्तथा नाथ यथा न दोषः ॥ २९ ॥**

मूलार्थ—संख्यातमात्र ही जीवोंको माननेवालोंके मतमें या तो मुक्त हुआ जीव फिरसे इसी संसारमें आफसता मानागया होगा या यह संसार किसी दिन मुक्तिमें जीव सदा चलते जाते है इसलिये जीवोंसे खाली होजायगा। भावार्थ—यह दोष दूसरोंके मतोंमें ही संभव है। हे भगवन्! आपने जीवोंके छह मूल भेद बताकर एक एक भेद की अपेक्षा जीवोंकी संख्या अक्षयानंत बताई है इसलिये यही उपदेश ऐसा है जिसमें किसी प्रकारसे भी दोष नहीं है।

व्याख्या—मितात्मवादे संख्यातानामात्मनामभ्युपगमे दूषणद्वयमुपतिष्ठते। तत्क्रमेण दर्शयति। मुक्तोऽपि वाऽभ्येतु भवमिति। मुक्तो निर्द्वैतिप्राप्तः। सोऽपि वा (अपिर्विस्मये। वा शब्द उत्तरदोषापेक्षया समुच्चयार्थः। यथा देवो वा दानवो वेति।) भवमभ्येतु संसारमभ्यागच्छतु। इत्येको दोषप्रसङ्गः। भवो वा भवस्थशून्योऽस्तु। भवः संसारः। स वा भवस्थशून्यः। संसारिभिर्जीवैर्विरहितोऽस्तु भवतु। इति द्वितीयो दोषप्रसङ्गः।

व्याख्यार्थ—आत्माओंको परिमित माननेवालेने जो जीवोंको संख्यात ही माना है उसमें दो दोष आसकते है। उन दोनों दोषोंको क्रमसे दिखाते है। पहिला दोष तो यह है कि मुक्तिको प्राप्त हुआ जीव भी फिरसे संसारमें आफसेगा। यहांपर 'मुक्तोपि'

शब्दके साथ जो 'अपि' शब्द है उसका अर्थ विस्मय होना है। तथा जो 'वाऽभ्येतु' में 'वा' शब्द पड़ा है उसका अर्थ आगेके दोषका समुच्चय करना है। जिस प्रकार 'देव है या दानव,' ऐसा अर्थ होनेपर संस्कृत भाषामें 'देवो वा दानवो वा' ऐसा बोला जाता है। यहांपर भी ऐसा अभिप्राय है कि मुक्त हुआ भी जीव, आश्चर्य है कि फिर संसारमें आफसै। यह तो पहिला दोष हुआ। दूसरा दोष यह है कि मोक्ष जाते जाते यह संसार संसारी जीवोंसे कभी खाली होजायगा। भवशब्दका ही अर्थ संसार है। सो भवस्य जीवोंसे यह भव शून्य होजायगा। अर्थात् संसारी जीवोंसे यह संसार खाली होजायगा। यह दूसरा दोष है।

इदमत्राकृतं 'यदि परिमिता एवात्मानो मन्यन्ते तदा तत्त्वज्ञानाऽभ्यासप्रकर्षादिक्रमेणापवर्गं गच्छत्सु तेषु संभाव्यते खलु स कश्चित्कालो यत्र तेषां सर्वेषां निर्बृतिः। कालस्याऽनादिनिधनत्वादात्मनां च परिमितत्वात् संसारस्य रिक्तता भवन्ती केन वार्यताम् ? समुन्नीयते हि प्रतिनियतसलिलपटलपरिपूरिते सरसि पवनतपनातपनज-नोदञ्चनादिना कालान्तरे रिक्तता। न चायमर्थः प्रामाणिकस्य कस्यचित्ससिद्धः संसारस्य स्वरूपहानिप्रसङ्गात्। तत्स्वरूपं होतद्यत्र कर्मवशवर्तिनः प्राणिनः संसरन्ति समासार्युः संसरिष्यन्ति चेति। सर्वेषां च निर्बृत्तत्वे संसारस्य वा रिक्तत्वं हठादभ्युपगन्तव्यम्।

यहांपर ऐसा तर्क होता है कि यदि संसारमें जीव परिमित ही मानेगये है तो जब मोक्षका कारणरूप तत्त्वज्ञान बढ़ने लगेगा तब जीव क्रम क्रमसे मोक्षको जानेलेगें सो संभावना होती है कि किसी दिन संपूर्ण संसारी जीवोंकी मुक्ति होजायगी। क्योंकि; काल तो अनादि अनंत है तथा संसारी जीव परिमित हैं इसलिये कभी न कभी अवश्य संपूर्ण जीव मोक्षमें पहुच रहेंगे। ऐसा होनेसे फिर संसारको संसारी जीवोंसे खाली होते हुए कोन रोकसकता है ? ऐसा देखाजाता है कि नीचेसे किसी निश्चित ऊंचाई तक जो सरोवर जलसे भरा होता है वह कुछ समयमें वायुसे तथा सूर्यकी गरमीसे तथा मनुष्योंके उलीचने आदि कारणोंसे जलरहित होजाता है। संसारी जीवोंसे संसारका खाली होजाना यह दोषरूप इसलिये माना है कि ऐसा होना किसी भी प्रमाण-वेत्ताको पसंद नहीं है। क्योंकि; यदि ऐसा ही हो तो संसारके स्वरूपकी ही हानि होजायगी। जिसमें पडे हुए कर्मके परवश जीव संसरण अर्थात् परिभ्रमण करते आये है तथा कर रहे हैं और इसी प्रकार सदा करते रहेंगे वह संसार है। यही संसारका

स्वरूप है। परिमित होनेसे किसी समय जत्र सभी जीव इस संसारसे निकलकर मुक्त होनेवाले है तब तो अगत्या यह संसार उनसे रिक्त कहना पड़ेगा। क्योंकि, उत्तर देनेका दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है।

मुक्तैर्वा पुनर्भवे आगन्तव्यम् । न च क्षीणकर्मणां भवाधिकारः “दग्धे बीजे यथाऽत्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्कुरः । कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्कुरः” इति वचनात् ।

जो संसारका खाली होना भी नहीं मानते तथा जीवोंको परिमित ही मानते हैं उनको मुक्त हुए जीवोंका संसारमें फिरसे लौटना मानना चाहिये। परंतु यथार्थमें विचार किया जाय तो जो कर्मोंका नाश करके मुक्त होगये है वे फिर संसारमें नहीं आसकते हैं। क्योंकि, उनके यहां आनेका कारण कोई वाकी नहीं रहा है। संसारमें अमानेके कारण कर्म है सो वहां उन कर्मोंका सर्वथा नाश होचुका है। कहा भी है कि “जिस प्रकार कोई बीज जों उपजानेका कारण है यदि सर्वथा जलजाय तो फिर उससे अंकुर नहीं आसकता है उसी प्रकार यदि कर्मरूपी बीज जो कि संसारकी उत्पत्तिका कारण है, सर्वथा दग्ध होजाय तो फिर उससे जीवमें संसाररूपी अंकुर नहीं निकल सकता है”।

आह च पतञ्जलिः “सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः” इति। एतद्वीका च “सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारम्भी भवति, नोच्छिन्नक्लेशमूलः। यथा तुषावनद्धाः शालितण्डुला अदग्धबीजभावाः प्ररोहणसमर्था भवन्ति नाऽपनीततुषा दग्धबीजभावा वा। तथा क्लेशावनद्धः कर्माशयो विपाकप्ररोही भवति; नाऽपनीतक्लेशो न दग्धबीजभावो वेति। स च विपाकस्त्रिविधो जातिरायुर्भोगः” इति।

वैदिक योगमतके प्रवर्तक पतंजलिनै भी कहा है कि “मूल कारण रहनेपर ही जाति, आयु तथा भोग होते हैं। ये जाति, आयु, भोग उसी मूल कारणके विपाकरूप है”। इसकी टीका इस प्रकार है कि “जबतक क्लेश रहते है तभीतक कर्मोंकी शक्ति अपना विपाकफल देसकती है। जब क्लेशरूप मूल कारणका उच्छेद होजाता है तब कर्मोंका विपाकफल नहीं होसकता। जिस प्रकार शाली चावलोंपरसे जबतक ऊपरका तुष नहीं उतार दिया जाता है तभीतक उनमें बीजपना बनारहता है और बोनेपर वे उपज सकते हैं परंतु जब उनके ऊपरसे तुष उतार दिया जाय तो बीजपनेका नाश होजानेसे वे उपज नहीं सकते है। उसी प्रकार

जबतक कर्मशक्ति क्लेशोंसे बंधी है तभीतक संसाररूपी अंकुर उत्पन्न करसकती है; जब क्लेश छूट जानेसे कर्मोंसे बीजपना नाष्ट होजाता है तब उससे विपाक फल नहीं होसकता । उस विपाकके भेद तीन है; जाती, आयु तथा भोग ।

अक्षपादोऽप्याह “न प्रवृत्तिः प्रतिसंधानाय हीनक्लेशस्य” इति । एवं विभङ्गज्ञानिशिवराजर्षिमतानुसारिणो दूषयित्वोत्तरार्द्धेन भगवदुपज्ञमपरिमितात्मवादं निर्दोषतया स्तौति षड्जीवेत्यादि । त्वं तु हे नाथ अनन्तसंख्यमनन्ताख्यसंख्याविशेषयुक्तं षड्जीविकायम्—

न्यायदर्शनके मुख्य प्रवर्तक अक्षपादने (कणादने) भी ऐसा ही कहा है कि जिसके क्लेश क्षीण होगये हैं उसकी प्रवृत्ति भी बंधका कारण नहीं है” । इस प्रकार पहिले आधे श्लोक द्वारा विभंग (खोटे) ज्ञानवाले शिवराज ऋषिके मतानुसारियोंको सदोष ठहराकर श्लोकके उत्तर आधे भागद्वारा निर्दोष सिद्ध होनेके कारण भगवत्कथित जीवोंकी अनंतताके उपदेशकी स्तुति करते है । “षड्जीविकायं त्वमनन्तसंख्यमाख्यस्तथा नाथ ! यथा न दोषः” यह श्लोकका उत्तर भाग है । इसका अर्थ—हे नाथ ! आपने ही संपूर्ण छह प्रकारके जीवोंकी अनंतनामक एक प्रकारकी अपरिमित संख्या बताई है और वह ऐसी है कि जिसमें किसी प्रकारका दोष आहीं नहीं सकता है ।

अजीवन् जीवन्ति जीवन्ति चेति जीवा, इन्द्रियादिज्ञानादिद्रव्यभावप्राणधारणयुक्ताः । तेषां [“संघे वानूध्वे” इति चिनोतेर्घञि आदेश्च कत्वे] कायः समूहो जीविकायः पृथिव्यादिः । षण्णां जीविकायानां समाहारः षड्जीविकायम् । पात्रादिदर्शानाम्पुंसकत्वम् । अथवा षण्णां जीवानां कायः प्रत्येकं संघातः षड्जीविकायः । तं षड्जीविकायम् । पृथिव्यसेजोवायुवनस्पतित्रसलक्षणषड्जीविकायं तथा तेन प्रकारेण आख्यः, मर्यादया प्ररूपितवान्, यथा येन प्रकारेण न दोषो, न दूषणमिति । जात्यपेक्षमेकवचनम् । प्रागुक्तदोषद्वयजातीया अन्येऽपि दोषा यथा न प्रादुष्यन्ति तथा त्वं जीवानन्त्यमुपदिष्टवानित्यर्थः । ‘आख्यः’ इति आङ्पूर्वस्य ख्यातेरङिः सिद्धिः । त्वमित्येकवचनं चेदं ज्ञापयति यज्जगद्गुरोरेवैकस्येहकप्ररूपणसामर्थ्यं, न तीर्थान्तरशास्ठणामिति ।

जो मूल कालमें भी जीते रहे अर्थात् प्राण विशिष्ट बने रहे, वर्तमानमें भी प्राणविशिष्ट है तथा आगे भी प्राण सहित रहेंगे उनको जीव कहते है । अर्थात् जो इंद्रियादि दश द्रव्यप्राणोंद्वारा तथा चेतनाआदि भावप्राणोंके द्वारा जीते हों वे जीव है ।

“ सधे वाऽनूर्ध्वं ” इस व्याकरणसूत्रके अनुसार ‘चि’ शब्दके आगे ‘पञ्’ प्रत्यय होनेसे तथा ‘च’ हो ‘क’ करनेसे तब शब्द बनजाता है। कायका अर्थ समूह होता है। ऊपर कहे हुए जीवोंके समूहोंको जीवराज्य कहते हैं। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति ये पाच स्थावर तथा त्रस ऐसे छह कार्याके जीवोंके समूहको पञ्जीवराज्य कहते हैं। आकरणांश जहापर समूह अर्थ देखने अनेक शब्दोंका समास (सग्रह) दिखाया है वहापर ऐसा कहा है कि पाचशब्दादि बहुतेके ऐसे शब्द हैं जो समासमें नानुनद्ध लिङ्ग ही होजाते हैं। उन्ही पावादि शब्दोंमें पञ्जीवराज्य शब्दको मानकर यहापर नानुनद्धिगी ‘पञ्जीवराज्य’ ऐसा कहा है। अथवा समूह अर्थमें समास न करके इस प्रकारसे समास करनेपर शब्द पुलिङ्ग ही बना रहेगा कि उर्ध्व वर्णके जीवोंका जो प्रत्येक सघात है उसको पञ्जीवकाय कहते हैं। पुलिङ्गी रहनेसे यद्यपि ‘पञ्जीवराज्य’ ऐसा होना चाहिये परन्तु इस शीर्षमें यह शब्द कर्मकारकरूप रक्खागया है इसलिये पुलिङ्ग होनेपर भी कर्मकारकमें ‘पञ्जीवराज्य’ ऐसा रहागया है। जब शब्द गतिमानक माने जाते है तब वे एक वचनात ही राग्ये जाते हैं। यहापर भी जातिही जगेशा ही ‘पञ्जीवराज्य’ ऐसा एकवचनान्त बटा है। सारांश-जीवोंको परिमित माननेमें सगव जो दोग है वे तथा और भी अनेक दोग निम प्रकार वर्णन करनेसे नहीं आगहते उस प्रकारसे आपने जीवोंका वर्णन किया है। आशुर्ध्वक न्या पादुके आगे शब्द प्रत्यय लगानेसे मृतकालके अर्थमें ‘आम्य’ ऐसा क्रियापद बनता है। ‘त्वग्’ शब्दको एक वचनान्त रगनेसे यह अभिप्राय प्रकट होता है कि ऐसे निर्दोष उपदेश करनेका सामर्थ्य एकमात्र त्रिजगद्गुरुका (आपका) ही है; न कि अन्य भी यनों या यनोंके उपदेश करनेवालोंका।

पृथिव्यादीनां पुनर्जावत्वमित्थं साधनीयम् । यथा मात्मिका विद्रुमशिलादिरूपा पृथिवी; छेदे समानधातूथ्या-
नाद्दर्भाऽद्गुरवत् । भौममम्भोऽपि सात्मकं क्षतभूमजातीयस्य स्वभावत् सम्भवात् साद्भवत् । आन्तरिक्षमपि
सात्मकम्; अन्त्रादिविकारे स्वतः सम्भूय पातात् मत्स्यादिवत् ।

छह कायके जीव बताने हुए अर्तने जो पृथिवी-जीवाधिक जीव बहे है उनही सिद्धि उन प्रकारसे करनी चाहिये कि जैसे मृगा पापाणादि जो पृथिवी है वह सजीव है। त्योंकि; जैसे लटनेपर उभमें अंतुर उपाग आता है उसी प्रकार मृगतो भी लटनेपर इसमें पहिलेके समान मृगा या पापाणादि फिरसे ऊग आते हैं। इसी प्रकार भूमिका जल भी सजीव है। त्योंकि; भूमिके जलका

१ दर्भोद्गुरवत्, इति हि-पिपपुल्लहायकः ।

में डककी तरह ऐसा स्वभाव है जैसा कि खोदी हुई मृमिका। अर्थात् मेंडकका भी खोदी हुई मृमिके समान स्वभाव होता है और वह सजीव है उसी प्रकार जब मृमिके जलका भी ऐसा ही स्वभाव है तो वह भी सजीव ही होना चाहिये। एवं जो आकाशमें होनेवाला जल है वह भी सजीव है। क्योंकि; मेघरूप विकार उत्पन्न होनेपर जिस प्रकार अपने आप ही उपजकर मछली ऊपरसे गिरती है उसी प्रकार मेघविकार होनेपर जल भी स्वयं बनकर नीचे गिर पड़ता है। अर्थात् मछलीका ऐसा स्वभाव है और वह सजीव है उसी प्रकार जब जलका भी ऐसा ही स्वभाव है तो इसलिये जल भी सजीव ही होना चाहिये।

तेजोऽपि सात्मकमाहारोपादानेन बुद्ध्यादिविकारोपलम्भात् पुरुषाङ्गवत् । वायुरपि सात्मकः अपरप्रेरितत्वे तिर्यगतिमत्वाद्भोवत् । वनस्पतिरपि सात्मकः छेदादिभिर्लान्थान्यादिदर्शनात् पुरुषाङ्गवत् । केषांचित् स्वापाङ्गनोपश्लेषादिविकाराच्च । अपकर्षवतश्चैतन्याद्वा सर्वेषां सात्मकत्वसिद्धिराप्तवचनाच्च । त्रसेषु च कृमिपिपीलिकाभ्रमर-मनुष्यादिषु न केषांचित्सात्मकत्वे विगानमिति ।

अग्नि भी सजीव है। क्योंकि; जिस प्रकार आहार मिलनेसे शरीरके अंग बढ़ते हैं, चंचल होते हैं, इत्यादि और भी धर्म स्फुरा-यमाण होते हैं तथा जब आहार नहीं मिलता तब हतशक्ति होजाते हैं उसीप्रकार अग्नि भी जब लकड़ी आदि आहार मिलता है तब बढ़ता है, चंचल होता है, शक्तिशाली दीखता है और जब आहारादि नहीं मिलता तब क्षीणशक्ति निस्तेज होजाता है। अर्थात्—एसे स्वभाववाले जब शरीरके अंग सजीक होते हैं तो ऐसे ही स्वभाववाला अग्नि भी सजीव क्यों न मानना चाहिये? एवं वायु भी सजीव है। क्योंकि; जैसे किसी दूसरेके हांकनेपर गौ इधर उधर चलने लगती है उसी प्रकार वायु भी दूसरेकी प्रेरणासे इधर उधर चलने लगता है। अर्थात्—एसे धर्मवाला जैसे गौ सजीव है उसी प्रकार ऐसे स्वभाववाला होनेसे वायु भी सजीव ही होना चाहिये। वनस्पति भी सजीव ही है। क्योंकि, सजीव पुरुषके अंग जिस प्रकार काटनेसे मलिनता आदि धारण करलेते हैं उसी प्रकार वनस्पति भी काटने छेदनेपर मलिनतादि धारलेता है इसलिये सजीव पुरुषके अंगोंके स्वभावसमान स्वभाववाला होनेसे यह भी सजीव ही होना चाहिये। तथा कुछ वनस्पतियोंमें प्राणियोंके समान निद्रासे किंवा स्त्रीके आलिङ्गनादिसे विकार चेष्टामें होती दीखती है। और जिन जिन जीवों भी चेतना शक्ति घटती हुई है उन उन जीवोंमें चेतनाकी हीनाधिकता दीखनेसे तो पृथिव्यादि सभीमें सजीवपना सिद्ध होसकता है। एवं आप्त भगवान्के उपदेशसे भी सर्वोंमें सजीवपना मानना चाहिये।

व्योकि, आप उसीका नाम है जो असत्यवादी न हो। दो इन्द्रियवालोको आदि लेकर कृमि, चीटी, अमर, मनुष्यादिक जो त्रस जीव हैं उनमें तो जीव मानना किसीको अनिष्ट ही नहीं है। इस प्रकार जिनको जिनेन्द्रदेवने जीव कहा है उन सर्वोंमें जीवपना अच्छी तरह सिद्ध होता है।

यथा च भगवदुपक्रमे जीवाऽनन्त्ये न दोषस्तथा दिग्मात्रं भाव्यते। भगवन्मते हि षण्णां जीवनिकायानामेतदल्पबहुत्वम्। सर्वं स्तोकास्त्रसकायिकाः। तेभ्योऽसंख्यातगुणास्तेजःकायिकाः। तेभ्यो विशेषाधिका पृथ्वीकायिकाः। तेभ्यो विशेषाधिका अप्कायिकाः। तेभ्यो विशेषाधिका वायुकायिकाः। तेभ्योऽनन्तगुणा वनस्पतिकायिकास्ते च व्यावहारिका अव्यावहारिकाश्च।

अब जिनेन्द्रने जो जीवोका उपदेश अनंतरूपसे किया है उसमें किसी प्रकारका दोष जैसे नहीं आवै उसी प्रकारसे कुछ दिखाते हैं। भगवतने छहो कार्योंके जीवोंमें परस्पर इस प्रकार संख्याकी हीनाधिकता कही है कि—सब कायोसे थोड़े त्रस कायके जीव है। त्रसोसे असंख्यात गुणे अधिक अन्निकायिक जीव है। उनसे अधिक पृथिवीकायिक है। पृथिवीकायिकोसे कुछ अधिक जलकायिक है। जलकायिकोसे कुछ अधिक वायुकायिक है। उनसे अनन्तगुणे वनस्पतिकायिक है। वे वनस्पति कुछ तो व्यवहारराशिमें रहनेवाले हैं और कुछ व्यवहारराशिसे भिन्न निगोदनामक राशिमें बस रहे हैं।

“गोला य असंखिज्जा असंखणिगोयग्ग्हि अणन्तजीवा मुणेयवा। १। सिञ्जंति जत्तिया खलु इह संववहारजीवरासीदो। एंति अणाइवणरसइरासीदो तत्तिआ तद्धि। २।” इति वचनात् यावन्तश्च यतो गच्छन्ति मुक्ति जीवास्तावन्तोऽनादिनिगोदवनस्पतिराशेस्तत्रागच्छन्ति।

“गोल असंख्यातो है और एक एक गोलमें असंख्यातो निगोद है। तथा एक एक निगोदमें अनंतो अनंतो जीव मानने चाहिये। १। व्यवहार राशिमसे जितने जीव मुक्त होजाते हैं उतने ही जीव अनादि निगोद नामक वनस्पतिराशिसे निकलकर व्यवहारराशिमें आजाते हैं। २।” इस वचनके अनुसार जितने जीव व्यवहारराशिसे मोक्षको जाते हैं उतनोका

१ गोलाश्च असख्याता असंख्यनिगोद गोल. भणित। एकैकस्मिन् निगोदे अनन्तजीवा ज्ञातव्या। १। सिञ्चन्ति यावन्त. खलु इह सव्यवहारजीवराशित.। आयान्ति अनादिवनस्पतिराशित. तावन्त. तस्मिन्। २। इतिच्छया।

ही निगोदराशिसे व्यवहार राशिमें आजाना सिद्ध है। भावार्थ—वनस्पति कायके दो भेद हैं; पहिला साधारण दूसरा प्रत्येक। जिस वनस्पतिमें एक शरीरके अंततो जीव स्वामी हो तथा उन अंततो जीवोका एक ही आहार हो, एक ही श्वासोच्छ्वास हों उनको साधारण कहा है। साधारणोके अतिरिक्त सभी वनस्पति प्रत्येक कहेजाते हैं। साधारणका दूसरा नाम निगोद है। ये निगोद दो प्रकारके हैं, पहिले नित्य दूसरे इतर। जो जीव अनादिकालसे निगोदमें ही रह रहे हैं उनको नित्यनिगोद कहते है। नित्यनिगोद राशिसे निकलकर अन्य पर्यायोको धारकर फिर भी कभी निगोदराशिमें जो पहुंच जाता है उसको इतर निगोद कहते है। नित्यनिगोदके अतिरिक्त जितने जीव है उनको व्यवहार राशिवाले कहते है और जो नित्यनिगोदके जीव हैं उनको व्यवहारराशिसे भिन्न कहते है। निगोद जीवोके एक एक समूहकों भी निगोद ही कहते है। ऐसे असंख्यो निगोद एक एक पिंडमें रहते है। उन पिंडोको गोल कहा है।

न च तावता तस्य काचित्परिहाणिर्निगोदजीवाऽनन्यस्याऽक्षयत्वात्। निगोदस्वरूपं च समयसागरादवगन्तव्यम्। अनाद्यनन्तेऽपि काले ये केचिन्निर्वृता निर्वाणान्तं च ते निगोदानामनन्तभागेऽपि न वर्तन्ते नाऽवर्तिषत न वर्त्यन्ति। ततश्च कथं मुक्तानां भवागमनप्रसङ्गः? कथं च संसारस्य रिक्ताताप्रसक्तिरिति? अभिप्रेतं चैतदन्यथूथ्यानामपि। यथा चोक्तं वार्तिककारेण “अत एव च विद्वत्सु मुच्यमानेषु सन्ततम्। ब्रह्माण्डलोकजीवानामनन्तत्वादशून्यता। १। अन्यन्यूनान्तिरिक्तवैयुज्यते परिमाणवत्। वस्तुन्यपरिमेये तु नूनं तेषामसम्भवः। २।” इति काव्यार्थः।

इस प्रकार निगोदराशिसे सदा निकलते रहनेपर भी निगोद जीव समाप्त नहीं होसकते है। क्योंकि; उनको अक्षय अन्त कहा है। शास्त्रोंमें सागर नामक एक संख्या मानी गयी है उससे निगोद जीवोंका प्रमाण मालूम करलेना चाहिये। जितने कुछ जीव अनादिकालसे निकलते जा रहे है और अनंतकाल तक आगे भी निकलते रहेंगे वे सब मिलाकर विचारनेसे निगोदराशिसे अनंतवै भागप्रमाण भी नहीं हुए हैं तथा न होंगे। इसलिये मुक्त हुए जीवोंको फिर संसारमें लौटनेका क्या कारण है? अन्य धर्मवालेने भी इस बातको स्वीकार किया है। वार्तिककारने कहा है— “इसीलिये संसारसे ज्ञानी जीवोंकी निरंतर मुक्ति होते रहने पर भी संसारी जीवराशि अनन्तरूप होनेसे कभी उसका अंत नहीं आसक्ता है। १। जिस वस्तुका

संख्यातरूप परिमाण होता है उसीका किसी समय अंत आसकता है, वही घट जाती है तथा कभी समाप्त भी होजाती है परंतु जो वस्तु अपरिमिय होती है उसका न तो कभी अंत ही आता है, न वह घटती ही है और न कभी समाप्त ही होती है । २ ।” इस प्रकार इस काव्यका अर्थ पूर्ण हुआ ।

अधुना परदर्शनानां परस्परविरुद्धार्थसमर्थकतया मत्सरित्वं सर्वज्ञोपज्ञसिद्धान्तस्याऽन्योन्यानुगत-
सर्वनयमयतया मात्सर्याऽभावमाविर्भावयति ।

अब यह दिखाते हैं कि जितने अन्य दर्शन है वे सब एक दूसरेसे विरुद्ध अर्थको कहनेवाले होनेसे एक दूसरेसे द्वेष रखते है और अर्हेन् सर्वज्ञ देवका कहा हुआ दर्शन सांपेक्ष होकर विचारेपर परस्पर सब दर्शनोंसे मिलता हुआ है इसलिये इसमें मत्सरभावका नाम भी नहीं है ।

अन्योऽन्यपक्षप्रतिपक्षभावाद् यथा परे मत्सरिणः प्रवादाः ॥
नयानशेषानविशेषमिच्छन् न पक्षपाती समयस्तथा ते ॥ ३० ॥

मूलार्थ—जिस प्रकार अन्य दर्शनोंमें यह हमारा पक्ष है तथा यह विरुद्ध पक्ष है ऐसा दुराग्रह होनेसे अन्य दर्शन मत्सरभाव रखते है उस प्रकार आपके दर्शनोंमें मत्सरभाव नहीं है । क्योंकि; संपूर्ण नयोंको या परस्पर विरुद्ध विचारोंको आप अपेक्षावश एकसमान देखते है ।

व्याख्या—प्रकर्षेणोद्यते प्रतिपाद्यते स्वाभ्युपगतोऽर्थो धैरिति प्रवादाः । यथा येन प्रकारेण परे भवच्छासना-
दन्ये प्रवादा दर्शनानि मत्सरिणः, अतिशयने मत्वर्थीयविधानात्सातिशयाऽसहनताशालिनः क्रोधकषायकलु-
पितान्तःकरणाः सन्तः पक्षपातिन इतरपक्षतिरस्कारेण स्वकक्षीकृतपक्षव्यवस्थापनप्रवणा वर्तन्ते ।

व्याख्यार्थ—अपने इष्ट अर्थका जिनमें प्र अर्थात् अत्यंत, वाद अर्थात् प्रतिपादन किया जाता हो उनको प्रवाद कहते है । मत या दर्शनको प्रवाद कहते हैं । जिस प्रकार आपके मतके सिवाय अन्य मत परस्परमें ईर्ष्या द्वेष रखते है उस प्रकार आपके मतमें किसीके साथ भी द्वेषभाव नहीं है । मत्सरी शब्द जो मूल श्लोकमें है उसमें मतु प्रत्ययके अर्थवाला इन् प्रत्यय अतिशय

१ 'उस प्रकार' इत्यादि वचन, संबंध मिलानेकेलिये लिखा है ।

पना दिखानेके लिये हुआ है इसलिये मत्सरी शब्दका अर्थ ऐसा करना चाहिये कि वे दर्शन परस्परमें अत्यंत असहनशील है । अर्थात्—क्रोधकषायके द्वारा अंतःकरणमें क्लृप्त होनेसे वे अपने अपने ही दर्शनोंके पक्षपाती है और अपनेसे भिन्न पक्षोंका तिरस्कार करते हुए अपने माने हुए पक्षके मंडन करनेमें सदा उद्यत रहते है ।

कस्माद्धेतोर्मत्सरिण इत्याह—अन्योऽन्यपक्षप्रतिपक्षभावात् । पच्यते व्यक्तीक्रियते साध्यधर्मवैशिष्ट्येन हेत्वादिभिरिति पक्षः—कक्षीकृतधर्मप्रतिष्ठापनाय साधनोपन्यासः । तस्य प्रतिकूलः पक्षः प्रतिपक्षः । पक्षस्य प्रतिपक्षो विरोधी पक्षः । तस्य भावः पक्षप्रतिपक्षभावः । अन्योऽन्यं परस्परं यः पक्षप्रतिपक्षभावः पक्षप्रतिपक्षत्वमन्योऽन्यपक्षप्रतिपक्षभावस्तस्मात् । तथा हि । य एव मीमांसकानां नित्यः शब्द इति पक्षः स एव सौगतानां प्रतिपक्षस्तन्मते शब्दस्याऽनित्यत्वात् । य एव सौगतानामनित्यः शब्द इति पक्षः स एव मीमांसकानां प्रतिपक्षः । एवं सर्वप्रयोगेषु योज्यम् ।

किस कारण वे पक्षपाती होरहे है इस शंकाका उत्तर कहते हैं ।— अपने तथा परके माने हुए दर्शनोंमें परस्पर पक्ष प्रतिपक्षका दुराग्रह रखनेसे वे पक्षपाती होरहे है । अशुभ है सो साध्यरूप धर्मकर सहित है इस प्रकार जो हेतुआदिकोंके द्वारा प्रगट किया जाता है वह पक्ष कहाता है । अर्थात्—सीकार किया हुआ विचार जहांपर हेतुआदिकोंके द्वारा साधाजाय, या पुष्ट किया जाय वह पक्ष कहाता है । जिसमें उस साध्यविचारके विरुद्ध विचाररूप धर्म मिलते हों किंतु वह साध्य न मिलता हो उसको प्रतिपक्ष या विरुद्ध पक्ष कहते है । पक्षका जो प्रतिपक्ष हो अर्थात् विरोधी पक्ष हो वह पक्षप्रतिपक्ष कहाता है । इसीकी प्रधानताको पक्षप्रतिपक्षभाव कहते है । एक दूसरेमें जो पक्षप्रतिपक्षपना रखना है वही अन्योन्यपक्षप्रतिपक्षभाव कहाजाता है । इसीके होनेसे वे एक दूसरेके द्वेषी है । कैसे ? मीमांसकोका जो नित्य शब्द माननेका पक्ष है वही बौद्धोंकेलिये प्रतिपक्ष है । क्योंकि; बौद्धमतमें शब्दको सर्वथा अनित्य माना है । बौद्धोंका जो शब्दको अनित्य मानना पक्ष है वह मीमांसकोकेलिये प्रतिपक्ष हुआ । इसी प्रकार अन्यवादोंमें भी विरोध आता है सो विचार करलेना चाहिये ।

तथा तेन प्रकारेण, ते तव [सम्यक् एति गच्छति शब्दोऽर्थमनेनेति “पुत्रान्नि धेः”] समयः संकेतः । यद्वा सम्यग्वैपरीत्येनाय्यन्ते ज्ञायन्ते जीवाऽजीवादयोऽर्था अनेनेति समयः सिद्धान्तः । अथ वा सम्यगयन्ते गच्छन्ति जीवादयः पदार्थाः स्वस्मिन् रूपे प्रतिष्ठां प्राप्नुवन्ति अस्मिन्निति समय आगमः ।

इस प्रकारसे जैसा इन अन्य दर्शनोंमें परस्पर पक्षप्रतिपक्षके दुराग्रहसे द्वेष होरहा है तैसा तुम्हारे समयमें अर्थात् दर्शनमें नही है। जिसके जाननेसे शब्दका अर्थ ठीक ठीक जानाजाय उसको समय कहते है। यहांपर 'सम्' पूर्वक 'इ' धातुका उपर्युक्त अर्थकी विवक्षामें 'पुत्राग्नि धे.' इस व्याकरणके सूत्रकर समय शब्द बना है। ऐसा विग्रह करनेपर समयका अर्थ संकेत होता है। अथवा सम्यक् अर्थात् जैसेके तैसे जीव अजीवादि पदार्थ जिसके द्वारा जाने जासकते है उसको समय कहते है। ऐसी विवक्षा होनेपर समय शब्दका अर्थ सिद्धात होता है। अथवा जीवादि पदार्थ जिसमें यथावत् कहे हों अर्थात् अपने अपने स्वरूपमें स्थिति पाते हुए जिसमें वर्णन किये हों उसको समय कहते है। ऐसा अर्थ लेनेपर समय शब्दका अर्थ आगम है।

न पक्षपाती नैकपक्षानुरागी। पक्षपातित्वस्य हि कारणं मत्सरित्वं परप्रवादेपूक्तम्। त्वत्समयस्य च मत्सरित्वाऽ-
भावात् पक्षपातित्वम्। पक्षपातित्वं हि मत्सरित्वेन व्याप्तम्। व्यापकं च निवर्तमानं व्याप्यमपि निवर्तयतीति मत्स-
रित्वे निवर्तमाने पक्षपातित्वमपि निवर्तते इति भावः। 'तव समयः' इति वाच्यवाचकभावलक्षणे सम्बन्धे षष्ठी।

यह आपका समय पक्षपाती नहीं है अर्थात् किसी एक पक्षमें अनुराग नहीं करता है। पक्षपाती होनेका कारण मत्सर भावका होना है। वह मत्सरभाव अन्य वादियोंमें ही है। आपके समयमें मत्सरभाव न होनेसे पक्षपात भी नहीं है। मत्सरभाव होनेसे ही पक्षपात होता है। इसीको न्याय शैलीसे ऐसा कहसकते है कि मत्सरभाव व्यापक है और पक्षपात व्याप्य है। जहांपर व्यापक अर्थात् बहुदेशव्यापी धर्म नहीं रहता है, वहांपरसे उसी व्यापकके अन्तर्गत रहनेवाला व्याप्य धर्म भी अवश्य निवृत्त होजाता है। इसलिये मत्सरभाव हूट जानेपर पक्षपात तो अवश्य ही निवृत्त होजाना चाहिये। संस्कृतमें जितने शब्द बोलेजाते है वे किसी न किसी विभक्तीको लगाकर ही बोले जाते है ऐसा नियम है। 'तव समयः' अर्थात् तुम्हारा समय यहांपर जो 'तव' शब्द बोलागया है वह भी षष्ठी विभक्ती जोडनेसे ही बनता है। षष्ठी विभक्ती किसी न किसीका संबंध होनेपर होती है। यहांपर 'तव' शब्दमें भी वाच्यवाच-
करूप संबंध होनेसे षष्ठी विभक्ती हुई है। अर्थात् समय तो आपकर कहागया है इसलिये वाच्यरूप है तथा आप उसके वक्ता होनेसे वाचक है। इस प्रकार 'तव' और 'समय' इन दोनों शब्दोंमें वाच्यवाचकभाव संबंध होनेसे तव शब्द षष्ठीविभक्त्यन्त है।

सूत्रापेक्षया गणधरकर्तृकत्वेऽपि समयस्यार्थपेक्षया भगवत्कर्तृकत्वाद्वाच्यवाचकभावो न विरुध्यते "अतथं भासइ

अरहा सुत्तं गन्थंति गणहरा णिउणं” इति वचनात् । अथवा उत्पादव्ययश्रौव्यप्रपञ्चः समयः तेषां च भगवता साक्षान्मातृकापदरूपतयाऽभिधानात् । तथा चार्षम् “उप्पण्णे इवा विगमे इवा धुवे इवा” इत्यदोषः ।

हे भगवन् ! सूत्रोंकी रचना करनेका कर्ता यदि देखाजाय तो गणधरदेव ही कर्ता है जो आपके पास रहते हैं और आपकर उपदेशे हुए अर्थको समझसकते हैं; परंतु उन सूत्रोंमें जिस अर्थका वर्णन है वह अर्थ आपने ही अपनी दिव्य ध्वनिद्वारा प्रकाशित किया था इसलिये यथार्थमें उसका मूलकर्ता तलासाजाय तो आप ही हैं। इस प्रकार आपके साथ समयका वाच्यवाचकभाव संबंध मानना अनुचित नहीं है। ऐसा कहा भी है कि “अर्थका प्रतिबोध तो अर्हत् केवली ही करते है किंतु सूत्रोंकी रचना अपनी निपुण मतिसे गणधरदेव करते है” । अथवा उत्पाद व्यय श्रौव्यके प्रपंचको ही समय कहसकते है । और उत्पाद व्यय श्रौव्यका स्वरूप भगवानने स्वयं अपने मुखसे अक्षररूप कहा ही है । आर्ष वाक्य भी ऐसा मिलता है कि “उत्पन्न भी होता है विनष्ट भी होता है तथा स्थिर भी रहता है” । इसलिये समयका भगवान् केवलीके साथ वाच्यवाचकरूप संबंध कहनेमें कुछ दोष नहीं है ।

मत्सरित्वाऽभावमेव विशेषणद्वारेण समर्थयति ‘नयानशेषानविशेषमिच्छन्’ इति । अशेषान् समस्तान् नयान् नैगमादीन् अविशेषं निर्विशेषं यथा भवत्येवमिच्छन्नाकाङ्क्षन् सर्वनयात्मकत्वान्तवादात्स्या यथा विशकलितानां मुक्तामणीनामेकसूत्राऽनुस्यूतानां हारव्यपदेश एवं पृथगभिसन्धीनां नयानां स्याद्वादलक्षणैकसूत्रप्रोतानां श्रुताख्यप्रमाणव्यपदेश इति । ननु प्रत्येकं नयानां विरुद्धत्वे कथं समुदितानां निर्विरोधिता ? उच्यते । यथा हि समीचीनं मध्यस्थं न्यायनिर्णेतारमासाद्य परस्परं विवदमाना अपि वादिनो विवादाद्विरमन्ति एवं नया अन्योऽन्यं वैरायमाणा अपि सार्वज्ञं शासनमुपेत्य स्याच्छब्दप्रयोगोपशमितविप्रतिपत्तयः सन्तः परस्परमत्यन्तसुहृद्भूपतयाऽवतिष्ठन्ते ।

‘नयानशेषानविशेषमिच्छन्’ इस वचनसे भगवत्की प्रशंसा करते हुए इसी वचनसे ऐसा दिखाते है कि आपमें मत्सरता नहीं है । संपूर्ण नैगमादि नयोंको केवल सामान्य दृष्टिसे आप चाहते हैं । क्योंकि; आपके वचन अनेकांतरूप हैं और अनेकांत संपूर्ण नयोंके समूहको कहते है । जिस प्रकार विखरे हुए मोतियोंको एक सूतमें पिरोदेनेसे हार बनजाता है उसी प्रकार भिन्न भिन्न पड़े हुए नयरूप मोतियोंको स्याद्वादरूपी एक सूतमें पिरोदेनेसे उसकी ‘श्रुतप्रमाण’ संज्ञा होजाती है । शंका—यदि प्रत्येक नय

भिन्न भिन्न रहनेपर विरोधी हैं तो सर्वोको मिला देनेपर भी विरोध कैसे मिट सकता है ? उत्तर—जिस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए वादियोंको यदि कोई मध्यस्थ युक्तिपूर्वक निर्णय करनेवाला मिलजाता है तो वे विवाद छोड़कर शांत होजाते हैं उसी प्रकार नय भी परस्परमें शत्रुता धारण करते हैं परंतु जब सर्वज्ञ देवका शासन पाकर स्यात्शब्दके मिल जानेसे परस्परका विरोधभाव छोड़कर शान्त होजाते हैं तब वे ही नय परस्परमें अत्यंत मैत्रीभाव धारणकरके ठहरजाते हैं ।

एवं च सर्वनयात्मकत्वे भगवत्समयस्य सर्वदर्शनमयत्वमविरुद्धमेव नयरूपत्वाद्दर्शनानाम् । न च वाच्यं तर्हि भगवत्समयस्तेषु कथं नोपलभ्यत इति; समुद्रस्य सर्वसरिन्मयत्वेऽपि विभक्तासु तास्वनुपलम्भात् । तथा च वक्तृवचनयोरैक्यमध्यवस्य श्रीसिद्धसेनदिवाकरपादाः “उद्धाविव सर्वसिन्धवः समुद्रीर्णास्त्वयि नाथ दृष्टयः । न च तासु भवान्प्रदृश्यते प्रविभक्तासु सरिस्त्रिवोदधिः” ।

इस प्रकार है भगवत् ! आपका दर्शन सर्व नयस्वरूप होनेसे संपूर्ण दर्शनसे अविरुद्ध है । क्योंकि; एक एक नयस्वरूप ही संपूर्ण दर्शन हैं । ऐसा होनेसे ऐसी शंका होना सहज है कि यदि भगवत्का दर्शन संपूर्ण दर्शनस्वरूप है तो वह संपूर्ण भिन्न दर्शनोंमें क्यों नहीं दीखता ? परंतु यह शंका ठीक नहीं । क्योंकि; संपूर्ण नदियोंका समूह ही समुद्र है परंतु भिन्न भिन्न वहती हुई नदियोंमें वह नहीं दीखता है । बोलनेवालेमें तथा उसके वचनोंमें परस्पर अभेदभाव मानकर श्रीसिद्धसेन दिवाकर भी ऐसा ही कहते हैं कि “यद्यपि जिस प्रकार संपूर्ण नदिया समुद्रमें मिलती है उसी प्रकार संपूर्ण दर्शन आपके दर्शनमें तो मिलते हैं परंतु तो भी जिस प्रकार भिन्न भिन्न रहनेवाली नदियोंमें समुद्र नहीं दीखता उसी प्रकार आप का दर्शन भी उन भिन्न भिन्न दर्शनोंमें नहीं दीखता ।

अन्ये त्वेवं व्याचक्षते ‘यथा अन्योऽन्यपक्षप्रतिपक्षभावात्परे प्रवादा मत्सरिणस्तथा तव समयः सर्वनयान्मध्यस्थतयाऽङ्गीकुर्वाणो न मत्सरी । यतः कथंभूतः ? पक्षपाती । पक्षमेकपक्षाभिनिवेशं पातयति तिरस्करोतीति पक्षपाती रागस्य जीवनाशं नष्टत्वात् ।’ अत्र च व्याख्यान मत्सरीति विधेयपदं, पूर्वासंश्च पक्षपातीति विशेषः । अत्र च क्लिष्टाऽक्लिष्टव्याख्यानविवेको विवेकिभिः स्वयं कार्यः । इति काव्यार्थः ।

कोई इस प्रकार भी इस श्लोकका अर्थ करते हैं कि ‘जिस प्रकार अन्य वादियोंके मतोंमें पक्ष प्रतिपक्षका दुराग्रह होनेसे परस्पर मत्सरभाव रहता है उस प्रकार आपका मत सर्वमतस्वरूप होनेसे मध्यस्थ होजानेके कारण मत्सरभाववाला नहीं है । क्योंकि; आपका

मत पक्षपाती कहा जाता है। अर्थात् जो एक पक्षके दुराग्रहको नष्ट कर देता हो अर्थात् हठको तिरस्कार दृष्टिसे देखता हो वह पक्षपाती कहा जाता है।' इन दोनों व्याख्यानोमें अंतर यह है कि इस व्याख्यामें 'मत्सरी-अर्थात् मत्सरभाववाला' इस पदको विधेय किया है और प्रथम व्याख्यामें 'पक्षपाती' शब्द विधेयरूप था। इन दोनों व्याख्यानोमें कोनसा सरल है तथा कोनसा कठिन है ऐसा विचार बुद्धिमानोको स्वयं करलेना चाहिये। इस प्रकार इस काव्यका अर्थ पूर्ण हुआ।

इत्थंकारं कतिपयपदार्थविवेचनद्वारेण स्वामिनो यथार्थवादाख्यं गुणमभिष्टुत्य समग्रवचनातिशयव्यावर्णने स्व-
स्याऽसामर्थ्यं दृष्टान्तपूर्वकमुपदर्शयन्नौद्धत्यपरिहाराय भङ्ग्यन्तरतिरोहितं स्वाभिधानं च प्रकाशयन्निगमनमाह।
इस प्रकार अहर्न भगवान्कर कहे हुए पदार्थोमेंसे कुछ पदार्थोंकी यथार्थताका विवेचन करते हुए आचार्य, भगवान्का यथार्थ वक्तापना जो गुण है उसकी स्तुति करते हैं और भगवानके संपूर्णवचनोंका अतिशय कहनेमें अपनी असमर्थता दृष्टान्तपूर्वक दिखाते हुए अपनेमें उद्धतताका अभाव दिखानेके लिये अपने अभिप्रायको व्यंगरूपसे छिपाकर प्रकाशित करते हुए उपसंहार करते हैं।

वाग्वैभवं ते निखिलं विवेक्तुमाशास्महे चेन्महनीयमुख्य।

लङ्घेम जङ्घालतया समुद्रं वहेम चन्द्रद्युतिपानतृष्णाम् ॥ ३१ ॥

मूलार्थ—हे पूज्यशिरोमणे ! तुझारे वचनोंका संपूर्ण वैभव यदि हम विवेचन करना चाहें तो समझना चाहिये कि दौड़कर समुद्र तरना चाहते हैं अथवा चन्द्रमाकी चांदनी पीनेकी तृष्णा करते हैं। भावार्थ—यह कार्य उसी प्रकार असंभव है कि जिस प्रकार जघाओसे समुद्रका तरना या चुरहसे चन्द्रकान्तिका पीना।

व्याख्या—विभव एव वैभवम् । प्रज्ञादित्वात्स्वार्थेऽण् । विभोर्भावः कर्म चेति वा वैभवम् । वाचां वैभवं वाग्वैभवं वचनसंपत्प्रकर्षम् । विभोर्भाव इति पक्षे तु सर्वनयव्यापकत्वं; विभुशब्दस्य व्यापकपर्यायरूपतया रूढ-
त्वात् । ते तव संबन्धिनं निखिलं कृत्स्नं विवेक्तुं विचारयितुं चेद्यदि वयमाशास्महे इच्छामः—।

व्याख्यार्थ—'प्रज्ञादि' सूत्रद्वारा स्वार्थवाची अण् प्रत्यय होनेपर विभव शब्दका ही वैभव होजाता है। अथवा विभुका अर्थात्

व्यापी का जो विभुपना या व्यापीका जो कर्तव्य हो सो भी वैभव कहाता है। क्योंकि, विभु शब्दका प्रचलित अर्थ व्यापी होता है। वचनोंका जो वैभव है उसको वाग्वैभव कहते हैं। वाग्वैभव शब्दका अर्थ वचनरूप संपत्तिकी अधिकता होता है। जब वैभव शब्दका अर्थ विभुका विभुपना करते हैं और विभु शब्दका अर्थ व्यापक मानते हैं तब वाग्वैभव शब्दका अर्थ 'संपूर्ण नयवचनोर्भे व्यापकपना' ऐसा होता है। इसका वाक्यार्थ यों है कि आपका संपूर्ण वचनवैभव विचारनेकेलिये यदि हम आशा करें। तो समझना चाहिये कि समुद्रको तरना चाहते हैं इत्यादि।

हे महनीयमुख्य! महनीयाः पूज्याः पञ्च परमेष्ठिनः। तेषु मुख्यः प्रधानभूतः आद्यत्वात्। तस्य संबोधनम्। ननु सिद्धेभ्यो हीनगुणत्वादहतां कथं वागतिशयशालिनामपि तेषां मुख्यत्वम्? न च हीनगुणत्वमसिद्धं; प्रत्रज्याऽवसरे सिद्धेभ्यस्तेषां नमस्कारकरणश्रवणात् “काञ्चन गमुक्कारं सिद्धाणमभिगहंतु सो गिण्हे” इति श्रुतकेवलिवचनात्। मैवम्; अर्हदुपदेशेनैव सिद्धानामपि परिज्ञानात्। तथा चार्पम् “अरहन्तुवएसेणं सिद्धा णज्झंति तेण अरिहाइ” इति। ततः सिद्धं भगवत एव मुख्यत्वम्।

महनीय पूज्यको कहते हैं। सो पाचो ही परेमेष्ठी पूज्य है परंतु उन पांचोंमें सबसे प्रथमके होनेसे आपको उन सर्वोंसे प्रधान मानकर हे महनीयमुख्य ऐसा संबोधन कहा है। शंका-यद्यपि अर्हन्तोमें उपदेशका माहात्म्य विद्यमान है परंतु सिद्धोंसे तो भी गुणोंकी अपेक्षा हीन ही है इसलिये सर्वोंमें मुख्य कैसे होसकते हैं? दीक्षाके समय वे सिद्धोंको नमस्कार करते हैं इसलिये सिद्धोंकी अपेक्षा गुणोंमें हीनता तो प्रगट ही है। ऐसा श्रुतकेवलियोंका वचन भी मिलता है कि “सिद्धोंको नमस्कार करके वे दीक्षा ग्रहण करते हैं।” उत्तर-अर्हत्केवलीके उपदेशसे ही सिद्धोंका परिचय होता है। ऋषियोंने ऐसा कहा भी है कि “अर्हत्के उपदेशसे ही सिद्ध जान पड़ते हैं इसलिये अर्हन्त भगवान् ही सबसे मुख्य है”। इस प्रकार अर्हन् ही सबकी अपेक्षा मुख्य सिद्ध हुए।

यदि तब वाग्वैभवं निखिलं विवेकतुमाशास्महे ततः किमित्याह लक्ष्मेत्यादि। तदा इत्यध्याहार्यम्। तदा

१ यह वाक्यखंड सबधकी योजनाके लिये ऊपरसे लिखा है। २ अर्हन्-जिन्होंने चार घाति कर्म नष्ट करके फिर केवल प्रत्यक्षज्ञान प्रगट किया हो। सिद्ध-अष्टकर्मरहित। आचार्य-दीक्षाके तथा सबके स्वामी। उपाध्याय-जो पढ़ें पढावें। साधु-सामान्य सुमिजन। इन्ही पाचोंकी पंचपरमेष्ठी कहते हैं। ३ श्रुतकी जहापर अवधि है वहातक श्रुतको जाननेवाले साधु श्रुतकेवली कहाते हैं।

जङ्गलतया जाङ्घिकतया वेगवत्तया समुद्रं लङ्घेम किल। समुद्रमिवातिक्रमामः। तथा वहेम धारयेम। चन्द्रद्युतीनां चन्द्रमरीचीनां पानं चन्द्रद्युतिपानम्। तत्र तृष्णा तर्षोऽभिलाष इति यावत् चन्द्रद्युतिपानतृष्णा। ताम्। उभयत्रापि सम्भावने सप्तमी। यथा कश्चिच्चरणचङ्कमणवेगवत्तया यानपात्राद्यन्तरेणापि समुद्रं लङ्घितुमीहते। यथा च कश्चिच्चन्द्रमरीचीरमृतमयीः श्रुत्वा बुलुकादिना पातुमिच्छति। न चैतद्द्रव्यमपि शक्यसाधनम्। तथा न्यक्षेण भवदीयवागवैभववर्णनाकाङ्क्षाप्यशक्यारम्भप्रवृत्तितुल्या। आस्तां तावत्तावकीनवचनविभवानां सामस्येन विवेचनविधानम्। तद्विषयाकाङ्क्षापि महत्साहसमिति भावार्थः।

यदि आपके वचनवैभवका अच्छीतरह विवेचन करना हम चाहें तो किस प्रकार असंभव है सो 'लङ्घेम' इत्यादि शब्दोंद्वारा दिखाते हैं। इस श्लोकमें 'यदि' अर्थका वाचक 'चेत्' शब्द तो है किंतु जहां यदि शब्द आता है वहां तो या तदा शब्द भी अवश्य आता है परंतु यह तो या तदा शब्द श्लोकमें नहीं है इसलिये ऊपरसे समझलेना चाहिये। 'लङ्घेम' इत्यादि शब्दोंका अर्थ कहते हैं कि; तो दौड़कर शीघ्र ही हम समुद्रको तरना चाहते हैं। अर्थात् यह संपूर्ण गुणोंका जो वर्णन करना है सो मानों, समुद्र तरना है। और भी मानों, चंद्रद्युति जो चंद्रकिरणे है उनके पीनेकी तृषा अर्थात् अभिलाष करना है। 'वहेम, 'लङ्घेम' इन दोनों धातुओंके शब्दोंमें जो लिङ् लकार हुआ है वह संभावना अर्थमें हुआ है। लिङ् लकारको ही कुछ व्याकरणोंमें सप्तमी कहते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य जहाजके बिना पैदल दौड़कर ही समुद्रको लांघनेकी बांछा करता हो या कोई मनुष्य चन्द्रकिरणोंको अमृतमयी सुनकर चुराह आदिकसे पीना चाहता हो परंतु ये दोनों ही कार्योंका सिद्ध होना असंभव है उसी प्रकार आपके वचनवैभवके पूरी तौरसे वर्ण करनेकी आकांक्षाभी ठीक ऐसी ही है जैसा कि अशक्य कार्यके प्रारंभ करनेका उत्साह होता है। भावार्थ—आपके वचनरूप वैभवोंका पूर्णतया वर्णन करना तो दूर ही रहा किंतु उसकी आकांक्षा करना भी बड़ा साहस है।

अथवा लघि शोषणे इति धातौ लङ्घेम शोषयेम समुद्रं जङ्गलतया अतिरंहसा। अतिक्रमणार्थलङ्घेस्तु प्रयोगे दुर्लभं परस्मैपदमनित्यं वा आत्मनेपदमिति। अत्र चोद्धृत्यपरिहारेऽधिकृतेऽपि यदाशास्महे इत्यात्मनि बहुवचनमाचार्यः प्रयुक्त्वांस्तदिति सूचयति—यद्विद्यन्ते जगति माहशा मन्दमेधसो भूयांसः स्तोतारः। इति बहुवचनमात्रेण न खल्वहङ्कारः स्तोतरि प्रभौ शङ्कनीयः। प्रत्युत निरभिमानताप्रासादोपरि पताकारोप एवाऽवधारणीयः। इति काव्यार्थः। एवमेकत्रिंशत्तित्वेषूपजातिच्छन्दः।

अथवा लघु धातुका शोषना अर्थ है तथा जङ्घालताका अर्थ शीघ्रता है। इसलिये 'जङ्घालतया समुद्रं लङ्घेम' का अर्थ ऐसा होना चाहिये कि समुद्रको शीघ्रतासे शोषना चाहते हैं। उलंघन करने अर्थमें जो लङ्घि धातु है वह परस्मैपदी नहीं है और 'लङ्घेम' यह शब्द परस्मैपदका ही बनता है इसलिये शोषणार्थक परस्मैपदी 'लघि' धातुका यह शब्द बना हुआ समझना चाहिये। अथवा यदि आत्मनेपद होना अनित्य मानाजाय तो जिसका उलंघन करना अर्थ है ऐसे लङ्घि धातुका भी यह शब्द बनसकता है। इस श्लोकमें यद्यपि 'आशासहे' इस पदके देखनेसे ज्ञात होता है कि ग्रन्थकर्ता आचार्यने अपने विषयमें उद्धतताका निषेध दिखाते हुए भी अपनेमें बहुवचनका उपयोग किया है परंतु इस बहुवचनसे उद्धतता नहीं झलकती है किंतु यह दीखता है कि जिनेन्द्रकी स्तुति करनेवाले मुझसमान मंदबुद्धि इस जगत्में बहुत है। इसलिये उद्धतताकी शंका करना तो उचित नहीं है किंतु उलटा निरभिमान-तारूप महलके ऊपर इस वचनसे पताकाका आरोपण होता है ऐसा समझना चाहिये। भावार्थ—यहांपर बहुवचनान्त क्रियाशब्द कहनेसे निरहंकारताकी और भी विशेषता दीखती है। इस प्रकार इस काव्यका अर्थ पूर्ण हुआ। अवतकके इकतीस श्लोकोंमें उपजाति नामक छन्द है।

एवं विप्रतारकैः परतीर्थिकैर्व्यामोहमये तमसि निमज्जितस्य जगतोऽभ्युद्धरणेऽव्यभिचारिवचनतासाध्येनाऽन्य-
योगव्यवच्छेदेन भगवत एव सामर्थ्यं दर्शयन् तदुपास्तिविन्ध्यस्तमानसानां पुरुषाणामौचितीचतुरतां प्रतिपादयति ।

इस प्रकार अन्य दर्शनवाले ठगोकर विस्तारित व्यामोहरूपी अन्धकारमें डूबे हुए जगत्का उद्धार करनेमें वाधारहित असाधारण कारणरूप आपके ही वचनसे अन्य मतोका निराकरण होसकता है इसलिये हे भगवन्! आपका ही ऐसा उद्धार करनेमें सामर्थ्य है ऐसा दिखाते हुए हेमचन्द्राचार्य यह कहते हैं कि इसलिये आपकी उपासना करनेमें जिन्होंने मन लगा रक्खा है वे पुरुष ही अपने कर्तव्योंमें चतुर समझने चाहिये।

इदं तत्त्वाऽतत्त्वव्यतिकरकरालेऽन्धतमसे
जगन्मायाकारैरिव हतपरैर्हां विनिहितम् ।

तदुद्धर्तुं शक्तो नियतमविसंवादिवचन- स्वमेवातस्त्रातस्त्वयि कृतसपर्याः कृतधियः ॥ ३२ ॥

मूलार्थ—खेद है कि इंद्रजाली सरीखे अधम अन्य दर्शनवालोने तत्त्व अतत्त्वका मिश्रण होजानेसे भयंकर ऐसे अंधकारमें यह जगत् डालरक्खा है सो इस जगत्का उद्धार करनेकेलिये आप ही समर्थ है। क्योंकि; आपके वचन विसंवादरहित है। हे जगत्के रक्षक ! इसीलिये बुद्धिमान् लोग आपकी सेवा करते है।

व्याख्या—इदं प्रत्यक्षोपलभ्यमानं जगद्विश्वम्। उपचाराज्जगद्धर्ती जनः। हतपरैः [हता अधमा ये परे तीर्थान्तरिथा हतपरे तैः] मायाकारैरिवैन्द्रजालिकैरिव [शाम्बरीप्रयोगनिपुणैरिवेति यावत्] अन्धतमसे निविडान्धकारे [हा इति खेदे] विनिहितं विशेषेण निहितं स्थापितं पातितमित्यर्थः। अन्धं करोतीत्यन्धयति। अन्धयतीत्यन्धम्। तच्च तत्तमश्चेत्यन्धतमसम्। “समवान्धात्तमसः” इत्यल्लत्ययः। तस्मिन्नन्धतमसे। कथंभूतेऽन्धतमसे इति ? द्रव्यानन्धकारव्यवच्छेदार्थमाह—तत्त्वाऽतत्त्वव्यतिकरकराले।

व्याख्यार्थ—यह, अर्थात् प्रत्यक्ष दीखता हुआ विश्व। विश्वशब्द उपचारसे विश्ववर्ती जनोको कहता है। अधमको हत कहते है और अन्य दर्शनवालोको यहांपर पर कहा है इसलिये हत तथा पर शब्दके मिलानेसे हतपर शब्द बनजाता है। औरका और दिखानेवाले जादूगरको मायाकार कहते है। ‘हा’ शब्द खेद अर्थमें आता है। इसलिये ऐसा अर्थ होना चाहिये कि प्रत्यक्ष दीखते हुए इन संसारी जनोको इंद्रजालीके समान अन्यथा प्रतीति करानेवाले अधम अन्य दर्शनवालोने, खेद है कि; अत्यन्त निविड़ अन्धकारमें सर्वथा पटक रक्खा है। जो अंधा बनादे उसको भी अंध कहते है। अंधा करनेवाला जो तम हो वह अन्धतमस कहाता है। यहांपर अन्धशब्द पूर्व रखकर तथा तमस् शब्द आगे रखकर मिलानेपर “समवाऽन्धात्तमसः” इस सूत्रकर अ प्रत्यय होजाता है और वह प्रत्यय तमसके अंतमें मिलकर अन्धतमस शब्द बना देता है। इस अंधकारको कोई बाह्य अंधकार न समझले इसलिये कहते हैं कि यह अन्धकार कैसा है कि जो तत्व अतत्त्वके मिश्रण होजानेसे भयानक होरहा है। तत्त्वं चाऽतत्त्वं च तत्त्वातत्त्वे। तयोर्व्यतिकरो व्यतिकीर्णता व्यमिश्रता स्वभावविनिमयस्तत्त्वाऽतत्त्वव्यतिकरः।

तेन कराले भयङ्करे । यत्रान्धतमसे तत्त्वेऽतत्त्वाभिनिवेशोऽतत्त्वे च तत्त्वाभिनिवेश इत्येवंरूपो व्यतिकरः संजायत इत्यर्थः । अनेन च विशेषणेन परमार्थतो मिथ्यात्वमोहनीयमेवान्धतमसं तस्यैवेदक्षलक्षणत्वात् । तथा च ग्रन्थान्तरे प्रस्तुतस्तुतिकारपादाः “अदेवे देवबुद्धिर्यो गुरुधीरगुरौ च या । अधमं धर्मबुद्धिश्च मिथ्यात्वं तद्विपर्ययात्” । ततो-यमर्थो—यथा किलैन्द्रजालिकास्तथाविधसुशिक्षितपरव्यामोहनकलाप्रपञ्चास्तथाविधमौपीधीमन्ब्रह्मस्त्रलाघवादिप्रायं किंचित्सयुज्य परिपज्जनं मायामये तमसि मज्जयन्ति तथा परतीर्थिकैरपि तादृक्प्रकारदुरधीतकुतर्कयुक्तीरुपदिश्य जगदिदं व्यामोहमहान्धकारे निक्षिप्तमिति ।

तत्र अतत्त्वेके मिलानेसे तत्त्वातत्व शब्द होता है । इन तत्त्वातत्त्वोका व्यतिकर अर्थात् इनके स्वभावका फेरफार होजानेसे यह अन्धतमस भयंकर होरहा है । इस अन्धतमसके होनेसे तत्वमें अतत्वका अभिनिवेश और अतत्वमें तत्वका आप्रह उत्पन्न होता है । अर्थात् इस पूर्वोक्त प्रकारसे बुद्धिकी विपरीतता होजाती है । इस विशेषणके कहनेसे यथार्थ विचारा जाय तो मिथ्यात्वमोहनीय नामक कर्म ही अन्धतमस है ऐसा मालुम पड जाता है । क्योंकि; उसीका ऐसा स्वरूप कहागया है । सोई स्तुतिकर्ता श्रीहिमचन्द्राचार्यने स्वयं एक दूसरे ग्रन्थमें कहा है “अदेवको देव मानना, अगुरुको गुरु मानना तथा अधर्मको धर्म मानना ही मिथ्यात्व है । क्योंकि, यह मानना विपर्यय है और विपर्ययको ही मिथ्यात्व कहते हैं” । इससे यह अभिप्राय स्पष्ट हुआ कि; अन्य लोगोको व्यामोहित करनेवाली नाना कला जिन्होंने सीखी है ऐसे जादूगर, जिससे मनुष्य मोहित हों ऐसे मंत्र औषधि या हाथ क्री सफाई आदि कुछ दिखाकर जिस प्रकार दर्शक लोगोको मायामयी अंधकारमें पटक देते है उसी प्रकार अन्य दर्शनवालेने भी जिनके प्रयोगसे लोग विभ्रममें पड़जाय ऐसे अध्ययन किये हुए कुतर्क या कुयुक्तियोंका उपदेश करके इस जगत्को विभ्रमरूपी महान् अंधकारमें पटक रक्खा है ।

तज्जगदुद्धर्तुं मोहमहान्धकारोपहृवात् क्रष्टुं नियतं निश्चितं त्वमेव । नान्यः शक्तः समर्थः । किमर्थमित्थमेक-
स्यैव भगवतः सामर्थ्यमुपवर्णयते ? इति विशेषणद्वारेण कारणमाह—अचिसंवादिचचनः । कपच्छेदतापलक्षण-
परीक्षात्रयविशुद्धत्वेन फलप्राप्तौ न विसंवदतीत्येवंशीलमविसंवादि । तथाभूतं वचनमुपदेशो यस्याऽसावविसंवा-

दिवचनः । अव्यभिचारिवागित्यर्थः । यथा च पारमेश्वरी वाग् न विसंवादमासादयति तथा तत्र तत्र स्याद्वादसाधने दर्शितम् ।

एसे पतित जगत्का उद्धार करनेको केवल आप ही समर्थ हैं, अन्य कोई भी समर्थ नहीं है ऐसा निश्चय ही चुका है । क्यो आप ही इस कार्यको पूरा करनेके लिये समर्थ है, किंतु अन्य कोई नहीं है इस शंकाका उत्तर विशेषणद्वारा देते है कि आपके वचन विसंवाद रहित सच्चे है । अर्थात्—आपके ही वचन विसंवादरहित है इसलिये आप ही जगत्का उद्धार करसकते है । कष, छेद, ताप इन तीन प्रकारोंकी परीक्षासे आपके वचन विशुद्ध ठहरचुके है इस लिये फलकी प्राप्तिके विषयमें आपके वचनमें कुछ विरोध नहीं है । इसीलिये इन वचनको अविस्वादी कहा है । इस प्रकार जिसका वचन या उपदेश अविस्वादी हो वह अविस्वादिबचन कहाता है । अर्थात्—आपके वचन ऐसे है कि जिनमें किसी प्रकार भी असत्यता नहीं ठहरसकै । आपके वचनमें जिस प्रकार असत्यता नहीं आती उस प्रकारका निरूपण स्थान स्थानपर साद्वादके बलसे करते आये है ।

कषादिस्वरूपं चेत्यमाचक्षते प्रावचनिकाः “प्राणवहार्हमाणं पावट्याण जो उ पडिसेहो । ज्ञाणऽज्ज्ञयणाईणं जो य विही एस धम्मकसो । १ । वज्झाणुट्टाणं जेण ण वाहिज्जेए तयं णियमा । संभवइ य परिसुद्धं सो पुण धम्ममिह् छेउत्ति । २ । जीवाइभावबाओ बंधाइपसाहगो इहं तावो । एएहिं परिसुद्धो धम्मो धम्मत्तणमुवेइ । ३ ।”

कष छेद तापका स्वरूप धर्मशास्त्रके ज्ञाताओंने इस प्रकार कहा है ।—“प्राणवधआदिक पापस्थानोंका जो निषेध तथा ध्यान अध्ययन आदिक कर्मोंकी जो आज्ञा वह धर्मकष है । १ । जिस बाह्य क्रियासे धर्मके विषयमें बाधा न पहुचसकै अर्थात्—मलिनता न आसकै किंतु निर्मलता वढती रहै उसको धर्मके विषयमें छेद कहते है । २ । जिससे बंध छूट जाय या नवीन बंध न हो ऐसा जीवादि पदार्थोंका जिसमें कथन हो वह धर्म विषयमें ताप समझना चाहिये । ३ ।”

तीर्थान्तरीयासा हि न प्रकृतपरीक्षात्रयविशुद्धवादिन इति ते महामोहान्धतमसे एव जगत्पातयितुं समर्थाः,

१ संस्कृतच्छाया—प्राणवधार्दीना पापस्थानानां यस्तु प्रतिषेधः । ध्यानअध्ययनादीनां यश्च त्रिधिः एष धर्मकषः ॥ १ ॥ बाह्यानुष्ठानेन येन न बाध्यते तन्नियमात् । संभवति च परिशुद्धः स पुनः धर्मं छेद इति ॥ २ ॥ जीवादिभाववादः बन्धाद्यऽपसाधक इह तापः । एभिः परिशुद्धः धर्मः धर्मत्वमुपैति ॥ ३ ॥

न पुनस्तदुद्धर्तुम् अतः कारणात्। कुतः कारणात्? कुमतध्वान्तार्णवान्तःपतितभुवनाऽभ्युद्धारणाऽसाधारणसामर्थ्य-
लक्षणात्। हे त्रातस्त्रिभुवनपरित्राणप्रवीण ! त्वयि [काकाऽधधारणस्य गम्यमानत्वात् त्वय्येव विषये, न देवान्तरे] कृत-
धियः [करोतिरत्र परिकर्मणि वर्तते। यथा हस्तौ कुरु पादौ कुरु इति। कृता परिष्मिता तत्त्वोपदेशेषु शततत्त-
च्छास्त्राभ्यासप्रकर्षेण संस्कृता धीर्बुद्धिर्धियां ते कृतधियश्चिद्रूपाः] पुरुषाः कृतसपर्याः। प्रादिकं विनाप्यादिकर्मणो
गम्यमानत्वात् कृता कर्तुमारब्धा सपर्यां सेवाविधियैस्ते कृतसपर्याः। आराध्यानंतरपरित्यागेन त्वय्येव सेवाहेवा-
कितां परिशीलयन्ति। इति शिखरिणीच्छन्दोऽलंकृतकाव्यार्थः ॥

समाप्ता चैयमन्ययोगव्यवच्छेदद्वात्रिंशिकास्तवनटीका ॥

अन्य धर्मेक प्रवर्तक लोग कय, छेद, ताप रूप तीन परीक्षाओंद्वारा विशुद्ध वचन बोलनेवाले नहीं हैं इसलिये वे लोग जग-
त्को महामोहमयी अंधकारमें गिरा तो सकते हैं परंतु उनसे जीवोंका उद्धार होना असंभव है। नाना प्रकारके कुमतरूपी समुद्रमें
पड़े हुए लोगोंका उद्धार करनेमें असामान्य सामर्थ्यके धारक होनेसे, हे त्रिजगद्द्वारक प्रभो! अन्य देवोंकी नहीं किंतु आपकी
ही विद्वानोंने सेवा करना प्रारंभ किया है। 'कृतधियः' शब्दका अर्थ विद्वान् है। क्योंकि, जिनमें तत्त्वोपदेश भलेप्रकार
हो ऐसे शास्त्रोंका अभ्यास अत्यंत करनेसे जिनकी बुद्धि निर्मल होगई है उनको 'कृतधियः' या ज्ञानी कहते हैं। यहांपर
'कृ' धातुका अर्थ परिकर्म है। जैसे ' हाथोंको कर, पैरोंको कर ' इन वाक्योंका अर्थ हाथ पैरोंको ठीक करना होता है। सेवा
करना प्रारंभ किया है ऐसा अर्थ 'कृतसपर्याः' शब्दका होता है। इसमें जो कृतशब्द है उसका अर्थ प्रारंभ करना है। क्योंकि,
'प्र' आदिक कोई उपसर्ग न लगानेपर भी 'कृ' धातुका अर्थ यहां प्रारंभ करना है ऐसी प्रतीति यहां हो जाती है। विद्वानोंने आपकी ही
सेवा करना विचार है, अन्य किसीकी नहीं ऐसा निश्चय काकरूप ध्वनिसे होजाता है। अर्थात्—विद्वानोंने दूसरोंकी आराधना
छोडकर आपकी ही सेवा करनेमें बुद्धि लगाई है। इस प्रकार शिखरिणी छन्दवाले इस अंतिम काव्यका अर्थ पूर्ण हुआ।

इति साद्वादसंजरीहिंदीभाषायतुवाट् ।

॥ श्रीटीकाकारस्य प्रशस्तिः ॥

येषामुज्ज्वलहेतुहेतिरुचिरः प्रामाणिकाध्वस्पृशां हेमाचार्यसमुद्भवस्तवनभूरर्थः समर्थः सखा । तेषां दुर्नयदस्युसं-
 भवभयाऽस्पृष्टात्मनां संभवत्यायासेन विना जिनागमपुरप्राप्तिः शिवश्रीप्रदा ॥ १ ॥ चातुर्विधमहोदधेर्भगवतः
 श्रीहेमसूरेर्गिरां गम्भीरार्थविलोकने यदभवद् दृष्टिः प्रकृष्टा मम । द्वाधीयः समयादराग्रहपराभूतप्रभूतावमं तन्नूनं
 गुरुपादरेणुकणिकासिद्धाञ्जनस्योर्जितम् ॥ २ ॥ अन्यान्यशास्त्रतरुसंगतचित्तहारिपुष्पोपमेयकतिचिन्निचितप्रमेयैः ।
 दृब्धां मयान्तिमजिनस्तुतिवृत्तिमेनां मालामिवामलहृदो हृदये वहन्तु ॥ ३ ॥ प्रमाणसिद्धान्तविरुद्धमत्र यत्किंचि-
 दुक्तं मतिमान्घदोषात् । मात्सर्यमुत्सार्य तदार्यचित्ताः प्रसादमाधाय विशोधयन्तु ॥ ४ ॥ उर्वर्यमेष सुधाभुजां
 गुरुरिति त्रैलोक्यविस्तारणे यत्रेयं प्रतिभाभरादनुमितिर्निर्दम्भमुज्जृम्भते । किं चामी विबुधाः सुधेति वचनोद्धारं
 यदीयं मुदा शंसन्तः प्रथयन्ति तामतितमां संवादमेदस्विनीम् ॥ ५ ॥ नागेन्द्रगच्छगोविन्दवक्षोऽलंकारकौस्तु-
 भाः । ते विश्ववन्द्या नन्द्यासुररुदयप्रभसूरयः ॥ ६ ॥ युग्मम् । श्रीमल्लिषेणसूरिभिरकारि तत्पदगगनदिनमणिभिः ।
 वृत्तिरियं मनुरविमितशाकाब्दे दीपमहसि शनौ ॥ ७ ॥ श्रीजिनप्रभसूरीणां साहाय्योद्भिन्नसौरभा । श्रुताबुतंसतु
 सतां वृत्तिः स्याद्वादमञ्जरी ॥ ८ ॥ विभ्राणे किल निर्ज्जयाजिनतुलां श्रीहेमचन्द्रप्रभौ तदृब्धस्तुतिवृत्तिनिर्मितिमि-
 षाद्भक्तिर्मया विस्तृता । निर्णेतुं गुणदूषणे निजगिरां तन्नार्थये सज्जनान् तस्यास्तत्त्वसकृत्रिमं बहुमतिः सास्यत्र
 सम्यग् यतः ॥ ९ ॥

प्रामाणिकोंके मार्गमें चलनेवाले जिन मनुष्योंके लिये हेतुरूपी तेजसे प्रकाशवान् तथा श्रीहेमचंद्राचार्यके सवनसे उत्पन्न हुआ
 ऐसा सामर्थ्यधारी मित्र विद्यमान है उन मनुष्योंको दुर्नय रूपी चौरोंसे भय नहीं होसकता है इसलिये मोक्षलक्ष्मीरूप फलके देने-
 वाले जिनागमरूपी पुरकी प्राप्ति विना परिश्रम होसकती है । १ । महासमुद्रके समान चारविद्यारूपी जलके धारक भगवान्

श्रीहेमचंद्राचार्यकी वाणीका गंभीर अर्थ देखनेकेलिये जो भेरी दृष्टि समर्थ हुई तथा बड़े बड़े सिद्धान्तोंका आदरपूर्वक ग्रहण करनेमें उपस्थित हुए प्रबल विद्वानोंका नाश हुआ वह सर्व गुरुके चरणकमलोंकी धूलिरूप सिद्ध अंजनका ही माहात्म्य है । २। जुदे जुदे शास्त्ररूपी वृक्षोंमें लगे हुए प्रमेयरूपी पुष्पोंके गुच्छोंसे बनाई हुई मालके समान अंतिमजिनस्तुतिकी इस टीकाको देखकर विशुद्धमति सज्जन अपने हृदयमें धारण करें । ३। प्रमाण अथवा सिद्धान्तके विरुद्ध जो कुछ मैने यहांपर अहममति होनेके कारण कहा हो उसको सरलचित्त सज्जन वैरभाव न रखकर प्रसन्नतापूर्वक शोधलें । ४। तीनों लोकमें विखरी हुई बुद्धि देखकर जिसके विषयमें लोग यह अनुमान करते हैं कि पृथ्वीके ऊपर यह (हेमचंद्राचार्य) देवताओंका गुरु बृहस्पति ही है । और जिसके निकले हुए वचनोंको यह सुधा है ऐसा प्रशंसते हुए ये विद्वान् संवादसे पुष्ट हुई उस वाणीकी अत्यंत ख्याति करते हैं । ५। तथा नागेन्द्र गच्छरूपी विष्णुके गलेको शोभित करनेवाले कौस्तुभ मणिके समान ऐसे लोकपूज्य श्रीउदयप्रभ सूरि जयवन्ते प्रवर्तें । ६। आकाशरूपी इनके पदको सूर्यके समान प्रकाशित करनेवाले श्रीमल्लिषेण सूरिने यह वृत्ति शकाब्द १२१४ के दिवालीके दिन पूर्ण की । ७। श्रीजिनप्रभसूरिकी सहायतासे उत्पन्न हुआ है सुगंध जिसमें ऐसी यह साद्वादमंजरी-नामक वृत्ति सत्पुरुषोंके कर्णोंको मंजरीके समान शोभित करे । ८। विजय करनेसे जिनेन्द्रकी तुलना रखनेवाले श्रीहेमचंद्र प्रसुकी मैने उनकी बनाई हुई स्तुतिकी वृत्ति बनानेके बहानेसे भक्ति की है इसलिये अपनी वाणीके गुणदोषोंका निर्णय करनेके लिये मैं सज्जनोंसे प्रार्थना नहीं करता हू । क्योंकि, बहुमति होना ही वाणीका अकृत्रिम भूषण है और वह भूषण इसमें भले प्रकार विद्यमान है ।

इति श्रीटीकाकारप्रशस्ति ।

